

ज्ञानपीठ स्मृतिदेवी जैन-ग्रन्थमाला [प्राकृत ग्रन्थाङ्क ४]

सिरि भगवंत भूदबलि भर्षरय पणीदो

म हा बंधो


[महाधवल सिद्धान्तशास्त्र]

२ बिदियो द्विदिबन्धाहियारो

[द्वितीय भाग स्थितिवन्धाधिकार]

पुस्तक २

हिन्दी भाषानुवाद सहित



सम्पादक—

पण्डित फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

भारतीय ज्ञानपीठ काशी

प्रथम आवृत्ति
१००० प्रति

माघ वीर नि० सं० २४७६
वि० सं० २००६
फरवरी १९५३

मुल्य ११ रु०

भारतीय ज्ञानपीठ काशी

स्व० पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेवी की पवित्र स्मृतिमें
तत्सुपुत्र सेठ शान्तिप्रसादजी द्वारा

संस्थापित

ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमालामें प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तामिल आदि प्राचीन भाषाओंमें उपलब्ध आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन होकर मूल और यथासंभव अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन होगा। जैन भण्डारोंकी सूचियाँ, शिलालेख संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन ग्रन्थ और लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमाला में प्रकाशित होंगे।



ग्रन्थमाला सम्पादक—[प्राकृत और संस्कृत विभाग]

डॉ० हीरालाल जैन, एम० ए०, डी० लिट्०, नागपुर

डॉ० आदिनाथ उपाध्याय, एम० ए०, डी० लिट्०, कोल्हापुर



प्राकृत ग्रन्थांक ४



प्रकाशक—

अयोध्याप्रसाद गोयलीय,

मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ

दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस

मुद्रक—देवताप्रसाद गहमरी, ससार प्रेस, काशीपुरा, बनारस



स्थापनाब्द
फाल्गुण कृष्ण ६५
वीर सि० २४७०

सर्वाधिकार सुरक्षित

विक्रम सं० २०००
१८ फरवरी १९४४

भारतीय ज्ञानपीठ, काशी



स्वर्गीय मूर्तिदेवी, मातेश्वरी सेठ शान्तिप्रसाद जैन

JNANA-PĪTHA MŪRTIDĒVINAINA GRANTHAMĀLĀ

PRAKRIT GRANTHA No. 4



MAHABANDHO

[MAHADHAVAL SIDDHANTA SHASTRA]


2. Bidio Tthidi bandhahiyaro

Vol. II

STHITI BANDHADHIKARA

WITH

HINDI TRANSLATION



Editor

Pandit PHOOL CHANDRAJI

Siddhant Shastry.

Published by

Bhāratīya Jñānapītha Kāshi



First Edition }
1000 Copies. }

MAGHA, VIR SAMVĀT 2479
VIKRAMA SAMVAT 2009
FEBRUARY, 1953.

{ *Price*
{ *Rs. 11/-*

BHĀRĀTIYA JÑĀNA-PĪTHA KĀSHI

Founded by

SETH SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

SHRĪ MŪRTI DEVĪ



JÑĀNA-PĪTHA MŪRTI DEVĪ JAIN GRANTHAMALA

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED, JAIN AGAMIC, PHILOSOPHICAL,
PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS
AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRANSA, HINDI,
KANNADA & TAMIL Etc., WILL BE PUBLISHED IN
THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR
TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT
SCHOLARS & JAIN LITERATURE OF POPULAR INTEREST WILL ALSO
BE PUBLISHED.

General Editors of the Prakrit and Samskrit Section

Dr. HIRALAL JAIN, M. A., D. Litt.

Dr. A. N. UPADHYA, M. A., D. Litt.

P R A K R I T G R A N T H A No. 4

PUBLISHER

AYODHYA PRASAD GOYALIYA

SECY., BHĀRĀTIYA JÑĀNAPĪTHA,
DURGAKUND ROAD, BANARAS.

Founded in
Falguna Krishna 9,
Vira Sam. 2470

} All Rights Reserved.

{ Vikrama Samvat 2000
18th Feb. 1944

प्रास्ताविक

जब आजसे लगभग छह वर्ष पूर्व महाबन्धका प्रथम खण्ड प्रकाशित हुआ था, तब आशा यह की जाती थी कि इस परमाणुके शेष खण्ड भी जल्दी-जल्दी अनुक्रमसे पाठकोके हाथोंमें दिये जा सकेंगे। किन्तु इस प्रकाशनके लिए ज्ञानपीठकी बड़ी तत्परता और उत्साह होते हुए भी सम्पादन सम्बन्धी कठिनाईके कारण वर्षपर वर्ष निकलते चले गये, पर द्वितीय खण्डकी सामग्री संस्थाके पास न पहुंच सकी। अन्ततः प्रथम खण्डके सम्पादकसे सर्वथा निराश होकर तथा अधिक विलम्ब करना अनुचित समझकर अन्य सम्पादककी व्यवस्था अनिवार्य हो गई।

इस खण्डके सम्पादक पं० फूलचन्द जी शास्त्रीसे विद्वत्समाज भलीभांति परिचित है। धवल सिद्धान्त के सम्पादन व प्रकाशन कार्यमें उनका बड़ा सहयोग रहा है, और अब पुनः सहयोग मिल रहा है। उन्होंने इस खण्डके सम्पादनका कार्य सहर्ष स्वीकार किया और आशातीत स्वल्पकालमें ही—केवल कुछ मासोंमें ही—इतना सम्पादन और अनुवाद करके सिद्धान्तोद्धारके पुण्यकार्यमें उत्तम योगदान दिया है। इस कार्यके लिए ग्रंथमालाकी ओरसे हम उन्हें हार्दिक धन्यवाद देते हैं, और आशा करते हैं कि वे ऐसी ही लगनके साथ शेष खण्डोका भी सम्पादन कर इस महान् साहित्यिक निधिको शीघ्र सर्वसुलभ बनानेमें सहायक होनेका पुण्य प्राप्त करेंगे। कार्य वेगसे किये जानेपर भी, सिद्धहस्त होनेके कारण, पण्डित जीके सम्पादन व अनुवाद कार्यसे हमें बड़ा सन्तोष हुआ है, और भरोसा है कि पाठक भी इससे सन्तुष्ट होंगे।

यहां हम ज्ञानपीठके संस्थापक श्री शान्तिप्रसाद जी तथा संस्थाके मन्त्री श्री अयोध्याप्रसाद जी गोयलीयकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते। एक तो उन्होंने विपत्तियों और विघ्नबाधाओंके कारण कभी अपने उत्साहको मन्द नहीं होने दिया और न क्षोभ उद्वेगको स्थान दिया। और दूसरे वे प्राचीन जैन सिद्धान्त सम्बन्धी साहित्यके प्रकाशनमें किसी व्यावसायिक लेखे-जोखेसे आशङ्कित नहीं होते। प्रत्युत उनकी भावना है कि जितना हो सके, जितनी उत्तम रीतिसे हो सके और जितने जल्दी हो सके, उतना जैन साहित्यका प्रकाशन किया जाय। हमें विश्वास है कि साहित्यिक विद्वान् उनकी इस उत्तम भावनासे लाभ उठावेंगे और इस संस्था को उपयोगी ग्रंथ अति सुन्दर ढंगसे विद्वत्संसारके सम्मुख उपस्थित करनेमें सहायता प्रदान करेंगे।

—हीरालाल जैन

—आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय

ग्रन्थमाला सम्पादक

गिरिनगरकी चन्द्रगुफा

लेखक—डा० हीरालाल जैन


षट्खंडागमकी टीका धवलाके रचयिता वीरसेनाचार्यने कहा है कि समस्त सिद्धान्तके एक-देशज्ञाता धरसेनाचार्य थे जो सोरठ देशके गिरिनगरकी चन्द्रगुफामें ध्यान करते थे [षट्खंडागम, भाग १ पृ० ६७] उन्हें सिद्धान्तके संरक्षणकी चिन्ता हुई । अतः महिमानगरीके तत्कालवर्ती मुनिसम्मेलनको पत्र लिखकर उन्होंने वहाँसे दो मुनियोंको बुलाया और उन्हें सिद्धान्त सिखाया । ये ही दो मुनि पुष्पदन्त और भूतबलि नामोंसे प्रसिद्ध हुए और इन्होंने वह समस्त सिद्धान्त षट्खंडागमके सूत्ररूपमें लिपि-बद्ध किया ।

इस उल्लेखसे यह तो सुस्पष्ट हो जाता है कि धरसेनाचार्य सौराष्ट्र (काठियावाड-गुजरात) के निवासी थे और गिरिनगरमें रहते थे । यह गिरिनगर आधुनिक गिरनार है जो प्राचीन कालमें सौराष्ट्रकी राजधानी था । यहाँ मौर्य क्षत्रप और गुप्तकालके सुप्रसिद्ध शिलालेख पाये गये हैं । बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथने भी यहाँ तपस्याकी थी, जिससे यह स्थान जैनियोंका एक बड़ा तीर्थक्षेत्र है । आधुनिक कालमें नगरका नाम तो भूनागढ़ हो गया है और प्राचीन नाम गिरनार उसी समीपवर्ती पहाड़ीका रख दिया गया जो पहले ऊर्जयन्त पर्वतके नामसे प्रसिद्ध थी । अब प्रश्न यह है कि क्या इस इतिहास-प्रसिद्ध नगरमें उस चन्द्रगुफाका पता लग सकता है जहाँ धरसेनाचार्य ध्यान करते थे, और जहाँ उनके श्रुतज्ञानका पारायण पुष्पदन्त और भूतबलि आचार्योंको कराया गया था ?

खोज करनेसे पता चलता है कि भूनागढ़में बहुत-सी प्राचीन गुफाएँ हैं । एक गुफासमूह नगरके पूर्वीय भागमें आधुनिक 'बाबा प्यारा मठ' के समीप है । इन गुफाओंका अध्ययन और वर्णन बर्जेज साहबने किया है । उन्हें इन गुफाओंमें ईस्वी पूर्व पहली दूसरी शताब्दि तकके चिह्न मिले हैं । ये गुफाएँ तीन पंक्तियोंमें स्थित हैं । प्रथम गुफापंक्ति उत्तरकी ओर दक्षिणाभिमुख है । इसीके पूर्वभागसे दूसरी गुफापंक्ति प्रारंभ होकर दक्षिणकी ओर गई है । यहाँकी चैत्य-गुफाकी छत अति प्राचीन प्रणालीकी समतल है और उसके आजू-बाजू उत्तर और पूर्व कोनोंमें अन्य सीधी सादी गुफाएँ हैं । इस गुफापंक्तिके पीछेसे तीसरी गुफापंक्ति प्रारंभ होकर पश्चिमोत्तरकी ओर फैली है । यहाँकी छठवीं गुफा (F) के पार्श्वभागमें अर्धचन्द्राकार विविक्त स्थान (2PSE) है, जैसा कि ईस्वी पूर्व प्रथम-द्वितीय शताब्दिकी भाजा, काली, वेदसा व नासिककी बौद्ध गुफाओंमें पाया जाता है । अन्य गुफाएँ बहुतायतसे सम चौकोन या आयत चौकोन हैं और उनमें कोई मूर्तियाँ व सजावट नहीं पाई जाती । कुछ बड़ी-बड़ी शालाएँ भी हैं, जिनमें बरामदें भी हैं । ये सब गुफाएँ अत्यन्त प्राचीन वास्तुकलाके अध्ययनके लिए बहुत उपयोगी है । (Burgess Antiquities of Kutchh and Kathiawar, 1874—75, P. 139 ff.) ये सब गुफाएँ उनके निर्माण कालकी अपेक्षा मुख्यतः दो भागोंमें विभक्त की जा सकती हैं—एक तो वे चैत्यगुफाएँ और तत्सम्बन्धी सादी कोठरियाँ जो उन्हें बौद्धोंकी प्रतीत होती हैं और जिनका काल ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दि अनुमान किया जा सकता है जब कि प्रथमवार बौद्धभिन्नु गुजरातमें पहुँचे । दूसरे भागमें वे गुफाएँ व शालाएँ हैं जो प्रथम भागकी गुफाओंसे कुछ उन्नत शैलीकी बनी हुई हैं, तथा जिनमें जैन चिह्न पाये जाते हैं । ये ईस्वीकी दूसरी शताब्दि अर्थात् क्षत्रप राजाओंके कालकी अनुमान की जाती हैं । यहाँ हमारे लिए उन्हीं दूसरे भागकी गुफाओंकी ओर ध्यान देना है जिनमें जैन चिह्न पाये जाते हैं ।

इनमेंकी एक गुफा (K) में स्वस्तिक, भद्रासन, नर्दीपद, मीनयुगल और कलशके चिह्न खुदे हुए हैं। ऐसे ही चिह्न मथुराके जैनस्तूपकी खुदाईसे प्राप्त आयागपटो पर पाये गये हैं। (Smith : Jain Stupa (Arch. Survey of India XX, Pt. XI) यही नहीं, वहाँसे एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है, जिसमें क्षत्रप राजाओंके अतिरिक्त 'केवली' या केवलज्ञानका उल्लेख है। इस परसे उसके जैनत्वमें कोई संशय ही नहीं रहता। दुर्भाग्यतः इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शिलालेखकी दुर्दशाकी बड़ी करुण कहानी है। उक्त गुफाके सम्मुख सन् १८७६ से पूर्व कुछ खुदाई हुई थी; उसीमें वह शिलापट्ट हाथ लगा। निकालनेमें ही उसका एक हिस्सा टूट गया। फिर उसे उठाकर कोई शहरके भीतर राजमहलमें ले गया और इसी समय उसके एक ओर कोनेको भारी क्षति पहुँची। जब बजेंज साहब उसका फोटो लेने गये तब उसका पता लगना ही कठिन हो गया। अन्ततः वह महलके सामने गोल बरामदेमें एक जगह पड़ा हुआ मिला। (Arch : Survey of Western India, Vol. II P. 140.) फिर वह कुछ कालतक भूनागढ़ दरवारके छापखानेमें पड़ा रहा। तत्पश्चात् किसी और एक विपत्तिमें पड़कर उसके दो टुकड़े हो गये और इस हालतमें अब वह वहाँके अजायबघरमें सुरक्षित है।

यह शिलापट्ट दो फुट लम्बा चौड़ा और आठ इंच मोटा है। इसके एक पृष्ठभागपर चार पंक्तिवाका लेख है जो १ फुट ९ इंच चौड़ी और ६ इंच ऊँची जगहमें है। एक-एक अक्षर लगभग आधा इंच बड़ा है। लेखको क्षति बहुत पहुँची है। बीचकी दो पंक्तियाँ कुछ सुरक्षित हैं, किन्तु प्रथम और चतुर्थ पंक्ति बहुत-सा भाग अस्पष्ट हो गया है और पढ़नेमें नहीं आता। फिर एक ओरसे जो शिलापट्ट टूट गया है उसके साथ इन पंक्तियोंका कितना हिस्सा खो गया यह निश्चयतः नहीं कहा जा सकता। बुल्हर साहबके मतसे दूसरी और चौथी पंक्तियाँ प्रायः पूरी हैं, केवल कोई दो अक्षरोंकी ही कमी है। किन्तु यह अनुमान ही है, निश्चित नहीं। उसी कालके अन्य शिलालेखों परसे निश्चयतः तो इतना ही कहा जा सकता है कि दूसरी और तीसरी पंक्तियोंमें जयदामन् नरेशके पुत्र और पौत्रके नामोल्लेख तथा लेखके वर्षका उल्लेख, सम्भवतः अंको और शब्दोंमें दोनों प्रकारसे अवश्य रहा होगा। लेखकी लिपि निश्चयतः क्षत्रपकालकी है। लेख टूटा हुआ होनेसे उसका प्रयोजन स्पष्टतः ज्ञात नहीं होता। किन्तु जितना कुछ लेख बचा है उससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि उसका संबंध जैनधर्मकी किसी घटनासे है। उसमें 'देवासुरनागयक्षराक्षस' 'केवलि-ज्ञान' 'जरामरण' जैसे शब्द स्वलित पड़े हुए हैं, जिनसे अनुमान होता है कि उसमें किसी बड़े शानी और संयमी जैनमुनिके शरीरत्यागका उल्लेख रहा हो और उस अवसरपर देव, असुर, नाग, यक्ष और राक्षसोंने उत्सव मनाया हो। यह घटना 'गिरिनगर' (गिरनार) में ही हुई थी, इसका लेखमें स्पष्ट उल्लेख है। घटनाका काल चैत्र शुक्ल पंचमी दिया है, पर वर्षका उल्लेख टूट गया है। जिस राजाके राज्यकालमें यह घटना हुई थी उस राजाका नाम भी टूट गया है। पर इतना तो स्पष्ट है कि वह राजा क्षत्रपवंशके चण्डिका प्रपौत्र व जयदामनका पौत्र था। इस वंशके अन्य शिलालेखों व सिक्कोंपरसे क्षत्रपवंशकी प्रस्तुतोपयोगी निम्न परम्पराका पता चल चुका है—



अतएव यह अनुमान किया जा सकता है कि उक्त लेखमें चघनके प्रपौत्र और जयदामनके पौत्रसे रुद्रदामनके पुत्र दामदजश्री या रुद्रसिंहका ही अभिप्राय होगा। चघनका उल्लेख यूनानी लेखक टालेमीने अपने ग्रंथमें किया है। यह ग्रन्थ सन् १३० ईस्वी (शक ५२) के लगभग लिखा गया था। रुद्रदामनके समयके सुप्रसिद्ध लेखमें शक ७२ (सन् १५०) का उल्लेख है। रुद्रसिंहके शिलालेख व सिक्कोंपर शक १०२ से ११० व ११३ से ११८-११९ तकके उल्लेख मिले हैं। शक संवत् १०३ का लेख अनेक बातोंमें प्रस्तुत लेखके समान होनेसे हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जीवदामनके शक ११६ से १२० तकके सिक्के मिले हैं। क्षत्रप राजाओंके राज्यकालकी सीमाएँ अभी बहुत कुछ गड़बड़ीमें हैं। इन राजाओंमें यह भी प्रथा थी कि राज्यपरम्परा एक भाईके पश्चात् उससे छोटे भाईकी ओर चलती थी और जब सब जीवित भाइयोंका राज्य समाप्त हो जाय तब नई पीढ़ीकी ओर जाती थी। इससे भी क्रमनिश्चयमें कुछ कठिनाई पड़ती है। तथापि पूर्वाह्न निश्चित उल्लेखोंपरसे हमें प्रस्तुत उपयोगी इतनी बात तो विदित हो जाती है कि उक्त लेख दामदजश्री या रुद्रसिंहके समयका है और इनका समय शक ७२से११६ अर्थात् सन् १५० से १६७ ई० तकके ४७ वर्षोंके भीतर ही पड़ता है। रुद्रसिंहके शक १०३ के गुंड नामक स्थानसे प्राप्त लेखको देखनेसे अनुमान होता है कि प्रस्तुत लेख भी उन्हींके समयका और उक्त वर्षके आसपासका हो तो आश्चर्य नहीं। अतः प्रस्तुत लेखका काल लगभग शक १०३ (सन् १८१) अनुमान किया जा सकता है।

हम षट्खंडागमके प्रथम भागकी प्रस्तावनामें षट्खंडागमके विषयके ज्ञाता धरसेनाचार्यके विषयमें बता आये हैं कि उन्होंने गिरिनगरकी चन्द्रगुफामें रहते हुए पुष्पदन्त और भूतबलिको सिद्धान्त पढ़ाया था। जैन पट्टावलियों आदि परसे उनके कालका भी विचार करके हम इस निर्यापर पहुँचे थे कि उक्त ग्रन्थकी रचना शक ६ (सन् ८७) के पश्चात् हुई थी। अब हम जब गिरिनगरकी उक्त गुफाओं और वहाँके उक्त शिलालेखपर विचार करते हैं तो अनुमान होता है कि सम्भवतः भूनागढ़की ये ही 'बाबा प्यारा मठ' के पासकी प्राचीन जैन गुफाएँ धरसेनाचार्यका निवासस्थल रही हैं। क्षेत्र वही है, काल भी वही पड़ता है। धरसेनकी गुफाका नाम चन्द्रगुफा था। यहाँकी एक गुफाका पिछला हिस्सा—चैत्यस्थान-चन्द्राकार है। आश्चर्य नहीं जो इसी कारण वही गुफा चन्द्रगुफा कहलाती रही हो। आश्चर्य नहीं जो उपर्युक्त शिलालेख उन्हीं धरसेनाचार्य की स्मृतिमें ही अंकित किया गया हो। लेखमें ज्ञानका उल्लेख ध्यान देने योग्य है। यदि यह लेख पूरा मिल गया होता तो जैन इतिहासकी एक बड़ी भारी घटनापर अच्छा प्रकाश पड़ जाता। इस शिलालेखकी दुर्दशा इस बातका प्रमाण है कि हमारे प्राचीन इतिहासकी सामग्री किस प्रकार आज भी नष्ट-अष्ट हो रही है।

यह लेख सर्वप्रथम सन् १८७६ में डा० बुल्हर द्वारा सम्पादित किया गया था और फोटोग्राफर तथा अंग्रेजी अनुवाद सहित Archaeological Survey of Western India Vol. II में पृष्ठ १४० आदि पर छपा था। यही फिर कुछ साधारण सुधारोंके साथ सन् १८६५ में त्याहीके ठप्पेकी प्रतिलिपि व अनुवाद सहित 'भावनगरके प्राकृत और संस्कृतके शिलालेख' के पृ० १७ आदिपर छपा। रैपसन साहबने अपने Catalogue of coins of the Andhra Dynasty etc; P. L. XI, No. 40 में इस लेखका संक्षिप्त परिचय दिया है तथा प्रो० लूडर्सने अपनी List of Brahmi Inscriptions में नं० ६६६ पर इस लेखका संक्षिप्त परिचय दिया है। यह लिस्ट एपीग्राफीआ इंडिका, भाग १० सन् १९१२ के परिशिष्टमें प्रकाशित हुई है। इस लेखका अन्तिम सम्पादन व अनुवादादि राखालदास बनर्जी और विष्णु एस० सुखतंकर ने किया है जो एपीग्राफिया इंडिका भाग १६, के पृ० २३६ आदिपर छपा है। और इसीके आधारसे हमने उसका पाठ लिखा है। उक्त गुफाओंका सर्वप्रथम वर्णन बर्जेज साहबने किया है, जो उनकी Antiquities of Kutchh and Kathiawar (1874—75) के पृष्ठ १३६ आदि पर छपा है। उनका परिचय हाल हीमें श्रीयुत एच० डी० सांकलियाने अपनी 'The Archaeology of Gujrat' (Bombay 1941) नामक पुस्तकमें कराया है।

प्राप्त लेख इस प्रकार है—

- (पं० १)स्तथा सुरगण [१] [सत्रा] णां प्रथ [म]
 (पं० २)चाष्टनस्य प्र [पौ] त्रस्य राशः स [त्रप] स्य स्वामिजयदामपे [१] त्रस्य
 राज्ञो म [हा]
 (पं० ३) [चै] त्रशुक्लस्य दिवसे पचमे ५ इ [ह] गिरिनगरे देवासुरनागय [ह]
 राक्षसे
 (पं० ४)थ [पु] रमिवकेवलि [ज्ञा] न सनां जरामरण (I)

अनुवाद

.....तथा सुरगण.....क्षत्रियोंमें प्रथम.....चष्टनके प्रपौत्रके, राजा क्षत्रप स्वामी जयदामके पौत्रके, राजा महा.....क्षेत्र शुक्लकी पंचमीको ५ यहा गिरिनगरमें देवासुरनागयक्षराक्षस.....पुरके समान.....केवलिसान सं०.....के जरामरण.....

इस लेखकी राजवंशावलि आदिको समझने तथा लेखकी गति-विधिका कुछ आभास देनेके लिए हम चष्टनके प्रपौत्र, जयदामके पौत्र रुद्रदामके पुत्र स्वामी रुद्रसिंहके उस लेखको भी यहां उद्धृत कर देना उचित समझते हैं जो ठीक इसी लिपिमें लिखा हुआ गुण्ड नामक स्थानसे प्राप्त हुआ है, जो अपने रूपमें पूरा है और जिसमें १०३ वी वर्षका स्पष्ट उल्लेख है—

गुण्डका शिलालेख

- (पं० १) सिद्धं । राजो महक्षत्र [प] स्य स्वामिचष्टनपौत्रस्य राज्ञो क्षत्रपस्य स्वामिजयदाम पौत्रस्य
 (पं० २) राज्ञो महक्षत्रपस्य स्वामिरुद्रदामपुत्रस्य राज्ञो क्षत्रपस्य स्वामिरुद्र—
 (पं० ३) सीहस्य [व] र्षे [त्र] युत्तरशते १००३ वैशाखशुद्धे पंचमिषसत्तिथौ रो [हि]
 णि नक्ष—
 (पं० ४) त्र मुहूर्ते आभीरेण सेनापतिबापकस्य पुत्रेण सेनापतिरुद्रभूतिना ग्रामेरसो—
 (पं० ५) [प] द्विये वा [पी] [ख] नि [तो] [बद्ध] । पितृश्च सर्वसत्वानां हित-
 सुखार्थमिति ।

अनुवाद

सिद्धं । राजा महाक्षत्रप स्वामिचष्टनके, प्रपौत्र, राजा क्षत्रपस्वामी जयदामके पौत्र, राजा महाक्षत्रपस्वामी रुद्रदामके पुत्र, राजा क्षत्रपस्वामी रुद्रसिंहके वर्ष एक सौ तीन वैशाख शुद्ध पंचमी तिथिके रोहिणी नक्षत्रके मुहूर्तमें आभीर सेनापति बापकके पुत्र सेनापति रुद्रभूमिने ग्राम रसोपद्रियमें वापी खुदवाई और बंधवाई सब जीवोंके हित और सुखके लिए । इति ।

सम्पादकीय

अङ्गों और पूर्वोंके एकदेश ज्ञाता और सोरठ देशके गिरिनगरकी चन्द्रगुफामें निवास करनेवाले प्रातः स्मरणीय आचार्य धरसेनके प्रमुख शिष्य आचार्य पुष्पदन्त और भूतबलिने मिलकर जिस षट्खण्डागमकी रचना की है उसका महाबन्ध यह अन्तिम खण्ड है। इसके मुख्य अधिकार चार हैं—प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध। इनमेंसे प्रकृतिबन्धका सम्पादन और अनुवाद कार्य श्री पं० सुमेरचन्द्र जी दिवाकर [शास्त्री, न्यायतीर्थ, बी० ए० एल-एल० बी०] ने अपने सहयोगी पं० परमानन्द जी साहित्याचार्य और पं० कुन्दनलाल जी न्यायतीर्थ सिवनीके साथ मिलकर किया था। इसे भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाशित हुए लगभग पाँच वर्षसे ऊपर हो गए हैं।

यह स्थितिबन्ध नामक दूसरा अधिकार है। प्रकृतिबन्धकी अपेक्षा शेष तीनों अधिकार परिमाणमें दूने-दूने हैं, इसलिए इस भागमें मूलप्रकृतिस्थितिबन्ध और उत्तरप्रकृतिस्थितिबन्धका एक जीवकी अपेक्षा अन्तरानु-गम तकका भाग ही सम्मिलित किया गया है।

हस्तलिखित प्रतिका परिचय—

इसका सम्पादन और अनुवाद कार्य करते समय हमें महाबन्धकी केवल एक प्रति ही उपलब्ध रही है। यह प्रति मेरे जयधवला कार्यालयमें कार्य करते समय श्री अखिल भारतवर्षीय दि० जैन सघके साहित्य मंत्री श्री पं० कैलाशचन्द्र जी शास्त्रीने मूडविद्रीसे प्रतिलिपि करा कर बुलाई थी। भारतीय ज्ञानपीठकी प्रबन्धसमिति और उसके सुयोग्य मन्त्री श्री० पं० अयोध्याप्रसादजी गोयलीयने जब यह निश्चय किया कि महाबन्धके आगोके भागोंका सम्पादन और अनुवाद कार्य मुझसे कराया जाय तब जयधवला कार्यालयसे इस प्रतिको प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न किया गया। यद्यपि ऐसे अवसरों पर दूसरे बन्धु किसी ग्रन्थकी प्रति आदि देनेमें अनेक अड़चने उपस्थित करते हैं। वे प्रबन्धके नाम पर उसके स्वामी बनने तकका प्रयत्न करते हैं। किन्तु इसे प्राप्त करनेमें ऐसी कोई अड़चन नहीं हुई। श्रीमान् पं० कैलाशचन्द्र शास्त्रीजीको इस बातके विदित होनेपर उन्होंने तत्काल इस प्रतिको प्रतिलिपिका लागतमात्र दिलवाकर ज्ञानपीठको सौंप दिया। वही यह प्रति है जिसके आधारसे महाबन्धका आगोका सम्पादन और अनुवाद कार्य हो रहा है। यह प्रति श्री पं० वर्धमान पार्श्व-नाथजी शास्त्रीके ज्येष्ठ बन्धु स्व० श्री पं० लोकरनाथजी शास्त्रीने ताडपत्रीय प्रतिके आधारसे प्रतिलिपि करके भेजी थी। प्रति फुलस्केप साईजके कागजों पर एक ओर हाँसिया छोड़कर की गई है। अक्षर सुन्दर और अन्तरसे लिखे हुए होनेसे प्रेसकापीके रूपमें इसीका उपयोग हुआ है।

पाठान्तर—

श्री पं० सुमेरचन्द्रजी दिवाकरके पास जो प्रति है वह भी मूडविद्रीकी ताडपत्रीय प्रतिके आधारसे की गई है और यह प्रति भी वहींसे लिपिबद्ध होकर आई है। ऐसी अवस्थामें इन दोनों प्रतियोंमें लेखकके प्रमादसे छूटे हुए या दुहराकर लिखे गये कुछ स्थलोंको छोड़कर पाठान्तरकी कोई भी शंका नहीं कर सकता। हमारा भी यही अनुमान था। हम समझते थे कि ये दोनों प्रतिया एक ही प्रतिके आधारसे लिपिबद्ध कराई गई हैं, इसलिए इनमें पाठभेद नहीं होगा पर हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पाठान्तर इनमें भी उपलब्ध होते हैं। यद्यपि हमारे सामने पं० सुमेरचन्द्र जी वाली प्रति नहीं है और न उसे प्राप्त करनेका कोई प्रयत्न ही किया गया है पर उस प्रतिके आधारसे जो प्रकृतिबन्ध मुद्रित हुआ है वह हमारे सामने है। उसके साथ आदर्श प्रति (जो प्रति हमारे पास है) के कुछ पृष्ठोंका हमने मिलान किया है। परिणामस्वरूप जो पाठान्तर हमें उपलब्ध हुए हैं उनमेंसे कुछ पाठान्तर उनका प्रकार दिखलानेके लिए हम यहाँ दे रहे हैं—

१. रुजगम्भि (आदर्श प्रति) । रुजगम्भि (मुद्रित प्रति पृ० २१)
२. चउरणमुद्धी (आ. प्र.) । चदुण्हं बुद्धी (मु. प्र. पृ० २२)
३. तहा आरणचुदा (आ. प्र.) । तथ आरणअरणचुदा (मु. प्र. पृ. २३)
४. छट्टि गोवज्जया (आ. प्र.) छट्टी गोवज्जया (मु. प्र. पृ. २३)
५. किं सव्वबंधो ? णोसव्वबंधो । (आ. प्र.)
किं सव्वबंधो णोसव्वबंधो ? णोसव्वबंधो । (मु. प्र. ३० पंक्ति १)
६. बंधो वि (आ. प्र.) । बंधोपि (मु. प्र. पृ. ३०, पंक्ति ४)
७. आदेसेण य । तत्थ ओघेण णाणांतराइ- (आ. प्र.)
आदेसेण य । णाणांतराइ- (मु. प्र. पृ. ३०, पं. ६)
८. वेदणीयस्स आयुगस्स गोदस्स च किं जहणणबंधो (आ. प्र.)
वेदणीय-आयु-गोदाणं किं जहणणबंधो (मु. प्र. पृ. ३०, पं. ८)
९. तत्थ ओघेण सादियबंधो संतिओ भूयो (आ. प्र.)
सादियबंधो संतिओ भूयो (मु. प्र. पृ. ३१, पं. १-२)
१०. एवं मूलपगदिअट्टपदं भंगो कादव्वो (आ. प्र.)
एव मूलपगदि-अट्टपदभंगा कादव्वा मु. प्र. पृ. ३१, पं. ३)
११. ओघेण पंचणा० णवदंसणा० मिच्छत्तं सोलसकसायं भयं दुगुच्छा तेजाकम्म० वरण०४ अगुरु०
उपघा० णिमिणं पंचंतराइयाणं (आ. प्र.)
ओघेण पंचणाणावरण-णवदंसणावरण-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुच्छा-तेजा-कम्मइय-
वरण०४-अगुरु०-उप०-णिमिण पंचंतराइयाणं (मु. प्र. पृ. ३१ पं. ५-६)
१२. तत्थ ओघेण चोहस जीवसमासा णादव्वा भवन्ति । तं जहा (आ. प्र.)
ओघेण चोहस-जीवसमासा णादव्वा भवन्ति । तं यथा (मु. प्र. पृ. ३२, पं. २)
१३. चदुसंठाण-चदुसंधडण-तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुण्वि उज्जोवं- (आ. प्र.)
चदुसंठाण-चदुसंधाद-तिरिक्खगदिपा० उज्जो० (मु. प्र. पृ. ३३, पं. ६)
१४. णिहापयलाणं को बंधगो ? को अबंधगो ? अबंधो अपुव्वकरणपविट्टसुद्धिसंजदेसु (आ. प्र.)
णिहापयलाणं को बंधगो, अबंधो को ? अबंधो मिच्छादिट्टिपट्टुडि याव अपुव्वकरणपविट्टसुद्धि-
संजदेसु (मु. प्र. पृ. ३३, पं. ९-१०)
१५. को बंधगो अबंधो ? (आ. प्र.) । को बंधको, अबंधो ? (मु. प्र. पृ. ३४, पं. ४)
१६. को ब० को अबंधो (आ. प्र.) । को बंधको को अबंधो (मु. प्र. पृ. ३४, पं. ८)
१७. देवगदि० पंचिदि० वेउव्वि० तेजाक० वेउव्वि०अगो० वरण०४ देवाणु० अगुरु०४ पसत्थवि०
थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदे० णिमिणं को बंधो ? को अबंधो ? (आ. प्र.)
देवगदि० पंचिदि० वेउव्वि० तेजाकम्म० समचदु० वेउव्वियं अंगोवंग-वरण०४ देवाणु०
अगुरु०४ पसत्थविहायगदि० थीरा सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज णिमिणं को बंधको को अबंधको ?
(मु. प्र. पृ. ३५, पं. ६-९)
१८. यथा दामे (आ. प्र.) । यथा छामे (मु. प्र. पृ. ३५, पं. २)
१९. यस्स इणं (आ. प्र.) । जस्स इणं (मु. प्र. पृ. ४०, पं. १)
२०. आदेसेण णिरयेसु पंचणाणा० छदंसणा० सादासादं बारसकसा० सत्तणोको० मणुसगदि पंचिदि०
ओरालि० तेजाक० समचदु० ओरालिय०अंगो० वज्जरिस० वरण०४ (आ० प्र०)
आदेसेण णिरयेसु पंचणाणावरण छदंसणावरण सादासादं बारसकसाय-सत्तणोकसायाणं मणुस-
गदि-पंचिदिय-ओरालियतेजाकम्मइय-समचदुरससंठाण-ओरालिय०अंगोवंग-वरण०४ (मु. प्र.
पृ. ४१, पं. ३-५)

सम्पादकीय

२१. णउंसग (आ. प्र.) णउंसक (मु. प्र. पृ. ४१, पं. ८)
२२. मणुसगदि मणुसगदिपा० को बधो ? (आ. प्र.)
मणुसगदि-मणुसगदिपाओग्गालुपुव्वि-उच्चागोदाणं को बंधको ? (मु. प्र. पृ. ४१, पं. १२)
२३. तेजाकम्म० (आ. प्र.) तेता कम्म० (मु. प्र. पृ. ४३, पं. ३)
२४. एवं सव्वअपज्जत्ताणं सव्वविगल्लिदियाणं सव्वविगल्लिदि० (आ. प्र.)
एवं सव्वअपज्जत्ताणं सव्वएइदियाणं सव्वविगल्लिदियाणं च । (मु. प्र. पृ. ४३, पं. ७)
२५. चदुआयु० तिरिक्खगदितिगं ओघं । (आ. प्र.)
चदुआयु० तिरिक्खगदि ओघं । (मु. प्र. पृ. ४७, पं. ७)
२६. अपचक्खाणावर०४ तित्थयरं जह० अतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । अपचक्खाणावर०४ जह० अतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० । देवगदि४ जह० एग०, उक्क० तिण्णिण पल्लिदो० सादि० । (आ. प्र.)
अपचक्खाणावर०४ तित्थयरं जह० अतो० । उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । अपचक्खाणावर०४ जह० अतो० उक्क० बादालीसं सा० सादि० । अथवा तेत्तीसं सा० सादिरे० परिज्जदि । दो आयु ओघं । मणुसगदिपंचगं जह० अन्तो० । उक्क० तेत्तीसं सा० । देवगदि०४ जह० एग० । तिण्णिण-पल्लिदो० सादि० । (मु. प्र. पृ. ६१, पं. १-५)
२७. जह० एग०, उक्क० (आ. प्र.) जह० । उक्क० (मु. प्र. पृ. ६१, पं. ५)
२८. तिरिक्खाणुपु० परघादु० तस०४ (आ. प्र.)
तिरिक्खाणु० तस०४ (मु. प्र. पृ. ६३, पं. १)
२९. अणंताणुबं०४ जह० ए०, (आ. प्र.) अणंताणुबं० ४ एय० । मु. प्र. पृ. ६३, पं. ८)

यहाँपर हमने विविध तथ्योंको स्पष्ट करनेकी दृष्टिसे महत्वपूर्ण कुल २६ पाठान्तर ही उपस्थित किए हैं । इनके आधारसे निम्न निष्कर्ष फलित होते हैं—

१. प्रतिलिपि करते समय कही कहीं मूल पाठको बहुत ही कम ध्यानमें रखा गया है ।

उदाहरणार्थ—प्रथम पाठान्तरको ही देखिए । आदर्श प्रतिके आधारसे ज्ञात होता है कि मूल प्रतिमें 'रुजगभिह' पाठ है जब कि पं० सुमेरचन्द्रजी को उनके सामने उपस्थित प्रतिमें 'रुजुगभिह' पाठ उपलब्ध हुआ है । दूसरे, तीसरे और चौथे पाठान्तरोंसे भी यही ध्वनित होता है । इन पाठोंके देखनेसे तो यही जान पड़ता है कि मूल प्रतिमें आदर्श प्रतिके अनुसार ही पाठ होने चाहिए ।

२. मूलके आधारसे प्रतिलिपि करते समय दृष्टिभ्रम या अनवधानताके कारण किसी अक्षर, पद या वाक्यका छूट जाना बहुत सम्भव है । उक्त दोनों प्रतियोंमें ऐसे अनेक स्वलन देखनेको मिलते हैं । इसके लिए देखो क्रमाङ्क ५, ७, ९, १२, १७, २२, २५, २७, २८ और २६ के पाठान्तर ।

साधारणतः क्रमाङ्क ५ से सम्बन्ध रखनेवाला पूरा स्थल पाठकी दृष्टिसे विचारणीय है । मुद्रित प्रतिके जिस पाठका हमने यहाँ उल्लेख किया है वह शुद्ध है और आदर्श प्रतिमें वह त्रुटित है । तथापि 'दंसणा-वरणीयस्स कम्मस्स किं सव्वबंधो णो सव्वबंधो ?' इस पाठके आगे 'सव्वबंधो वा णोसव्वबंधो वा' इतना पाठ और होना चाहिए, जो दोनों प्रतियोंमें त्रुटित जान पड़ता है ।

क्रमांक १३ में मुद्रित प्रतिमें 'चदुसठाण' के बाद 'चदुसंघाद' पाठ है जो अर्थकी दृष्टिसे असंगत है । पाँच बन्धन और पाँच संघात प्रकृतियोंकी बन्ध प्रकरणमें अलगसे परिगणना नहीं की गई है, क्योंकि इनका पाँच शरीरोंमें अन्तर्भाव हो जाता है । आदर्श प्रतिमें 'चदुसंघाद' के स्थानमें 'चदुसंघडण' पाठ उपलब्ध होता है जो शुद्ध है । कारण कि मध्यके चार संहननोंका मिथ्यादृष्टि और सासादन सम्यग्दृष्टिके बन्ध होता है और यहाँ इन्हीं प्रकृतियोंके स्वामित्वका निर्देश किया है । क्रमांक १७ में भी इसी प्रकारका स्वलन देखनेको मिलता है । इसमें आदर्श प्रतिमें 'तेजाक०' के बाद 'समचदु०' पाठ स्वलित है । इसके साथ दोनों प्रतियोंमें

‘पसन्धविहायगदि’ के अनन्तर ‘तस०-बादर-पजस्त-पचोय’ इतना पाठ और होना चाहिए। जिसका दोनों प्रतियोंमें अभाव दिखाई देता है ! अन्य पाठोंकी भी यही स्थिति है।

३. ‘आपि’ के अर्थमें प्राकृतमें ‘वि’ और ‘पि’ इन दोनों अव्यय पदोंका प्रयोग होता है। क्रमांक ६ में मुद्रित प्रतिमें ‘अंधोपि’ ऐसा पाठ मुद्रित किया गया है जब कि यह आदर्श प्रतिमें ‘अथो वि’ उपलब्ध होता है। व्याकरणकी दृष्टिसे यहाँ आदर्श प्रतिका पाठ संगत प्रतीत होता है।

४. मुद्रित प्रतिमें प्रायः सर्वत्र ‘को बंधको, को अबंधको’ इत्यादि रूपसे पाठ उपलब्ध होता है। कहीं-कहीं ‘णारक’ ऐसा पाठ भी उपलब्ध होता है। देखो क्रमांक १५, १६, १७ व २१। प्राकृत व्याकरणके अनुसार ऐसे प्रयोगोंमें तृतीय अक्षर होनेका नियम है। हमने इस दृष्टिसे आदर्श प्रतिके भी पाठान्तर दिए हैं। उनके देखनेसे विदित होता है कि आदर्श प्रतिमें ऐसा व्ययय नहीं दिखाई देता है।

५. प्राचीन कानडी लिपिमें द और ध प्रायः एकसे लिखे जाते हैं। तथा ध और थ में भी बहुत ही कम अन्तर होता है। हमने यहाँ एक ऐसा पाठान्तर भी दिया है जिससे इस बातका पता लगता है कि पढ़नेके भ्रमके कारण ही यह पाठ दो प्रतियोंमें दो रूपसे निबद्ध हुआ है जब कि मूल पाठ इन दोनों पाठोंमें भिन्न होना चाहिए। देखो क्रमांक १८। आदर्श प्रतिमें यह पाठ ‘दामे’ उपलब्ध होता है और मुद्रित प्रतिमें ‘छामे’। किन्तु मूल प्रतिमें इन दोनों पाठोंसे भिन्न ‘थामे’ पाठ होना चाहिए। खुदाबंभमें भी यह पाठ उसी रूपमें उपलब्ध होता है।

इस प्रकार दोनों प्रतियोंमें और भी स्वलन उपलब्ध होते हैं। यहाँ हमने उनका परिचय करानेकी दृष्टिसे कुछका ही उल्लेख किया है।

पाठ संशोधनकी विशेषताएँ—

जैसा कि पूर्वमें हम दो प्रतियोंके आधारसे प्रकृतिबन्धमें विविध स्वलनोंकी चरन्चा कर आये हैं उस तरहके स्वलन हमें प्रस्तुत भागमें भी पर्याप्त मात्रामें उपलब्ध हुए हैं। इनको कई भागोंमें विभक्त किया जा सकता है।

१. ऐसे पाठ जो मूलमें स्वलित हैं या जो ताड़पत्रके गल जानेसे नष्ट हो गए हैं, उन्हें अर्थ और प्रकरणकी दृष्टिसे विचार कर [] इस प्रकारके कोष्ठके भीतर दिया गया है।

उदाहरणके लिए देखो पृष्ठ २१, २३, २८, २६, ३०, ४५, ४८, ६८, ७४, ८२, १०४, १२८, १४२, १६६ और २०८ आदि। तथा ताड़पत्रके गल जानेसे स्वलित हुए पाठोंके उदाहरणके लिए देखो पृष्ठ १५, ३१, ३२, २०८ आदि।

२. ऐसे पाठ जो मूलमें प्रकरण और अर्थकी दृष्टिसे असंगत प्रतीत हुए उन्हें उनी पृष्ठमें टिप्पणीमें दिखाकर मूलमें संशोधन कर दिया गया है। पर ऐसा वही किया गया है जहाँ विश्वस्त आधारोंसे संशोधित पाठका निश्चय किया जा सका है। इसके लिए देखो पृष्ठ १६, ३१, ४४, ४५, ४६, ५२ और ५८ आदि।

३. एक दो ऐसे भी पाठ उपलब्ध हुए हैं जो या तो अव्यवस्थित ढंगसे लिपिबद्ध किए गये हैं या ताड़पत्रीय प्रतिमें ही उनके क्रममें दोष हैं। ऐसा एक पाठ महाबन्ध प्रकृतिबन्धमें भी उपलब्ध होता है। पं० सुमेरुचन्द्रजी दिवाकरके पास जो प्रति है उस आधारसे मुद्रित प्रतिमें उनके द्वारा उस पाठकी स्थिति इस प्रकार निर्दिष्ट की गई जान पड़ती है—

देवेसु पंचणा० छदंसणा० बारसक० भयदुगुं० ओरालिय० तेजाकम्म० वरण० ४ अगु० ४ बादर-पजस्त-पचोय-णिमिणं तिथ्यरं पंचतराह्याणं स्थि अंतर। थीणगिद्धित्तिग मिच्छत्तं अयंताणु ४ जह० अतो०। इत्थि० णवुंसक० पचसंठा० जह० एग०, उक्क० अट्टारस-सागरोवमणि सादिरैयणि। एहंदिद्य-आदाव-थावराणां जह० एग०, उक्क० वे साग सादिरें। एवं सब्बदेवेसु अप्पण्यो द्विद्विअंतर कादव्व। एहंदिपसु पंचणा० णवदंसणा० मिच्छत्तं सोलसक० भयदुगुं० ओरालियतेजाकम्म० वरण ४ जह० एग०, उक्क० अतोमुहुत्तं। दो आयु० शिरयभंगो०। तिरिक्खगदि-तिरिक्खगदिपाओ० उज्जोवाणं जह० एग०,

उक्क० अट्टारससागरोवमाणि सादिरैगाणि । एहंदिद्य-आदाव-थावराणं जह० एग०, वे साग० सादिरैयाणि । एवं सव्वदेवेसु अप्पपणो द्विदिअंतरं कादव्वं ।

[सु. प्र., पृ. ७५-७६]

यह पाठ आदर्श प्रतिमें भी इसी प्रकार उपलब्ध होता है । किन्तु यह होना इस प्रकार चाहिए ।

देवेसु पचणा०-द्धदंसया०-बारसक-भय-दुगुं०-ओरालिय०-तेजा०-कम्म-ओरालियअंगों-वण्ण० ४ अगु० ४-बादर-पज्जत-पत्तेय-णिमिण-तित्थयर-पंचंतराइयाणं णत्थि अन्तरं । थोण्णिद्धित्तिग-मिच्छत्त-अणंताणु० ४ जह अंतो०, उक्क० एकत्तीससाग० देसू० । सादासा०-पुरिस०-चदुण्णोक० मणुस०-पंचिदिय० समचदु-वज्जरिस०-मणुसाणु०-पसत्थवि-तस०-थिरादिदोण्णिण्युगल-सुभा-सुस्सर-आदेज्ज-जस०-अजस० जह एगस० उक्क० अंतोमु० । इत्थिवे० णत्तुं स-पंचसंठाण-पचसं० अत्पसत्थवि-दूभग-दुस्वर-अणादेज्ज-णीत्तुच्चा-गोदाणं जह० एगस०, उक्क० एकत्ती साग० देसू । दो आयु० गिरयभगो । त्तिरिक्खगद्धित्तिरिक्खगदिसरू उज्जोवाणं जह० एग०, उक्क० अट्टारससागरोमाणि सादिरैगाणि । एहंदिद्य-आदाव-थावराणं जह० एग० उक्क० बेसाग० सादि० । एवं सव्वदेवेसु । एवरि अप्पपणो द्विदि अंतरं कादव्वं ।

हमें प्रस्तुत प्रकरणमें इस प्रकारके जो पाठ उपलब्ध हुए उन्हे हमने पाठिपणमें देकर मूलमें संशोधन कर दिया है । इसके लिए देखो पृष्ठ २०६ आदि ।

४. प्रतिमें कुछ प्रयोगोंमें दीर्घ ईकारकी मात्राके स्थानमें ह्रस्व इकारकी मात्रा दिखाई देती है । जान पड़ता है कि प्राचीन कनाडी लिपिमें ह्रस्व और दीर्घ स्वरका कोई भेद नहीं किया जाता रहा है । अतः हमने ऐसे स्थलोंपर व्याकरणके नियमानुसार ही ह्रस्व और दीर्घ स्वरके रखनेका प्रयत्न किया है ।

५. आदर्श प्रतिमें 'वण्णफदि' शब्दके स्थानमें कहीं कहीं वणफदि' ऐसा प्रयोग भी दृष्टिगोचर हुआ है । इसे कहीं कहीं लिपिकारने पीछेसे लाल स्याहीसे संशोधित भी किया है । पर कहीं वह अशुद्ध ही रह गया है । हमने सर्वत्र 'वण्णफदि' पाठ ही रखा है ।

६. प्राचीन कानडी लिपिमें द और ध प्रायः एकसे लिखे जाते हैं । इसके कारण आदर्श प्रतिमें 'उपणिधा' के स्थानमें प्रायः 'उपणिदा' पाठ उपलब्ध हुआ है । यह स्पष्टतः लिपिकारकी असावधानी है, इसलिए हमें जहां 'उपणिदा' पाठ उपलब्ध हुआ वहां उसे 'उपणिधा' बना दिया है ।

७. समग्र ग्रन्थमें किसी वाक्य या शब्दकी पूर्ति बिन्दु रखकर की गई है । कहीं कहीं ये बिन्दु जहां चाहिए वहां नहीं भी रखे गए हैं और कहीं कहीं उनकी आवश्यकता नहीं होनेपर भी वे रखे गये हैं । यह व्यत्यय आदर्श प्रतिमें सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है । मुद्रित प्रतिके साथ आदर्श प्रतिका मिलान करनेसे तो यह भी विदित हुआ है कि इस बातका प्रायः बहुत ही कम ध्यान रखा गया है कि मूल प्रतिमें कौन शब्द या वाक्य कितना निर्दिष्ट है और कितने शब्दाश या वाक्याशकी पूर्तिके लिए बिन्दुका उपयोग किया गया है । पहले हम मूल प्रति और आदर्श प्रतिके कुछ पाठान्तरोकी तालिका दे आए हैं । उसके देखनेसे इसका स्पष्ट पता लग जाता है । ऐसी अवस्थामें हमें इस बातका स्वतन्त्र रूपसे विचार करना पड़ा है । फलस्वरूप जहां बिन्दुकी हमने अनावश्यकता अनुभव की वहासे उसे हटा दिया है और जहाँ उसकी आवश्यकता अनुभव की वहा उसकी पूर्ति कर दी है ।

८. आदर्शप्रतिमें अनेक स्थलोंपर सम्यक्त्व मार्गणाके प्रसङ्गसे खइगसं०, उपसमसं० सासणसं० वेदगसं०' ऐसा पाठ उपलब्ध हुआ है । यहा 'स' के ऊपर अनुस्वारकी आवश्यकता नहीं है । प्राचीन कनाडी लिपिमें अनुस्वार और वर्णद्वित्व बोधक सकेत एक बिन्दु ही होता है । सम्भव है कि इसी कारणसे यह भ्रम हुआ है, अतएव ऐसे स्थानोंपर हमने 'खइगसं० उपसमसं०, सासणसं०, वेदगसं०' ऐसा संशोधित पाठ रखा है । कहीं कहीं 'जंहि' के स्थानमें 'जमिह' और 'तहि' के स्थानमें 'तभिह' इसी नियमके अनुसार किया गया है ।

९. मूलमें 'कायजोगि' पाठके स्थानमें 'काजोगि' पाठ बहुलतासे उपलब्ध होता है । मुद्रित प्रति (प्रकृतिबन्ध)में भी यह व्यत्यय देखा जाता है । मूलमें इस प्रकारके पाठके लिपिबद्ध होनेका कारण क्या है इसकी

पुष्टिमें यद्यपि हमे निश्चित आधार नहीं मिला है तथापि पट्खण्डागमके समग्र सूत्रोंमें 'काययोगि' पाठ ही प्रयुक्त हुआ है यह देखकर हमने 'काजोगि' पाठके स्थानमें सर्वत्र 'काययोगि' पाठको स्वीकार किया है।

इसी प्रकार थोड़े बहुत संशोधन और भी करने पड़े है, पर ऐसा करते हुए सर्वत्र मूल पाठकी रक्षाका पूरा ध्यान रखा है।

मंगलाचरण—

हम यह पहले ही लिख आये है कि महाबन्धके मुख्य अनुयोगद्वार चार हैं—प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध। इन चारों अनुयोगद्वारोंकी रचना स्वयं आचार्य भूतबलिने की है। यद्यपि ग्रंथके प्रारम्भमें मङ्गल करनेकी परिपाटी पुरानी है पर पट्खण्डागमके जीवस्थान और वेदनाखण्डको छोड़कर शेष खण्डोंके प्रारम्भमें स्वतन्त्र मङ्गल सूत्र उपलब्ध नहीं होता। उसमें भी जीवस्थानके प्रारम्भमें मङ्गलसूत्रके कर्ता स्वयं पुष्पदन्त आचार्य है। आचार्य वीरसेनने मङ्गलके निम्न और अनिम्न ये दो भेद किये हुए लिखा है।

तच्च मंगलं दुविहं—शिबद्धमणिबद्धमिदि । तत्थ शिबद्धं णाम जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेण णिबद्धदेवदाणमोक्कारो तं णिबद्धमंगलं । जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेण कयदेवदाणमोक्कारो तमण्णिबद्धमंगलं । इदं जीवहाणं शिबद्धमंगलं । [जीवहाण-सतवरूपा पृ० ४१]

'मङ्गल दो प्रकारका है—निम्न मङ्गल और अनिम्न मंगल। जो सूत्रके आदिमें सूत्रकारके द्वारा इष्ट देवता नमस्कार निम्न किया जाता है वह निम्न मङ्गल है और जो सूत्रके आदिमें सूत्रकारके द्वारा इष्ट देवता नमस्कार किया जाता है वह अनिम्न मङ्गल है। यह जीवस्थान निम्न मङ्गल है।'

इस निम्न और अनिम्न पदका अर्थ और अधिक स्पष्ट रूपसे समझनेके लिए वेदनाखण्डके कृति अनुयोग द्वारका यह उद्धरण विशेष उपयोगी है। यहां वीरसेन स्वामी लिखते हैं—

'शिबद्धाशिबद्धभेषुण दुविहं मंगलं । तत्थेदं किं णिबद्धमाहो अणिबद्धमिदि या ताव शिबद्धमंगल-मिदं; महाकम्मपयडिपाहुडस्स कद्दियादिचउवीसआणियोगावयवस्स आदीए गोदमसाभिया परुविदस्स धूदबलिभडारणुण वेयणाखंडस्स आदीए मंगलुट्टं तत्तो आणोदूण ठविदस्स शिबद्धसाविरोहादो ।'

निम्न और अनिम्नके भेदसे मंगल दो प्रकारका है। उनमेंसे यह मंगल क्या निम्न है या अनिम्न ? यह निम्न मंगल तो हो नहीं सकता, क्योंकि कृति आदि चौबीस अनुयोगोंमें विभक्त महाकर्मप्रकृतिप्राप्तके आदिमें गौतम स्वामीने इसकी रचना की है और भूतबलि भट्टारकने मंगलके निमित्त वहांसे लाकर इसे वेदनाखण्डके प्रारम्भमें स्थापित किया है, अतः इसे निम्न मंगल माननेमें विरोध आता है।'

इन दोनों उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि जीवस्थानके प्रारम्भमें जो पञ्च नमस्कार सूत्र उपलब्ध होता है वह स्वयं आचार्य पुष्पदन्तकी कृति है और वेदनाखण्डके प्रारम्भमें जो ४४ मङ्गलसूत्र आये हैं वे है तो स्वयं गौतम स्वामीकी कृति, पर आचार्य भूतबलिने उन्हे वेदनाखण्डके प्रारम्भमें लाकर मङ्गलके निमित्त स्थापित किया है।

इन दो खण्डोंके सिवा शेष खण्डोंके प्रारम्भमें स्वतन्त्र मङ्गल सूत्र क्यों नहीं रचे गये इस पर वीरसेन स्वामी वेदनाखण्डके प्रारम्भमें मङ्गलसूत्रोंका उपसंहार करते हुए कहते हैं—

'उवरि उच्चमाणेसु तिसु खंडेसु कस्सेदं मंगलं ! तिण्णखंडायां । कुदो ? वग्गणामहानंघायमादीए मंगलाकरणादो ।' [पृ० १०५]

'आगे कहे जानेवाले तीन खण्डोंमेंसे किस खण्डका यह मङ्गल है ? आगे कहे जानेवाले तीनों खण्डोंका यह मङ्गल है; क्योंकि वर्गणा और महाबन्ध इन दो खण्डोंके प्रारम्भमें मङ्गल नहीं किया गया है।'

इस उल्लेखसे यह स्पष्ट प्रतिभासित होता है कि वीरसेन स्वामीके मतानुसार वेदनाखण्डके प्रारम्भमें आया हुआ मङ्गल ही महाबन्धका मङ्गल है और इसीलिए वहां अलगसे मङ्गल नहीं किया गया है। पर मूडविद्वीकी ताडपत्रीय प्रतिके आधारसे जो प्रति लिपि होकर हमारे सामने उपस्थित है उसमें प्रत्येक मुख्य अनुयोगद्वारके प्रारम्भमें 'णमो अरिहंताणं' यह मङ्गलसूत्र स्थापित किया गया है। प्रकृतिबन्धका प्रथम ताड-

पत्र त्रुटित होनेके कारण उसके सम्पादनके समय यह समस्या उपस्थित नहीं हुई। वहा तो वीरसेन स्वामीकी सूचनानुसार वेदनाखण्डका मङ्गलाचरण लाकर उससे निर्वाह कर लिया गया। पर स्थितिवन्धके प्रारम्भमें 'गमो अरिहंताण' इस मङ्गल सूत्रको देखकर हमारे सामने यह प्रश्न था कि इस सम्बन्धमें क्या किया जाय। हमने इस सम्बन्धमें एक दो विद्वानोंसे परामर्श भी किया। अन्तमें सबकी सलाहसे हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि यदि मूल प्रतिमें स्थितिवन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धके प्रारम्भमें यह मङ्गल सूत्र उपलब्ध होता है तो उसे वैसा ही रहने दिया जाय। यद्यपि हम जानते हैं कि स्थितिवन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धसे खण्डका प्रारम्भ नहीं होता। महाबन्ध खण्डका प्रारम्भ तो प्रकृतिबन्धसे होता है तथापि इन अनुयोगद्वारोंके प्रारम्भमें इस मङ्गलसूत्रका निवेश कर किसने किया इस बातका ठीक तरहसे निर्णय करनेका कोई साधन उपलब्ध न होनेसे उक्त मङ्गल सूत्रको यथास्थान रहने दिया गया है।

हमारे विचारसे ऐसा करनेसे एक बहुत बड़े सत्यकी रक्षा हो जाती है। पाठक जानते ही हैं कि अमरावतीसे जो धवलाका प्रकाशन हो रहा है उसके प्रत्येक भागके प्रथम व मुखपृष्ठपर भगवत्पुष्पदन्तभूतबलिप्रणीतः यह मुद्रित किया जाता है। जब कि सबको यह विदित है कि वीरसेन स्वामीके मतानुसार आचार्य पुष्पदन्तने केवल सत्प्ररूपणकी रचना की है और आचार्य भूतबलिने शेष छह खण्डकी रचना की है। जीवस्थानद्रव्य-प्रमाणानुगमके मुद्रणके समय आदरणीय डा० हीरालाल जीके सामने भी यह प्रश्न उपस्थित था। उस समय हम वहीं धवला कार्यालयमें कार्य करते थे। प्रश्न यह था कि आचार्य पुष्पदन्तने आचार्य भूतबलिके पास जिनपालितको केवल सत्प्ररूपण लेकर भेजा होगा या अपनी रूपरेखाका ज्ञान भी कराया होगा। विचार विनिमयके अनन्तर उस समय निश्चय हुआ था कि अधिकतर सम्भव तो यही है कि उन्होंने ग्रन्थ रचनाके सम्बन्धकी समस्त विशेष जानकारीके साथ ही सत्प्ररूपण लेकर जिनपालितको आ० भूतबलिके पास भेजा होगा और इस तरह श्रुत रक्षाका कार्य इन दोनों महान् आचार्योंके संयुक्त प्रयत्नका फल जानकर तब यही निर्णय किया गया था कि प्रत्येक भागमें दोनों आचार्योंके नाम यथाविधि दिये जाने चाहिए।

इस समय जब हम महाबन्धके प्रत्येक अनुयोगद्वारके प्रारम्भमें जीवस्थानके मङ्गलाचरणको लिपिबद्ध देखते हैं तो आर्षोंके सामने उस समयका समग्र इतिहास साकार रूप लेकर आ उपस्थित होता है। धन्य है उन प्रातः स्मरणीय चन्द्रगुफानिवासी आचार्य धरसेनको जिन्होंने अपनी वृद्धावस्थाकी चिन्ता न कर श्रुत रक्षाकी पुनीत भावनासे अपने अनुरूप योग्य दो शिष्योंको प्राप्त कर उन्हें अपना समग्र ज्ञान समर्पित कर शान्तिकी सास ली और धन्य है उन परम श्रुतधर आचार्य पुष्पदन्त और भूतबलिको, जिन्होंने गुरु आज्ञाको प्रमाण मानकर षट्खण्डागमकी रचना द्वारा न केवल अपने गुरुकी इच्छाकी पूर्ति की अपि तु सम्यक् श्रुतको जीवित रखनेका श्रेय प्राप्त किया।

आभार—

किसी भी कार्यको योग्यतापूर्वक सम्पन्न करनेके लिए अनुकूल साधन सामग्रीका सर्वोपरि स्थान है। हम दूसरोंकी नहीं कहते, अपनी ही कहते हैं। अनेक बार कुछ प्रमुख विषयोंपर हमने लिखनेका विचार किया, कई योजनाएँ बनाईं पर अनुकूल साधनोंके उपलब्ध न होनेसे हम एक भी पूरी न कर सके। कुछका तो अब हमें ही स्वयं ज्ञान नहीं है।

महाबन्धके सम्पादनकी ओर मैं स्वयं ध्यान दू यह अनुरोध चिरकालसे मेरे निकटवर्ती व दूरवर्ती मित्र मुझसे करते आ रहे हैं। उनको अन्तःप्रेणावश ही मुझे इस ओर ध्यान देना पड़ा है। मैं श्रीमान् डा० हीरालाल जीको अपना अन्यतम हितैषी मानता हूँ। सम्पादन सम्बन्धी जो कुछ भी अनुभव और ज्ञान मुझे मिला है यह उनकी ही सत्कृपाका फल है। अब भी वे मुझे अनेक उपयोगी सूचनाओंसे अनुग्रहीत करते रहते हैं। कुछ काल पूर्व उन्होंने मुझे एक अत्युपयोगी पत्र लिखा था। वे मेरी विखरी हुई शक्तिको देखकर खिन्नसे हो उठे थे। मेरे लिए उनका वह पत्र स्वरूपसम्बोधनके समान था। उससे मेरी न केवल निद्रा भङ्ग हुई अपि तु मुझे अपने कर्तव्यका बोध हुआ। उसीका यह फल है जो इस समय पाठक देख रहे हैं।

महाबन्धका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठसे हो रहा है। इसके संस्थापक श्रीमान् दानवीर गेट शान्तिप्रसाद जी और अध्यक्षता उनकी सुयोग्य पत्नी श्रीमती रमारानी जी है। प्रारम्भमे ही इसके संचालनका उत्तरदायित्व श्रीमान् अयोध्याप्रसाद जी गोयलीय सम्हाले हुए हैं। वे ही इसके मन्त्री है। मुझे महाबन्धके सम्पादन और प्रथम प्रूफ पाठके लिए संस्थाकी ओरसे हर तरहकी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारतीय ज्ञानपीठके मैनेजर श्री बबूलाल जी 'फारुल्ल' तो सब बातोंका ध्यान रखते ही है साथ ही श्री प० महादेव जी चतुर्वेदी जी व्याकरणाचार्यका भी इस काममे हमे पूरा सहयोग मिलता रहता है। प्रथम प्रूफ हम उनके साथ ही मिलकर देखते है। इस प्रकार महाबन्धके सम्पादनमे उक्त महानुभवोंका प्रत्यक्ष और परोक्ष सम्बन्ध होनेसे ही हम इस कामका निर्वाह कर सके हैं अतएव इन सबके हम आभारी हैं।

अनुवाद और सम्पादनमे हमने बहुत ही सावधानीमे काम लिया है फिर भी भ्रम या अज्ञानवशा कुछ दोष रह जाना बहुत सम्भव है। उदाहरणार्थ-पृष्ठ २१ पक्ति ७ मे 'कम्मट्टिटी कम्म०' के पहले 'अवाहूणिया' पाठ होना चाहिए। इसी प्रकार पृष्ठ २३६ पक्ति २ मे भी कोष्ठके भीतर 'आवाधू०' पाठ अधिक हो गया है। अतएव विशेषज्ञ और स्वाध्यायप्रेमी वन्दु पूर्वापरका विचार कर इसका गव्वायाय करे और जो दोष उनकी समझमे आवे उनकी सूचना हमे अवश्य देनेकी कृपा करे।

फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

प्रकाशन-व्यय

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| १४३४) कागज २२ X २६ = २८ पौण्ड | २३७५) सम्पादन-व्यय |
| ६८ रीम १२ शीट | २०४) कार्यालय व्यवस्था |
| २१८२) छपाई ६१ फार्म | १२०) प्रूफ सशोधन |
| १०००) जिल्द बंधाई | १०००) भेंट, आलोचना १०० प्रति |
| ६०) कवर कागज | १२५) पोस्टेज ग्रंथ भेंट भेजनेका |
| ५०) कवर छपाई | २७५०) कमीशन, विज्ञापन, विक्री व्ययादि |

कुल लागत ११३००)।।

१००० प्रति छपी। लागत एक प्रति ११)।।।।

मूल्य ११ रु०

कर्ममीमांसा

१. कर्मवादकी युक्ति

भारतीय दर्शनका अन्तिम लक्ष्य है मुक्ति प्राप्ति । इसमें जीवकी उत्क्रान्ति, गति, आगति और परलोक विद्याका युक्तियुक्त विचार उपस्थित किया गया है । सब आस्तिक दर्शन इस विषयमें एकमत है कि जीव अपनी कमजोरीके कारण बंधता है और उसके दूर होने पर मुक्त होता है । समयप्राप्तमें कहा है—

‘रत्तो बधदि कम्मं मुचदि जीवो विरागसंपत्तो ।

एसो जिणोवदेसो तम्हा कम्मेषु मा रज्ज ॥१५०॥’

तीर्थङ्करोका उपदेश है कि रागी जीव कर्मोंको बाँधता है और वैराग्ययुक्त जीव उनसे मुक्त होता है । इसलिए शुभाशुभ कर्मोंमें अनुरागी होना उचित नहीं है ।

प्राचीन ऋषियोंने जीवकी बद्ध और मुक्त दो अवस्थाएँ मानी हैं । इससे समस्त जीवराशि दो भागोंमें विभक्त हो जाती है—संसारी जीव और मुक्त जीव । जो संसार अर्थात् चतुर्गति योनिमें परिभ्रमण करते रहते हैं वे संसारी जीव हैं और जो इस प्रकारके परिभ्रमणसे मुक्त हैं वे मुक्त जीव हैं । प्रथम प्रकारके जीव राग, द्वेष और मोहके अधीन हो कर निरन्तर पाँच प्रकारके संसारमें परिभ्रमण करते रहते हैं । समीचीन दृष्टि, समीचीन प्रज्ञा और समीचीन चर्याके प्राप्त होनेके पूर्वतक वे इस परिभ्रमणसे मुक्ति प्राप्त करनेमें असमर्थ रहते हैं । इससे प्रथम प्रकारके जीव संसारी कहलाते हैं । और ये ही जीव संसारका उपरम हो जाने पर मुक्त कहलाने लगते हैं ।

इनमेंसे संसारी जीव अनेक भागोंमें विभक्त हैं—कोई एकेन्द्रिय है और कोई द्वीन्द्रिय । त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय ये भी संसारी जीवोंके ही भेद हैं । एकेन्द्रिय जीव पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिकके भेदसे पाँच प्रकारके हैं । जिनके एक मात्र स्पर्शन (छू कर जाननेवाली) इन्द्रिय होती है उन्हें एकेन्द्रिय जीव कहते हैं । ये पाँचों ही प्रकारके जीव स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा विषय ग्रहण करते हैं । इनके रसना (चखकर जाननेवाली इन्द्रिय) आदि अन्य इन्द्रियाँ नहीं होती, इसलिए ये एकेन्द्रिय कहे जाते हैं । द्वीन्द्रिय जीव वे हैं जिनके स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियाँ होती हैं । लोकमें लट केंचुआ आदि ऐसे अगणित जीव देखे जाते हैं जो कभी तो स्पर्शन द्वारा विषय ग्रहण करते हैं और कभी रसना द्वारा, इसलिए इन्हें द्वीन्द्रिय जीव कहते हैं । त्रीन्द्रिय जीव वे हैं जिनके स्पर्शन, रसना और घ्राण (सुगन्धि और दुर्गन्धिका ज्ञान प्राप्त करनेवाली इन्द्रिय) ये तीन इन्द्रियाँ होती हैं । ये जीव इन इन्द्रियों द्वारा विषय ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें त्रीन्द्रिय जीव कहते हैं । इनमें पिपीलिका, गोभी और यूक आदि जीवोंकी परिगणना की जाती है । चतुरिन्द्रिय जीव वे हैं जिनके स्पर्शन रसना, घ्राण और नेत्र ये चार इन्द्रियाँ होती हैं । ये जीव इन चार इन्द्रियों द्वारा विषय ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें चतुरिन्द्रिय जीव कहते हैं । भ्रमर, पतङ्ग और मक्खी आदि जीवोंकी इनमें गिनती की जाती है । जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण, नेत्र और कान ये पाँच इन्द्रियाँ होती हैं वे पञ्चेन्द्रिय जीव हैं । समनस्क और अमनस्क ये इनके मुख्य भेद हैं । दूसरे शब्दोंमें इन्हें संज्ञी और असंज्ञी भी कहते हैं । उक्त पाँचों इन्द्रियोंके साथ जिनके हेय और उपादेय पदार्थोंका विवेक करनेमें दक्ष तथा क्रिया और आलापको ग्रहण करनेवाला मन होता है वे समनस्क जीव हैं और शेष अमनस्क जीव हैं । अमनस्क जीव मात्र तिर्यञ्चयोनिवाले होते हैं किन्तु समनस्क जीव नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव इन चार भागोंमें विभक्त हैं । इनमेंसे तिर्यञ्च और मनुष्य सबके प्रत्ययके विषय हैं और शेष दो प्रकारके जीव आगमसे जाने जाते हैं ।

जैनदर्शनमें ससारके समस्त पदार्थ छह भागोंमें विभक्त किये गये हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनका विवेचन जैन आगममें विस्तारके साथ किया गया है। जीवके विषयमें समय-प्राभृतमें लिखा है—

“अरसमरूवमगंधं अश्वत्तं चेदद्यागुणामसदं ।

जाया अलिगगहृणां जीवमणिद्विसंठायां ॥४९॥”

जो रसरहित है, रूप रहित है, गन्धरहित है, इन्द्रियोंके अगोचर है, चैतन्य गुणवाला है, शब्द रहित है, किसी चिन्हके द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता और जिसका आकार कहा नहीं जा सकता वह जीव है।

जीवका यह लक्षण त्रिकालान्वयी है। उसमें चेतन धर्मकी विशेषता है। यह जीवका असाधारण धर्म है; क्योंकि चेतनाकी जीवके साथ समव्याप्ति है। जीवकी पहिचानका यह प्रमुख चिन्ह है।

कुछ मतवादी चेतना की उत्पत्ति पृथिवी आदि भूतचतुष्टयके योग्य सम्मिश्रणका फल मानते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा गेहूँ आदि पदार्थोंमें मादकताका प्रादुर्भाव होता है उसी प्रकार पृथिवी आदिके योग्य मिश्रणसे चेतनाकी उत्पत्ति होती है। जब तक इनका योग्य सम्मिश्रण बना रहता है तभी तक वहाँ चेतना वास करती है। इनका विघटन होने पर चेतना भी विघटित हो जाती है। न परलोक है, न कर्म है और न कर्मका फल है।

बौद्ध दर्शन भी जीवकी पृथक् सत्ता स्वीकार नहीं करता। बुद्धने जिन दस बातोंको अव्याकृत माना है उनमें आत्मा शरीरसे भिन्न है कि अभिन्न है, मृत्युके बाद वह रहता है या नहीं रहता ये प्रश्न भी सम्मिलित हैं। बौद्ध दर्शनमें आत्माको रूप वेदना, संज्ञा संस्कार और विज्ञानका पुञ्जमात्र माना गया है। मिलिन्द^१ प्रश्नमें भदन्त नागसेनने राजा मिलिन्दके सामने आत्मस्वरूपका वर्णन एक बड़ी सुन्दर उपमाके द्वारा किया है। नागसेनने राजासे पूछा कि इस दुपहरियेकी कड़कड़ाती धूपमें जिस रथ पर सवार होकर आप इस स्थान पर पधारे हैं। उस रथका इदमित्थं वर्णन क्या आप करते हैं? क्या दण्ड रथ है या अक्षर रथ है? राजाके निषेध करने पर फिर पूछा कि क्या चक्रके रथ हैं या रस्सियों रथ हैं, लगाम रथ है या चाबुक रथ है? बार बार निषेध करने पर नागसेनने राजासे पूछा आखिर रथ क्या चीज है? अगत्या मिलिन्दको स्वीकार करना पड़ा कि दण्ड, चक्र आदि अवयवोंके आधारपर केवल व्यवहारके लिये ‘रथ’ नाम दिया गया है; इन अवयवोंको छोड़कर पृथक् रूपसे किसी अवयवकी सत्ता नहीं दीख पड़ती। तब नागसेनने बतलाया कि ठीक यही दशा आत्माकी भी है। पञ्चस्कन्ध आदि अवयवोंसे भिन्न अवयवोंके नितरां अगोचर होनेके कारण इन अवयवोंके आधारपर ‘आत्मा’ नाम केवल व्यवहारके लिये ही दिया गया है। आत्माकी वास्तविक सत्ता ही नहीं। बुद्ध दर्शनने आत्माकी पृथक् सत्ता न मानकर भी निर्वाण और परलोकका निषेध नहीं किया है। प्रत्युत उनके चार आर्य सत्योका उपदेश इसी आधार पर स्थित है।

इस प्रकार जीवके अस्तित्वको न माननेवाले या उसे संशयकी दृष्टिसे देखनेवाले मुग्व्य दर्शन दो हैं। शेष सभी पौराण्य दर्शनकारोंने उसकी स्वतन्त्र सत्ता किसी न किसी रूपमें स्वीकार ही है। इनमेंसे प्रथम मत बहुत प्राचीन है। लोकमें इसकी चार्वाक या लौकायतिक इस नामसे प्रसिद्धि है। यह मात्र इन्द्रिय प्रत्यक्षको प्रमाण मानता है, इसलिए यह अतीन्द्रिय जीव, धर्म, अधर्म आकाश और काल द्रव्यको तथा परलोक और मुक्ति आदि तत्वोंको स्वीकार नहीं करता।

किन्तु विचार करने पर ज्ञात होता है कि जीव पृथिवी आदिके योग्य सम्मिश्रणका फल नहीं है, क्योंकि पृथिवी आदि प्रत्येक तत्वमें चेतना गुणकी उपलब्धि नहीं होती, इसलिए उन सबके सम्मिश्रणसे भला उसकी उत्पत्ति हो ही कैसे सकती है। गेहूँ आदिके सड़ाने पर उसमें जो मादकता दिखाई देती है वह उनका नया धर्म नहीं है। किन्तु यह मादकता इन पदार्थोंमें न्यूनाधिकरूपसे सदा विद्यमान रहती है। सड़ाने आदिसे मात्र उसका विशेष रूपसे आविर्भाव देखा जाता है। एक मनुष्य भोजन करता है, उसे कम आलस्य आता है और

दूसरा मनुष्य भोजन करता है, उसे अधिक आलस्य आता है। इसका एक कारण इस मादकताकी न्यूनाधिकता भी है, इसलिए मदिराके दृष्टान्त द्वारा जीवको भूतचतुष्टयका परिणाम मानना उचित नहीं है।

जीव द्रव्य है और उसका स्वतन्त्र अस्तित्व है। इन्द्रियों द्वारा उसका अन्य स्थूल पदार्थोंके समान ग्रहण न होने पर भी उसके अस्तित्वको अस्वीकार करना बुद्धिकी विडम्बना मात्र है। लोकमें ऐसे अनेक पदार्थ हैं जिनका इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण न होने पर भी अनुमान प्रमाणके द्वारा उनका अस्तित्व सिद्ध होता है। उदाहरणार्थ पृथिवी आदिके आरम्भक परमाणुओंका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता पर क्या इतने मात्रसे उनका असम्भाव माना जा सकता है? कभी नहीं। इसी प्रकार यद्यपि जीव तत्त्वका इन्द्रियों द्वारा ग्रहण नहीं होता है तथापि अनुमान आदिके द्वारा उसका अस्तित्व सिद्ध होता है।

जिस प्रकार किसी यन्त्रप्रतिमाकी चेष्टाओंको देखकर उसके प्रयोक्ताका अस्तित्व जाना जाता है उसी प्रकार सम्भाषण, हलन-चलन, श्वासोच्छ्वासका ग्रहण करना और छोड़ना तथा आहारका लेना आदि क्रियाओंको देखकर ज्ञात होता है कि इस शरीरका प्रयोक्ता कोई अन्य पदार्थ है जो शरीरके प्रत्येक अवयवमें व्याप्त कर रह रहा है।

यह तो हम प्रत्यक्षसे ही देखते हैं कि जीवत् शरीरसे मृत शरीरमें मौलिक अन्तर है। जीवत् शरीरमें ऐसी किसी वस्तुका वास अवश्य रहता है जो स्वासोच्छ्वास लेता छोड़ता है, उस द्वारा क्रिया करनेमें सहायता प्रदान करता है, किसी वस्तुके विस्मृत हो जाने पर उसे याद करता है, इच्छा करता है, इच्छित भोगको स्वीकार करता है, और अनिच्छित भोगका त्याग करता है। स्व-परका भेद करता है, गणित व रूपया, आना, पाईका हिसाब लगाता है, यशकी कामना करता है और विश्वकी सुव्यवस्था व आत्मोन्नतिके उपाय सोचता है। यह कहना विशेष युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता कि भूत चतुष्टयके योग्य सम्मिश्रणसे चैतन्य तत्त्वकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि जो शक्ति अलग-अलग पृथिवी आदिमें नहीं पाई जाती वह उनके सम्मिश्रणसे नहीं उत्पन्न हो सकती।

हम देखते हैं कि बालक जन्म लेते ही दुग्धपानकी इच्छा करता है। माताके स्तनसे उसका मुह लगाने पर वह दूध पीने लगता है। कुछ ऐसे भी बालक देखे गये हैं जो अपने पूर्वजन्मका वृत्तान्त सुनाते हैं। श्री रतनलालजीने अपनी आत्मरहस्य नामक पुस्तकमें देश विदेशकी ऐसी कई घटनाएँ निबद्ध की हैं। एक घटना वरेलीकी है। बात सन १९२६ की है। केकयनन्दन वकीलके यहां एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बालक पाँच वर्षका हुआ और बोलना सीख गया तो वह अपने पूर्वजन्मकी बातें कहने लगा कि पूर्व जन्ममें मैं बनारस निवासी बबुआ पाडेका पुत्र था। उस बालकके पिता श्री केकयनन्दन कई मित्रोंके साथ उस बालकको बनारस ले गये और बालकके बतलाये हुए स्थान पर गये। उस समय बनारसके जिलाधीश श्री बी० एन० मेहता भी उपस्थित थे। बालक बबुआ महाराज तथा उस मोहल्लेके एकत्रित सज्जनोंको उनके नाम ले लेकर पुकारने लगा और उनसे मिलनेकी उत्सुकता प्रकट करने लगा। उसने अपने पूर्व जन्मके घर तथा बहुत सी वस्तुओंको पहिचान लिया और अनेक प्रश्न पूछने लगा कि अमुक अमुक वस्तुएँ कहाँ हैं और कैसी हैं। उस बालकका बतलाया हुआ पूर्व जन्मका वृत्तान्त बिल्कुल सच निकला।

भूत प्रेतोंकी कथाएँ भी अक्सर लोग सुनाया करते हैं। कुछ पश्चिमीय विद्वानोंने इनका सप्रमाण संकलन भी किया है। भारतीय समाचार पत्रोंमें भी ये प्रकाशित होती रहती हैं। इनसे सम्बद्ध कई घटनाएँ ऐसी होती हैं जिन्हें असत्य नहीं माना जा सकता। अक्सर ये प्रेत वही पर क्रियाशील दिखाई देते हैं जहा पर इनका पूर्व जन्मका किसी न किसी प्रकारका सम्बन्ध होता है।

प्रश्न यह है कि यह सब क्यों होता है? जीवको शरीरसे अभिन्न मानने पर न तो बालकको दूध पीने की इच्छा हो सकती है, न वह पूर्व जन्मकी स्मृति रख सकता है और न ही भूत-प्रेत योनिकी विविध घटनाओं का सम्बन्ध ही बिठाया जा सकता है, किन्तु यह सब होता अवश्य है। इससे ज्ञात होता है कि शरीरसे भिन्न कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व अवश्य है।

जब हम किसी बालकको शिक्षा दीक्षासे दीक्षित करते हैं तब हमें यह देखना होता है कि उसकी स्वाभाविक रुचि क्या है ? यदि उसकी इच्छाके अनुकूल सामग्री जुटा दी जाती है तो उसकी उन्नति होनेमें देर नहीं लगती और यदि इच्छाके प्रतिकूल कार्य किया जाता है तो उसे बड़ा निराश होना पड़ता है। विचारणीय यह है कि ऐसा क्यों होता है ? वह कौन सा तत्त्व है जो उससे ऐसा करता करता है। वैज्ञानिकोंने प्राणी की इस प्रवृत्तिका सूक्ष्म निरीक्षण करनेका प्रयत्न किया है। वे तत्काल जीवके अस्तित्वके विषयमें एकमत भले ही न हो सके हों, पर इस तत्त्वकी सत्ताको अस्वीकार करना उनकी शक्तिके बाहर है।

यह बात हम प्रतिदिन के व्यवहारसे देखते हैं कि जब कोई अन्य व्यक्ति हमें दुःख पहुँचानेकी चेष्टा करता है तब हमें क्रोध आता है और यदि कोई अपमान करना चाहता है तो अहंकारसे हमारा आत्मा अभिभूत हो जाता है। किन्तु जल्दी या देरमें हम इस अवस्थासे हटना चाहते हैं। प्रकृतमें विचारणीय यह है कि इस प्रकार क्रोध करनेवाला या उससे हटनेवाला व्यक्ति कौन है ? क्या ऐसी विलक्षण मानसिक क्रिया-प्रतिक्रिया किन्हीं जड़ तत्वोंके सम्मिश्रणसे सम्भव हो सकती है ! 'हाँ' में इसका उत्तर देना कठिन है।

हमने ऐसे बहूतसे प्राणी देखे हैं जिनका किसी प्रकारका अनिष्ट करनेपर वे चिरकालतक उसकी वासना से अभिभूत रहते हैं और कालान्तरमें संयोग मिलनेपर वे उसका बदला लेनेमें नदी चरुं। हम यदा यदा कह सकते हैं कि ऐसी वासना वर्तमान जीवनतक ही सीमित रहती है, जन्मान्तरमें इसका अन्वय नष्ट देखा जाता। किन्तु यदि जन्मान्तरकी बात छोड़ भी दी जाय तो भी यह तो देवना ही होगा कि एक पर्यायों भीतर ही चिरकालतक ऐसी वासना क्यों देखी जाती है ? क्या बिना स्मृतिके इस प्रकारकी वासनाका बना रहना सम्भव है। मालूम पड़ता है कि जड़ तत्वोंसे विलक्षण स्मृतिज्ञानका आधारभूत कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व अवश्य है। प्राचीन ऋषियोंने इसे ही जीवशब्दसे पुकारा है। प्राचीन साहित्यमें इसके गुणोंका व्यापन अनेक प्रकार से किया गया है। नैयायिक वैशेषिक दर्शनने विशेषण करके ससारी जीवके बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और सस्कार ये नौ विशेष गुण कल्पित किये हैं। इनकी तुलना हम जैन दर्शनके अनुसार कर्मनिमित्तक भावोंसे कर सकते हैं। जैन दर्शनमें जीवकी अनन्त अनुजीवी शक्तिया मानी गई हैं। उदाहरण स्वरूप ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, सुख, क्षमा, मार्दव, आर्जव, भोग, उपभोग और वीर्य ये जीवके अनुजीवी गुण हैं। पुद्गलोंके संयोगसे न होकर ये आत्माके स्वतन्त्र व्यक्तित्वको प्रख्यापित करते हैं।

प्राचीन साहित्यमें जीवका अस्तित्व सिद्ध करनेके लिए मुख्य हेतु 'अहंप्रत्ययवेद्य' दिया जाता है इसलिए यहां इस 'अहम्'का ज्ञान कराना आवश्यक हो जाता है। यह तो हम प्रत्यक्षसे ही देखते हैं कि जहाँ हस्तरा निवास है वहाँ हम अनेक पदार्थोंसे घिरे रहते हैं। उनमेंसे कुछ जड़ होते हैं और कुछ चेतन। ये प्रति दिन हमारे उपयोगमें आते हैं। इसलिए इनकी हम सम्हाल करते हैं। पर इन्हें हम अपने शरीर या आत्मासे अधिक प्रिय नहीं मानते। शरीर रक्षाका और मुख्यतः आत्मरक्षाका प्रश्न उपस्थित होनेपर हम इन्हें त्याग देते हैं। शरीरकी भी यही अवस्था होती है। जहाँतक वर्तमान जीवनमें रति रहती है या शरीरके रहने हुए किसी प्रकारका अनिष्ट नहीं प्रतीत होता वहीं तक हम उसकी रक्षा करते हैं, अन्यथा उसका त्याग करनेमें भी हम संकोच नहीं करते। इस प्रकार वर्तमान जीवनकी घटनाओंसे हम देखते हैं कि इन विविध प्रकारके संयोग-वियोगोंमें भी हमारा 'अहम्' न तो भौतिक जगत्से सम्बन्ध रखता है और न बाह्य चेतन जगत्से ही। उसकी सीमा इन सबसे परे अपनेमें सुरक्षित रहती है। बड़े-बड़े ज्ञानी मुनियोंने अनुभव द्वारा उस अहंप्रत्ययवेद्य तत्त्वका निर्णय किया है। उनकी स्वानुभव पूर्ण वाणी क्या कहती है यह उन्हींके शब्दोंमें मुनि—

'अहमिक्को खलु सुद्धो दंसणणाणमइओ सदारूवी।

ण वि अत्थि मज्झ किंचि वि अरणं परमाणुमित्तं वि ॥'

[आ० कुन्दकुन्द]

अहं प्रत्ययवेद्य मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानदर्शन स्वभाव हूँ और रूपादि भौतिक गुणोंसे रहित हूँ। ये सब बाह्य जगत्से सम्बन्ध रखनेवाले यहाँतक कि परमाणु मात्र भी मेरे नहीं हैं।

इसी बातको दूसरे शब्दोंमें उन्होंने यो व्यक्त किया है—

एगो मे सासदो आदा णाणदंसणलक्खणो ।

सेसा मे बाहिरा भावा सव्वे संजोगलक्खणा ॥

[आ० कुन्दकुन्द]

मेरा आत्मा शाश्वत होकर स्वतन्त्र तो है ही किन्तु उसका स्वभाव भी एकमात्र ज्ञान दर्शन है । इसके सिवा मुझमें और जो कुछ भी दिखलाई देता है वह सब संयोगका फल है ।

इन प्रमाणोंसे आत्माके अस्तित्वपर सुन्दर प्रकाश पड़ता है । यहा मुख्य रूपसे आत्माको ज्ञान दर्शन स्वभाववाला बतलाया गया है क्योंकि इनका अन्वय एकमात्र चेतनके साथ देखा जाता है । जहाँ चेतना है वहाँ ज्ञान दर्शन है और जहाँ ज्ञान दर्शन है वहाँ चेतना है । इनकी परस्परमें व्याप्ति है ।

प्राचीन साहित्यमें चेतनके मुख्य नाम तीन मिलते हैं—जीव, आत्मा और प्राणी । जीव यह नाम जीवन क्रिया की प्रधानता से रखा गया है । आत्मन् शब्दका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है—आप्नोति व्याप्नोति आत्मा—जो स्वीकार करता है या व्याप्त कर रहता है । संसार अवस्थामें जीव इन्द्रियों द्वारा विषयोंको ग्रहण करता है और कैवल्य लाभ होनेपर सबका वह ज्ञाता दृष्टा बनता है, इसलिये इसका आत्मा यह नाम भी सार्थक है । और प्राणी कहनेसे इसके विविध प्रकारके प्राणोंका बोध होता है । हमें मनुष्यके शरीरमें पाँच ज्ञानेन्द्रियोंकी उपलब्धि होती है । इन द्वारा वह विविध प्रकारके विषयोंको ग्रहण करता है । इनके सिवा वह मनसे सोचता विचारता है, श्वासोच्छ्वास लेता है, शरीरसे विविध प्रकारकी चेष्टाएँ करता है, वचन बोलता है और एकके बाद दूसरे शरीरको धारण करता है । पाँच इन्द्रियाँ, श्वासोच्छ्वास, आयु, कायबल, वचनबल और मनोबल ये दस प्राण हैं जिनसे इसका प्राणी यह नाम भी सार्थक है । ये ही दस प्राण व्यवहारसे जीवन क्रियाके प्रयोजक माने गये हैं । इन द्वारा भौतिक शरीरमें जीवके अस्तित्वका ज्ञान होता है ।

हम पहले इसी जीवके मुक्त और संसारी ये दो भेद करके संसारी जीवके अनेक भेदोंका निर्देश कर आये हैं । प्रश्न यह है कि सब जीव एक समान स्वभाववाले होकर भी उनके ये विविध भेद क्यों दिखाई देते हैं । क्या बिना कारणके वे इन विविध प्रकारके भेदोंको और विविध प्रकारके शील स्वभावोंको धारण कर सकते हैं । जैन दर्शन इसी प्रश्नका उत्तर कर्मको स्वीकार करके देता है ।

नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती कर्मके अस्तित्वको स्वीकार करते हुए गोम्मटसार जीवकाण्डमें कहते हैं—

“जह भारवहो पुरिसो वहइ भरं गेहिऊण कावडियं ।

एमेव वहइ जीवो कम्मभरं कायकावडियं ॥२०१॥”

जिस प्रकार भारको वहन करनेवाला पुरुष कावरके सहारे उसको ढोता है उसी प्रकार कायरूपी कावरका सहारा लेकर यह जीव कर्मरूपी भारका वहन करता है ।

ये ही कर्म जीवकी इन विविध अवस्थाओंके कारण हैं ।

साधारणतः इस विषयमें यह प्रश्न किया जाता है कि गर्भमें माता पिताके रज-वीर्यके मिलनेसे बालककी उत्पत्ति होती है । विश्वके सब संसारी जीव तीन भागोंमें बटे हुए हैं—कुछ जीव गर्भज होते हैं, कुछ जीव सम्मूर्च्छन होते हैं और कुछ जीव उपपादज होते हैं । इनमेंसे जिन जीवोंकी उत्पत्तिके जो साधन निश्चित हैं उन्हींसे उन जीवोंकी उत्पत्ति होती है ।

इस समय वैज्ञानिकोंने विविध प्रकारकी वनस्पतियों पर कुछ प्रयोग किए हैं जिनमें उन्हें सफलता भी मिली है । वे खट्टे नीबूको प्रयोग द्वारा मीठा कर सकते हैं फूलोंका रंग और आकृति भी बदल सकते हैं । इंजक्शन द्वारा पशुओं और मनुष्योंकी नस्लमें भी वे सुधार कर सकते हैं । इससे भी अपने-अपने नियत साधनोंसे उस-उस जीवकी उत्पत्तिका ज्ञान होता है ।

इसी प्रकार प्रत्येक जीवका शील-स्वभाव और शरीरकी रचना बाह्य परिस्थिति पर अवलम्बित जान पड़ती है । एक जीव क्रोधी होता है और दूसरा शान्त । यह भेद उस-उस जीवकी शरीर रचना और बाह्य

परिस्थितिपर अवलम्बित है। सामुद्रिक शास्त्रमें भी इसके कुछ निश्चित नियम दिए गए हैं। इसलिए यह शंका होती है कि जिन कारणोंसे जीवकी उत्पत्ति होती है या जिन कारणोंसे उनका शील-स्वभाव बनता है उनके सिवा इनकी उत्पत्तिका कर्म नामक अन्य अज्ञात कारण नहीं है। यदि कर्मकी सत्ता स्वीकार न की जाय तो भी विविध प्रकारके जीवोंकी उत्पत्ति, आकृति और शील-स्वभावमें जो अन्तर दिग्गार देता है वह बन जाता है।

प्रश्न मार्मिक है और किसी अशमे वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डालनेवाला भी। पर यहाँ विचारणीय विषय यह है कि जीव द्रव्य स्वतन्त्र होकर भी इन विविध प्रकारके आकारों और शील-स्वभावोंको क्यों धारण करता है। वह कौनसा हेतु है जिसके कारण वह कभी मनुष्यके शरीरमें आकर वहाँ प्राप्त होनेवाली सामग्रीके अनुसार सुख-दुःखका वेदन करता है और कभी तिर्यञ्चके शरीरमें आकर वहाँ प्राप्त परिस्थितिके अनुसार अपना विकास करता है। कभी क्रोधके निमित्त मिलने पर वह क्रोधी होता है और कभी मानके निमित्त मिलने पर वह मानी होता है। यह तो माना नहीं जा सकता कि वर्तमान जीवनके सिवा उसका पृथक् कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, क्योंकि भूतचतुष्टयसे 'अहप्रत्ययवेद्य और ज्ञान दर्शनलक्षणवाले जीवकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। वैज्ञानिकोंने अपनी सूक्ष्म बुद्धिका उपयोग करके अणुवम और हाइड्रोजनवम बनाया है। बहुत सम्भव है कि उनका वैज्ञानिक अनुसंधान इसके आगे बहुत कुछ प्रगति करनेमें समर्थ हो पर इन मयमें जीवन डालनेमें उनका प्रयोग सफल होगा यह साहस पूर्वक नहीं कहा जा सकता है। इसलिए तर्क और अनुभव यही माननेके लिए बाध्य करता है कि इस शरीरमें पञ्चभूतोंके योग्य सम्मिश्रणके सिवा एक स्वतन्त्र और स्थायी व्यक्तित्व अवश्य विद्यमान है जो इन सब विविध अवस्थाओं और शील-स्वभावोंको धारण करता है। माता पिताका रज वीर्य या अन्य प्राकृतिक तथा दूसरे साधन शरीरकी उत्पत्तिमें सहायक हो सकते हैं पर जिन कारणोंसे यह जीव इन साधनोंका उपयोग करनेमें समर्थ होता है और जो इसे अपने मूल स्वभावमें च्युत कर इन अवस्थाओंमें समायोजन करता है, मानना पड़ता है कि वह इन सब दृश्य कारणोंसे भिन्न है। दर्शनकारोंने उसे ही 'कर्म' शब्दसे सम्बोधित किया है यह कर्मवादकी युक्ति है। इसी बातको स्पष्ट करते हुए पञ्चाध्यायी कारणे लिखा है—

‘एको हि श्रीमान् एको दरिद्र इति च कर्मणः ।’

[पञ्चाध्यायी अ. २, श्लोक ५०]

एक सुखी है और दूसरा दुखी इससे कर्मका अस्तित्व जाना जाता है।

२. जीव और कर्मका सम्बन्ध अनादि है

हम देख चुके हैं कि जीव क्या है और उसकी संसारमें क्या अवस्था हो रही है। जीवमें कर्मके निमित्त से राग, द्वेष आदिका प्रादुर्भाव होता है और इससे नये कर्मका बन्ध होता है। इनकी यह परम्परा अनादि है। इसी भावको व्यक्त करते हुए पञ्चास्तिकायमें लिखा है—

जो खलु संसारस्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो ।

परिणामादो कर्मं कर्मादो होदि गदीसु गदी ॥१२८॥

गदिमधिगदस्स देहो देहादो इ दियाणि जायन्ते ।

तेहिं दु विसयग्गहणं तत्तो रागो य दोसो वा ॥१२९॥

जायदि जीवस्सेवं भावो संसारचक्कवालमि ।

संसारमें स्थित जीवके राग, द्वेष और मोहरूप परिणाम होते हैं। उनके कारण कर्म बंधते हैं। कर्मोंसे गतियोंमें जन्म लेना पड़ता है। इससे शरीर मिलता है। शरीरके मिलनेसे इन्द्रियाँ होती हैं। इनसे यह जीव विषयोंको ग्रहण करता है। विषयोंको ग्रहण करनेसे राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं। यह संसारका एक चक्र है। इसमें जो जीव स्थित है उसकी ऐसी अवस्था होती है।

प्रश्न है कि यह जीव संसार दशाको क्यों प्राप्त होता है। जब राग द्वेषके बिना कर्मबन्ध नहीं हो सकता है और कर्मबन्ध हुए बिना राग द्वेष नहीं हो सकता तब जीवकी यह अवस्था कैसे होती है? समाधान यह है कि संसारकी यह चक्र परम्परा बीज वृक्ष या पिता पुत्रके समान अनादि कालसे चली आ रही है। बीजसे वृक्ष होता है और वृक्षसे बीज। यह कोई नहीं कह सकता कि इनमेंसे किसका प्रारम्भ सर्व प्रथम हुआ। हम तो इनका ऐसा ही सम्बन्ध देखते हैं। इससे अनुमान होता है कि इनकी यह परम्परा अनादि है। इसी प्रकार जीवके संसारके कारणभूत राग-द्वेष और कर्मबन्धकी परम्पराको भी अनादिकालीन मानना पड़ता है।

यद्यपि वर्तमानकालमें विकासवादके सिद्धान्तको माननेवाले यह कहते हैं कि मनुष्य अपनी प्रारम्भिक विकासकी अवस्थामें बन्दर था और धीरे धीरे उसे यह अवस्था प्राप्त हुई है। यह विकासवादका सिद्धान्त कुछ भी क्यों न हो किन्तु इससे उक्त मान्यतामें कोई बाधा नहीं आती। अतीत कालमें जहाँ भी जा कर हम प्राणियोंकी उत्पत्तिके क्रमका विचार करते हैं वहाँ हमें यही मानना पड़ता है कि जिस क्रमसे इस समय प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है उसी क्रमसे अतीत कालमें उनकी उत्पत्ति होती रही होगी। यह नहीं हो सकता कि पहले उनकी उत्पत्ति बिना माता पिताके या बिना बीज वृक्षके होती थी और अब इनकी उत्पत्ति इस क्रमसे होने लगी है।

यद्यपि इस व्यवस्थासे ईश्वरवादी सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि विश्वकी उत्पत्तिका मुख्य कारण ईश्वर है। ईश्वरके मनमें यह इच्छा हुई कि 'एकोऽहं बहुः स्याम' अर्थात् 'मैं एक बहुत होऊँ।' और फिर उसने विश्वकी सृष्टि की। इसकी विस्तृत चरचा मनुस्मृति और दूसरे वैदिक पुराण ग्रन्थोंमें की है वहाँ लिखा है—

'यह' संसार पहले तम प्रकृतिमें लीन था, इससे यह दिखलाई नहीं देता था। सर्वत्र गाढ निद्राकी सी अवस्था थी। तब अव्यक्त स्वयंभू अन्धकारका नाशकर पञ्च महाभूतों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) को प्रकट करते हुए स्वयं व्यक्त हुए। अनेक प्रकारके जीवोंकी सृष्टि की। इच्छासे उस परमात्माने ध्यान करके सर्वप्रथम अपने शरीरसे जल उत्पन्न किया और उसमें शक्तिरूप बीज डाला। वह बीज सूर्यके समान चमकनेवाला सोनेका-सा अण्डा बन गया.....। उस अण्डेमें वह ब्रह्मा एक वर्ष तक रहा। तब उसने आप ही अपने ध्यानसे उस अण्डेके दो टुकड़े कर डाले। ब्रह्माने उन दो टुकड़ोंसे स्वर्ग और पृथिवीका निर्माण किया। मध्यमें आकाश, आठों दिशाएँ और जलका शाश्वत स्थान समुद्रका निर्माण किया। फिर आत्मासे मन और मनसे अहंकार तत्त्वको प्रकट किया। साथ ही बुद्धि, तीनो गुण (सत्व, रज और तम) और विषयोंको ग्रहण करनेवाली पाँचों इन्द्रियोंको क्रमशः उत्पन्न किया।.....। फिर उस ईश्वरने सृष्टिके आरम्भमें वेदके शब्दोंसे सबके अलग अलग नाम और कार्य नियत कर दिये। और उनकी संस्थाएँ बना दी। सनातन ब्रह्माने यज्ञसिद्धिके लिये अग्नि, वायु और सूर्यसे क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद और शामवेद इन तीनोंको प्रकट किया। फिर समय, समयके लिये विभाग, नक्षत्र, ग्रह, नदी, समुद्र और पहाड़ बनाए।

हिरण्यगर्भने अपने शरीरके दो भाग किए और आधेसे पुरुष और आधेसे स्त्री बन गया। उस स्त्रीमें उसने विराट पुरुषकी सृष्टि की। 'मैंने प्रजाओंकी सृष्टिकी इच्छासे अति दुष्कर तपस्या करके दस महर्षियोंको उत्पन्न किया।'.....इस प्रकार मेरी आज्ञासे इन महात्माओंने अपने तपयोगसे कर्मानुरूप स्थावर जङ्गमकी सृष्टि की।

इस पर प्रश्न यह उठता है कि ब्रह्मा या ईश्वरके मनमें इस क्रमसे विश्वकी रचनाका विचार क्यों आया। उसने जिस क्रमसे आदिमें पशु, पक्षी, मत्स्य, सरीसृप और मनुष्यकी उत्पत्ति की थी आज भी उसी क्रमसे वह उनकी उत्पत्ति क्यों नहीं करता। क्यों नहीं वह वन्ध्या या पतिविहीना स्त्रियोंको क्रमसे कम एक

एक पुत्र दे देता है जिससे वे अपने बन्ध्यापन या पतिके अभावके दुखको भूल जायें। वे मनुष्य जो कुष्ठमें जर्जर हो रहे हैं या जो धनाभावके कारण पशुओंका जीवन बिता रहे हैं उन्हें क्यों नहीं ऐसे साधन प्रदा देता है जिनका आलम्बन पाकर वे अपने कष्टको कुछ कम करनेमें समर्थ हों। उनके पाप ईश्वरको ऐसा नहीं करने देते, इस कथनमें कुछ भी सार नहीं है, क्यों कि पुण्यके समान पापका निर्माण भी तो उगीने किया है? उसने पापका निर्माण ही क्यों किया ?

एक यथार्थवादी होनेके नाते विचार करनेसे यही ज्ञात होता है कि इस प्रकार विश्वकी उत्पत्ति मानना कोरी कल्पना है। वे दर्शन जो ईश्वरवादी माने जाते हैं उनसे भी इस कल्पनाका समर्थन नहीं होता। ईश्वरवादका समर्थन करनेवाले मुख्य दर्शन दो हैं—एक न्याय और दूसरा वैशेषिक। किन्तु इनका विचार इस सृष्टिक्रमको स्वीकार नहीं करता।

इस प्रकार विचार करने पर ज्ञात होता है कि विश्वकी यह रचना अनादि है। थोड़ा बहुत जो उसमें समय समय पर परिवर्तन दिखलाई देता है उसमें किसीकी इच्छा कारण न होकर परस्परमें सम्बद्ध घटनाक्रम ही उसके लिये दायी है। सूर्य नियत समय पर उगता है और नियत समय पर अस्त होता है। हमें किसी अज्ञात शक्तिका हाथ नहीं है। जगत्का यह क्रम अनादि कालसे इसी प्रकारसे चला आ रहा है और अनन्त काल तक चलता रहेगा। जिन विचारकोंका जगत्के इस स्वाभाविक क्रमकी ओर ध्यान गया है उन्होंने विश्वकी यथार्थ स्थितिका विश्लेषण करके विश्वमें स्थित अनन्त पदार्थोंके संयोग और स्वभावको ही इसका कारण माना है। जीव और कर्मका ऐसा स्वभाव है जिससे वे अनादि कालसे परस्पर सम्बद्ध हो रहे हैं और जब तक उन्हें परस्पर बन्धके कारणोंका संयोग मिलता रहेगा तब तक वे बन्धको प्राप्त होते रहेंगे। जीव और कर्मके अनादि सम्बन्धकी चरचा करते हुए गोम्मटसार कर्मकाण्डमें लिखा है—

‘पथवी सील सहावो जीवंगाणं अणाइसंबंधो ।

कणयोवले मलं वा ताणस्थितं सय सिद्धं ॥ २ ॥’

कनकोपलके मलके समान जीव और कर्मका सम्बन्ध अनादि है। इसके अस्तित्वको सिद्ध करनेके लिये अन्य प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है, वह स्वतःसिद्ध है।

ब्रह्मसूत्रमें संसारकी अनादिता इन शब्दोंमें स्वीकार की है—

न कर्माविभागात् इति चेत् ? न; अनादित्वात् ।

[ब्रह्मसूत्र २, १, ३५ ।]

इसका शंकर भाष्य है—

नैष दोषः, अनादित्वात् संसारस्य । भवेद् एष दोषो यदि अदिमान् संसारः स्यात् । अनादौ तु संसारे बीजाङ्कुरवत् हेतुहेतुसद्भावेन कर्मणः सर्गवैषम्यस्य च प्रवृत्तिर्न विरुद्धयते ।

इसमें स्पष्टतः संसारकी अनादिता स्वीकार की गई है। इससे जीव और कर्मका सम्बन्ध अनादि सिद्ध होता है।

३. कर्म क्या है

कर्म क्या है? विचार करनेपर ज्ञात होता है कि जीवका स्पन्दन तीन प्रकारका होता है—कायिक, वाचनिक और मानसिक।

जीव शरीरसे कुछ न कुछ क्रिया करता है, वचनसे कुछ न कुछ बोलता है और मनसे कुछ न कुछ सोचता है। ये तीन क्रियाएँ हैं जो प्रत्येकके अनुभवमें आती हैं। ये बाह्य हैं। इनके सिवा तीन आभ्यन्तर क्रियाएँ भी होती हैं जिन्हे योग कहते हैं।

‘कायवाङ्मनः कर्म योगः ।’

[तत्त्वार्थसूत्र ६, १ ।]

‘काय, वचन और मनका व्यापार योग है।’

योगका दूसरा नाम स्पन्दन है। कायके निमित्तसे जीवकी स्पन्दन क्रियाको काययोग कहते हैं। वचनके निमित्तसे जीवकी स्पन्दन क्रियाको वचनयोग कहते हैं और मनके निमित्तसे जीवकी स्पन्दन क्रियाको मनोयोग कहते हैं। काय, वचन और मन आलम्बन है और जीवकी स्पन्दन क्रिया कर्म है।

जीवकी यह स्पन्दन क्रिया यो ही समाप्त नहीं हो जाती, किन्तु जिन भावोंसे यह स्पन्दन क्रिया होती है उसका संस्कार अपने पीछे छोड़ जाती है।

‘ये संस्कार चिरकालतक स्थायी रहते हैं इसका दृष्टान्त हमारे लिये अपरिचित नहीं है। हम जिसे स्मृति कहते हैं जिसके फलस्वरूप पूर्वानुभूत वस्तुका स्मरण होता है वह संस्कारके सिवा और है ही क्या? स्मृतिकी यह करामात हम प्रतिदिन देखते हैं। प्राकृतिक जगत्में भी संस्कारके कुछ कम दृष्टान्त नहीं हैं। फोनोग्राफ़ यन्त्रके समीप यदि कोई गीत गाया जाय तो वह गीत संस्कारके रूपमें उस यन्त्रमें रक्षित रहता है। पीछे युक्तिसे उसका उद्बोधन करनेपर वही गीत पुनः श्रुतिगोचर होने लगता है।’

किन्तु इन संस्कारोंका आधार जीव नहीं माना जा सकता, क्योंकि जीवका संसार पुद्गलके आलम्बनसे होता है, अतः जिन भावोंसे स्पन्दन क्रिया होती है उनके संस्कार क्षण-क्षणमें जीव द्वारा गृहीत पुद्गलोंमें ही संचित होते रहते हैं।

इसीलिये अकलंक देवने कहा है—

‘यथा भाजनविशेषे प्रक्षिप्तानां विविधरसबीजपुष्पफलानां मदिराभावेन परिणामः तथा पुद्गलानां-मपि आत्मनि स्थितानां योगकषायवशात् कर्मभावेन परिणामो वेदितव्यः।’

[राजवार्तिक]

जिस प्रकार पात्रविशेषमें डाले गये अनेक रसवाले बीज, पुष्प और फलोंका मदिरारूपसे परिणामन होता है उसी प्रकार आत्मामें स्थित पुद्गलोंका भी योग और कषायके कारण कर्मरूपसे परिणामन होता है।

यद्यपि पुद्गलोंकी जातियाँ अनेक हैं पर वे सब पुद्गल इस काम नहीं आते। मात्र कर्मण नामक पुद्गल ही इस काम आते हैं। ये अति सूक्ष्म और सब लोकमें व्याप्त हैं। जीव स्पन्दन क्रिया द्वारा प्रति समय इन्हे ग्रहण करता है और अपने भावोंके अनुसार इन्हे संस्कारित कर कर्मरूपसे परिणामता है।

‘कर्म’ शब्द तीन अर्थमें प्रयुक्त होता है—(१) जीवकी स्पन्दन क्रिया, (२) जिन भावोंसे स्पन्दन क्रिया होती है उनके संस्कारसे युक्त कर्मण पुद्गल और (३) वे भाव जो कर्मण पुद्गलोंमें संस्कारके कारण होते हैं।

जीवकी स्पन्दन क्रिया और भाव उसी समय निवृत्त हो जाते हैं किन्तु संस्कार युक्त कर्मण पुद्गल जीवके साथ चिरकालतक सम्बद्ध रहते हैं। ये यथायोग्य अपना काम करके ही निवृत्त होते हैं।

ये कालान्तरमें फल देनेमें सहायता करते हैं, इसलिये इन्हे द्रव्यकर्म कहते हैं और इसीसे इनकी द्रव्य निक्षेपके तद्व्यतिरिक्त भेदमें परिगणना की जाती है।

१. कर्मवाद और जन्मान्तरसे।

२. पुद्गलोंकी मुख्य जातियाँ २३ हैं। यथा—अणुवर्गणा, सख्याताणुवर्गणा, असख्याताणुवर्गणा, अनन्ताणुवर्गणा, आहारवर्गणा, अग्राह्यवर्गणा, तैजसवर्गणा, अग्राह्यवर्गणा, भाषावर्गणा, अग्राह्यवर्गणा, मनोवर्गणा, अग्राह्यवर्गणा, कर्मणवर्गणा, ध्रुववर्गणा, सान्तरनिरन्तरवर्गणा, शून्यवर्गणा, प्रत्येकशरीरवर्गणा, ध्रुवशून्यवर्गणा, बादरनिगोदवर्गणा, शून्यवर्गणा, सूक्ष्मनिगोदवर्गणा, शून्यवर्गणा और महास्कन्धवर्गणा।

३. कहां किस अर्थमें किस शब्दका प्रयोग किया जाता है इसका ठीक तरहसे ज्ञान कराना निक्षेपका काम है। इसके मुख्य भेद चार हैं—नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। किसीका नाम रखना नाम निक्षेप है। इसमें उस शब्दसे ध्वनित होनेवाले क्रिया और गुण नहीं देखे जाते। उदाहरणार्थ—किसीका नाम महावीर रखनेपर उसमें गुण धर्म नहीं देखे जाते। एक पदार्थकी दूसरे पदार्थमें स्थापना कर तदनुकूल वचन व्यवहार करना स्थापना निक्षेप है। उदाहरणार्थ—महावीरकी प्रतिमाको महावीर मानना। द्रव्यकी जो अवस्था आगे होनेवाली है उसका पहले कथन करना द्रव्य निक्षेप है। यथा जो आगे आचार्य होनेवाला

अदृष्ट, भाग्य, विधि, भवितव्य और दैव ये द्रव्य कर्मके नामान्तर हैं और कहीं कहीं इन नामोंके अर्थमें व्यत्यय भी देखा जाता है।

कर्मका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है = यत् क्रियते तत् कर्म = जो किया जाता है वह कर्म है। संसारी जीवके रागादि परणाम और स्पन्दन क्रिया होती है, इसलिये ये दोनो तो उसके कर्म हैं ही, किन्तु इनके निमित्तसे कार्मण नामक पुद्गल कर्मभाव (जीवकी आगामी पर्यायके निमित्तभाव) को प्राप्त होते हैं इसलिये इन्हे भी कर्म कहते हैं।

कहा भी है—

‘जीवपरिणामहेतुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति ।

पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमइ ॥’

[समयप्राभृत ८०]

जीवके रागादि परिणामोका निमित्त पाकर पुद्गल कर्मरूपसे परिणमन करते हैं और पुद्गल कर्मोका निमित्त पाकर जीव भी रागादि रूपसे परिणमन करता है।

यह कर्म (द्रव्य कर्म) का सुस्पष्ट अर्थ है। इसके द्वारा हम संसारमे होनेवाली अपनी विविध अत्र-स्थाओंका नाता जोड़ते हैं।

४. कर्मबन्धके हेतु

हम देख चुके हैं कि जीवकी कायिक, वाचनिक और मानसिक तीन प्रकारकी स्पन्दन क्रिया होती है। उसका नाम कर्म है। किन्तु यह क्रिया अकस्मात् नहीं होती। इसके होनेमें जीवके शुभाशुभ भाव कारण पड़ते हैं। जीवके प्रति समय शुभ या अशुभ भाव होते हैं। कभी वह किसीको इष्ट मान उसमें राग करता है और कभी किसीको अनिष्ट मान उसमें द्वेष करता है। उसके इन भावोंकी सन्तति यहीं समाप्त नहीं होती, किन्तु वह प्रति समय अनेक प्रकारसे प्रस्फुटित होती रहती है। प्राचीन ऋषियोंने क्रियाके साथ इनकी पाँच जातियाँ मानी हैं—मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग।

मिथ्यादर्शनका लक्षण है ‘स्व’ की सत्ताका पृथक् रूपसे अनुभवमें न आना और ‘पर’ को ‘स्व’ मानना। संसारमे जीव और देहका संयोग है। इसलिये यह जीव मिथ्यादर्शनके प्रभाववश अपने ज्ञायक स्वभावको भूल पुद्गलको स्व मान रहा है। मिथ्यादर्शनका अर्थ है विपरीत श्रद्धान। संसारी जीवकी यह प्रथम भूमिका है। इसके सद्भावमे जीवकी अदेवमे देवबुद्धि, अगुरुमें गुरुबुद्धि और अतत्त्वमे तत्त्वबुद्धि होती है। धर्म अधर्मका स्वरूप भी पहिचानमे नहीं आता। यह दो प्रकारसे होता है। किसी जीवके निसर्गसे होता है और किसीके अन्त्यके उपदेशका निमित्त पाकर होता है।

विरतिका अभाव अविरति है। जीवके प्रति समय हिसा, अमृत, स्तेय, अन्नह्न और अन्य वस्तुके संचयके भाव होते हैं। उसके जीवनमे यह कमजोरी घर किये हुए है कि अन्य वस्तुके विना मेरा काम नहीं चल सकता, इसलिये कभी वह अन्य जीवके वधका विचार करता है, कभी असत्य बोलता है कभी उस वस्तुके संग्रहका भाव करता है जिसका उसने अपने पुरुषार्थसे न्याय्यवृत्तिसे अर्जन नहीं किया या जो उसे अन्यसे प्राप्त नहीं हुई, कभी अन्यमे रति करता है और कभी आवश्यकतासे अधिकका संचय करता है।

प्रमादका अर्थ है अपने कर्तव्यके प्रति अनादर भाव। यह भाव स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रियोंके विषयमे तीव्र आसक्ति होनेसे, क्रोध मान माया और लोभरूप परिणाम होनेसे, स्त्रीकथा, राजकथा, देशकथा और भोजनकथाके निमित्तसे तथा निद्रा और स्नेहवश होता है, इसलिए इसके मुख्य भेद पन्द्रह हैं।

है उसे पहलेसे आचार्य कहने लगना द्रव्यनिक्षेप है। तथा जो साधन सामग्री आगामी कालमें कार्यके होनेमें सहायक होती है उसका अन्तर्भाव भी द्रव्यनिक्षेपमें होता है। वर्तमान अवस्थासे युक्त पदार्थको उसी नामसे पुकारना भाव निक्षेप है। यथा पढ़ाते समय अध्यापक कहना।

जो आत्माको कृश करता है, स्वरूप रति नहीं होने देता उसे कषाय कहते हैं। कषायके मुख्य भेद चार है—क्रोध, मान, माया और लोभ। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद ये भी इसीके भेद हैं। किन्तु ये ईपत् कषाय हैं, इसलिए इन्हे नोकषाय कहते हैं।

योगका अर्थ है आत्मप्रदेशोका परिस्पन्द। यह मन, वचन और कायके निमित्तसे होता है, इसलिए इसके मनोयोग, वचनयोग और काययोग ये तीन भेद हैं।

जीवकी स्पन्दन क्रिया इन भावोका निमित्त पाकर कर्मबन्धका कारण होती है इसलिए कर्मबन्धके हेतु रूपसे इनकी परिगणना की जाती है। तत्त्वार्थसूत्रमें कहा है।

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगाः बन्धहेतवः ॥ ८-१ ॥

मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये बन्धके हेतु है।

प्रमादको पृथक् न गिनकर यह बात समयप्राभृतमे इन शब्दोमे कही गई है—

सामाण्यपक्षया खलु चउरो भणति बंधकत्तारो ।

मिच्छन्तं अविरमणं कसाय जोगा य बोद्धव्वा ॥ १०९ ॥

कर्मबन्धके कर्ता सामान्य कारण चार है—मिथ्यादर्शन, अविरति, कषाय और योग।

संसारी जीव परिणामोंके अनुसार कई भूमिकाओंमें विभक्त हैं। उनके आधारसे उक्त प्रकारसे बन्ध कारणोंका निर्देश किया है। प्रथम भूमिका मिथ्यादर्शनकी है। यह जीवकी ज्ञान चेतनाके अभावमें होती है। यहाँ किसीके कर्म फलचेतनाकी और किसीकी कर्मचेतनाकी प्रधानता देखी जाती है। इसमें बन्धके सब हेतु पाये जाते हैं। किन्तु उनमें मिथ्यादर्शनकी मुख्यता होनेसे यह मिथ्यादर्शनकी भूमिका कहलाती है। दूसरी तीसरी, चौथी और पाँचवीं ये अविरतिकी भूमिकाएँ हैं। आदिकी सब भूमिकाओंमें परिपूर्ण अविरति होती है और पाँचवीं भूमिकामें वह आंशिक होती है। इन भूमिकाओंमें मिथ्यादर्शनके सिवा बन्धके केवल चार हेतु होते हैं। किन्तु यहाँ अविरतिकी प्रधानता होनेसे इन्हें अविरतिकी भूमिका कहते हैं। छठी प्रमादकी भूमिका है। यहाँ मिथ्यादर्शन अविरतिके बिना बन्धके तीन हेतु होते हैं। किन्तु इसमें प्रमादकी प्रधानता होनेसे इसे प्रमादकी भूमिका कहते हैं। सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं ये कषायकी भूमिकाएँ हैं। यहाँ कषायकी प्रधानता होनेसे इन्हें कषायकी भूमिका कहते हैं। इनमें कषाय और योग ये दो बन्धके हेतु होते हैं। आगे तेरहवीं भूमिका तक मात्र योगका सद्भाव होता है। चौदहवीं भूमिका बन्ध और बन्धके हेतुओंसे रहित है।

आगममें इन भूमिकाओंकी गुणस्थान संज्ञा है। जीवके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और साम्यकूचारित्र ये तीन गुण हैं। इनके यथायोग्य तारतम्यसे ये भूमिकाएँ निष्पन्न होती हैं।

इनमें जहाँ जितने बन्धके हेतु होते हैं उनके अनुसार वहाँ कर्मबन्ध होता है। उसमें भी सब कर्मोंके बन्धके मुख्य कारण योग और कषाय हैं। योगसे जीव और कर्मका संयोग होता है तथा कषायसे उसमें स्थिति और फलदान शक्तिका आविर्भाव होता है। कहा भी है—

‘जोगा पयडिपदेसा द्विदिअणुभागा कसायदो हंति ॥’

[द्रव्यसंग्रह गाथा २९]

योगसे प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध होता है तथा कषायसे स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध होता है।

५. कर्मके भेद

हम पहले कह आये हैं कि जीवका संसार कर्मोंके संयोगसे होता है। संसार अवस्थामें कर्म जीवकी अनुजीवी और प्रतिजीवी दोनों प्रकारकी शक्तियोंका घात करता है। इससे इसके अनेक भेद हो जाते हैं। किन्तु वर्गीकरण करनेपर जातिकी अपेक्षा उसके मुख्य भेद आठ होते हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय।

ज्ञानावरण—जीवकी ज्ञान शक्तिको आवरण करनेवाले कर्मकी ज्ञानावरण संज्ञा है। इसके पांच भेद हैं।

दर्शनावरण—जीवकी दर्शन शक्तिको आवरण करनेवाले कर्मकी दर्शनावरण संज्ञा है। इसके नौ भेद हैं।

वेदनीय—सुख और दुःखका वेदन करनेवाले कर्मकी वेदनीय संज्ञा है। इसके दो भेद हैं।

मोहनीय—राग, द्वेष और मोहको उत्पन्न करनेवाले कर्मकी मोहनीय संज्ञा है। इसके दर्शनमोहनीय और चरित्रमोहनीय ये दो भेद हैं। दर्शनमोहनीयके तीन और चरित्रमोहनीयके पच्चीस भेद हैं।

आयु—नरकादि गतियोंमें अवस्थानके कारण भूत कर्मकी आयु संज्ञा है। इसके चार भेद हैं।

नाम—नाना प्रकारके शरीर, वचन और मन तथा जीवकी गति इन्द्रिय आदिरूप विविध अवस्थाओंके कारणभूत कर्मकी नाम संज्ञा है। इसके तेरानवे भेद हैं।

गोत्र—सदाचारियों और कदाचारियोंकी परम्परामें जन्म लेने या उसे स्वीकार करनेकी कारणभूत कर्मकी गोत्र संज्ञा है। जैन जर्म जाति या आजीविकाकृत मनुष्योंके नीच उच्च भेद नहीं मानता। ये भेद गुणकृत माने गये हैं। साधु अचारवालोंकी परम्परामें जो जन्म लेते हैं, जो ऐंसे मनुष्योंकी सद्गतिको जीवनका उच्चतम कर्तव्य समझते हैं और जो जीवनके संशोधनमें सहायक आचारको अपने जीवनमें स्वीकार करते हैं वे उच्च गोत्री होते हैं और जो इनके विरुद्ध अचारवाले होते हैं वे नीचगोत्री होते हैं। नीचगोत्री अपने जीवनमें अशुभ मार्गका त्याग कर उच्चगोत्री हो सकते हैं। ऐंसे मनुष्य श्रावकदीक्षा और मुनिदीक्षाके पूरे अधिकारी होते हैं।

अन्तराय—जीवकी दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य ये पांच अनुजीवी शक्तियाँ हैं। इनका आवरण करनेवाले कर्मकी अन्तराय संज्ञा है। इसके पांच भेद हैं।

इन आठों कर्मोंके प्रकारान्तरसे चार भेद हैं—जीवविपाकी, पुद्गलविपाकी, क्षेत्रविपाकी और भवविपाकी। जिनका विपाक जीवमें होता है उनकी जीवविपाकी संज्ञा है। इन कर्मोंके विपाकके फलस्वरूप जीवको अज्ञान, अदर्शन, सुख, दुःख, राग, द्वेष और मोह आदि भावोंकी और नारक आदि पर्यायोंकी उपलब्धि होती है। जिनका विपाक जीवसे एक क्षेत्रावगाह सम्बन्धको प्राप्त पुद्गलोंमें होता है उनकी पुद्गलविपाकी संज्ञा है। इन कर्मोंके विपाकस्वरूप जीवको विविध प्रकारके शरीर, वचन और मनकी उपलब्धि होती है। जिन कर्मोंका विपाक भवमें होता है उनकी भवविपाकी संज्ञा है। इन कर्मोंके विपाकस्वरूप जीव नरक आदि गतियोंमें अवस्थान करता है। तथा जिन कर्मोंका विपाक क्षेत्रमें उपलब्ध होता है उनकी क्षेत्रविपाकी संज्ञा है। इन कर्मोंके फलस्वरूप जीव पुरातन शरीरका त्यागकर नूतन शरीरको प्राप्त करनेके लिए गमन करते हुए अन्तरालमें पूर्व शरीरके आकारको धारण करता है।

ये सब कर्म पुण्य और पापके भेदसे दो प्रकारके हैं। ये भेद फलदान शक्तिकी मुख्यतासे किये गये हैं। दान, पूजा, मन्दकषाय, साधुसेवा, दया, अलोभता, परगुणप्रशंसा, सत्समागम, अतिथिसेवा और वैधानृत्य आदि शुभ कार्योंके करनेसे और तदनुकूल मानसकी वृत्ति होनेसे जिन कर्मोंकी गुड, खाँड़, शर्करा और अमृतोपम फलदान शक्ति उपलब्ध होती है उनकी पुण्यकर्म संज्ञा है और मदिरापान, माससेवन, परस्त्रीगमन, शिकार करना, जुआ खेलना, रात्रि भोजन करना, चुगली करना, अतिथिके प्रति आदर भाव न रखना, दुष्ट पुरुषोंकी संगति करना, परदोषदर्शन, कषायकी तीव्रता और लोभातिरेक आदि अशुभ कार्योंके करनेसे और तदनुकूल मानस वृत्तिके होनेसे जिन कर्मोंकी नीम, काँजीर, विष और हलाहलके समान फलदान शक्ति उपलब्ध होती है उनकी पापकर्म संज्ञा है।

फलदान शक्ति घाति और अघातिके भेदसे दो प्रकारकी है। घातिरूप फलदान शक्तिके चार भेद हैं—लता, दारु, अस्थि और शैल। उत्तरोत्तर अनुभाग शक्तिकी कठोरताका ज्ञान करानेके लिए इसका यहाँ लता आदि रूपसे नामकरण किया है। इस प्रकारकी फलदान शक्तिसे युक्त सब कर्म पापरूप ही होते हैं। किन्तु अघातिरूप फलदानशक्ति पाप और पुण्यके भेदसे दो प्रकारकी होती है। यह भी प्रत्येक चार चार प्रकारकी होती है। इसके नामोंका निर्देश पहले किया ही है।

प्रत्येक जीवमें दो प्रकारके गुण होते हैं—अनुजीवी और प्रतिजीवी। जो केवल जीवमें होते हैं वेजीवके अनुजीवी गुण हैं और जो जीवके सिवा अन्य द्रव्योंमें भी उपलब्ध होते हैं वे उसके प्रतिजीवी गुण हैं। कर्मोंके घाति और अघाति इन भेदोंका कारण मुख्यता ये दो प्रकारके गुण ही हैं। ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र्य, वीर्य, दान, लाभ, भोग और उपभोग ये अनुजीवी गुण हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार कर्म इन गुणों पर प्रहार करते हैं इसलिए इनकी घाति संज्ञा है और इनके सिवा शेष कर्मोंकी अघाति संज्ञा है।

६. कर्मका कार्य

कर्मका मुख्य कार्य जीवको संसारमें रोक रखना है। जीवके परावर्तनका नाम ही संसार है। वह पाँच प्रकारका है—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। कर्मके निमित्तसे ही जीव इन पाँच प्रकारके परावर्तनोंमें परिभ्रमण करता है। चौरासी लाख योनियाँ और उनमें परिभ्रमण करते हुए जीवकी जो विविध अवस्थाएँ होती हैं उनका मुख्य निमित्त कर्म है। इसके कार्यका निर्देश करते हुए स्वामी समन्तभद्र आत्ममीमांसामें कहते हैं—

‘कामादिप्रभवश्चित्रं कर्मबन्धानुरूपतः।’

‘जीवके कामादि भावोंकी उत्पत्ति अपने अपने कर्मबन्धके अनुरूप होती है।’

हम जीवके दो भेदोंका उल्लेख करके यह बतला आये हैं कि मुक्त अवस्था जीवकी स्वाभाविक दशा है। इस अवस्थामें जीवकी प्रति समय जो परिणति होती है उसके होनेमें साधारण कारण काल द्रव्यको छोड़कर अन्य निमित्तकी आवश्यकता नहीं पड़ती और इसीसे वह परनिरपेक्ष होनेसे शुद्ध कहलाती है। किन्तु संसार अवस्थामें जीवकी प्रत्येक समयकी परिणति निमित्त सापेक्ष होनेसे बदलती रहती है। कभी वह एकेन्द्रिय होता है, कभी द्वीन्द्रिय होता है, कभी त्रीन्द्रिय होता है, कभी चतुरिन्द्रिय होता है और कभी पञ्चेन्द्रिय होता है। पञ्चेन्द्रिय होकर भी कभी नारक होता है, कभी तिर्यञ्च होता है, कभी मनुष्य होता है और कभी देव होता है। कभी वह कामी होता है, कभी क्रोधी होता है, कभी मानी होता है और कभी विद्वान् या मूर्ख होता है। एक जीव बहुत प्रकारके आकार और शील स्वभावोंको धारण करता है। इस प्रकार संसार अवस्थामें जीवकी प्रति समयकी परिणति जुदी-जुदी होती रहती है इसलिए इसके जुदे-जुदे-निमित्त कारण माने गये हैं। ये निमित्तसंस्कार-रूपमें आत्मासे सम्बद्ध होते रहते हैं और कालान्तरमें तदनुकूल परिणतिके उत्पन्न करनेमें सहायता प्रदान करते हैं। जीवकी शुद्धता और अशुद्धता इन निमित्तोंके सद्भाव और असद्भाव पर आधारित है। जब तक जीव इन निमित्तोंके सञ्चित होनेमें स्वयं सहायक होता है और वे उसकी प्रति समयकी अवस्थाके होनेमें सहायक होते हैं तब तक जीवकी अशुद्धता बनी रहती है और इस निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धकी परम्पराका अन्त होने पर जीव शुद्ध दशाको प्राप्त हो जाता है। जैनदर्शनमें जीवकी अशुद्धताके कारणभूत इन्हीं निमित्तोंको कर्म शब्दसे पुकारा जाता है।

इस विषयमें कर्मकी आलोचना करनेवाले यह कहते हैं कि जिस समय जिस प्रकारकी बाह्य सामग्री उपलब्ध होती है उस समय संसारी जीवकी उसके अनुकूल परिणति होती है। सुन्दर सुस्वरूप स्त्रीके मिलने पर राग होता है। जुगुसाकी सामग्री मिलने पर ग्लानि होती है। विप आदिके भक्षण करने पर मरण होता है। धन सम्पत्तिको देखकर लोभ होता है और लोभ वश उसके अर्जन करने, छीन लेने या चुरा लेनेका भाव होता है। ठोकर लगने पर दुःख होता है और मालाका संयोग होने पर सुख; इसलिए यह कहा जा सकता है कि केवल कर्म ही जीवकी विविध प्रकारकी परिणतिके होनेमें निमित्त नहीं है किन्तु अन्य पदार्थ भी उसके होनेमें निमित्त हैं।

किन्तु विचार करने पर यह युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अन्तरङ्गमें वैसी योग्यताके अभावमें बाह्य सामग्री कुछ भी करनेमें समर्थ नहीं है। उदाहरणार्थ—एक ऐसा योगी है जिसका चित्त स्फटिक मणिके समान स्वच्छ निर्मल है। यदि उसके सामने चित्तको मोहित करनेवाली स्त्री या अन्य सामग्री उपस्थित की जाती है तो भी उसके मनमें राग पैदा नहीं होता। या एक ऐसा व्यक्ति है जिसे विवक्षित वस्तु अनिष्टकर प्रतीत

होती है। भले ही वह वस्तु दूसरोंके लिए प्रिय है। तो भी वह व्यक्ति उस वस्तुको देखकर अप्रसन्नता ही व्यक्त करता है। इससे विदित होता है कि अन्तरङ्गमें योग्यताके अभावमें बाह्य वस्तुका कोई मूल्य नहीं है।

यद्यपि कर्मके विषयमें भी यही अनुपपत्ति उपास्थित की जाती है पर कर्म और बाह्य सामग्री इनमें मौलिक अन्तर है। कर्मका विशद विवेचन हम पिछले एक परिच्छेदमें कर आये हैं। उससे विदित होता है कि जिस समय आत्मा जो भाव कहता है उस समय उस भावके संस्कारोंसे युक्त कर्मरज आत्मासे सम्बन्धको प्राप्त होते हैं और कालान्तरमें वे ही कर्म आत्माको सुख-दुःखके वेदन करानेमें सहायक होते हैं किन्तु बाह्य सामग्रीकी यह स्थिति नहीं है।

महर्षियोने अपने अनुभव द्वारा दो प्रकारके निमित्त कारण स्वीकार किए हैं—कर्म और नोकर्म। नेमि-चन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती नोकर्मकी मीमांसा करते हुए कहते हैं—

‘वस्त्र ज्ञानावरणका, प्रतीहार दर्शनावरणका, अस्ति वेदनीयका, मन्त्र मोहनीयका, आहार आयुका, शरीर नामकर्मका, उच्च और नीच शरीर गोत्र कर्मका तथा भण्डारी अन्तराय कर्मका नोकर्म, द्रव्य कर्म है।’

आगे पुनः वे कहते हैं—

‘मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका व्याघात करनेवाले वस्त्रादि पदार्थ मतिज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरण कर्मके नोकर्म द्रव्यकर्म है। अधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानका व्याघात करनेवाले संक्लेशकर पदार्थ अधिज्ञानावरण और मनःपर्ययज्ञानावरण कर्मके नोकर्म द्रव्यकर्म है। भैंसका दही आदि पदार्थ पाँच निद्रावरण कर्मके नोकर्म द्रव्यकर्म हैं। इष्ट अन्नपानादि साताका, अनिष्ट अन्न-पानादि आसाताका, आयतन सम्बन्धका, अनायतन मिथ्यात्वका, विडौल पुत्र हास्यका, सुपुत्र रतिका, इष्टवियोग अनिष्टसयोग अरतिका और मृत पुत्रादि शोकका नोकर्म द्रव्यकर्म है।’

इस कथनका मथितार्थ यह है कि कर्मके उदयसे जीवके विविध प्रकारके अज्ञान, अदर्शन, सुम्न, दुःख, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया और लोभ आदि परिणाम होते हैं अथवा पर इन भावोंके निमित्तभूत कर्मके उदय में प्रायः वस्त्र आदि बाह्य पदार्थोंकी सहायतासे ही वे परिणाम होते हैं। यतः ये कर्मके उदयमें सहकार करते हैं इसलिए इनकी नोकर्म संज्ञा है।

इसी भावको व्यक्त करते हुए कथाय प्राभृतके रचयिता गुणधर आचार्य कहते हैं—

‘खेत्तभवकालपोगलद्विदिविवागोदयखयो दु ॥’

विविध प्रकारके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव ये अपने-अपने योग्य कर्मके उदयमें सहकार करते हैं और इससे कर्मका उदय होकर जीव इष्टानिष्ट फलका भोक्ता होता है। उदाहरणार्थ—कोई मनुष्य लुधासे अत्यन्त व्याकुल हो रहा है। ऐसी अवस्थामें वहाँ एक दूसरा मनुष्य आता है और उसकी लुधाजन्य पीड़ाको देखकर उसे सुदर सुखादु भोजन कराता है। इससे उसकी लुधाजन्य वेदना दूर होकर वह परम सुखका अनुभव करता है। यहाँ परम सुखके अनुभव करानेमें साताका उदय कारण है और साताके उदयमें दूसरे मनुष्य द्वारा दिया गया सुन्दर सुखादु भोजन कारण है। यह द्रव्य नोकर्मका उदाहरण है। इसी प्रकार क्षेत्र आदि पदार्थ कर्मके शुभाशुभ फलके प्रदान करनेमें नोकर्म होते हैं।

किन्तु जिस प्रकार विवक्षित कर्मका विवक्षित भावके साथ अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध है। उस प्रकार नोकर्म द्रव्यकर्मके साथ इन भावोंका अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध नहीं है। उदाहरणार्थ—जीवका अज्ञान भाव ज्ञानावरण कर्मके उदयसे ही होता है, अन्य प्रकारसे नहीं। यह नहीं हो सकता कि ज्ञानावरणका उदय रहा आवे पर अज्ञान-भाव न भी हो, या यह भी नहीं हो सकता कि ज्ञानावरणका नाश हो जाने पर भी अज्ञान भाव बना रहे। जब होगा ये परस्पर सापेक्ष ही होगा। जिसके ज्ञानावरणका उदय होता है उसके अज्ञान भाव अथवा ही होता है। इसी प्रकार जिसके अज्ञानभाव होता है उसके ज्ञानावरणका उदय अथवा ही होता है। इन दोनोंकी समव्याप्ति है। परन्तु इस प्रकार नोकर्मके साथ जीवके अज्ञान आदि भावोंकी समव्याप्ति नहीं है। जो वस्त्र आदि अज्ञानके कारण माने जाते हैं उनके रहनेपर भी किसीके अज्ञान होता है और किसीके नहीं भी होता। इसी अभिप्रायको ध्यानमें रखकर बाह्य पदार्थोंको नोकर्म संज्ञा दी है। कर्म वैसी योग्यताका सूचक है पर बाह्य सामग्रीका

वैसी योग्यताके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। कभी वैसी योग्यताके सद्भावमे भी बाह्य सामग्री नहीं मिलती और कभी उसके अभावमे भी बाह्य सामग्रीका संयोग देखा जाता है। किन्तु कर्मके सम्बन्धमे यह बात नहीं है। उसका सम्बन्ध तभीतक आत्मासे रहता है जबतक उसमे तदनुकूल योग्यता उपलब्ध होती है। इन दोनों तत्वोंको कर्म और नोकर्म संज्ञा देनेका यही कारण है।

इतने विवेचनसे हम यह जाननेमे समर्थ होते हैं कि कर्मका कार्य क्या है। तथापि इसे और अधिक विशदरूपसे समझनेके लिए सर्वप्रथम उसके वर्गीकरणपर दृष्टिपात कर लेना आवश्यक है। यह तो हम पहले ही बतला आये है कि मुख्य कर्म आठ हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय। इनमेसे प्रारम्भके तीन और अन्तराय ये चार घातिकर्म हैं और शेष अधातिकर्म हैं। प्रकारान्तरसे ये आठों कर्म जीवविपाकी, पुद्गलविपाकी, भवविपाकी और क्षेत्रविपाकी इन चार भागोंमे बटे हुए हैं। जीवविपाकी कर्म वे हैं जिनका विपाक जीवमे होता है। जिनके विपाकस्वरूप शरीर, वचन और मनकी प्राप्ति होती है वे पुद्गलविपाकी कर्म हैं। भवके निमित्तसे जिनका फल मिलता है वे भवविपाकी कर्म कहे जाते हैं और क्षेत्र विशेषमे जो अपना कार्य करते हैं वे क्षेत्रविपाकी कर्म हैं। भवविपाकी और क्षेत्रविपाकी कर्म जीवविपाकी कर्मोंके ही अन्तर्भेद है केवल कार्यविशेषका ज्ञान करानेके लिए इनका अलगसे निर्देश किया है, इसलिए कर्मोंके मुख्य भेद दो हैं—जीवविपाकी और पुद्गलविपाकी। कर्मके कार्यको ठीक तरहसे हृदयंगम करनेके लिए ये दो भेद हमें प्रकाशका काम देते हैं।

यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि जीवका ससार जीव और पुद्गल इन तत्वोंके संयोगका फल है। अकेला जीव संसारी नहीं हो सकता और अकेला कर्म भी कुछ नहीं कर सकता। इन दो तत्वोंके मिलापके फलस्वरूप ससारकी सृष्टि होती है। इसलिए कर्मका प्रथम कार्य जीवको संसारी बनाना है। इसके बाद कर्मोंके उक्त वर्गीकरण पर दृष्टिपात करनेसे हम जानते हैं कि जीवकी नर नरकादि विविध अवस्थाएँ, सुख-दुःख और अज्ञान आदि भाव ये जीवविपाकी कर्मोंके कार्य हैं और विविध प्रकारके शरीर, मन वचन ये पुद्गल विपाकी कर्मोंके कार्य हैं। इस विवेचनके उपसंहारस्वरूप हम कह सकते हैं कि कर्मके निमित्तसे जीवकी विविध प्रकारकी अवस्था और भाव होते हैं और जीवमे ऐसी योग्यता उत्पन्न होती है जिससे वह योग्यद्वारा यथायोग्य शरीर, वचन और मनके योग्य पुद्गलको ग्रहणकर उन्हें शरीरादिरूपसे परिणामाता है।

इस विषयमे अधिकतर विद्वान् यह विचार व्यक्त करते हैं कि केवल इतना ही कर्मका कार्य नहीं है किन्तु धन सम्पत्ति, महल, वगीचा, राज्य, पुत्र, स्त्री आदि सम्पदाएँ भी कर्मके कार्य हैं। पुण्य कर्मके उदयसे जीवको सुखकर सामग्रियोंकी प्राप्ति होती है और पापके उदयसे दुःखकर सामग्री मिलती है। ऐसे ही विचार कुछ प्राचीन लेखकोंने भी व्यक्त किये हैं। पण्डित प्रवर टोडरमलजी मोक्षमार्गप्रकाशमे लिखते हैं—

‘तहाँ वेदनीय करि तो शरीर विषै व शरीर तै बाह्य नाना प्रकार सुख दुःखनिको कारण पर द्रव्यनिका संयोग जुँरै है।’

—[पृ० ३५]

इसी अभिप्रायको उन्होने दूसरे स्थलपर इन शब्दोंमे दुहराया है—

‘बहुरि कर्मनिविषै वेदनीयके उदयकरि शरीर विषै बाह्य सुख दुःखका कारण निपजै है। शरीर विषै आरोग्यपनौ रोगीपनौ शक्तिवानपनौ दुर्बलपनौ अर श्रुधा तृषा रोग खेद पीडा इत्यादि सुख दुःखनिके कारण हो हैं। बहुरि बाह्य विषै सुहावना ऋतु पवनादिक वा इष्ट स्त्री पुत्रादिक वा मित्र घनादिक सुख दुःखके कारण हो हैं।’

[मोक्षमार्ग प्रकाश पृ० ५९]

इन विचारोंके अनुरूप वातावरण बननेमे नीतिकारों, कथालेखकों और नैयायिक दर्शनसे बड़ी सहायता मिली है। नीतिकारों और कथालेखकोंकी यह प्रवृत्ति रही है कि जिस विषयकी उन्होने प्रशंसा करना प्रारम्भ की उसे चरम सीमापर पहुँचाकर ही छोड़ा और जिस विषयकी उन्होने निन्दा करना प्रारम्भ की उसकी दुर्गति बनाकर ही उन्होने साँस ली। कर्मकी प्रशंसामे वे लिखते हैं—

‘भाग्यं फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम्।’

भाग्य ही सर्वत्र काम करता है, विद्या और पौरुष कुछ काम नहीं आता।

‘जलधिगतोऽपि न कश्चिद्विश्वत्तदगोऽपि रत्नमुपयाति ।’

पापी जीव समुद्रमें प्रवेश करनेपर भी रत्न नहीं पाता किन्तु पुरायात्मा जीव तटपर बैठे ही उन्हें प्राप्त कर लेता है ।

‘लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितं कः समर्थः ।’

ललाटमें जो कर्मकी रेखा खिच गई है उसे मेटनेके लिए कौन समर्थ है ।

‘जलनिधिपरतटगतमपि करतलमायाति यस्य भवितव्यम् ।

करतलगतमपि नश्यति यस्य च भवितव्यता नास्ति ॥’

जिसका भाग्य अनुकूल होता है उसके समुद्रके उस पार गई हुई वस्तु भी हाथमें आ जाती है और जिसका भाग्य प्रतिकूल होता है उसके हाथमें आई हुई भी वस्तु नष्ट हो जाती है ।

‘नाभयं भवतीह कर्मवशतो भावस्य नाशः कुतः ।’

लोकमें जो होनेवाला नहीं है वह नहीं ही होता और जो होनेवाला होता है वह होकर ही रहता है । यह सब विधिविधान कर्मके आधीन है ।

कथा लेखको और पुराणकारोंकी स्थिति इससे भिन्न नहीं है । ऐसा करते हुए उन्होंने कर्मवादके आध्यात्मिक पहलूको भुलाकर मात्र पिछली कई शताब्दियोंसे चली आ रही सामाजिक व्यवस्थाके नियमोंको ही सदा अपने सामने रक्खा है । और इसलिए उन्होंने ईश्वरके समान कर्मका भी अल्लके रूपमें उपयोग किया है ।

यहाँ हमें इन विचारोंके कारणोंकी छानबीनकर लेना उपयुक्त प्रतीत होता है । यर तो हम पहले ही लिख-आए है कि परलोकवादी जितने दर्शन है उन सबने कर्मके अस्तित्वको स्वीकार किया है किन्तु इन सबका दार्शनिक दृष्टिकोण अलग-अलग होनेसे कर्मकी व्याख्या भी उन्होंने अपने-अपने दृष्टिकोणके अनुरूप ही की है । प्रकृतमें उपयोगी होनेसे यहाँ हम इस सम्बन्धमें नैयायिक दर्शनके दृष्टि कोणको उपस्थित करेंगे ।

नैयायिक दर्शन कार्यमात्रके प्रति कर्मको कारण मानता है । वह कर्मको जीवनिष्ठ मानता है । उसका कहना है कि चेतनगत जितनी विषमताएँ हैं उनका कारण कर्म तो है ही साथ ही वह अचेतनगत सब प्रकारकी विषमताओंका और उनके न्यूनाधिक संयोगोंका भी जनक है । उसके मतसे जगत्में द्वयणुक आदि जितने भी कार्य होते हैं वे किसी न किसीके उपभोगके योग्य होनेसे उनका कर्ता कर्म ही है ।

इस दर्शनमें तीन प्रकारके कारण माने गये हैं—समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण । जिस द्रव्यमें कार्यकी सृष्टि होती है वह द्रव्य उस कार्यके प्रति समवायी कारण है । संयोग असमवायी कारण है । और अन्य सहकारी सामग्री निमित्त कारण है । तथा काल, दिशा, ईश्वर और कर्म ये कार्यमात्रके प्रति निमित्त कारण हैं । इनकी सहायता बिना कोई कार्य नहीं होता ।

ईश्वर और कर्म कार्यमात्रके प्रति साधारण कारण क्यो हैं, इस प्रश्नका उत्तर नैयायिक दर्शन इन शब्दोंमें देता है कि लोकमें जितने कार्य होते हैं वे सब चेतनाधिष्ठित ही होते हैं इसलिए तो ईश्वर सबका साधारण कारण है ।

इस पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब सबका कर्ता ईश्वर है तब फिर उसने सब प्राणधारियोंको एक-सा क्यो नहीं बनाया । वह सबको एक-से सुख, एक-से भोग और एक-सी बुद्धि दे सकता था । स्वर्ग या मोक्षका अधिकारी भी सबको एक-सा बना सकता था । दुखी, दरिद्र और निकृष्ट योनिवाले प्राणियोंको उसे रचना ही नहीं करनी थी । उसने ऐसा क्यो नहीं किया । जगत्में तो विषमता ही विषमता दिखाई देती है । इसका अनुभव सभीको होता है । क्या जीवधारी और क्या जड़ जितने भी पदार्थ हैं उन सबकी आकृति, स्वभाव और जाति जुदी-जुदी है । एकका मेल दूसरेसे नहीं खाता । मनुष्यको ही लीजिए । एक मनुष्यसे दूसरेमें मनुष्यमें बड़ा अन्तर है । एक सुखी है तो दूसरा दुखी । एकके पास सम्पत्तिका विपुल भण्डार है तो दूसरा दाने-दानेको भटकता फिरता है । एक सातिशयबुद्धिवाला है तो दूसरा निरामूर्ख । मात्स्यन्यायका सर्वत्र बोलवाला है । बड़ी मछली छोटी मछलीको निगल जाना चाहती है । यह भेद यहाँतक सीमित नहीं है ।

धर्म और धर्मायतनोंमें भी यह भेद दिखाई देता है। यदि ईश्वरने सबको बनाया है और वह मन्दिरोंमें बैठा है तो उसतक सबको क्यों नहीं जाने दिया जाता। क्या उन दलालोंका जो अन्यको मन्दिरमें जानेसे रोकते हैं उसीने निर्माण किया है? ऐसा क्यों है? जब ईश्वरने ही इस जगत्को बनाया है और वह करूणामय तथा सर्वशक्तिमान है तब फिर उसने जगत्की ऐसी विषम रचना क्यों की? यह प्रश्न है जिसका उत्तर नैयायिक दर्शन कर्मवादको स्वीकार करके देता है। वह जगत्की इस विषमताका कारण कर्मको मानता है। उसका कहना है कि ईश्वर जगत्का कर्ता है तो सही पर उसने विश्वकी रचना प्राणियोंके कर्मानुसार की है। जीव जैसा कर्म करता है उसीके अनुसार उसे योनि और भोग मिलते हैं। यदि अच्छे कर्म करता है तो अच्छी योनि और अच्छे भोग मिलते हैं। कविवर तुलसीदास जी इसी तत्त्वको स्वीकार करते हुए रामचरितमानसमें कहते हैं—

“करम प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा ॥”

ईश्वरने विश्वकी रचना कर्म प्रधान की है। जो अच्छा या बुरा जैसा काम करता है उसीके अनुरूप उसे फल मिलता है।

नैयायिक दर्शन कार्यमात्रके प्रति कर्मको साधारण कारण मानता है। इसके अनुसार जीवात्मा व्यापक है इसलिए जहां भी उसके उपभोगके योग्य कार्यकी सृष्टि होती है वहां उसके कर्मका संयोग होकर ही वैसा होता है। अमेरिकामें बननेवाली जिन मोटरो तथा अन्य पदार्थोंका भारतीयों द्वारा उपभोग होता है वे उनके उपभोक्ताओंके कर्मानुसार ही निर्मित होते हैं और इसीसे वे कालान्तरमें अपने-अपने उपभोक्ताओंके पास पहुँच जाते हैं। उपभोग योग्य वस्तुओंके विभागीकरणका कर्म तुलादण्ड है। जिसके पास विपुल सम्पत्ति है वह उसके कर्मानुसार है और जो निर्धन है वह भी अपने कर्मानुसार है। कर्म बटवारेमें कभी भी पक्षपात नहीं होने देता। गरीब और अमीरका भेद तथा स्वामी और सेवकका भेद मानवकृत नहीं है। अपने-अपने कर्मानुसार ही इन भेदोंकी सृष्टि होती है। इसी प्रकार जातिकृत भेद भी कर्मकृत ही है।

संक्षेपमें नैयायिक दर्शनका मन्तव्य यह है कि प्राणी जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है उसके अनुसार ईश्वर उसके फलकी व्यवस्था करता है। यदि कोई मनुष्य किसीके धनका अपहरण करता है तो अगले भवमें उसके धनका अवश्य ही अपहरण होता है और वर्तमान भवमें वह किसीकी सहायता करता है तो अगले भवमें उसे अवश्य ही सहायता मिलती है।

किन्तु जैनदर्शनमें बतलाये गये कर्मवादसे इस मतका समर्थन नहीं होता। यहां कर्मवादकी प्राण प्रतिष्ठा मुख्यतया आध्यात्मिक आधारोंपर की गई है। ईश्वरको तो जैनदर्शन स्वीकार करता ही नहीं। वह निमित्तको स्वीकार करके भी कार्यके आध्यात्मिक विश्लेषणपर अधिक जोर देता है। नैयायिक और वैशेषिक दर्शनने कार्य-कारणभावकी जो व्यवस्था की है वह उसे मान्य नहीं है। उसका मत है कि पर्यायक्रमसे बदलते रहना यह प्रत्येक वस्तुका स्वभाव है। इसके मतसे जिस कालमें वस्तुकी जैसी योग्यता होती है उसीके अनुसार कार्य होता है। जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव जिस कार्यके अनुकूल होता है वह उसका निमित्त कहा जाता है। कार्य अपने उपादानसे होता है किन्तु कार्य निष्पत्तिके समय अन्य वस्तुकी अनुकूलता ही निमित्तताका प्रयोजक है। निमित्त उपकारी कहा जा सकता है कर्ता नहीं। जैनदर्शनने जगत्को अकृत्रिम और अनादि क्यों माना है इसका रहस्य यही है। वह यावत् कार्योंमें बुद्धिमान् निमित्तकी आवश्यकता स्वीकार नहीं करता। घटादि कार्योंकी उत्पत्तिमें यदि बुद्धिमान् निमित्त देखा भी जाता है तो इससे सब कार्योंमें बुद्धिमान्को निमित्त मानना उचित नहीं है ऐसा इसका मत है।

जैनदर्शन कर्मको स्वीकार करके भी यावत् कार्योंके प्रति उसे निमित्त कारण नहीं मानता। वह जीवकी विविध अवस्थाएँ, शरीर, इन्द्रिय, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास इन कार्योंके प्रति ही कर्मको निमित्त कारण मानता है। इस दर्शनमें कर्मवादको जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार अन्य कार्य अपने अपने कारणोंसे होने हैं कर्म उनका कारण नहीं है। उदाहरणार्थ—पुत्रका प्राप्त होना, उसका मर जाना, रोजगारमें नफा नुकसानका होना, दूसरेके द्वारा अपमान या सन्मानका किया जाना, अकस्मात् मकानका गिर पड़ना, फसलका नष्ट

हो जाना, दुर्घटना द्वारा एक या अनेक व्यक्तियोंकी मृत्युका होना, ऋतुका अनुकूल या प्रतिकूल होना, अकाल या सुकालका पड़ना, रास्ता चलते-चलते अपघातका हो जाना, मनुष्य आदिपर विजली आदि गिरकर उसका मर जाना, शरीरमें रोगादिकका होना तथा विविध प्रकारके इष्टानिष्ट संयोगो व वियोगोका होना अदि जितने कार्य हैं उनका कर्म कारण नहीं है। भ्रमसे इन्हे कर्मोका कार्य माना जाता है। पुत्रकी प्राप्ति होनेपर मनुष्य भ्रमवश उसे अपने शुभ कर्मका कार्य समझता है और उसके मर जानेपर भ्रमवश उसे अपने अशुभ कर्मका कार्य समझता है। पर क्या पिताके पापकर्मके उदयसे पुत्रकी मृत्यु या पिताके पुण्योदयसे पुत्रकी उत्पत्ति सम्भव है। कभी नहीं। सच बात तो यह है कि ये इष्टसंयोग और इष्टवियोग आदि जितने कार्य हैं वे पुण्य और पाप कर्मके कार्य नहीं हैं। निमित्त अन्य बात है और कार्य अन्य बात है। कर्मोदयके निमित्तको कर्मका कार्य कहना उचित नहीं है।

यहां प्रसङ्गसे हम उस मतकी आलोचना करेंगे जिसके अनुसार बाह्य इष्टानिष्टके संयोग-वियोगमें कर्मकी उपादेयता स्वीकार की जाती है।

प्रश्न यह है कि एक सम्पन्न घरमें उत्पन्न होता है और दूसरा दरिद्र घरमें। एक अल्पायु होता है और दूसरा दीर्घायु। एकको जीवनमें नाना प्रकारके पूजा सत्कारकी प्राप्ति होती है और दूसरा दर-दरका भिखारी बना फिरता है। एक स्वर्ग जाकर देवसुखका उपभोग करता है और दूसरा नरकका कीड़ा होकर अनन्त यातनाएं सहन करता है। यदि इष्टसंयोग और इष्टवियोग आदि पुण्य और पाप कर्मका फल नहीं है तो यह सब क्या होता है ?

यह तो हम देखते हैं कि लोकमें एक ऐश्वर्यशाली होता है और दूसरा दरिद्र। तथा हम आगमसे यह भी जानते हैं कि देव लोकमें भोगोपभोगकी विपुल सामग्री उपलब्ध होती है और नरकमें न केवल उसका सर्वथा अभाव ही दिखाई देता है प्रत्युत वहां बहुतायतसे दुखके साधन ही देखे जाते हैं पर ऐसा क्यों होता है इसका विचार हमें तात्त्विक दृष्टिसे करना चाहिए।

आगममें व्यवस्था दो प्रकारकी बतलाई है—एक शाश्वतिक व्यवस्था और दूसरी प्रयत्नसाध्य व्यवस्था। देवलोक, नरक और भोगभूमिमें शाश्वतिक व्यवस्था होती है। वहा अनादि काल पहले जो व्यवस्था थी वही आज भी है। जहा जितने विमान, नरक या कल्पवृक्ष आदि हैं वे सदा उतने ही बने रहेंगे। उनका जो शृङ्गार है वह भी उसी प्रकार बना रहेगा। उसमें तिलमात्र भी अन्तर नहीं हो सकता। इसलिए अपने पूर्ववद्द आयुकर्मके अनुसार जो जहा उत्पन्न होता है उसे वहाकी सुख दुखमें निमित्त पड़नेवाली सामग्री अनायास मिलती है और जीवनके अन्तिम क्षणतक उसका संयोग बना रहता है। पुण्यातिशय न तो इसमें वृद्धि ही कर सकता है और न हीनपुण्य उसमें न्यूनता ही ला सकता है। हम यह तो कह नहीं सकते कि इन स्थानोंमें कर्मोका विपाक एक समान होता है; क्योंकि एक तो आगममें इस प्रकारका कोई उल्लेख नहीं मिलता और मनुष्यकी युक्ति व विवेक भी इसे स्वीकार नहीं करता। आगममें तो यहातक निर्देश किया है कि जिस प्रकार देवोके साताका उदय होता है उसी प्रकार असाताका भी उदय होता है। नारकियोंके सम्बन्धमें भी यही बात कही गई है। आगमका यह कथन तभी युक्तियुक्त ठहरता है जब हम यह मान लेते हैं कि इन स्थानोंमें भी कर्मके विपाकमें न्यूनाधिकता व यथासम्भव फेर बदल देखा जाता है।

थोड़ी देरको हम इस सामग्रीको पुण्य और पापका फल मान भी लें तब भी हमारे सामने यह तो प्रश्न रहता ही है कि यदि देवलोककी सामग्री पुण्यसे मिलती है तो ऊपर ऊपरके देवोंके पुण्यातिशयकी विशेषता होनेसे उत्तरोत्तर विपुल सामग्रीकी उपलब्धि होनी चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं होता। तत्त्वार्थसूत्रमें लिखा है कि ऊपर उपरके देव गति, शरीर परिग्रह और अभिमानसे हीन-हीन होते हैं। तत्त्वार्थसूत्रके इस कथनकी सार्थकता तभी बन सकती है जब हम बाह्य सामग्रीकी प्राप्ति पुण्यका फल नहीं मानते हैं। इस पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि तो फिर इसकी प्राप्तिका कारण क्या है ? प्रश्न स्पष्ट है और उसका उत्तर भी स्पष्ट है कि बाह्य सामग्रीकी प्राप्तिका मूल कारण पुण्य न होकर प्राणीकी कषाय है। एक कषाय ही ऐसा पदार्थ है जिसके निमित्तसे यह प्राणी बाह्य परिग्रहको स्वीकार करता है, उसका अर्जन करता है, संचय करता है और

सञ्चित द्रव्यका संरक्षण करता है। आगममें बतलाया है कि श्रैमुक लेश्यावाला जीव मरकर अमुक स्वर्ग या नरकमें मरकर उत्पन्न होता है और यह भी बतलाया है कि जो जीव जिस प्रकारके स्थानको प्राप्त करता है उसके मरणके पूर्व नियमसे उस प्रकारकी लेश्या हो जाती है। और यथासम्भव जीवन भर वह बनी रहती है। यह लेश्या क्या है? कषाय ही तो है। इसमें योगकी पुट देकर उसकी लेश्या सजा रख दी है।

पुण्य और पापकी जिनागममें लोकोत्तर व्याख्या की है। पुण्यकर्मका उपदेश क्या इसलिए दिया जाता है कि वह इस जीवनमें हेय जानकर जिस बाह्य और अन्तरङ्ग परिग्रहका त्याग करता है अगले जन्ममें उसके फलस्वरूप उसे वह पुनः प्राप्त कर अनन्त ससारका पात्र बने। पुण्यकर्मकी इससे बड़ी और विडम्बना क्या हो सकती है। हेय जानकर जिन पदार्थोंका इस जीवनमें त्याग किया जाता है उसके फलस्वरूप वह संसारबन्धनको अंशतः ढीला करता है और यदि यह वासना चिरकाल तक बनी रहती है तो पुनः वह उसी मार्ग पर दृढ़तापूर्वक चलने लगता है जिसके फलस्वरूप ऐसा क्षण उपस्थित होता है जब वह समग्ररूपसे भवबन्धनको काटनेमें समर्थ होता है। यह पुण्यकर्मकी लोकोत्तर व्यवस्था है और इसलिए हम दृढ़तापूर्वक कह सकते हैं कि बाह्य सामग्रीकी प्राप्ति पुण्यकर्मका फल विकालमें नहीं है।

अब हम इस लोककी ओर मुड़ते हैं। इस लोकमें हम अनेक प्रकारकी व्यवस्थाएँ देखते हैं। ये सब व्यवस्थाएँ किसने की? पुराकृत कर्म यदि इनका कारण है तब तो हमें उनके सम्बन्धमें बोलनेका अधिकार ही नहीं रहता। और यदि इनके निर्माणमें मनुष्यका हाथ माना जाता है तो हमें इन सब व्यवस्थाओंके प्रति मनुष्यकी कषायको ही दायी मानना चाहिए न कि कर्मको। कर्म व्यक्तिगत पुराकृत कार्योंका लेखा है और व्यवस्थाएँ समाजरचनाका अङ्ग हैं। इसलिए लोकमें एकका दरिद्र होना और दूसरेका राजा बनना यह कर्मका कार्य नहीं होकर समाजरचनाका फल है।

देखो, यहाँ सर्वप्रथम भोगभूमि थी। उस समय प्रकृतिसे प्राप्त साधनोंसे प्राणियोंकी आवश्यकताओंकी पूर्ति होती थी। धीरे धीरे इस स्थितिमें परिवर्तन होता है। साधनोंकी विरलताके साथ मनुष्योंकी आवश्यकताएँ बढ़ने लगती हैं। सब मनुष्य एक प्रकारके साधनोंके आधारसे आजीविका नहीं कर सकते यह देख विविध प्रकारके कला कौशल और उद्योगोंका निर्माण होता है। पृथिवी माताका पेट चीरकर साधन उपलब्ध करनेकी कला अवगत की जाती है। पुरानी व्यवस्थाओंका स्थान नई व्यवस्थाएँ लेती है। तब भी मनुष्योंके अभावकी पूर्ति नहीं होती, इसलिए मनुष्य अलग अलग समुदायोंमें विभक्त होकर पृथिवी माताका बटवारा करते हैं। सबके अलग-अलग नियम बनते हैं। चतुर चालाक मनुष्य आगे आते हैं। वे साधनों पर एकाधिकार स्थापित करते हैं और दूसरे प्रकारके मनुष्य पीछे रह जाते हैं। इससे मानव समुदायमें बेचैनी बढ़ती है। वह मिल कर व्यवस्थाको उलटनेका प्रयत्न करता है। इस समय हम विश्वमें जो अनेक बाद और व्यवस्थाएँ देख रहे हैं यह उनका संक्षिप्त लेखा है। इसके बाद भी यदि हम एकका गरीब होना और दूसरेका श्रीमान् होना आदिका कारण कर्मको मानते हैं तो कहना होगा कि यह वह कर्मवाद नहीं है जिसका उपदेश तीर्थङ्करोंने विश्वको दिया था।

साधारणतः प्राचीन साहित्यमें हमें दो तरहके मतोंका उल्लेख मिलता है जिनमें बाह्यसामग्रीकी प्राप्तिके कारणोंका निर्देश किया गया है। आगे इन दोनोंके आधारसे विचार कर लेना इष्ट है—

(१) षट्खण्डागम चूलिका अनुयोगद्वारमें प्रकृतियोंका नाम निर्देश करते हुए सूत्र १८ की टीकामें वीरसेन स्वामीने इनका विस्तृत विवेचन किया है। वहा सर्वप्रथम वे सातावेदनीय और असातावेदनीयके उसी स्वरूपका निर्देश करते हैं जो सर्वत्र प्रसिद्ध है और जो उनके जीवविपाकी प्रकृति होनेके अनुरूप है। किन्तु शंका समाधानके प्रसङ्गसे वे सातावेदनीयको जीवविपाकीके समान पुद्गलविपाकी भी मान लेते हैं। यद्यपि यह उनका व्यक्तिगत मत कहा जा सकता है पर इससे इस कथनका समर्थन होता है कि सातावेदनीयको पुद्गलविपाकी माने बिना उसे बाह्य सामग्रीकी प्राप्तिमें कारण नहीं माना जा सकता।

(२) तत्त्वार्थसूत्र अध्याय २ की सर्वार्थसिद्धि और राजवार्तिक टीकामें अरिहन्तोको प्राप्त होनेवाली सिंहासन आदि विभूतिके कारणोंका निर्देश करते हुए लाभान्तराय आदि कर्मोंके क्षयको उसका कारण बतलाया

है। किन्तु सिद्धोंमें अतिप्रसङ्ग दोष देनेपर इसके साथ शरीर नामकर्म आदिकी अपेक्षा और लगा दी है।

ये दो मत हैं जिनमें बाह्य सामग्रीकी प्रातिके कारणोंका स्पष्ट निर्देश किया है। अधिकतर विद्वान् इन्हीं दोनों मतोंका आश्रय लेते हैं। कोई वेदनीयको बाह्य सामग्रीकी प्रातिका निमित्त कहते हैं और कोई लाभान्तराय आदिके क्षय व क्षयोपशमको।

साधारणतः यह धारणा हो जानेसे कि संसारी प्राणीको जो भी संयोग वियोग होता है वह पुराकृत कर्मके विपाकके बिना नहीं हो सकता, विद्वान् प्रत्येक प्रश्नका उत्तर कर्मवादसे देनेका प्रयत्न करते हैं। हम पहले नैयायिक सम्मत कर्मवादका निर्देश कर आये हैं। वहाँ यह भी बतला आये है कि यह दर्शन कार्यमात्रके होनेमें कर्मको कारण मानता है। अधिकतर अन्य लेखकोने इस मतसे प्रभावित होकर ही भ्रामित की है।

हम रेलगाड़ीसे सफर करते हैं। हमें वहाँ अनेक प्रकारके मनुष्योंका समागम होता है। कोई हँसता हुआ मिलता है तो कोई रोता हुआ। इनसे हमें सुख भी होता है और दुःख भी। तो क्या ये हमारे शुभाशुभ कर्मोंके कारण रेलगाड़ीमें सफर करने आये हैं? कभी नहीं। जैसे हम अपने कामसे सफर कर रहे हैं वैसे वे भी अपने-अपने कामसे सफर कर रहे हैं। उनके संयोग-वियोगमें न हमारा कर्म कारण है और न उनका ही कर्म कारण है।

हमारे मकानका मुख पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओंकी ओर है। उसमें प्रति दिन सूर्य रश्मियाँ धरको आलोकित करती रहती हैं। जाड़े दिनोंमें वह प्रकाश हमें सुखद प्रतीत होता है और गर्मीके दिनोंमें दुःखकर प्रतीत होता है तो क्या यह प्रकाश हमारे शुभाशुभ कर्मोंके कारण हमारे मकानमें स्थान पाता है? कभी नहीं। मकानका मुख पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओंकी ओर है, इसलिए सूर्य रश्मियोंको मकानमें प्रवेश करनेमें बाधा उपस्थित नहीं होती।

हमारी दुकान बम्बईमें है। हमने अपनी समझसे एक अच्छे आदमीको उसका मुख्याधिकारी नियुक्त किया है। वह वहाँका सब काम सम्हालता है। कभी दुकानमें लाभ होता है और कभी हानि। तो क्या हमारे शुभाशुभ कर्मोंके कारण वहाँ हानि-लाभ होता है? यदि हानिका कारण हमारा कर्म है तो हम मुनीमको क्यों दोष देते हैं और लाभके प्रति भी हमारा कर्म दायी है तो हम मुनीम की पीठ क्यों ठोकते हैं। पूर्वोक्त व्यवस्थाके अनुसार मुनीम तो एक प्रकारका यन्त्र है जो हमारे कर्मसे प्रेरित होकर काम करता है। उसका उसमें गुण-दोष ही क्या है?

हमारी पत्नीने मन पसन्द एक साड़ी खरीदी है। वह उसे बड़े जतनसे पेटीमें सम्हालकर रखती है। पेटीकी बगलमें एक सूराख है जिसका उसे ज्ञान नहीं है। उसकी समझसे साड़ी सुरक्षित रखी हुई है किन्तु प्रतिदिन एक चुहिया सूराखसे भीतर जाकर उसे कुतरती रहती है। जब तक उसे हानिका ज्ञान नहीं होता वह प्रसन्न रहती है किन्तु इसका ज्ञान होनेपर वह विकलताका अनुभव करने लगती है। यदि वह हानि उसके कर्मानुसार होती है तो सबसे यह हानि होती है तभीसे वह विकलताका अनुभव क्यों नहीं करती?

स्पष्ट है कि ये या इसी जातिके लोकमें और जितने संयोग वियोग हैं उनमें कर्मका रश्मिमात्र भी हाथ नहीं है। सातावेदनीय और असातावेदनीय कर्मोंकी व्याप्ति सुख और दुःखके साथ की जा सकती है, बाह्य साधनोंके सद्भाव और असद्भावके साथ नहीं। यही कारण है कि श्रावकके अल्प परिग्रही और साधुके अपरिग्रही होनेपर भी वे उत्तरोत्तर पुरयात्मा अर्थात् पुरय कर्मके उपभोक्ता होते हैं, क्यों कि वे बहुपरिग्रही व्यक्तिकी अपेक्षा उत्तरोत्तर परम सुखका अनुभव करते हैं।

इसी प्रकार जब हम लाभान्तराय आदि कर्मोंके क्षय या क्षयोपशम जन्य कार्योंकी मीमांसा करते हैं तो हमें बलात् मानना पड़ता है कि इन कर्मोंका क्षय व क्षयोपशम भी बाह्य सामग्रीके संयोग वियोगका कारण नहीं हो सकता। कारण कि आत्माकी जो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य ये पाँच अनुजीवी शक्तियाँ मानी गई हैं अन्तराय कर्म उनका ही आवरण करता है, अतएव अन्तराय कर्मके क्षय व क्षयोपशमसे ये अनुजीवी शक्तियाँ ही आविर्भूत होती हैं।

इस प्रकार यह ज्ञात हो जानेपर कि बाह्य साधनोंकी उपलब्धि न तो साता और असातावेदनीयके

निमित्तसे होती है और न लाभान्तराय कर्मके क्षय या क्षयोपशमसे ही होती है, हमें उनकी उपलब्धिके कारणोंपर अवश्य ही विचार करना होगा। लोकमें बाह्य साधनोंकी प्राप्तिके अनेक मार्ग दिखाई देते हैं। उदाहरणार्थ—उद्योग करना, व्यवसाय करना, मजदूरी करना, व्यापारके साधन जुटाना, राज्याधिकारियोंकी या साधन सम्पन्न व्यक्तियोंकी चाटुकारी करना, उनसे मित्रता बढ़ाना, अर्जित धनकी रक्षा करना, उसे व्याजपर लगाना, प्राप्त धनको विविध व्यवसायोंमें लगाना, खेती करना, भांसा देकर ठगी करना, जेब काटना, चोरी करना, जुआ खेलना, भीख माँगना, धर्मादायको संचितकर पचा जाना आदि बाह्य साधनोंकी प्राप्तिके साधन हैं। इन व अन्य कारणोंसे बाह्य साधनोंकी उपलब्धि होती है, कर्मोंसे नहीं।

शंका—इन सब उपायोंके या इनमेंसे किसी एक उपायके करने पर हानि देखी जाती है सो इसका क्या कारण है ?

समाधान—प्रयत्नकी कमी, या बाह्य परिस्थिति या दोनो।

शंका—कदाचित् व्यवसाय आदिके नहीं करने पर भी धनकी प्राप्ति देखी जाती है सो इसका क्या कारण है ?

समाधान—यहाँ यह देखना है कि वह प्राप्ति कैसे हुई है। क्या किसीके देनेसे हुई है या कहीं पड़ा हुआ मिलनेसे हुई है ? यदि किसीके देनेसे हुई है तो इसमें जिसे मिला है उसके विद्या आदि गुण कारण हैं या देनेवालीकी स्वार्थसिद्धि और प्रेम आदि कारण है। यदि कहीं पड़ा हुआ होनेसे उसकी प्राप्ति हुई है तो इस मार्गसे प्राप्त हुआ धन पुण्यकर्मका फल कैसे कहा जा सकता है। यह तो चोरी है। अतः चोरीके भाव ही इस प्रकारसे धनकी प्राप्तिमें कारण है साता का उदय नहीं।

शंका—दो आदमी एकसाथ एकसा व्यवसाय करते हैं, फिर क्या कारण है कि एकको लाभ होता है और दूसरेको हानि ?

समाधान—व्यापार करनेमें अपनी-अपनी योग्यता और उनकी अलग-अलग परिस्थिति आदि इसका कारण है, पाप पुण्य नहीं। संयुक्त व्यापारमें एकको हानि और दूसरेको लाभ हो तो कदाचित् हानि-लाभ पाप पुण्यका फल माना भी जाय। पर ऐसा होता नहीं, अतः हानि लाभको पाप पुण्यका फल मानना उचित नहीं है।

शंका—यदि बाह्य साधनोंका लाभालाभ पुण्य पापका फल नहीं है तो फिर एक गरीब और दूसरा श्रीमान् क्यों होता है ?

समाधा—एकका श्रीमान् और दूसरेका गरीब होना यह सामाजिक व्यवस्थाका फल है, पुण्य पापका नहीं। जिन देशोंमें पूँजीवादी व्यवस्था है और व्यक्तिको संग्रह करनेकी कोई सीमा नहीं वहाँ अपनी अपनी योग्यता व साधनोंके अनुसार मनुष्य उसका संचय करते हैं। गरीब अमीर वर्गकी सृष्टि इसी व्यवस्थाका फल है। गरीब और अमीर इन भेदोंको पाप पुण्यका फल मानना किसी भी अवस्थामें उचित नहीं है। रूस ने बहुत कुछ हदतक इस व्यवस्थाका अन्त कर दिया है, इसलिए वहाँ इस प्रकारका भेद बहुत ही कम दिखाई देता है, फिर भी पुण्य पाप तो वहाँ भी है। सचसचमें पुण्य पाप तो वह है जो इन बाह्य व्यवस्थाओंसे परे है और वह आध्यात्मिक है। जैन कर्मशास्त्र ऐसे ही पुण्यका निर्देश करता है।

शंका—यदि बाह्य साधनोंका लाभालाभ पुण्य पापका फल नहीं है तो सिद्ध जीवोंको उसकी प्राप्ति क्यों नहीं होती ?

समाधान—बाह्य साधनोंका सद्भाव जहाँ है और जो कषाययुक्त हैं उन्हींके उनकी प्राप्ति सम्भव है। साधारणतः उनकी प्राप्ति जड़ और चेतन दोनोंको होती है, क्योंकि तिजोड़ीमें भी धन रखा रहता है, इसलिए उसे भी धनकी प्राप्ति कही जा सकती है। किन्तु जड़के रागादि भाव नहीं होता और चेतनके होता है, इसलिए वह ममकार और अहंकार भाव करता है।

शंका—यदि बाह्य साधनोंका लाभालाभ पुण्य पापका फल नहीं है तो न सही, पर सरोगता और निरोगता यह तो पुण्य पापका फल मानना ही पड़ता है ?

समाधान—सरोगता और नीरोगता दो प्रकारकी होती है आनुवंशिक और प्रयत्न साध्य । दोनों अवस्थाओंमें इसे पुण्य पापका फल नहीं माना जा सकता । जिस प्रकार बाह्य साधनोंकी प्राप्ति अपने-अपने कारणोंसे होती है उसी प्रकार सरोगता और नीरोगता भी अपने-अपने कारणोंसे होती है । इसे पाप पुण्यका फल मानना किसी भी अवस्थामें उचित नहीं है ।

शंका—सरोगता और नीरोगताके क्या कारण हैं ?

समाधान—अस्वास्थ्यकर आहार, विहार व संगति करना आदि सरोगताके कारण हैं और स्वास्थ्य वर्धक आहार, विहार व संगति करना नीरोगताके कारण हैं ।

इस प्रकार कर्मकी कार्यमर्यादाका विचार करनेपर यह सुस्पष्ट प्रतीत होता है कि कर्म बाह्य सम्पत्तिके संयोग वियोगका कारण नहीं है । किन्तु जिस कर्मका जो नाम है उसीके अनुसार वह काम करता है । सम्पत्तिका संयोग और वियोग होता अवश्य है किन्तु कहीं वह अनायास होता है और कहीं कर्मायपूर्वक होता है इसलिए सम्पत्तिके संयोगका मुख्य कारण कर्माय है और वियोगका कारण कहीं कर्माय है और कहीं कर्मायका त्याग है । जो रागादिमें वशीभूत होकर उसका त्याग करते हैं उनके वियोगका कारण रागादि परिणाम हैं और जो राग द्वेषकी हानि होनेसे उसका त्याग करते हैं उनके वियोगका कारण राग द्वेषकी हानि है ।

विषय-परिचय

महाबन्धके चार भागोंमेंसे प्रकृतिबन्धका प्रकाशन कई वर्ष पहले हो चुका है। यह स्थितिबन्ध है। इसके मुख्य अधिकार दो हैं—मूलप्रकृतिस्थितिबन्ध और उत्तरप्रकृतिस्थितिबन्ध। मूलप्रकृतिस्थितिबन्धके मुख्य अधिकार चार हैं—स्थितिबन्ध स्थानप्ररूपणा, निषेकप्ररूपणा, आबाधाकाण्डकप्ररूपणा और अल्पबहुत्व।

कुल संसारी जीवराशि चौदह जीव समासोमे विभक्त है। इनमेंसे एक-एक जीव समासमे अलग-अलग कितने स्थिति विकल्प होते हैं; स्थितिबन्धके कारणभूत संक्लेशस्थान और विशुद्धि स्थान कितने हैं और सबसे जघन्य स्थितिबन्धसे लेकर उत्तरोत्तर किसके कितना अधिक स्थितिबन्ध होता है इन तीनोंका उत्तर अल्पबहुत्वकी प्रक्रिया द्वारा स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा नामक पहले अनुयोगद्वारमे दिया गया है।

निषेक प्ररूपणाका विचार दो अनुयोगोंके द्वारा किया गया है—अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा। अनन्तरोपनिधाके द्वारा यह बतलाया गया है कि आयुकर्मके सिवा शेष सात कर्मोंका जितना स्थितिबन्ध होता है उसमेंसे आबाधाके कालको कम करके जो स्थिति शेष रहती है उसके प्रथम समयमें सबसे अधिक कर्म परमाणु निक्षिप्त होते हैं और इसके आगे द्वितीयादि समयमें क्रमसे उत्तरोत्तर एक-एक चयहीन कर्मपरमाणुओंका निषेद होता है। इस प्रकार विवक्षित समयमें जिस कर्मके जितने कर्म परमाणुओंका बन्ध होता है उनका उक्त प्रकारसे विभाग हो जाता है। पर आयुकर्मकी आबाधा स्थितिबन्धमें सम्मिलित नहीं है, इसलिये इसको प्राप्त कर्म द्रव्यका विभाग आयुकर्मके स्थितिबन्धके सब समयमें होता है।

किस कर्मकी कितनी आबाधा होती है इस बातका भी यहा संकेत किया है। यहाँ जो कुछ बतलाया है उसका भाव यह है कि एक कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थितिकी सौ वर्ष प्रमाण आबाधा होती है। इस हिसाबसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तीस कोड़ाकोड़ी सागर होनेसे इनकी उत्कृष्ट आबाधा तीन हजार वर्ष प्राप्त होती है; मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर होनेसे इसकी उत्कृष्ट आबाधा सात हजार वर्ष प्राप्त होती है और नाम व गोत्र कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बीस कोड़ाकोड़ी सागर होनेसे इनकी उत्कृष्ट आबाधा दो हजार वर्ष प्राप्त होती है। यह संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्यादृष्टि जीवके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होनेपर जो आबाधा प्राप्त होती है उसकी अपेक्षा जानना चाहिए। शेष तेरह जीव समासोमे सात कर्मोंमेंसे जिसके जिस कर्मका जितना उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है उसे ध्यानमें रख कर आबाधा जाननी चाहिए। वह कितनी होती है इसका निर्देश करते हुए वह अन्तर्मुहूर्त प्रमाण बतलाई है। कारण कि अन्तःकोड़ाकोड़ीके भीतर जितना भी स्थितिबन्ध होता है उस सबकी आबाधा अन्तर्मुहूर्त होती है ऐसा नियम है।

मात्र आयुकर्मकी आबाधाका विचार दूसरे प्रकारसे किया गया है। यहा मूल प्रकृति स्थितिबन्धका प्रकरण होनेसे संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवके आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तेतीस सागर कहकर उसकी आबाधा एक पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण कहा गया है। यह तो सुविदित है कि आयुकर्मका तेतीस सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मनुष्य और तिर्यञ्चके ही होता है। किन्तु यहा आबाधा एक पूर्व कोटिका त्रिभाग प्रमाण कहनेका कारण क्या है यह विचारणीय है

जीवद्वाराके चूलिका अनुयोगद्वारकी छठवीं और सातवीं चूलिकामे क्रमसे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध और जघन्य स्थितिबन्धका निर्देश किया है। वहा छठवीं चूलिकाके सूत्र क्रमांक २३ 'पुञ्चकोडितिभागो आबाधा' व्याख्या करते हुए वीरसेन स्वामी लिखते हैं—

‘पुञ्चकोडितिभागमादिं काउण जाव आसंखेपद्धा त्ति । जदि एदे आबाधावियप्पा आउअस्स सब्ब-ण्णिसेयट्ठिदीसु होंति तो पुञ्चकोडितिभागो चेव उक्कस्सण्णिसेयट्ठिदीए किमट्ठं उच्चदे ? ण; उक्कस्साबाधाए विणा उक्कस्सण्णिसेयट्ठिदीए चेव उक्कस्साबाधाउत्तादे ।’

आशय यह है कि यहाँ पर सूत्रमें नरकायु और देवायुकी उत्कृष्ट आबाधा पूर्वकोटिका त्रिभाग

प्रमाण कही है उससे पूर्वकोटिके त्रिभागसे लेकर आसत्तेपाद्धा कालतक जितने अवाधाके विकल्प होते हैं उन सबका ग्रहण होता है। इसपर प्रश्न यह होता है कि यदि आवाधाके ये सब विकल्प आयुकर्मकी सब निपेक स्थितियोंमें होते हैं तो उत्कृष्ट निपेक स्थितिकी उत्कृष्ट आवाधा पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण ही किसलिए कहते हैं? इसका समाधान करते हुए वीरसेन स्वामी लिखते हैं कि उत्कृष्ट आवाधाका कथन किये बिना उत्कृष्ट निपेक स्थितिमात्रसे उत्कृष्ट कर्मस्थिति नहीं प्राप्त होती है। यह बात बतलानेके लिए यहाँ उत्कृष्ट आवाधा कही है।

वीरसेन स्वामीके इस कथनका यह अभिप्राय है कि यद्यपि उत्कृष्ट आयुका बन्ध केवल उत्कृष्ट त्रिभागमें ही नहीं होता; वह उत्कृष्ट त्रिभागसे लेकर आसत्तेपाद्धा कालके भीतर आयु बन्धके योग्य कालमें कभी भी हो सकता है पर यहाँ उत्कृष्ट कर्मस्थिति दिखलानेके लिए केवल उत्कृष्ट आवाधा कही है।

स्थिति दो प्रकारकी होती है—कर्मस्थिति और निपेकस्थिति। आयु कर्मकी उत्कृष्ट निपेक स्थिति तैतीस सागर प्रमाण है और कर्मस्थिति पूर्वकोटिका त्रिभाग अधिक तैतीस सागर प्रमाण है। यहाँ इसी कर्मस्थितिका ज्ञान करानेके लिए उत्कृष्ट आवाधा कही है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

श्वेताम्बर कर्मप्रकृतिमें चारों आयुओंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका निर्देश करते समय उसका इस प्रकार निर्देश किया है—

‘तेजासुदही सुरनारयाउ सेसाउ पल्लतिगं ॥’ (कर्मप्रकृति बन्धनकरण, गाथा ७३)

अर्थात् देवायु और नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तैतीस सागर प्रमाण होता है।

किन्तु इसकी टीकामें ‘पूर्वकोटित्रिभागभयधिकानीति शेषः’ यह वाक्य आया है। सो इस कथनसे भी वीरसेन स्वामीके कथन की ही पुष्टि होती है। अर्थात् आयुकर्मकी उत्कृष्ट निपेक स्थिति तैतीस सागर प्रमाण होती है और उत्कृष्ट कर्मस्थिति पूर्वकोटिका त्रिभाग अधिक तैतीस सागर प्रमाण होती है।

यद्यपि महाबन्धमें आगे भुजगार बन्धका निरूपण करते समय आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उत्कृष्ट त्रिभागके प्रथम समयमें कहकर आगे अल्पतर बन्धका ही निर्देश किया है। अब यदि वहाँ निपेक स्थितिका ग्रहण करते हैं तो पूर्वोक्त कथनके साथ बाधा आती है इसलिए वीरसेन स्वामीके अभिप्रायको ध्यानमें रखकर वहाँ कर्मस्थितिका ही ग्रहण करना चाहिए और इस प्रकार महाबन्धके पूरे कथनकी सार्थकता भी हो जाती है तथा यह भी ज्ञात हो जाता है कि आयुकर्मका उत्कृष्ट निपेक स्थितिबन्ध केवल उत्कृष्ट त्रिभागमें ही नहीं होकर आयुबन्धके योग्य किसी कालमें भी हो सकता है।

अब प्रश्न यह रह जाता है कि यदि मूलमें आयु कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध आवाधा सहित लिया गया है तो केवल तैतीस सागर प्रमाण न कह कर पूर्वकोटिका त्रिभाग अधिक तैतीस सागर प्रमाण कहना चाहिये था। किन्तु मूलमें ऐसा न कहकर केवल तैतीस सागर प्रमाण ही कहा है, इसमें आवाधा कालको सम्मिलित नहीं किया गया है सो इसका क्या कारण है?

वीरसेन स्वामीके सामने भी यह प्रश्न था। उन्होने जीवस्थान चूलिकामें इस प्रश्नका समाधान किया है। वे कहते हैं कि आयुकर्मके स्थितिबन्धमें निपेक और आवाधा अन्योन्याश्रित नहीं हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिए निपेकस्थितिके साथ आवाधाका निर्देश नहीं किया है। आशय यह है कि जिस प्रकार ज्ञानावरण आदि कर्मोंकी निपेकस्थिति और आवाधाका अन्योन्य सम्बन्ध है। अर्थात् यदि ज्ञानावरणका तीस कोड़ा-कोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है तो उसकी आवाधा तीन हजार वर्ष प्रमाण ही होगी और एक आवाधाकाण्डक न्यून उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है तो एक समय कम तीन हजार वर्ष प्रमाण उत्कृष्ट आवाधा होगी, इस प्रकार जैसे यहाँ निपेक स्थिति और आवाधाका परस्पर सम्बन्ध है और इसलिए इन दोनोंका संयुक्त निर्देश किया जाता है उस प्रकार आयुकर्मकी निपेकस्थितिके साथ आवाधाका कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु कितनी ही आवाधाके रहनेपर कितना ही निपेकस्थितिबन्ध हो सकता है। यही कारण है कि यहाँ आयु कर्मके प्रकरणमें निपेकस्थिति और आवाधाका संयुक्त विवेचन नहीं किया गया है।

यहाँ प्रकरण प्राप्त होनेसे एक बातका और निर्देश कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। जीवस्थान

चूलिकामे इसी आयुके प्रकरणमे आबाधाका निर्देश करनेके अनन्तर सर्वत्र 'आबाधा' यह स्वतन्त्र सूत्र आता है। इस प्रसंगसे वीरसेन स्वामीने जो कुछ कहा है उसका भाव यह है कि जिस प्रकार ज्ञानावरणादिके समयप्रवर्द्धोंमे बन्धावलिके बाद अपकर्षण और परप्रकृति संक्रमण रूपसे बाधा दिखाई देती है उस प्रकार आयुकर्मके निषेकोंमे अपकर्षण और परप्रकृति संक्रमण रूपसे बाधा नहीं होती, यह दिखलानेके लिए दूसरी बार 'आबाधा' इस सूत्रकी रचना की है।

प्रश्न यह है कि क्या आयु कर्ममे अपकर्षण और परप्रकृति संक्रमण आदि नहीं होते। यदि होते हैं तो यहां इनका निषेध क्यों किया गया है। और इस दृष्टिसे इसे बाधा रहित क्यों कहा है? समाधान यह है कि आयुकर्मकी आबाधा शेष भुज्यमान आयु प्रमाण मानी गई है। नियम यह है कि एक आयुका दूसरी आयुमें संक्रमण नहीं होता। यहां भुज्यमान आयु अन्य है और बध्यमान आयु अन्य है। मान लो कोई एक जीव मनुष्यायुका भोग कर रहा है और उसने पुनः मनुष्यायुका ही बन्ध किया है तो भी ये एक आयु नहीं ठहरती और इसलिए बध्यमान आयुका न तो भुज्यमान आयुमे अपकर्षण होता है और न भुज्यमान आयुका बध्यमान आयुमे संक्रमण होता है। यही कारण है कि यहां आबाधाके भीतर निषेक स्थितिको बाधा रहित बतलाने के लिए 'आबाधा' इस सूत्रकी स्वतंत्र रचना की है। कदलीघात आदिसे बध्यमान आयुकी आबाधा न्यून हो जाय यह स्वतन्त्र बात है पर बध्यमान आयुके द्वारा अपकर्षण होकर और भुज्यमान आयुके द्वारा संक्रमण होकर वह न्यून नहीं हो सकती यह उक्त कथनका तास्पर्य है।

अनन्तरोपनिधाका विचार करनेके बाद परम्परोपनिधाका विचार आता है। यहां बतलाया है कि प्रथम निषेकसे आगे पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण स्थान जाने पर प्रथम निषेकमे जितने कर्म परमाणु निहित होते हैं उनसे वे आधे रह जाते हैं। इसी प्रकार जघन्य स्थितिके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर पत्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाण स्थान जाने पर वे आधे आधे रहते जाते हैं। प्रत्येक गुणहानिके प्रति चयका प्रमाण आधा आधा होता जाता है, इसलिए इस व्यवस्थाके घटित हो जानेमें कोई बाधा नहीं आती। मात्र कर्मस्थितिमेसे आबाधा कालको न्यून करके जो स्थिति शेष रहती है उसमें यथासम्भव पत्यके असंख्यातवें भागका भाग देकर वहा प्राप्त द्विगुणहानिका प्रमाण ले आना चाहिए। एक उत्कृष्ट स्थितिमें पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण नाना द्विगुणहानियां होती हैं इसलिए यहां एक द्विगुणहानिका प्रमाण लानेके लिए पत्यके असंख्यातवें भागसे भाजित किया गया है।

मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति सर्वाधिक है इसलिए उसमें सबसे अधिक नाना द्विगुणहानियां उपलब्ध होती है। शेष कर्मोंमें जिनकी जितनी न्यून स्थिति है उनमें उसी अनुपातसे वे न्यून उपलब्ध होती हैं। सब कर्मोंकी सब जीवसमासोंमें निषेक रचनाका यही क्रम है।

'आबाधाकाण्डक'का विचार करते हुए बतलाया है कि उत्कृष्ट स्थितिसे पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जाकर इन सब स्थितिविकल्पोंका एक आबाधाकाण्डक करता है। अर्थात् इतने स्थितिविकल्पोंकी उत्कृष्ट आबाधा होती है। इसके बाद इतने ही स्थितिविकल्पोंकी एक समय कम आबाधा होती है। इस प्रकार जघन्य स्थितिके प्राप्त होने तक आबाधा ले आना चाहिए। यहां जितने स्थितिविकल्पोंकी एक आबाधा होती है उसकी एक आबाधाकाण्डक संज्ञा है। इसे लानेका क्रम यह है कि उत्कृष्ट आबाधाका भाग आबाधा न्यून उत्कृष्ट स्थितिमें देनेपर एक आबाधाकाण्डकका प्रमाण आता है। सब जीवसमासोंमें आबाधाकाण्डकका प्रमाण इसी विधिसे प्राप्त कर लेना चाहिए। मात्र आयुकर्ममें यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वहां स्थितिबन्धके अनुपातसे आबाधा नहीं प्राप्त होती।

प्रश्न यह है कि जहां सागरों प्रमाण स्थितिबन्ध होता है वहां तो इस अनुपातसे आबाधाकाण्डककी उपलब्धि हो जाती है पर जहां अन्तःकोड़कोड़ी सागरकी आबाधा भी अन्तर्मुहूर्त कही है और अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण स्थितिबन्धकी आबाधा भी अन्तर्मुहूर्त कही है वहां इस अनुपातसे व्यवस्था कैसे बन सकती है।

यह प्रश्न वीरसेन स्वामीके सामने भी था। उन्होंने जीवस्थान चूलिकामे इस प्रश्नका समाधान किया है। वे लिखते हैं कि न्यून या जघन्य स्थितिबन्धमें आबाधाकाण्डककी जाति इससे भिन्न होती है, इसलिए वहां

जो आबाधाकाण्डक हो उसका भाग देकर आबाधा ले आनी चाहिए। सब प्रकारके स्थितिबन्धोमें आबाधाकाण्डक एक समान नहीं होता, किन्तु जहा संख्यात वर्ष प्रमाण स्थितिबन्ध होता है वहां अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधासे विवक्षित स्थितिके भाजित करनेपर संख्यात समय मात्र आबाधा काण्डक उपलब्ध होता है।

चौथे प्रकरणका नाम अल्पबहुत्व है। इसमें सब जीव समासोंमें जघन्य आबाधा, आबाधास्थान, आबाधाकाण्डक, उत्कृष्ट आबाधा, नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर, एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर, जघन्य स्थितिबन्ध, स्थितिबन्धस्थान, और उत्कृष्ट स्थितिबन्ध इन सबके अल्पबहुत्वका निर्देश किया गया है।

अल्पबहुत्वका विवेचन करने पर स्थितिबन्धका सामान्य विवेचन पूरा होता है।

आगे पूर्वके विवेचनको अर्थपद मानकर निम्न अधिकारों द्वारा मूल प्रकृति स्थितिबन्धके विचार करनेकी सूचना की गई है। वे अधिकार ये हैं—अद्वाच्छेद, सर्वबन्ध, नोसर्वबन्ध, उत्कृष्टबन्ध, अनुत्कृष्टबन्ध, जघन्यबन्ध, अजघन्यबन्ध, सादिबन्ध, अनादिबन्ध, ध्रुवबन्ध, अध्रुवबन्ध, स्वामित्व, बन्धकाल, बन्धान्तर, बन्धसन्निकर्ष, नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व। इसके बाद भुजगारबन्ध, पदनिक्षेप, वृद्धिबन्ध, अर्धवसानसमुदाहार और जीवसमुदाहार इन प्रकरणों द्वारा भी मूलप्रकृति स्थितिबन्धका विचार किया गया है। भुजगारबन्धके १३ अनुयोगद्वार, पदनिक्षेपके ३ अनुयोगद्वार, वृद्धिबन्धके १३ अनुयोगद्वार, और अर्धवसान समुदाहारके ३ अनुयोगद्वार हैं। जीवसमुदाहार का अलगसे कोई अनुयोगद्वार नहीं है।

इन अनुयोगद्वारोंके जो नाम हैं उन्हींके अनुसार उनमें स्थितिबन्धके आश्रयसे विचार किया गया है। आगे उत्तर प्रकृति स्थितिबन्धका विचार भी इसी प्रक्रियासे किया गया है। मात्र मूलप्रकृतिस्थितिबन्धमें आठ मूल प्रकृतियोंके आश्रयसे विचार किया गया है और उत्तर प्रकृति स्थितिबन्धमें १२० उत्तर प्रकृतियोंके आश्रयसे विचार किया गया है। यद्यपि उत्तर प्रकृतियाँ १४८ हैं पर दर्शनमोहनीयकी सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये दो अबन्ध प्रकृतियाँ हैं और पाँच बन्धनों व पाँच संघातोंका पाँच शरीरोंमें अन्तर्भाव हो जाता है तथा स्पर्शादिकके अन्तर्गत बीस भेदोंके स्थानमें स्पर्शादिक चारका ही ग्रहण किया गया है, इसलिए २८ प्रकृतियाँ कम होकर यहाँ कुल १२० प्रकृतियाँ ही ग्रहण की गई हैं।

स्थितिबन्धके मुख्य भेद चार हैं यह हम पहले कह आये हैं। स्थितिबन्धका कारण कषाय है। कहा भी है—‘द्विदिअणुभागा कसायदो हौति ।’

स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध कषायसे होता है।

आगममें कषायके विविध भेदोंकी कषायाध्यवसान संज्ञा कही है। ये कषायाध्यवसान स्थान दो प्रकारके होते हैं—संकलेशरूप और विशुद्धिरूप। इन्हे ही संकलेशस्थान और विशुद्धिस्थान कहते हैं। असाताके बन्ध योग्य परिणामोंकी संकलेश संज्ञा है और साताके बन्ध योग्य परिणामोंकी विशुद्धि संज्ञा है। ये दोनों प्रकारके परिणाम कषायस्वरूप होकर भी जातिकी अपेक्षा अलग अलग हैं। तत्त्वार्थसूत्र अध्याय सातमें साता और असाताके बन्धके कारणोंका निर्देश करते हुए लिखा है—

‘दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यत्मपरोभयस्थान्यसद्बद्धस्य ॥ ११ ॥

भूतवत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः क्षान्तिः शौचमिति सद्बद्धस्य ॥ १२ ॥’

अपने आत्मामें, अन्यकी आत्मामें या दोनोंमें स्थित दुःख, शोक, ताप, आक्रन्दन, वध, और परिदेवन ये असातावेदनीयके आस्रवके कारण हैं। तथा जीवमात्रके प्रति अनुकम्पा, व्रतियोंके प्रति अनुकम्पा, दान और सरागसंयमका उचित ध्यान रखना और क्षान्ति व शौच ये साता वेदनीय कर्मके आस्रवके कारण हैं ॥ ११-१२ ॥

यह उल्लेख परिणामोंकी जातिका ज्ञान करानेके लिए बहुत ही स्पष्ट है। इससे संकलेशरूप परिणामोंकी जाति क्या है और विशुद्ध परिणामोंकी जाति क्या है इसका स्पष्टतया बोध होता है। ये दोनों प्रकारके परिणाम एकेन्द्रियसे लेकर संज्ञी पञ्चेन्द्रिय तक प्रत्येक जीवके छुटवें गुणस्थानतक होते हैं। सातवें आदि गुणस्थानोंमें प्रमादका अभाव हो जानेके कारण मात्र विशुद्ध परिणाम ही होते हैं।

साधारण नियम यह है कि तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु और देवायुको छोड़कर शेष सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंसे होता है और इनसे विपरीत परिणामोंसे जघन्य स्थितिबन्ध होता है। इसी अभिप्रायको गोम्मटसार कर्मकाण्डमें इन शब्दोंमें व्यक्त किया है—

‘सन्वद्विदीणमुक्कस्सओ हु उक्कस्ससंक्लिसेण ।

विवरीदेण जहणणो आउगतियवज्जियारां तु ॥’

इसलिए प्रश्न होता है कि तीन आयुओंको छोड़कर शेष सब प्रकृतियोंका बन्ध जब संक्लेश और विशुद्ध दोनों प्रकारके परिणामोंसे होता है, ऐसी अवस्थामें असाताके बन्धयोग्य परिणामोंकी संक्लेश संज्ञा है और साताके बन्धयोग्य परिणामोंकी विशुद्ध संज्ञा है यह लक्षण कैसे सुविचारित कहा जा सकता है। समाधान यह है कि संक्लेश परिणाम भी जघन्य मध्यम और उत्कृष्टके भेदसे अनेक प्रकारके होते हैं और विशुद्ध परिणाम भी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्टके भेदसे अनेक प्रकारके होते हैं। इनमेंसे उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम असातावेदनीयके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कारण है और जघन्य विशुद्ध परिणाम सातावेदनीयके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कारण है। आगममें जहाँ कहीं प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियोंका विभाग किये बिना उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंसे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है ऐसा कहा है वहाँ यही अभिप्राय लेना चाहिए। इस विषयको और अधिक स्पष्टतासे समझनेके लिए यह उल्लेख पर्याप्त है—

‘सादस्स चटुट्ठाणबन्धगा जीवा णाणावरणीयस्स जहणणयं द्विदि बन्धंति । तिट्ठाणबन्धगा जीवा णाणावरणीयस्स अजहणणयाणुक्कस्सयं ट्ठिदि बन्धंति । विट्ठाणबन्धगा जीवा सादावेदणीयस्स उक्कस्सयं द्विदि बन्धंति । असाद० विट्ठाणबन्धगा जीवा सट्ठाणेण णाणावरणीयस्स जहणणयं ट्ठिदि बन्धंति । तिट्ठाणबन्धगा जीवा णाणावरणीयस्स अजहणणभणुक्कस्सयं ट्ठिदि बन्धंति । चटुट्ठाणबन्धगा जीवा असादस्स चव उक्कस्सिया ट्ठिदि बन्धंति ।’

[महाबन्ध, स्थिति० पृ० २१३]

साताके चतुःस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरण कर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करते हैं। त्रिस्थान बन्धक जीव ज्ञानावरण कर्मकी अजघन्यानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हैं। द्विस्थानबन्धक जीव साता वेदनीयकी ही उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हैं। असाताके द्विस्थानबन्धक जीव स्वस्थानकी अपेक्षा ज्ञानावरण कर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करते हैं। त्रिस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरण कर्मकी अजघन्यानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हैं। चतुःस्थानबन्धक जीव असाता वेदनीयकी ही उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हैं।

इसमें स्पष्टतः गुड और खांड इस द्विःस्थानिक अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवोंको ता सातावेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक कहा है और निम्ब, कांजीर, विष और हलाहल इस चतुःस्थानिक अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवोंको असाता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक कहा है। इससे स्पष्ट है कि सामान्यतः उत्कृष्ट संक्लेश पदसे इन दोनों स्थानोंका ग्रहण होता है।

इसी विषयको श्वेताम्बर पञ्चसंग्रहमें इन शब्दोंमें व्यक्त किया है—

ध्रुवपगईबन्धंता चउठाणाई सुभाण इयरणां ।

दो ठाणगाइ तिविहं सट्ठाणजहणणाईसु ॥ १०९ ॥ [बन्धनकरण]

आशय यह है कि ज्ञानावरण आदि ४७ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीव सातावेदनीय, देवगति, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, आहारक शरीर, औदारिक शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षमनाराचसंहनन, तीनों आङ्गोपाङ्ग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, त्रसादि दस, तीर्थङ्कर, तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु, देवायु और उच्चं गोत्र इन परावर्तमान चौतीस शुभ प्रकृतियोंके चतुःस्थानिक, त्रिस्थानिक और द्विस्थानिक अनुभागको बंधते हैं। तथा उन्हीं ध्रुव प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीव असातावेदनीय, तीन वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, नरकायु नरकगतिद्विक, तिर्यञ्चगतिद्विक, एकेन्द्रिय आदि चार जाति, अन्तके पाँच संस्थान, अन्तके पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि दस और नीचगोत्र इन परावर्तमान उनतालीस अशुभ प्रकृतियोंके द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक अनुभागको बंधते हैं। यह अनुभाग स्वस्थानमें जघन्य स्थितिबन्ध आदिके होनेपर बंधता है। श्वेताम्बर कर्म-

प्रकृतिमें भी यह विषय इसी प्रकारसे निबद्ध किया गया है। किन्तु महाबन्धके उक्त उल्लेखसे इस कथनमें अन्तर है। महाबन्धमें विशुद्ध और संक्लेश परिणामोंके साथ केवल साता और असाताके अन्वय व्यतिरेककी व्यवस्थाकी गई है और यहा सब शुभ और अशुभ प्रकृतियोंके साथ अन्वय व्यतिरेककी व्यवस्थाकी गई है। किन्तु विचार करनेपर महाबन्धकी व्यवस्था ही उचित प्रतीत होती है। कारण कि गुणस्थान प्रतिपन्न जीवोंमें जहां केवल विवक्षित अशुभ प्रकृतिका बन्ध न होकर उसकी प्रतिपक्षभूत शुभ प्रकृतिका ही बन्ध होता है वहा पर संक्लेश और विशुद्ध दोनों प्रकारके परिणामोंके सद्भावमें उस प्रकृतिका बन्ध सम्भव है। उदाहरणार्थ चतुर्थ गुणस्थानमें मात्र पुरुषवेदका बन्ध होता है। यहा यह तो कहा नहीं जा सकता कि इस गुणस्थानमें केवल विशुद्ध परिणाम ही होते हैं और यह भी नहीं कहा जा सकता कि यहा केवल संक्लेश परिणाम ही होते हैं। परिणाम तो दोनों प्रकारके होते हैं, पर यहा स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका बन्ध सम्भव न होनेसे मात्र पुरुषवेदका ही बन्ध सम्भव है। यदि यह कहा जाय कि उत्कृष्ट स्थितिसे क्रमसे हानि होते हुए जघन्य स्थितिको बाँधनेवाले जीवके परिणामोंकी 'विशुद्धि' संज्ञा है और जघन्य स्थितिसे क्रमसे वृद्धि होते हुए उपरिम स्थितियोंको बाँधनेवाले जीवके परिणामोंकी 'संक्लेश' संज्ञा है सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर उत्कृष्ट और जघन्य स्थितिका बन्ध करानेवाले परिणामोंको छोड़कर शेष मध्यम स्थितियोंका बन्ध करानेवाले सब परिणाम संक्लेश और विशुद्धि उभयरूप प्राप्त होते हैं। परन्तु ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि एक ही परिणाम संक्लेश और विशुद्धि उभयरूप नहीं हो सकता। इसलिए साता और असाताके बन्धके साथ इन परिणामोंकी जिस प्रकार व्याप्ति घटित होती है उस प्रकार अन्य प्रकृतियोंके बन्धके साथ नहीं। यही कारण है कि महाबन्धमें सब संसारी जीवोंको दो भागोंमें विभक्त कर दिया है—सातबन्धक और असातबन्धक। साताबन्धक जीव तीन प्रकारके हैं—चतुःस्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक और द्विस्थानबन्धक। इसी प्रकार असाताबन्धक जीव भी तीन प्रकारके हैं—द्विस्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक और चतुःस्थानबन्धक। इनमें जो साताके चतुःस्थानबन्धक जीव होते हैं वे सर्व विशुद्ध होते हैं, जो त्रिस्थानबन्धक जीव होते हैं वे संक्लिष्टतर होते हैं और जो द्विस्थानबन्धक जीव होते हैं वे इनसे भी संक्लिष्टतर होते हैं। इसी प्रकार जो असाताके द्विस्थानबन्धक जीव होते हैं वे सर्व-विशुद्ध होते हैं, जो त्रिस्थानबन्धक जीव होते हैं वे संक्लिष्टतर होते हैं और जो चतुःस्थानबन्धक जीव होते हैं वे इनसे भी संक्लिष्टतर होते हैं।

यहा साताके चतुःस्थानबन्धक जीवको और असाताके द्विस्थानबन्धक जीवको सर्व विशुद्ध और शेष सबको संक्लिष्टतर कहा गया है। इस प्रकार संक्लेशरूप और विशुद्धिरूप परिणामोंमें भेद होकर भी उनका उल्लेख स्थितिबन्धके अनुसार सर्वविशुद्ध और संक्लिष्टतर इन्हीं शब्दोंके द्वारा किया जाता है, इसलिए जहा जिस पदसे जो विशेष अर्थ लिया गया हो वहाँ उसे जानकर ही उसका ग्रहण करना चाहिए।

यहा प्रसंगसे एक बात और कह देनी है। वह यह कि पाँच ज्ञानावरण आदि ४७ प्रकृतियोंका बन्ध अपनी अपनी बन्धव्युच्छिन्ति होनेतक संक्लेशरूप और विशुद्धिरूप दोनों प्रकारके परिणामोंसे सदा काल होता रहता है, इसलिए उन्हें ध्रुवबन्धिनी प्रकृतिया कहा गया है। वे सैतालीस प्रकृतियाँ ये हैं—

घादितिमिच्छकसाया भयतेजगुरुदुगणिमिणवर्णाश्रो ।

सत्तेतालधुवाणं चधुदा सेसाणयं तु दुधा ॥ १२४ ॥ [गोम्मटसार कर्मकाण्ड]

मोहनीयके बिना तीन घातिकर्मोंकी १९ प्रकृतियाँ, मिथ्यात्व, १६ कषाय, भयद्विक, तैजमद्विक, अगुरु-लघुद्विक, निर्माण और वर्णचतुष्क ये ४७ ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं।

इस प्रकार यहाँ हमने महाबन्धके प्रस्तुत भागका सामान्य परिचय कराते हुए कुछ विशेष विषयोंकी ही पर्यालोचना की है। शेष विषयोंका यथास्थान विशेष ऊहापोह मूलमें किया ही है। यहाँ हमने पुनरुक्ति दोषके भयसे पुनः उनकी पर्यालोचना नहीं की है।

प्रस्तुत मुद्रित भागमें मूलप्रकृतिस्थितिबन्धका और उत्तरप्रकृतिस्थितिबन्धके एक जीवकी अपेक्षा अन्तरानुगतकके विषयका समावेश ही किया गया है।

विषय-सूची

| विषय | पृष्ठ | विषय | पृष्ठ |
|---------------------------------|--------|-------------------------|---------|
| मङ्गलाचरण | १ | बन्धान्तरके दो भेद | ५६ |
| स्थितिबन्धके भेद | १ | उत्कृष्ट बन्धान्तर | ५६-६६ |
| मूलप्रकृतिस्थितिबन्ध | १-२१८ | जघन्य बन्धान्तर | ६६-७७ |
| मूलप्रकृति स्थितिबन्धके चार | | १५ बन्धसन्निकर्ष | ७७-८३ |
| अनुयोगद्वार | १-१६ | बन्धसन्निकर्षके दो भेद | ७७ |
| १ स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा | २-५ | उत्कृष्ट सन्निकर्ष | ७७-८० |
| स्थितिबन्ध स्थान | २ | जघन्य सन्निकर्ष | ८०-८३ |
| संक्लेश विशुद्धिस्थान | ३ | १६ नाना जीवोंकी अपेक्षा | |
| स्थितिबन्ध अल्पबहुत्व | ४-५ | भङ्गविचय | ८३-८७ |
| २ निषेक प्ररूपणा | ६-११ | भङ्ग विचयके दो भेद | ८३ |
| निषेकप्ररूपणाके दो अनुयोगद्वार | ६ | उत्कृष्ट भङ्गविचय | ८३-८६ |
| अनन्तरोपनिधा | ६-११ | जघन्य भङ्गविचय | ८६-८७ |
| परम्परोपनिधा | ११-१२ | १७ भागाभागप्ररूपणा | ८८-९१ |
| ३ आवाधाकाण्डकप्ररूपणा | १२-१३ | भागाभागके दो भेद | ८८ |
| ४ अल्पबहुत्वप्ररूपणा | १३-१६ | उत्कृष्ट भागाभाग | ८८-९० |
| मूलप्रकृति स्थितिबन्धके | | जघन्य भागाभाग | ९०-९१ |
| २४ आदि शेष अनुयोगद्वारोंकी | | १८ परिमाणप्ररूपणा | ९१-९५ |
| सूचना | १६ | परिमाणके दो भेद | ९१ |
| २५ अनुयोगद्वार | १६-१४४ | उत्कृष्ट परिमाण | ९१-९३ |
| १ अद्वाच्छेदप्ररूपणा | १७-२९ | जघन्य परिमाण | ९३-९५ |
| अद्वाच्छेदके भेद | १७ | १९ क्षेत्रप्ररूपणा | ९६-१०१ |
| उत्कृष्ट अद्वाच्छेद | १७-२३ | क्षेत्रके दो भेद | ९६ |
| जघन्य ” | २३-२६ | उत्कृष्ट क्षेत्र | ९६-९६ |
| २-३ सर्व-नोसर्वबन्धप्र० | ३० | जघन्य क्षेत्र | ९६-१०१ |
| ४-५ उत्कृष्ट-अनुत्कृष्टबन्धप्र० | ३०-३१ | २० स्पर्शनप्ररूपणा | १०१-११० |
| ६-७ जघन्य-अजघन्यबन्धप्र० | ३१ | स्पर्शनके दो भेद | १०१ |
| ८-११ सादि-अनादि-ध्रुव-अध्रुव० | ३१-३२ | उत्कृष्ट स्पर्शन | १०१-१०८ |
| १२ स्वामित्वप्ररूपणा | ३२-४६ | जघन्य स्पर्शन | १०८-११० |
| स्वामित्वके दो भेद | ३२ | २१ कालप्ररूपणा | ११०-११८ |
| उत्कृष्ट स्वामित्व | ३२-४० | कालके दो भेद | ११० |
| जघन्य स्वामित्व | ४०-४६ | उत्कृष्ट काल | ११०-११५ |
| १३ बन्धकालप्ररूपणा | ४७-५८ | जघन्य काल | ११५-११८ |
| बन्धकालके दो भेद | ४७ | २२ अन्तर प्ररूपणा | ११८-१२५ |
| उत्कृष्ट बन्धकाल | ४७-५३ | अन्तरके दो भेद | ११८ |
| जघन्य बन्धकाल | ५३-५८ | उत्कृष्ट अन्तर | ११८-१२२ |
| १४ अन्तरप्ररूपणा | ५६-७७ | जघन्य अन्तर | १२२-१२५ |

| विषय | पृष्ठ |
|------------------------------------|---------|
| २३ भावप्ररूपणा | १२५-१२६ |
| भावके दो भेद | १२५ |
| उत्कृष्ट भाव | १२५ |
| जघन्य भाव | १२६ |
| २४ अल्पबहुत्व | १२६-१४४ |
| अल्पबहुत्वके दो भेद | १२६ |
| जीव अल्पबहुत्व | १२६-१३१ |
| जीवअल्पबहुत्वके तीन भेद | १२६ |
| उत्कृष्ट जीव अल्पबहुत्व | १२६-१२७ |
| जघन्य जीव अल्पबहुत्व | १२७ |
| जघन्योत्कृष्ट जीव अल्पबहुत्व | १२७-१३१ |
| स्थिति अल्पबहुत्व | १३१-१३३ |
| स्थिति अल्पबहुत्वके तीन भेद | १३१ |
| उत्कृष्ट स्थिति अल्पबहुत्व | १३१ |
| जघन्य स्थिति अल्पबहुत्व | १३१ |
| जघन्योत्कृष्ट स्थिति अल्पबहुत्व | १३१-१३३ |
| भूयःस्थिति अल्पबहुत्व | १३३ |
| भूयःस्थिति अल्पबहुत्वके दो भेद | १३३ |
| स्वस्थान अल्पबहुत्व | १३३ |
| परस्थान अल्पबहुत्व | १३३-१४४ |
| परस्थान अल्पबहुत्वके तीन भेद | १३३ |
| उत्कृष्ट परस्थान अल्पबहुत्व | १३४-१३६ |
| जघन्य परस्थान अल्पबहुत्व | १३६-१३८ |
| जघन्योत्कृष्ट परस्थान अल्पबहुत्व | १३८-१४४ |
| भुजगारबन्ध | १४५-१७५ |
| भुजगारबन्धके १३ अनुयोगद्वार | १४५ |
| समुत्कीर्तनानुगम | १४५-१४७ |
| स्वामित्वानुगम | १४७-१४८ |
| कालानुगम | १४८-१५१ |
| अन्तरानुगम | १५१-१५७ |
| नाना जीवोकी अपेक्षा भङ्ग विचयानुगम | १५७-१५९ |
| भागाभागानुगम | १५९-१६० |
| परिमाणानुगम | १६१-१६२ |
| क्षेत्रानुगम | १६२-१६३ |
| स्पर्शानुगम | १६३-१६६ |
| कालानुगम | १६६-१६९ |
| अन्तरानुगम | १६९-१७२ |
| भावानुगम | १७५ |

| विषय | पृष्ठ |
|-------------------------------|---------|
| अल्पबहुत्वानुगम | १७३-१७९ |
| पदनिक्षेप | १७५-१८५ |
| पदनिक्षेपके तीन अनुयोगद्वार | १७६ |
| समुत्कीर्तना | १७५-१७२ |
| स्वामित्व | १७६-१७९ |
| स्वामित्वके दो भेद | १७६ |
| उत्कृष्ट स्वामित्व | १७६-१७९ |
| जघन्य स्वामित्व | १७९ |
| अल्पबहुत्व | १८०-१८१ |
| अल्पबहुत्वके दो भेद | १८० |
| उत्कृष्ट अल्पबहुत्व | १८०-१८१ |
| जघन्य अल्पबहुत्व | १८१ |
| वृद्धिबन्ध | १८२-२०८ |
| वृद्धिबन्धके १३ अनुयोगद्वार | १८२ |
| समुत्कीर्तना | १८२-१८४ |
| स्वामित्वानुगम | १८४-१८७ |
| काल | १८७-१८८ |
| अन्तर | १८८-१९४ |
| नाना जीवोकी अपेक्षा भङ्गविचय | १९५ |
| भागाभाग | १९५ |
| परिमाण | १९६-१९७ |
| क्षेत्र | १९७-१९८ |
| स्पर्शन | १९८-२०१ |
| काल | २०१-२०२ |
| अन्तर | २०२-२०३ |
| भाव | २०३ |
| अल्पबहुत्व | २०३-२०८ |
| अध्यवसान समुदाहार | २०८ |
| अध्यवसान समुदाहारके तीन भेद | २०८ |
| १ प्रकृतिसमुदाहार | २०९ |
| प्रकृतिसमुदाहारके दो भेद | २०९ |
| प्रमाणानुगम | २०९ |
| अल्पबहुत्व | २०९ |
| २ स्थितिसमुदाहार | २०९ |
| स्थितिसमुदाहारके तीन भेद | २०९ |
| प्रमाणानुगम | २०९-२१० |
| श्रेणिएप्ररूपणा व उसके दो भेद | २१०-२११ |
| अनन्तरोपनिधा | २१० |
| परम्परोपनिधा | २१०-२११ |

| विषय | पृष्ठ | विषय | पृष्ठ |
|---|------------|------------------------------------|----------------|
| अनुकृष्टि | २११ | अनन्तरोपनिधा | २२८ |
| ३ तीव्रमन्दता | २११-२१२ | परम्परोपनिधा | २२६ |
| जीवसमुदाहार | २१२ | ३ आबाधाकाण्डकप्ररूपणा | २२६ |
| जीवोंके दो भेद | २१२ | ४ अल्पबहुत्वप्ररूपणा | २३० |
| सातबन्धक जीवोंके तीन भेद | २१२ | उत्तर प्रकृति स्थितिवन्धके २४ | |
| असातबन्धक जीवोंके तीन भेद | २१२ | आदि शेष अनुयोगद्वारोंकी | |
| उक्त जीवोंकी स्थितिवन्ध | | सूचना | २३१ |
| व्यवस्था | २१२-२१३ | २४ अनुयोगद्वार | २३१ |
| इनकी प्ररूपणा सम्बन्धी दो | | १ अद्धाच्छेद | २३१-२५२ |
| अनुयोगद्वार प्रतिज्ञा | २१३ | अद्धाच्छेदके दो भेद | २३१ |
| अनन्तरोपनिधा | २१३-२१४ | उत्कृष्ट अद्धाच्छेद | २३१-२४२ |
| परम्परोपनिधा | २१५-२१६ | जघन्य अद्धाच्छेद | २४२-२५२ |
| साता और असाताके अना- | | २-३ सर्व-नोसर्वबन्ध | २५२-२५३ |
| कार और साकार प्रायोग्य | | ४-५ उत्कृष्ट-अनुत्कृष्टबन्ध | २५३ |
| स्थान | २१६ | ६-७ जघन्य-अजघन्यबन्ध | २५३ |
| यवमध्यमे अल्पबहुत्व | २१६-२१७ | ११ सादि-अनादि-ध्रुव- | |
| पूर्वोक्त अर्थपदके अनुसार | | अध्रुवबन्ध | २५४ |
| सातबन्धक और असातबन्धक | | १२ स्वामित्व प्ररूपणा | २५५-३१३ |
| जीवोंका अल्पबहुत्व | २१८ | स्वामित्वके दो भेद | २५५ |
| उत्तर प्रकृति स्थितिवन्ध २२१-४३६ | | उत्कृष्ट स्वामित्व | २५५-२८५ |
| उत्तर प्रकृति स्थितिवन्धके | | जघन्य स्वामित्व | २८५-३१३ |
| चार अनुयोगद्वार | २२१-२३० | १३ बन्धकाल प्ररूपणा | ३१४-३६५ |
| १ स्थितिवन्धस्थान प्ररूपणा २२१-२२८ | | बन्धकालके दो भेद | ३१४ |
| स्थितिवन्ध स्थान | २२१-२२३ | उत्कृष्ट बन्धकाल | ३१४-३४३ |
| संक्लेशविशुद्धिस्थान | २२३-२२४ | जघन्य बन्धकाल | ३४४-३६५ |
| अल्पबहुत्व | २२४-२२८ | १४ अन्तरकाल प्ररूपणा | ३६५-४३९ |
| २ निषेक प्ररूपणा २२८-२२९ | | अन्तरके दो भेद | ३६५ |
| निषेक प्ररूपणाके दो अनु- | | उत्कृष्ट अन्तरकाल | ३६५-३६६ |
| योगद्वार | २२८ | जघन्य अन्तरकाल | ४००-४३६ |

संकेत विवरण

| | | |
|---|-------------------------|---|
| १ | पंच स० | पञ्चसंग्रह |
| २ | गा० | गाथा |
| ३ | गो० क० | गोम्मटसार कर्मकाण्ड |
| ४ | मूलप्रति एवं आदर्शप्रति | मूल मेनुस्क्रिप्ट जिसके आधारसे अनुवाद और सम्पादन हुआ है |
| ५ | जीव० चू० | जीवस्थान चूलिका |
| ६ | ध० पु० | धवला पुस्तक |
| ७ | तत्त्वा० | तत्त्वार्थ सूत्र |
| ८ | बंधन क० | बन्धनकरण |
| ९ | मुद्रित प्रति | ज्ञानपीठसे प्रकाशित प्रकृतिबन्ध |



सिरिभगवंतभूदबलिभडारयपणीदो

महाबंधो

बिदियो द्विदिवंधाहियारो

एमो अरिहंताणं एमो सिद्धाणं एमो आइरियाणं ।

एमो उवज्झायाणं एमो लोए सव्वसाहूणं ॥

१. एत्तो द्विदिवंधो दुविधो—मूलपगदिद्विदिवंधो चेव उत्तरपगदिद्विदिवंधो चेव । एत्तो मूलपगदिद्विदिवंधो पुवं गमणिज्जं । तत्थ इमाणि चत्तारिं अणियोगहारिणि एादन्वाणि भवंति । तं जधा—द्विदिवंधट्टाणपरूवणा णिसेयपरूवणा आवाधाकंडयपरूवणा अप्पावहुगे ति ।

सब अरिहन्तोंको नमस्कार हो, सब सिद्धोंको नमस्कार हो, सब आचार्योंको नमस्कार हो, सब उपाध्यायोंको नमस्कार हो और लोकमें साधुओंको नमस्कार हो ॥१॥

१. आगे स्थितिबन्धका विचार करते हैं । वह दो प्रकारका है—मूलप्रकृतिस्थितिबन्ध और उत्तरप्रकृतिस्थितिबन्ध । आगे मूल प्रकृति स्थितिबन्धका पहले विचार करते हैं । उसके ये चार अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं । यथा—स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा, निषेकप्ररूपणा, आवाधाकाण्डकप्ररूपणा और अल्पबहुत्व ।

विशेषार्थ—राग, द्वेष और मोहके निमित्तसे आत्माके साथ जो कर्म सम्बन्धको प्राप्त होते हैं उनके अवस्थान कालको स्थिति कहते हैं । कर्मबन्धके समय जिस कर्मकी जो स्थिति प्राप्त होती है उसका नाम स्थितिबन्ध है । वह ज्ञानावरण आदि मूलप्रकृति और मतिज्ञानावरण आदि उत्तर प्रकृतियोंके भेदसे दो प्रकारका है । इस अनुयोगद्वारमें इन्हीं दो प्रकारके स्थितिबन्धोंका विविध प्रकरणों द्वारा विस्तारके साथ विचार किया गया है । सर्व प्रथम मूलप्रकृति स्थितिबन्धका विचार किया गया है और तदनन्तर उत्तरप्रकृति स्थितिबन्धका विचार किया गया है । मूलप्रकृतिस्थितिबन्धका विचार करते हुए मुख्य रूपसे उसका चार अनुयोगद्वारोंके द्वारा विचार किया गया है । उपअनुयोगद्वार अनेक हैं । चार अनुयोगद्वारोंके नाम मूलमें ही दिये हैं । जिसमें स्थितिबन्धके स्थानोंका विचार किया जाता है वह स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा है । यहाँ स्थितिबन्धस्थान पदसे प्रत्येक कर्मके जघन्य स्थितिबन्धस्थानसे लेकर उत्कृष्ट स्थितिबन्धस्थानतकके कुल विकल्प

द्विदिवंधट्टाणपरूवणा

२. द्विदिवंधट्टाणपरूवणादाए सव्वत्थावा^१ मुहुमस्स अपज्जत्तरस्स द्विदिवंधट्टाणाणि । बादरस्स अपजत्तस्स द्विदिवंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । मुहुमस्स पज्जत्तस्स द्विदिवंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । बादरस्स पज्जत्तस्स द्विदिवंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । बेइंदियअपज्जत्तस्स द्विदिवंधट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि । तस्सेव पज्जत्तस्स द्विदिवंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । तेइंदि० अपज्ज० द्विदिवंध० संखेज्जगुणाणि । तस्सेव पज्जत्त० द्विदिवंध० संखेज्जगुणाणि । चटुरिंदियअपज्ज० द्विदिवंध० संखेज्जगुणाणि । तस्सेव पज्जत्त० द्विदिवंध० संखेज्जगुणाणि । पंचिंदियअसण्णअपज्जत्त० द्विदिवंध० संखे०गु० । तस्सेव पज्जत्त० द्विदिवंध० संखे०गु० । पंचिंदियसण्णअपज्जत्त० द्विदिवंध० संखे०गु० । तस्सेव पज्जत्त० द्विदिवंध० संखेज्जगुणाणि ।

परिगृहीत किये गये हैं। एक समयमें बद्ध कर्मोंका उस समय प्राप्त स्थितिमें जिस क्रमसे निक्षेप होता है उसकी निषेकरचना संज्ञा है। इसका विचार करनेवाली प्ररूपणाका नाम निषेकप्ररूपणा है। बंधनेवाले कर्म स्वभावतः या अपकर्षण आदिके निमित्तसे जितने काल बाद फल देनेमें समर्थ होते हैं उस कालका नाम आवाधाकाल है और जितने स्थितिविकल्पों के प्रति एक एक आवाधाकाल प्राप्त होता है उतने स्थितिविकल्पोंकी एक आवाधा होनेसे उसकी आवाधाकांडक संज्ञा है। इसका विचार जिस प्रकरण द्वारा किया जाता है उसे आवाधाकांडकप्ररूपणा कहते हैं। अल्पबहुत्व पदका अर्थ स्पष्ट ही है। इस प्रकार मूलप्रकृति स्थितिवंधकी प्ररूपणा चार प्रकारकी होती है।

स्थितिवंधस्थानप्ररूपणा

२. अब सर्वप्रथम स्थितिवंधस्थानप्ररूपणाका विचार करते हैं। उसकी अपेक्षा सूक्ष्म अपर्याप्तके स्थितिवंधस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे बादर अपर्याप्तके स्थितिवंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे सूक्ष्मपर्याप्तके स्थितिवंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे बादर पर्याप्तके स्थितिवंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तके स्थितिवंधस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे द्वीन्द्रिय पर्याप्तके स्थितिवंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे त्रीन्द्रिय अपर्याप्तके स्थितिवंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे त्रीन्द्रिय पर्याप्तके स्थितिवंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे चतुरिंदिय अपर्याप्तके स्थितिवंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे चतुरिंदिय पर्याप्तके स्थितिवंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे पंचेन्द्रिय असंज्ञी अपर्याप्तके स्थितिवंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे पंचेन्द्रिय असंज्ञी पर्याप्तके स्थितिवंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे पंचेन्द्रिय संज्ञी अपर्याप्तके स्थितिवंधस्थान संख्यातगुणे हैं और इनसे पंचेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्तके स्थितिवंधस्थान संख्यातगुणे हैं।

विशेषार्थ—यहाँ किसके कितने गुणे स्थिति बन्धस्थान होते हैं इसका विचार चौदह जीवसमासोंके द्वारा किया गया है। सामान्यसे एकेन्द्रियके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध एक सागर और जघन्य पत्योपमका असंख्यातवाँ भाग कम एक सागर होता है। द्वीन्द्रियके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पच्चीस सागर और जघन्य स्थितिवन्ध पत्यका संख्यातवाँ भाग कम पच्चीस सागर होता है। त्रीन्द्रियके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पचास सागर

१. गो० क० गा० १४८, १४९, १५० । पंचसं० द्वार ५ गा० ५६ ।

३. सन्वत्थोवा सुहुमेइंदिय-अपज्जत्तस्स संकिलेसविसोधिद्वाराणाणि । वादरे-
इंदिय-अपज्जत्त-संकिलेसविसोधिद्वाराणाणि असंखेज्जगुणाणि । सुहुमेइंदिय-पज्जत्तसं-
किलेस-विसोधिद्वाराणाणि असंखेज्जगुणाणि । वादरेइंदिय-पज्जत्त० संकिलेसविसोधि
द्वाराणाणि असंखेज्जगुणाणि । वेइंदिय० अपज्ज० संकिलेसविसोधिद्वाराणाणि असं-
खेज्जगुणाणि । तस्सेव पज्जत्त० संकिलेस-विसोधिद्वाराणाणि असंखे०गु० । तेइंदिय-
अपज्ज० संकिलेसविसोधिद्वाराणाणि असंखे गु० । तस्सेव पज्जत्त० संकिलेसविसोधि-
द्वाराणाणि अंखे० गु० । चतुरिंदि० अपज्ज० संकिलेसविसोधिद्वाराणाणि असंखे०
गु० । तस्सेव पज्जत्त० संकिलेसविसो० असंखे०गु० । पंचिंदियअसण्ण-अपज्ज०
संकिलेसविसोधि० असंखे०गु० । तस्सेव पज्जत्त० संकिलेसविसोधि० असंखे
ज्जगु० । पंचिंदिय० सण्ण० अपज्ज० संकिलेसविसोधि० असंखेज्जगु० । तस्सेव
पज्ज० संकिलेसविसोधि० असं० गु० ।

और जघन्य स्थितिवंध पत्यका संख्यातवाँ भाग कम पचास सागर होता है । इसी प्रकार
चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पंचेंद्रियके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिवंध क्रमसे सौ और एक हजार
सागर तथा जघन्य स्थितिवंध पत्यका संख्यातवाँ भाग कम अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थिति
प्रमाण होता है । इस हिसाबसे विचार करने पर एकेंद्रियके कुल स्थितिवंधविकल्प पत्यके
असंख्यातवें भाग प्रमाण और द्वीन्द्रियसे लेकर असंज्ञी पंचेंद्रिय तक प्रत्येकके पत्यके
संख्यातवें भाग प्रमाण प्राप्त होते हैं । यहाँ एकेंद्रियके चार और द्वीन्द्रिय आदि प्रत्येकके दो-
दो भेद करके स्थिति स्थानोंका अल्पबहुत्व बतलाया गया है । यह तो स्पष्ट है कि एकेंद्रियोंके
चारों भेदोंमें प्रत्येकके स्थितिवंध विकल्प पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं पर उनका
अल्पबहुत्व किस क्रमसे है यही यहाँ बतलाया गया है । द्वीन्द्रियसे लेकर असंज्ञीतक
प्रत्येकके दो दो भेदोंमें स्थितिवंधविकल्प पत्यके संख्यातवें भाग प्रमाण हैं पर एकेन्द्रियके
स्थितिवंधविकल्पोंसे वे कितने गुरो हैं और परस्परमें किस क्रमसे कितने गुरो हैं यह भी
यहाँ बतलाया गया है । पत्यके असंख्यातवें भागसे पत्यका संख्यातवाँ भाग असंख्यातगुणा
होता है । इसीसे वादर एकेंद्रिय पर्याप्तके स्थितिवंधस्थानोंसे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तके स्थिति-
बंधस्थान असंख्यातगुरो कहे हैं । शेष कथन सुगम है ।

३. सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लेशविशुद्धिस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे
वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लेशविशुद्धिस्थान असंख्यातगुरो हैं । इनसे सूक्ष्म एकेन्द्रिय
पर्याप्तके संक्लेशविशुद्धिस्थान असंख्यातगुरो हैं । इनसे वादर एकेंद्रिय पर्याप्तके संक्लेश-
विशुद्धिस्थान असंख्यातगुरो हैं । इनसे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लेशविशुद्धिस्थान असंख्यातगुरो
हैं । इनसे द्वीन्द्रिय पर्याप्तके संक्लेशविशुद्धिस्थान असंख्यातगुरो हैं । इनसे त्रीन्द्रिय अपर्याप्त
के संक्लेशविशुद्धिस्थान असंख्यातगुरो हैं । इनसे त्रीन्द्रिय पर्याप्तके संक्लेशविशुद्धिस्थान
असंख्यातगुरो हैं । इनसे चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तके संक्लेशविशुद्धिस्थान असंख्यातगुरो हैं । इनसे
चतुरिन्द्रियपर्याप्तके संक्लेशविशुद्धिस्थान असंख्यातगुरो हैं । इनसे पंचेंद्रिय असंज्ञी अपर्याप्त
के संक्लेशविशुद्धिस्थान असंख्यातगुरो हैं । इनसे असंज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्तके संक्लेशविशुद्धि-
स्थान असंख्यातगुरो हैं । इनसे पंचेंद्रिय संज्ञी पर्याप्तके संक्लेशविशुद्धिस्थान असंख्यातगुरो
हैं और इनसे पंचेंद्रिय संज्ञी पर्याप्तके संक्लेशविशुद्धिस्थान असंख्यातगुरो हैं ।

४. सन्वत्थोवा' संजदस्स जहएणओ द्विदिवंधो । वादरएइंदिय-पज्जत्तस्स जह-
एणओ द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो । सुहुम-एइंदिय-पज्जत्तस्स जहएणओ द्विदिवंधो विसे-
साहिओ । वादर-एइंदिय-अपज्ज० जहएण० द्विदिवं० विसे० । सुहुमेइंदिय-अपज्जत्तस्स
जह० द्विदिवं० विसे० । तस्सेव अपज्ज० उक्क० द्विदिवं० विसे० । वादरएइंदि० अपज्ज०
उक्क० द्विदिवं० विसे० । सुहुमएइंदि० पज्जत्त० उक्क० द्विदिवं० विसे० । वादर
एइंदि० पज्जत्त० उक्क० द्विदिवं० विसे० । वेइंदि० पज्जत्त० जह० द्विदिवं० संखेगु० ।
तस्सेव अपज्ज० जह० द्विदिवं० विसे० । तस्सेव अपज्ज० उक्क० द्विदिवं० विसे० ।
तस्सेव पज्ज० उक्क० द्विदिवं० विसे० । तेइंदि० पज्जत्त० जह० द्विदिवं० विसे० । तस्सेव
अपज्ज० जह० द्विदि० विसे० । तस्सेव अपज्ज० उक्क० द्विदि० विसे० । तस्सेव पज्जत्त०
उक्क० द्विदि० विसे० । चटुरिंदिय-पज्जत्त० जह० द्विदि० विसे० । तस्सेव अपज्जत्त०
जह० द्विदि० विसे० । तस्सेव अपज्ज० उक्क० द्विदि० विसे० । तस्सेव पज्जत्त० उक्क०
द्विदि० विसे० । पंचिंदिय-असण्ण-पज्जत्त० जह० द्विदि० संखे० गु० । तस्सेव अपज्ज०
जह० द्विदि० विसे० । तस्सेव अपज्ज० उक्क० द्विदि० विसे० । तस्सेव पज्ज० उक्क०

विशेषार्थ—ज्ञानावरण आदि कर्मोंके बन्ध योग्य परिणामोंकी संक्लेशविशुद्धिस्थान
संज्ञा है । इनमेंसे जो साताके बंध योग्य परिणाम होते हैं । अर्थात् जिन परिणामोंके होनेपर
असाता प्रकृतिका बंध न होकर साता प्रकृतिका बंध होता है उनकी विशुद्धि संज्ञा है और
असाताके बंधके योग्य जो परिणाम होते हैं उनकी संक्लेश संज्ञा है । यहाँ स्थितिविकल्पोंको
ध्यानमें रखकर संक्लेशविशुद्धिस्थानोंका यह अल्पबहुत्व कहा गया है ।

४. संयतके जघन्य स्थितिवंध सबसे स्तोके है । इससे वादर एकेंद्रिय पर्याप्तके जघन्य
स्थितिवंध असंख्यातगुणा है । इससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिवंध विशेष अधिक
है । इससे वादर एकेंद्रिय अपर्याप्तके जघन्य स्थितिवंध विशेष अधिक है । इससे सूक्ष्म एकेंद्रिय
अपर्याप्तके जघन्य स्थितिवंध विशेष अधिक है । इससे सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तके उत्कृष्ट स्थिति-
बंध विशेष अधिक है । इससे वादर एकेंद्रिय अपर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिवंध विशेष अधिक है ।
इससे सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिवंध विशेष अधिक है । इससे वादर एकेंद्रिय
पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिवंध विशेष अधिक है । इससे द्वीन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिवंध
संख्यातगुणा है । इससे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तके जघन्य स्थितिवंध विशेष अधिक है । इससे
द्वीन्द्रिय अपर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिवंध विशेष अधिक है । इससे द्वीन्द्रिय पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थिति-
बंध विशेष अधिक है । इससे त्रीन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिवंध विशेष अधिक है । इससे
त्रीन्द्रिय अपर्याप्तके जघन्य स्थितिवंध विशेष अधिक है । इससे त्रीन्द्रिय अपर्याप्तके उत्कृष्ट
स्थितिवंध विशेष अधिक है । इससे त्रीन्द्रिय पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिवंध विशेष अधिक है ।
इससे चतुरिंदिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिवंध विशेष अधिक है । इससे चतुरिंदिय अपर्याप्त
के जघन्य स्थितिवंध विशेष अधिक है । इससे चतुरिंदिय अपर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिवंध
विशेष अधिक है । इससे चतुरिंदिय पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिवंध विशेष अधिक है । इससे
पंचेंद्रिय असंज्ञी पर्याप्तके जघन्य स्थितिवंध संख्यातगुणा है । इससे पंचेंद्रिय असंज्ञी
अपर्याप्तके जघन्य स्थितिवंध विशेष अधिक है । इससे पंचेंद्रिय असंज्ञी अपर्याप्तके उत्कृष्ट
स्थितिवंध विशेष अधिक है । इससे पंचेंद्रिय असंज्ञी पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिवंध विशेष

द्विदि० विसे० । संजदस्स उक्क० द्विदि० संखे० गुणो । संजदासंजदस्स जह० द्विदि० संखेज्जगुणो । तस्सेव उक्क० द्विदिबं० संखेज्जगु० । असंजदसम्मादिद्वि-पज्जत्तस्स जह० द्विदि० संखे०गु० । तस्सेव अपज्ज जह० द्विदि० संखेज्जगु० । तस्सेव अपज्ज० उक्क० द्विदि०संखेज्जगु० । तस्सेव पज्ज० उक्क० द्विदि० संखेज्जगु० । पंचिन्द्रिय-सण्ण-भिच्छा-दिद्वि-पज्जत्त० जह० द्विदि० संखेज्ज० । तस्सेव अपज्ज० जह० द्विदि० संखेज्ज० । तस्सेव अपज्ज० उक्क० द्विदि० संखेज्ज० । तस्सेव पज्जत्त० उक्क० द्विदि० संखेज्ज० ।
 एवं द्विदिबंधट्टाणपरूवणा समत्ता ।

अधिक है। इससे संयतके उत्कृष्ट स्थितिबंध संख्यातगुणा है। इससे संयतासंयतके जघन्य स्थितिबंध संख्यातगुणा है। इससे संयतासंयतके उत्कृष्ट स्थितिबंध संख्यातगुणा है। इससे असंयतसम्यग्दृष्टि पर्याप्तके जघन्य स्थितिबंध संख्यातगुणा है। इससे असंयतसम्यग्दृष्टि अपर्याप्त (निर्वृत्त्यपर्याप्त) के जघन्य स्थितिबंध संख्यातगुणा है। इससे असंयतसम्यग्दृष्टि अपर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिबंध संख्यातगुणा है। इससे असंयतसम्यग्दृष्टि पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिबंध संख्यातगुणा है। इससे पंचेंद्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तके जघन्य स्थितिबंध संख्यातगुणा है। इससे पंचेंद्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि अपर्याप्तके जघन्य स्थितिबंध संख्यातगुणा है। इससे पंचेंद्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि अपर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिबंध संख्यातगुणा है। इससे पंचेंद्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिबंध संख्यातगुणा है।

विशेषार्थ—यहाँ संयतके जघन्य स्थितिबंधसे लेकर संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्यादृष्टि के उत्कृष्ट स्थितिबंध तक अल्पबहुत्वका विचार किया गया है। संयतके वेदनीयका बारह मुहूर्त, नाम और गोत्रका आठ मुहूर्त तथा शेष चार कर्मोंका अन्तर्मुहूर्त जघन्य स्थितिबंध कहा है और बादर एकेंद्रिय पर्याप्तके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तरायका एक सागरका पत्यका असंख्यातवाँ भाग कम तीन बटे सात भाग होता है। मोहनीयका पत्यका असंख्यातवाँ भाग कम एक सागर होता है और नाम और गोत्रका एक सागरका पत्यका असंख्यातवाँ भाग कम दो बटे सात भाग होता है। यही कारण है कि संयतके जघन्य स्थितिबंधसे बादर एकेंद्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिबंध असंख्यातगुणा कहा है। बादर एकेंद्रिय पर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितिबंध एक सागर होता है और द्वीन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिबंध पत्यका संख्यातवाँ भाग कम पच्चीस सागर होता है। यह कुछ कम पच्चीस गुणा है। यही कारण है कि बादर एकेंद्रिय पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिबंधसे द्वीन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिबंध संख्यातगुणा कहा है। द्वीन्द्रिय पर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितिबंध पूरा पच्चीस सागर है और त्रीन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिबंध पत्यका संख्यातवाँ भाग कम पचास सागर है। यह दूनेसे कुछ कम है। यही कारण है कि त्रीन्द्रिय पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिबंधसे त्रीन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिबंध विशेष अधिक कहा है। त्रीन्द्रिय पर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितिबंध पचास सागर है और चतुरिन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिबंध पत्यका संख्यातवाँ भाग कम सौ सागर है। यह दूनेसे कुछ कम है। इसीसे त्रीन्द्रिय पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिबंधसे चतुरिन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिबंध विशेष अधिक कहा है। चतुरिन्द्रिय पर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितिबंध सौ सागर है और असंज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिबंध पत्यका संख्यातवाँ भाग कम एक हजार सागर है। यह कुछ कम दसगुणा है। इसीसे चतुरिन्द्रिय पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिबंधसे असंज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिबंध संख्यातगुणा कहा है। शेष कथन सुगम है।

इस प्रकार स्थितिबंधस्थानकी प्ररूपणा समाप्त हुई।

शिसेगपरूवणा

५. शिसेगपरूवणादाए तत्थ इमाणि दुवे अणियोगद्वाराणि—अणंतरोवणिधा परंपरोवणिधा य । अणंतरोवणिधाए पंचिदियाणं सणणीणं मिच्छादिद्वीणं पज्जत्ताणं णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेयणीय-अंतराइगाणं तिण्ण वस्ससहसाणि आवाधा' मोत्तूणं जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुगं । जं विदिय-समए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं । जं तदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं । एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण तीसं सागरोवमकोडाकोडीओ त्ति । पंचिदियाणं सणणीणं मिच्छादिद्वीणं पज्जत्ताणं मोहणीयस्स सत्तवस्ससहसाणि आवाधा मोत्तूणं जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुगं । विदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं । तदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं । एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीओ त्ति । पंचिदियस्स सण्णमिच्छादिद्विस्स वा सम्मादिद्विस्स वा आयुग्गस्स पुव्व-कोडितिभागं आवाधा मोत्तूणं जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुगं । जं विदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं । जं तदियसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं विसेसहीणं । एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि । पंचिदियाणं सणणीणं मिच्छादिद्वीणं पज्ज० णामागोदाणं वेवस्ससहसाणि

निषेकपरूवणा

५. अब निषेकपरूवणाका विचार करते हैं। उसके ये दो अनुयोगद्वार हैं—अनंतरोपनिधा और परंपरोपनिधा। अनंतरोपनिधाकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय संबन्धी मिथ्यादृष्टि पर्याप्त जीवोंके ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अंतराय कर्मोंके आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्म परमाणु निक्षिप्त होते हैं वे बहुत हैं। जो दूसरे समयमें निक्षिप्त होते हैं वे विशेष हीन हैं। जो तीसरे समयमें निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं। इस प्रकार तीस कोडाकोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक विशेष हीन विशेष हीन कर्म परमाणु निक्षिप्त होते हैं। पंचेन्द्रिय संबन्धी मिथ्यादृष्टि पर्याप्त जीवोंके मोहनीयके सात हजार वर्ष प्रमाण आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे बहुत हैं। जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं। इस प्रकार सत्तर कोडाकोड़ी सागरप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होनेतक विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं। पंचेन्द्रिय संबन्धी मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीवके आयु कर्मके एक पूर्वकोटिकी त्रिभागप्रमाण आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे बहुत हैं। जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं। इस प्रकार तेत्तीस सागरप्रमाण उत्कृष्ट आयुके प्राप्त होनेतक विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं। पंचेन्द्रिय संबन्धी मिथ्यादृष्टि पर्याप्त जीवके नाम और गोत्र कर्मके दो हजार

आवाधा मोत्तूण जं पढमसमए पदेसग्गं णिसित्तं तं बहुगं । जं विदिय० तं विसे० । जं तदिय० तं विसे० । एवं विसेसहीणं विसेस० जाव उक्कस्सेण वीसं सागरोवम-कोडाकोडीओ त्ति ।

वर्षप्रमाण आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे बहुत हैं। जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं। इस प्रकार बीस कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होनेतक विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं।

विशेषार्थ—अनन्तरका अर्थ व्यवधान रहित और उपनिधाका अर्थ मार्गणा है। जिस प्रकरणमें अव्यवधान रूपसे वस्तुका विचार किया जाता है वह अनन्तरोपनिधा अनुयोगद्वारा है। यहां यह बतलाया गया है कि प्रति समय जो कर्म बंधते हैं वे अपनी स्थिति के अनुसार किस क्रमसे निक्षिप्त होते हैं। मूलमें इतना ही निर्देश किया गया है कि प्रथम समयमें बहुत कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं। दूसरे समयमें एक चय कम कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं। इस प्रकार अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक सब समयोंमें एक एक चय कम कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं। इसका विशेष खुलासा इस प्रकार है—मान लो किसी जीवने ६३०० कर्म परमाणुओंका बंध किया और उनकी उत्कृष्ट स्थिति ५१ समय पड़ी। यहाँ तीन समय आवाधाके हैं इसलिये उन्हें छोड़कर बाकीके ४८ समयोंमें उक्त ६३०० कर्म परमाणुओंको निक्षिप्त करना है जो उत्तरोत्तर विशेषहीन क्रमसे दिये जाते हैं। प्रथम गुणहानिमें चयका जो प्रमाण होता है दूसरीमें उससे आधा होता है। इस तरह अंतिम गुणहानिके अन्तिम निषेकतक उत्तरोत्तर चय आधा-आधा होता जाता है। ४८ समयोंमें निक्षिप्त परमाणुओंकी निषेक रचना इस प्रकार होती है—

| | | | | | |
|-----|-----|-----|----|----|----|
| ५१२ | २५६ | १२८ | ६४ | ३२ | १६ |
| ४८० | २४० | १२० | ६० | ३० | १५ |
| ४४८ | २२४ | ११२ | ५६ | २८ | १४ |
| ४१६ | २०८ | १०४ | ५२ | २६ | १३ |
| ३८४ | १९२ | ९६ | ४८ | २४ | १२ |
| ३५२ | १७६ | ८८ | ४४ | २२ | ११ |
| ३२० | १६० | ८० | ४० | २० | १० |
| २८८ | १४४ | ७२ | ३६ | १८ | ९ |

इस रचनामें प्रथम निषेकसे दूसरा निषेक विशेषहीन दिखाई देता है और यह क्रम अन्तिम निषेक तक चला गया है। अन्य कर्मोंसे आयु कर्ममें यही अन्तर है कि अन्य कर्मों की आवाधा स्थिति बन्धके भीतर परिगणित की जाती है पर आयु कर्ममें उसे स्थितिबन्ध से अलग गिना जाता है — यथा इस उदाहरणमें ५१ समयका स्थितिबन्ध मानकर ३ समय आवाधाके लिये छोड़ दिये गये हैं। इस प्रकार आयु कर्मके स्थितिबन्धके जितने समय

६. पंचिदियस्स सण्णस्स अपज्जत्तयस्स आयुगवज्जाणं सत्तएणं कम्माणं अंतो-
मुहुत्तं आवाधा मोत्तूणं जं पढमसमए० तं बहुगं । जं विदियसमए० तं विसे० । जं तदिय-
समए० तं विसे० । एवं विसे० विसेसहीणं जाव उक्कस्सेण अंतोकोटाकोडि त्ति ।
आयुग० अंतोमुहुत्तं आवाधा मोत्तूणं जं पढमसमए० तं बहुगं । जं विदिय० तं विसे० ।
जं तदियस० तं विसेस० । एवं विसे० विसेसहीणं याव उक्कस्सेण पुव्वकोडि त्ति ।

७. पंचिदिय-असण्ण-पज्जत्ताणं आयुगवज्जाणं सत्तएणं कम्माणं अंतोमु०
आवाधा मोत्तूणं जं पढमसम० तं बहुगं । विदियसम० तं विसे० । तदियसम० तं
विसेस० । एवं विसे० विसे० जाव उक्कस्सेण सागरोवम-सहस्स० त्तिण्ण-सत्त भागा सत्त-
सत्त भागा, वेसत्त भागा पडिपुण्णा त्ति । आयुगस्स पुव्वकोडित्तिभागं आवाधा
मोत्तूणं जं पढमसम० तं बहुगं । जं विदियसम० तं विसे० । जं तदियस० तं विसे० ।
एवं विसे० विसे० जाव उक्कस्सेण पलदोवमस्स असंखेज्जदिभागो त्ति ।

८. पंचिदिय-असण्ण-अपज्जत्ताणं सत्तएणं कम्माणं आयुगवज्जाणं अंतोमु-

होते हैं उनमेंसे आवाधाके समय छोड़कर शेषमें निषेक रचना नहीं होती किन्तु जो स्थिति
बन्ध होता है उन सबमें निषेक रचना होती है । प्रथम निषेकसे दूसरा और दूसरेसे
तीसरा निषेक कितना हीन है इस प्रकार व्यवधानके विना यहां विचार किया गया है इस-
लिये इसे अनन्तरोपनिधा कहते हैं ।

६. पंचेन्द्रिय संज्ञी अपर्याप्तकके आयु कर्मके सिवा शेष सात कर्मोंके अंतर्मुहूर्तप्रमाण
आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे बहुत हैं । जो दूसरे
समयमें कर्म परमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं । जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु
निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं । इस प्रकार अंतःकोटाकोटि प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके अंतिम
समयतक विशेषहीन विशेषहीन निक्षिप्त होते हैं । आयुकर्मके अंतर्मुहूर्तप्रमाण आवाधाको
छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे बहुत हैं । जो दूसरे समयमें निक्षिप्त
होते हैं वे विशेषहीन हैं । जो तीसरे समयमें निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं । इस प्रकार पूर्व
कोटिप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके अंतिम समयतक विशेषहीन विशेषहीन निक्षिप्त होते हैं ।

७. पंचेन्द्रिय असंज्ञी पर्याप्तकोंके आयुकर्मके सिवा शेष सात कर्मोंके अंतर्मुहूर्तप्रमाण
आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे बहुत हैं । जो दूसरे
समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं । जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु
निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं । इस प्रकार एक हजार सागरके तीन बटे सात भाग, एक
हजार सागरके सात बटे सात भाग और एक हजार सागरके दो बटे सात भाग प्रमाण
परिपूर्ण स्थितिके अंतिम समयतक विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं । आयु
कर्मके पूर्वकोटिके त्रिभागप्रमाण आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त
होते हैं वे बहुत हैं । जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं । जो
तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं । इस प्रकार पल्योपमके
असख्यातवै भागप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके अंतिम समयतक विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु
निक्षिप्त होते हैं ।

८. पंचेन्द्रिय असंज्ञी अपर्याप्तकोंके आयुकर्मके सिवा शेष सात कर्मोंके अंतर्मुहूर्तप्रमाण

हुत्तं आवाधा मोत्तूण जं पढमसम० तं बहुगं । विदियस० तं विसे० । जं तदियस० तं विसे० । एवं विसे० विसे० जाव उक्क० सागरोवमसहस्सस्स तिण्णिण-सत्त भागा सत्त-सत्तभागा बे-सत्तभागा पत्तिदोवमस्स संखेज्जदि भागेण ऊणिया त्ति । आयुगस्स अंतोमु० आवाधा मोत्तूण जं पढमस० तं बहुगं । जं विदियसम० तं विसे० । जं तदिय-स० तं विसे० । एवं विसे० विसे० जाव उक्क० पुव्वकोडि त्ति ।

६. चदुरिदि०-तेइदि०-बेइदि० पज्जत्ताणां सत्तएणां कम्माणां आयुगवज्जाणां अंतोमु० आवाधा मोत्तूण जं पढमसमए तं बहुगं । विदियस० तं विसे० । जं तदि-यस० तं विसे० । एवं विसे० विसे० जाव उक्कस्सेण सागरोवमसदस्स सागरोवम-पएणारसाए सागरोवमपणुवीसाए तिण्णिण-सत्त भागा सत्त-सत्त भागा बे-सत्त भागा पडिपुएणा त्ति । आयुगस्स बे मासं सोलस रादिदियाणि सादिरेयाणि चत्तारि वस्साणि आवाधा मोत्तूण जं पढम स० तं बहुगं । जं विदियस० तं विसे० । जं तदियस० तं विसे० । एवं विसे० विसे० जाव उक्कस्सेण पुव्वकोडि त्ति ।

१०. चदुरिदि०-तेइदिय०-बेइदिय० अपज्जत्ताणां सत्तएणां कम्माणां आयुगवज्जाणां

आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे बहुत हैं । जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं । जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं । इस प्रकार एक हजार सागरके पल्यका संख्यातवाँ भाग कम तीन बटे सात भाग प्रमाण, एक हजार सागरके पल्यका संख्यातवाँ भाग कम सात बटे सात भागप्रमाण और एक हजार सागरके पल्यका संख्यातवाँ भाग कम दो बटे सात भागप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके अंतिम समयतक विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं । आयु-कर्मके अंतर्मुहूर्तप्रमाण आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे बहुत हैं । जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं । जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं । इस प्रकार पूर्वकोटिप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके अन्तिम समयतक विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं ।

९. चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, त्रीन्द्रिय पर्याप्त और द्वीन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके आयुकर्मके सिवा सात कर्मोंके अंतर्मुहूर्त प्रमाण आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे बहुत हैं । जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं । जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं । इस प्रकार क्रमसे सौ सागरका, पचास सागरका और पच्चीस सागरका तीन बटे सात भागप्रमाण, सात बटे सात भागप्रमाण और दो बटे सात भागप्रमाण परिपूर्ण उत्कृष्ट स्थितिके अन्तिम समय तक विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं । आयुकर्मके क्रमसे दो माह, साधिक सोलह दिनरात और चार वर्षप्रमाण आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे बहुत हैं । जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं । जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं । इस प्रकार पूर्वकोटिप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके अंतिम समय तक विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं ।

१०. चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकोंके आयुके सिवा सात कर्मोंके अंत-

अंतोमु० आबाधा मोत्तूण जं पढमसम० तं बहुगं । जं विदियसम० तं विसे० । जं तदियसम० तं विसे० । एवं विसे० विसे० जाव उक्क० सागरोवमसदस्स सागरोवम-
पण्णारसाए सागरोवमपण्णुवीसाए तिण्ण-सत्त भागा सत्त-सत्तभागा वे-सत्त भागा
पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण ऊणिया । आयुगस्स अंतोमु० आबाधा मोत्तूण जं
पढमसमए० तं बहुगं । जं विदियसमए तं विसे० । जं तदिय स० तं विसे० । एवं
विसे० विसे० याव उक्कस्सेण पुव्वकोडि त्ति ।

११. बादरएइंदियाणं पज्जत्ताणं सत्तएणं कम्माणं आयुगवज्जाणं अंतोमु०
आबाधा मोत्तूण जं पढम स० तं बहुगं, जं विदियस० तं विसे० । जं तदियस० तं
विसे० । एवं विसे० विसे० जाव उक्क० सागरोवमस्स तिण्ण-सत्त भागा सत्त-सत्त
भागा वे-सत्त भागा पडिपुण्णा त्ति । आयुगस्स सत्तवस्ससहस्साणि सादि
रेयाणि आबाधा मोत्तूण जं पढमस० तं बहुगं । जं विदियस० तं विसे० । जं तदियस०
तं विसे० । एवं विसे० विसे० जाव उक्क० पुव्वकोडि त्ति ।

१२. बादरएइंदियअपज्जत्ताणं सुहुमेइंदियपज्जत्तापज्जत्ताणं च सत्तएणं कम्माणं
आयुगवज्जाणं अंतोमु० आबाधा मोत्तूण जं पढमस० तं बहुगं । जं विदियस० तं
मुहूर्तप्रमाण आबाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे बहुत हैं ।
जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं । जो तीसरे समयमें कर्म-
परमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं । इस प्रकार क्रमसे सौ सागरका, पचास सागरका
और पच्चीस सागरका पत्यका संख्यातवाँ भाग कम तीन बटे सात भाग, पत्यका
संख्यातवाँ भाग कम सात बटे सात भाग और पत्यका संख्यातवाँ भाग कम तीन बटे सात
भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके अंतिम समय तक विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निक्षिप्त
होते हैं । आयुकर्मके अंतमुहूर्तप्रमाण आबाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु
निक्षिप्त होते हैं वे बहुत हैं । जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन
हैं । जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं । इस प्रकार पूर्वकोटि-
प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके अंतिम समयतक विशेषहीन विशेषहीन निक्षिप्त होते हैं ।

११. बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके आयुके सिवा सात कर्मोंके अंतमुहूर्तप्रमाण
आबाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्म निक्षिप्त होते हैं वे बहुत हैं । जो दूसरे समयमें
कर्म निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं । जो तीसरे समयमें कर्म निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन
हैं । इस प्रकार एक सागरके तीन बटे सात भाग, सात बटे सात भाग और दो बटे
त्नात भाग प्रमाण परिपूर्ण उत्कृष्ट स्थितिके अंतिम समयतक विशेषहीन विशेषहीन
कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं । आयुकर्मके साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण आबाधाको
छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे बहुत हैं । जो दूसरे समयमें
कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं । जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते
हैं वे विशेषहीन हैं । इस प्रकार पूर्वकोटिप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके अंतिम समयतक विशेषहीन
विशेषहीन कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं ।

१२. बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त
जीवोंके आयुकर्मके सिवा सात कर्मोंके अन्तमुहूर्तप्रमाण आबाधाको छोड़कर जो प्रथम
समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे बहुत हैं । जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त

विसे० । जं तदियस० तं विसे० । एवं विसे० विसे० जाव उक्क० सागरोवमस्स तिण्णिण-
सत्त भागा, सत्त-सत्त भागा, वे-सत्त भागा पत्तिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ऊणि-
गा त्ति । आयुगस्स अंतोमु० आबाधा मोत्तूण जं पढमसमए० तं बहुगं । जं विदियस०
तं विसे० । जं तदियस० तं विसे० । एवं विसे० विसे० जाव उक्क० पुण्वकोडि त्ति ।
एवमणंतरोवणिधा समत्ता ।

१३. परंपरोवणिधाएः पंचिंदिय-सण्णिण-असण्णिणपज्जत्ताणं अट्टणं कम्माणं
उक्क० आबाधा मोत्तूण जं पढमसमए पदेसग्गादो पत्तिदोवमस्स असंखेज्जदि-
भागं गंतूण दुगुणहीणा । एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा जाव उक्कस्सिया ट्ठिदि त्ति ।

१४. पंचिंदियाणं सण्णिण-असण्णिणअपज्जताणं चतुरिंदि०-तेइंदि०-वेइंदि०-

होते हैं वे विशेषहीन हैं । जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं ।
इस प्रकार एक सागरका पत्यका असंख्यातवां भागकम तीन बटे सात भाग, सात बटे सात
भाग और दो बटे सात भागप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके अंतिम समयतक विशेषहीन विशेषहीन
कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं । आयुकर्मके अंतर्मुहूर्तप्रमाण आबाधाको छोड़कर जो प्रथम
समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे बहुत हैं । जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त
होते हैं वे विशेषहीन हैं । जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं ।
इस प्रकार पूर्वकोटिप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके अंतिम समयतक विशेषहीन विशेषहीन कर्म-
परमाणु निक्षिप्त होते हैं ।

विशेषार्थ—संज्ञी पंचेन्द्रियसंबंधी दोनों जीवसमासोंके बंधनेवाले कर्मपरमाणुओंका
सब स्थितियोंमें किस क्रमसे निक्षेप होता है इसका पहले विचार कर आये हैं । यहाँ
शेष जीवसमासोंमें विचार किया गया है । सब जीवसमासोंमें बंधनेवाले कर्मपरमाणुओंके
निक्षेपका क्रम एक ही है, उसमें कोई अन्तर नहीं है, फिर भी सब जीवसमासोंमें निक्षेप
क्रमका पृथक् पृथक् विवेचन करनेका कारण यह है कि प्रत्येक जीवसमासमें आठों कर्मोंका
उत्कृष्ट स्थितिबंध अलग अलग होता है इसलिये जिसके जिस कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबंध
जितना हो वहाँ तक ही प्रत्येक स्थितिमें उत्तरोत्तर विशेषहीन क्रमसे निक्षेपविधि जाननी
चाहिये । मात्र आबाधाकालमें निषेकरचना न होनेसे वहाँ कर्मपरमाणुओंका निक्षेप नहीं
होता है इतना विशेष जानना चाहिये ।

इस प्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई ।

१३. परम्परोपनिधाकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्त और पंचेन्द्रिय असंज्ञी पर्याप्त-
के आठों कर्मोंके आबाधाको छोड़कर प्रथम समयमें निक्षिप्त हुए कर्मपरमाणुओंसे पत्यके
असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जाकर वे द्विगुणहीन होते हैं अर्थात् आधे रह जाते हैं ।
इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होनेतक वे द्विगुणहीन द्विगुणहीन होते जाते हैं ।

१४. पंचेन्द्रिय संज्ञी अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय असंज्ञी अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, चतु-
रिन्द्रिय अपर्याप्त, त्रीन्द्रिय पर्याप्त, त्रीन्द्रिय अपर्याप्त, द्वीन्द्रिय पर्याप्त, द्वीन्द्रिय अपर्याप्त,
बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और सूक्ष्म एके-

बादरएइंदिय०-सुहुमएइंदिय० पज्जत्तापज्जत्ताणं सत्तणं कम्माणं आयुगवज्जाणं उक्कसिया आबाधा मोत्तूण जं पढमसमयपदेसग्गादो तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदि भागं गंतूण दुगुणहीणा । एवं दुगुणहीणा दुगुण० जाव उक्कसिया द्विदि त्ति ।

१५. एयपदेसियदुगुणहाणिट्ठाणंतराणि असंखेज्जाणि पलिदोवमवग्गमूलाणि ।
णाणापदेसदुगुणहाणिट्ठाणंतराणि पलिदोवमस्स वग्गमूल० असंखेज्जदिभागो ।

१६. णाणापदेसदुगुणहाणिट्ठाणंतराणि थोवाणि । एयपदेसदुगुणहाणिट्ठाणंतरं असंखेज्जगुणं ।

आबाधाकंडयपरूवणा

१७. आबाधाकंडयपरूवणादाए' पंचिंदियसणिए-असणिए-चतुरिंदिय-तेइंदिय-
बेइंदिय-बादरएइंदिय-सुहुमेइंदिय-पज्जत्तापज्जत्ताणं सत्तणं कम्माणं आयुगवज्जाणं
उक्कस्सादो द्विदीदो समये समये पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं ओसरिदूण एयमा-

न्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके आयुकर्मके सिवा सात कर्मोंके उत्कृष्ट आबाधाको छोड़कर प्रथम समयमें निश्चित हुए कर्मपरमाणुओंसे पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जाकर वे द्विगुणहीन होते हैं । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक वे द्विगुणहीन द्विगुणहीन होते जाते हैं ।

१५. एकप्रदेशद्विगुणहानिस्थानान्तर पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण हैं । नानाप्रदेशद्विगुणहानिस्थानान्तर पत्योपमके प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं ।

१६. नाना प्रदेश द्विगुणहानिस्थानान्तर स्तोक हैं । इनसे एक प्रदेश द्विगुणहानि स्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं ।

विशेषार्थ—पहले प्रथम निषेकमें कितना द्रव्य होता है और द्वितीयादिक निषेकमें वह कितना कितना कम होता जाता है इसका विचार कर आये हैं । यहाँ प्रथम निषेकके द्रव्यसे कितने स्थान जानेपर वह उत्तरोत्तर आधा आधा रहता जाता है इसका विचार किया गया है । मूलमें बतलाया है कि प्रथम समयमें निश्चित हुए कर्म परमाणुओंसे पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जानेपर वे आधे रह जाते हैं । इस प्रकार पुनः-पुनः पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जानेपर वे उत्तरोत्तर आधे-आधे शेष रहते हैं । यहाँ नाना-प्रदेश गुणहानि स्थानान्तर पदसे नाना गुणहानियां ली गई हैं और एकप्रदेशगुणहानिस्था-नान्तरपदसे एक गुणहानिके निषेक लिए गये हैं ।

आबाधाकाण्डकपरूवणा

१७. अब आबाधाकाण्डककी परूवणा करते हैं । इसकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्त, पंचेन्द्रिय संज्ञी अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय असंज्ञी पर्याप्त, पंचेन्द्रिय असंज्ञी अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त, त्रीन्द्रिय पर्याप्त, त्रीन्द्रिय अपर्याप्त, द्वीन्द्रिय पर्याप्त, द्वीन्द्रिय अपर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंमें आयुकर्मके सिवा सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिसे समय समय उतरते हुए पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थिति उतर कर एक आबाधाकाण्ड करता

बाधाकंडयं करेदि । एस कमो जाव जहणिया ट्टिदि ति ।

अप्पाबहुगपरूवणा

१८. अप्पाबहुगे ति पंचिदियाणं सएणीणं पज्जत्तापज्जत्ताणं णाणावरणीयस्स सन्वत्थोवा जहणिया आबाधा' । आबाधट्टाणाणि आबाधाखंडयाणि च दो वि तुब्बाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सिया आबाधा विसेसाहिया । णाणापदेसगुणहाणिट्टाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि । एयपदेसगुणहाणिट्टाणंतरं असंखेज्जगुणं । एय-माबाधाखंडयमसंखेज्जगुणं । जहणयाओ ट्टिदिबंधो असंखेज्जगुणो । ट्टिदिबंधट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सओ ट्टिदिबंधो विसेसाधिओ । एवं छरणं कम्माणं ।

है और यह क्रम जघन्य स्थितिके प्राप्त होने तक चालू रहता है ।

विशेषार्थ—यहाँ कितनी स्थितिकी कितनी आबाधा होती है इसका विचार किया गया है । कर्मस्थितिविकल्प बहुत हैं और आबाधाके विकल्प थोड़े हैं, इसलिये जितने स्थितिविकल्पोंके प्रति एक आबाधाका विकल्प प्राप्त होता है उसे आबाधाकाण्डक कहते हैं । एक आबाधाकाण्डक यहाँ पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण बतलाया है इसका अभिप्राय यह है कि पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिविकल्पोंके प्रति एक आबाधाविकल्प प्राप्त होता है । उदाहरणार्थ—सत्तर कोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण दर्शनमोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिको ६४ मान लिया जाय, सात हजार वर्ष प्रमाण उत्कृष्ट आबाधाको १६ मान लिया जाय और पत्यके असंख्यातवें भागको ४ मान लिया जाय तो—६४, ६३, ६२ और ६१ इन चारकी १६ समय आबाधा होगी । यह एक आबाधाकाण्डक है । तथा ६०, ५९, ५८ और ५७ की १५ समय आबाधा होगी यह दूसरा आबाधाकाण्डक है । इस तरह जघन्य स्थितिके प्राप्त होनेतक एक एक आबाधाकाण्डकके प्रति आबाधाका एक एक समय कम होते हुए जघन्य स्थितिकी जघन्य आबाधा रह जाती है ।

अल्पबहुत्वप्ररूपणा

१८. अब अल्पबहुत्वका विचार करते हैं । उसकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्त और पंचेन्द्रिय संज्ञी अपर्याप्त जीवोंके ज्ञानावरणीयकी जघन्य आबाधासबसे स्तोक है । इससे आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक ये दोनों समान होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है । इससे नानाप्रदेशगुणहानिस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे एक-प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है । इससे एक आबाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है । इससे जघन्यस्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार छह कर्मोंका अल्पबहुत्व जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—यहाँ अबतक स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा, निषेकप्ररूपणा और आबाधाकाण्डकप्ररूपणा इन तीन अधिकारोंमें जिन विषयोंकी चरचा की है उनमें कौन कितना अल्प है और कौन कितना बहुत है यह तुलनात्मक ढंगसे बतलाया गया है । यह अल्प-बहुत्व जघन्य आबाधासे प्रारम्भ होकर उत्कृष्ट स्थितिपर समाप्त होता है । मात्र इसमें

संयतकी अपेक्षा जघन्य स्थितिका निर्देश नहीं किया है। ज्ञानावरणकी जघन्य स्थिति संयतके होती है और सबसे जघन्य आबाधा उसीकी हो सकती है। इसलिये यह प्रश्न होता है कि इस अल्पबहुत्वमें यह जघन्य आबाधा किसकी ली गई है। आगे उत्तरप्रकृति स्थितिबन्धमें अल्पबहुत्वका निर्देश करते हुए कहा है कि 'सबसे स्तोक जघन्य आबाधा है और उससे जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है।' इससे वहाँ तो जघन्य आबाधा किसकी ली गई है इसका पता लग जाता है पर यहाँका प्रश्न इस दृष्टिसे विचारणीय रहता है। यहाँ ज्ञानावरणके अल्पबहुत्वको कहनेके बाद 'एवं लुण्णं कम्माणं' ऐसा कहा है। संयतके लपक सूक्ष्म-साम्परायके अन्तिम समयमें छह कर्मोंका बन्ध तो होता है पर मोहनीयका नहीं होता। इसलिये इस निर्देशसे यही ज्ञात होता है कि इस अल्पबहुत्वमें संयतकी जघन्य स्थितिका कथन अविचक्षित रहा है। मालूम पड़ता है कि यहाँ मिथ्यादृष्टिकी जघन्य स्थितिकी आबाधा ली गई है, क्योंकि इस अल्पबहुत्वमें इस स्थितिका ग्रहण भी किया है। यह सबसे स्तोक होती है। आबाधके कुल विकल्प आबाधास्थान कहलाते हैं और इतने ही आबाधाकाण्डक होते हैं। ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट आबाधा तीन हजार वर्षमेंसे जघन्य आबाधा अन्त-मुहूर्तको कम कर एक मिला देनेपर कुल आबाधाके विकल्प होते हैं। ये विकल्प अन्तमुहूर्त-प्रमाण जघन्य आबाधासे संख्यातगुणे होनेके कारण आबाधास्थान और आबाधाकाण्डकोंको जघन्य आबाधासे संख्यातगुणा कहा है। ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट आबाधा पूरी तीन हजार वर्ष प्रमाण है जो आबाधास्थानोंमें अन्तमुहूर्तके जितने समय हों एक कम उतने समयोंके मिलानेपर प्राप्त होती है। इसीसे उक्त दोनों पदोंसे उत्कृष्ट आबाधाको विशेष अधिक कहा है। नानाप्रदेशद्विगुणहानिस्थानान्तरोंका प्रमाण पहले पल्यके प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवें भागप्रमाण बतला आये हैं। यह प्रमाण तीन हजार वर्षके समयोंसे असंख्यातगुणा है। इसीसे उत्कृष्ट आबाधाके प्रमाणसे यह प्रमाण असंख्यातगुणा कहा है। एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरका प्रमाण पहले पल्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलोंके बराबर बतला आये हैं। यह प्रमाण नानाप्रदेशद्विगुणहानिस्थानान्तरके प्रमाणसे असंख्यातगुणा है यह स्पष्ट ही है। इसीसे नानाप्रदेशद्विगुणहानिस्थानान्तरके प्रमाणसे इसे असंख्यातगुणा कहा है। एक आबाधाकाण्डकका प्रमाण पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है यह एकप्रदेशद्विगुणहानिस्थानान्तरसे असंख्यातगुणा होनेके कारण असंख्यातगुणा कहा गया है। मिथ्यादृष्टिके ज्ञानावरणकर्मकी जघन्य स्थिति अन्तःकोटाकोटिसागर प्रमाण होती है जो एक आबाधाकाण्डकके प्रमाणसे असंख्यातगुणी होती है। इसीसे आबाधाकाण्डकसे जघन्य स्थितिकी असंख्यातगुणी कहा है। उत्कृष्टस्थिति तीस कोटाकोटिसागरमेंसे अन्तःकोटाकोटिसागरको कम करके जो लब्ध आवे उसमें एक मिलानेपर स्थितिस्थान प्राप्त होते हैं। यतः ये जघन्य स्थितिके प्रमाणसे संख्यातगुणे हैं अतः जघन्य स्थितिके प्रमाणसे स्थितिस्थानोंका प्रमाण संख्यातगुणा कहा है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पूरा तीस कोटाकोटिके समय प्रमाण होता है और स्थितिस्थान इसमेंसे अन्तःकोटाकोटिके समयोंको घटाकर एक मिलानेपर प्राप्त होते हैं। स्पष्ट है कि स्थितिस्थानके प्रमाणसे उत्कृष्ट स्थिति विशेष अधिक है। इसीसे स्थितिस्थानके प्रमाणसे उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण विशेष अधिक कहा है। यह संक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकी मुख्यतासे अल्पबहुत्वका खुलासा है। मात्र इसमें इन्हींके अपर्याप्तकी अपेक्षा प्राप्त होनेवाला अल्पबहुत्व गर्भित है। आयुके सिवा दर्शनावरण आदि शेष छह कर्मोंके उक्त सब पदोंका अल्पबहुत्व इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिये, क्योंकि उनके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध आदिमें अन्तरके होनेपर भी उससे अल्पबहुत्वमें कोई अन्तर नहीं आता।

१६. पंचिदियसण्ण-असण्ण-पज्जत्ताणं सव्वत्थोवा^१ आयुगस्स जहण्णया आबाधा । जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो । आबाधाट्ठाणाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सिया आबाधा विसेसाधिया । णाणापदेसगुणहाणिट्ठायांतराणि असंखेज्जगुणाणि । एयपदेसगुणहाणिट्ठायांतरं असंखेज्जगुणं । द्विदिबंधट्ठाणाणि असंखेज्जगुणाणि । उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाहिओ ।

२०. पंचिदियाणं असण्णीणं पज्जत्तापज्जत्ताणं चउरिंदिय०-तेइंदि०-बेइंदि० पज्जत्तापज्जत्ताणं सत्ताणं कम्माणं आयुगवज्जाणं आबाधाट्ठाणाणि आबाधाखंडयाणि च दो वि तुल्लाणि थोवाणि । जहण्णया आबाधा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आबाधा विसे० । णाणापदेसगु० असंखे०गु० । एयपदेसगु० असं०गु० । एयं आबाधाखंडयं असं०गु० । द्विदिबंधट्ठाणाणि असंखेज्जगुणाणि । जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो । उक्क० द्विदिबं० विसे० ।

२१. बादरएइंदिय-सुहुमएइंदिय-पज्जत्तापज्जत्ताणं सत्ताणं कम्माणं आयुगवज्जाणं आबाधाट्ठाणाणि आबाधाखंडयाणि च दो वि तुल्लाणि थोवाणि । जहण्ण-

१९. पंचेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्त और पंचेन्द्रिय असंज्ञी पर्याप्त जीवोंके आयुकर्मकी जघन्य आबाधा सबसे स्तोक है। इससे जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे आबाधास्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। इससे नाना-प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं। इनसे एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है। इससे स्थितिबन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

२०. पंचेन्द्रिय असंज्ञी पर्याप्त, पंचेन्द्रिय असंज्ञी अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त, त्रीन्द्रिय पर्याप्त, त्रीन्द्रिय अपर्याप्त, द्वीन्द्रिय पर्याप्त और द्वीन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके आयुके सिवा सात कर्मोंके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक ये दोनों तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। इससे उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है। इससे नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं। इनसे एक-प्रदेश गुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है। इससे एक आबाधाकाण्डक असंख्यातगुणा है। इससे स्थितिबन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं। इनसे जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

विशेषार्थ—यहाँ स्थितिबन्धस्थान पत्यके संख्यातवें भागप्रमाण हैं और जघन्य स्थिति पत्यका संख्यातवाँ भाग कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। इसीसे यहाँ स्थितिस्थानोंके प्रमाणसे जघन्य स्थितिको संख्यातगुणा कहा है। शेष कथन सुगम है।

२१. बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके आयुकर्मके सिवा सात कर्मोंके आबाधास्थान और आबाधाकाण्डक ये दोनों तुल्य होकर स्तोक हैं। इनसे जघन्य आबाधा असंख्यातगुणी है। इससे

१. पञ्चसं० बन्धनक० गा० १०३-१०४ । २. मूलप्रतौ पचिदि०.....याणं असंखेज्ज
.....एइंदि० बेइंदि० इति पाठः ।

या आबाधा असं०गु० । उक्क० आबाधा विसे० । एणापदेसगु० असं०गु० ।
एयपदेसगु० असं०गु० । एयं आबाधाखंडयं असं०गु० । द्विदिबंधट्टाणाणि असं०-
गु० । जह० द्विदि० असं०गु० । उक्क० द्विदि० विसे० ।

२२. अवसेसाणं बारसणं जीवसमासाणं आयुगस्स सव्वन्थोवा जहणिया
आबाधा । जह० द्विदिबंधं संखेज्जगु० । आबाधाट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । उक्क०
आबाधा विसेसा० । द्विदिबंधं संखेज्जगुणाणि । उक्क० द्विदि० विसेसा० ।

एवमप्पावहुगं समत्तं

चउवीस-अणिओगद्वारपरूवणा

२३. एदेण अट्टपदेण तत्थ इमाणि चउवीसमणियोगद्वाराणि एादव्वाणि भवंति ।
तं जहा, अद्धाच्छेदो सव्वबंधो एोसव्वबंधो उक्क० अणुक्क० जह० अजह०सादि०
अणादि० धुवबंधं अद्धुवबंधं एवं याव अप्पावहुगे त्ति । भुजगारबंधो पदणिव्वेओ
वड्ढिबंधो अजभवसाणसमुदाहारे जीवसमुदाहारे त्ति ।

उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है । इससे नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे
हैं । इनसे एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं । इससे एक आबाधाकाण्डक
असंख्यातगुणा है । इससे स्थितिबन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं । इससे जघन्य स्थितिबन्ध
असंख्यातगुणा है । इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।

विशेषार्थ—इन जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक सागरके भीतर होता है और
आबाधा, आबाधाकाण्डक आदि उसी हिसाबसे होते हैं । यही कारण है कि इनके सात
कर्मोंके सब पदोंका अल्पबहुत्व उक्त प्रमाणसे होता है ।

२२. अवशेष रहे बारह जीवसमासोंके आयुकर्मकी जघन्य आबाधा सबसे स्तोक है ।
इससे जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे आबाधास्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे
उत्कृष्ट आबाधा विशेष अधिक है । इससे स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे उत्कृष्ट
स्थिति विशेष अधिक है ।

विशेषार्थ—यहाँ अल्पबहुत्वमें आबाधाकाण्डक, नानाप्रदेशद्विगुणहानिस्थानान्तर,
एकप्रदेशद्विगुणहानिस्थानान्तर और एक आबाधाकाण्डक परिगणित नहीं किये गये हैं ।
कारण कि इन बारह जीवसमासोंमें आयुकर्मका जितना स्थितिबन्ध होता है वह इतना
अल्प है जिससे उसमें ये पद सम्भव नहीं हैं । शेष कथन सुगम है ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

चौबीस अनुयोगद्वारपरूपणा

२३. इस अर्थपदके अनुसार यहाँ ये चौबीस अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं । यथा—
अद्धाच्छेद, सर्वबन्ध, नोसर्वबन्ध, उत्कृष्टबन्ध, अनुत्कृष्टबन्ध, जघन्यबन्ध, अजघन्यबन्ध,
सादिबन्ध, अनादिबन्ध, ध्रुवबन्ध और अध्रुवबन्धसे लेकर अल्पबहुत्व तक । तथा भुज-
गारबन्ध, पदनिक्षेप, वृद्धिबन्ध, अध्यवसानसमुदाहार और जीवसमुदाहार ।

विशेषार्थ—अध्रुवबन्धसे लेकर अल्पबहुत्वतक ऐसा सामान्य निर्देश करके शेष
बारह अनुयोगद्वार गिनाये नहीं हैं । वे ये हैं—स्वामित्व, बन्धकाल, बन्धान्तर, बन्ध
सन्निकर्ष, नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल,

अद्वाच्छेदपरूपणा

२४. अद्वाच्छेदो द्विविधो—जहणएणओ उक्कस्सओ च । उक्कस्सगे पगदं । द्विविधी णिद्देशो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराङ्गाणं उक्कस्सओ द्विदिवंधो तीसं सागरोवमकोडाकोडीओ^१ । तिणिएण वस्ससहस्साणि आबाधा^२ । आबाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्मणिसेगो^३ । मोहणीयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीओ । सत्तवस्सहस्साणि आबाधा । आबाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्मणिसेगो । आयुगस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो तेत्तीसं सागरोवमाणि । पुव्वकोडितिभागं आबाधा^४ । कम्मट्ठिदी कम्मणिसेओ^५ । णामागोदाणं उक्कस्सओ द्विदिवंधो वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ । वेवस्ससहस्साणि आबाधा । आबाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्मणिसेगो । एवमोघभंगो सवणिरय-तिरिक्ख४-मणुस०३-देवो याव सहस्सार त्ति पंचिंदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालियका०-वेउ-व्वियका०-तिणिएणवेद०-चत्तारिकसा०-मदि०-सुद०-विभंग०-असंजद०-चक्खुदं-अचक्खुदं०-पंचले०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छादिट्ठि-सणिएण-आहारग त्ति । एवरि आयु०

अन्तर और भाव । आगे इन चौबीस अनुयोगद्वारोंका आश्रय कर स्थितिबन्धका विचार करके पुनः उसका भुजगारबन्ध, पदनिक्षेप, वृद्धि, अध्यवसानसमुदाहार और जीवसमुदाहार इन द्वारा और इनके अवान्तर अनुयोगों द्वारा विचार किया गया है ।

अद्वाच्छेदपरूपणा

२४. अद्वाच्छेद दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है । आबाधा तीन हजार वर्ष प्रमाण है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं । मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण है । सात हजार वर्षप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं । आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तेतीस सागर है । पूर्वकोटिका तीसरा भागप्रमाण आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं । नाम और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बीस कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण है, दो हजार वर्षप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यच, पंचेन्द्रिय तिर्यच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यच और पंचेन्द्रिय योनिनीतिर्यच ये चार प्रकारके तिर्यच, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यिनी ये तीन प्रकारके मनुष्य; देव, सहस्रार कल्पतकके देव, पंचेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक-काययोगी, वैक्रियिक काययोगी, तीनों वेदवाले, चारों कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, पांच लेश्यावाले, भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक, मिथ्यादृष्टि, संक्षी और आहारक जीवोंके जानना चाहिये । किन्तु आयुकर्मके विषयमें

१. जीव० चू० ६ । गो० क०, गा० १२७ । २. गो० क०, गा० १५६ । ३. गो० क०, गा० १६० । ४. गो० क०, गा० १५७ । ५. गो० क०, गा० १५८ ।

विसेसो । देवणेरइगाणं आयुगस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो पुव्वकोडी । छम्मासं आवाधा । कम्मद्विदी कम्मणिसेगो । एवं वेउव्वियका० । चदुणं लेस्साणं आयुगस्स उक्क० द्विदिवंधो सत्तारस सागरोवमं सत्त सागरोवमं वेअट्टारस सागरोवमं सादि० । पुव्वकोडितिभागं आवाधा । कम्मद्विदी कम्मणिसेओ ।

२५. पंचिंदिय-तिरिक्ख-अपज्जत्ताणं सत्तणं कम्माणं उक्क० द्विदिवं० अंतो-कोडाकोडीओ । अंतोमुहु० आवाधा । आवाधूणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेगो । आयु-गस्स उक्क० द्विदिवं० पुव्वकोडी । अतोमुहुत्तं च आवाधा । कम्मद्विदी कम्मणिसेगो । एवं मणुसअपज्जत्त-पंचिंदिय-तसअपज्जत्त-ओरालियमिस्सा त्ति । एवं चैव आणद याव सव्वट्टा त्ति वेउव्वियमिस्स०-आहार०-आहारमिं०-कम्मइग०-आभिरिण०-मुद०-ओधि०-मणवज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-संजदासंजद-ओधिदं०-सुक्कले०-

कुछ विशेषता है । यथा—देव और नारकियोंके आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पूर्वकोटि-प्रमाण होता है, छह महीना की आवाधा होती है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते हैं । इसी प्रकार वैक्रियिककाययोगवालोंके जानना चाहिये । नील आदि चार लेश्यावालोंके आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध क्रमसे सत्रह सागरप्रमाण, सात सागरप्रमाण, साधिक दो सागरप्रमाण और साधिक अठारह सागरप्रमाण है, पूर्वकोटिका तीसरा भागप्रमाण आवाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं ।

विशेषार्थ—यहाँ सर्वप्रथम ओघसे आठों कर्मोंका उत्कृष्टस्थितिबन्ध, उत्कृष्ट आवाधा और उत्कृष्ट निषेकरचनाका निर्देश करके यह ओघप्ररूपणा जिन जिन मार्गणाओंमें सम्भव है उसका विचार किया गया है । आयुकर्मके सिवा सात कर्मोंकी आवाधा स्थितिबन्धमें गर्भित रहती है इसलिये इन कर्मोंकी निषेकरचना आवाधाको न्यून कर शेष स्थिति-प्रमाण कही गई है । पर आयुकर्ममें इस प्रकार स्थितिबन्धके अनुसार प्रतिभागसे आवाधा नहीं प्राप्त होती है किन्तु जिस पर्यायमें विवक्षित आयुका बन्ध होता है उस पर्यायकी शेष रही आयु ही बध्यमान आयुकर्मकी आवाधा होती है, इसलिये आयुकर्मके स्थितिबन्धमें यह आवाधा गर्भित न रहनेसे आयुकर्मकी उसका जितना स्थितिबन्ध होता है तत्प्रमाण निषेकरचना होती है । यहाँ जिन मार्गणाओंका निर्देश किया है उनमेंसे जिन मार्गणाओं में आयुकर्मके बन्धके सम्बन्धमें अपवाद है उसका पृथक्से निर्देश किया ही है । कारण स्पष्ट है ।

२५. पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकोंके सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अन्तःकोडा-कोडी है, अन्तर्मुहूर्त आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं । आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पूर्वकोटि है, अन्तर्मुहूर्त आवाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त और औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिये । तथा इसी प्रकार आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देव, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामाधिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, शुक्ल लेश्यावाले,

सम्मादिद्वि-खड्गस०-वेदग०-उवसमस०-सासण०-सम्भामि०-अणाहारग ति । एवरि
 आयुविसेसो । आणद याव सव्वट्ट ति देवोधं । वेउव्वियमि०-कम्मङ्ग०-उवसम०-
 सम्भामि०-अणाहार० आयुगं एत्थि । संजदासंजद० आयुग० उक्क० द्विदि०
 बावीसं सागरोवमं । पुव्वकोडितिभागं आबाधा । कम्मद्विदी कम्मणिसेगो । सासणे
 आयुग० उक्क० एक्कत्तीसं सागरोवमं । पुव्वकोडितिभागं आबाधा । कम्मद्विदी
 कम्मणिसेगो । आहारकायजोगी आदिं कादूण आयु० ओघं ।

सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि,
 सम्यक् मिथ्यादृष्टि और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये । किन्तु आयुकर्मके विषयमें
 कुछ विशेषता है । यथा—अनन्त कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धितक देवोंके आयुकर्मका कथन
 सामान्य देवोंके समान है । तथा वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, उपशमसम्यग्दृष्टि,
 सम्यग्मिथ्यादृष्टि और अनाहारक जीवोंके आयुकर्मका बन्ध नहीं होता । संयतासंयतोंके
 आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध बाईस सागर होता है । पूर्वकोटिका तीसरा भाग प्रमाण
 आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं । सासादनमें आयुकर्मका उत्कृष्ट
 स्थितिवन्ध इकतीस सागर होता है, पूर्वकोटिका तीसरा भागप्रमाण आबाधा है और
 कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं । आहारककाययोगीसे लेकर शेषके आयुकर्मका विचार
 ओघके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त पदसे संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त
 जीव लिये गये हैं । अन्तःकोटाकोटी सागरसे आगेका स्थितिवन्ध संज्ञी पर्याप्त मिथ्यादृष्टि-
 के ही होता है । किन्तु यहाँ जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें जो पर्याप्त अवस्थासे
 सम्बन्ध रखनेवाली मार्गणाएँ हैं वे मिथ्यादृष्टि नहीं और जो मिथ्यात्व अवस्थासे सम्बन्ध
 रखनेवाली मार्गणाएँ हैं वे पर्याप्त नहीं, अतः इन सब मार्गणाओंमें आयुके सिवा शेष
 सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध अन्तःकोटाकोटी सागरप्रमाण बन जाता है । आयुकर्मके
 स्थितिवन्धके सम्बन्धमें जो विशेषता है वह अलगसे कही है । अनन्त कल्पसे लेकर सर्वार्थ-
 सिद्धि तकके देवोंके आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पूर्वकोटिप्रमाण ही होता है परन्तु
 उत्कृष्ट आबाधा अन्तर्मुहूर्तप्रमाण न होकर छह महीनाकी होती है, इसलिये इनके आयुकर्म-
 के स्थितिवन्धका कथन पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान न कह कर सामान्य देवोंके
 समान कहा है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, उपशमसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्या-
 दृष्टि और अनाहारक जीवोंके आयुकर्मका बन्ध नहीं होता यह स्पष्ट ही है । यहाँ जिस
 प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें आयुबन्धका निषेध किया है उस प्रकार आहारकमिश्रकाय-
 योगमें आयुबन्धका निषेध नहीं किया । इतना ही नहीं किन्तु इस व आगेके प्रकरणोंको
 देखनेसे विदित होता है कि महाबन्धके अनुसार आहारककाययोगके समान आहारक-
 मिश्रकाययोगमें भी आयुबन्ध होता है । किन्तु गोम्मटसार कर्मकाण्डमें आहारकमिश्रकाय-
 योगमें आयुबन्धका निषेध किया है । संयतासंयत जीवोंका गमन सोलवें कल्पतक और
 सासादनसम्यग्दृष्टियोंका गमन अन्तिम अवैयकतक होता है । इससे इनके आयुकर्मका उत्कृष्ट
 स्थितिवन्ध क्रमसे बाईस और इकतीस सागर प्रमाण बतलाया है । शेष कथन सुगम है ।

२६. एइंदिएसु वादर-वादरपज्जत्तस्स सत्तएणं कम्माणं उक्क० द्विदिवंधो सागरोवमस्स तिणिएण सत्तभागा सत्त सत्तभागा वे सत्तभागा । अंतोमुहुत्तं आवाधा । आवाधुणिया कम्मट्टिदी कम्मणिसेगो । आयुगस्स उक्कस्सद्विदिवंधो पुव्वकोडी । सत्तवस्ससहस्साणि सादिरेयाणि आवाधा । कम्मट्टिदी कम्मणि० । वादरएइंदियअपज्जत्त-सुहुमएइंदियपज्जत्त-अपज्जत्ताणं सत्तएणं कम्माणं उक्क० द्विदिवंधो सागरोवमस्स तिणिएण सत्तभागा सत्त सत्तभागा वे सत्तभागा पत्तिदोवमस्स असंवेज्जदिभागेण ङणिया । अंतोमुहुत्तं आवाधा । आवाधुणिया कम्मट्टिदी कम्म० । आयुगस्स उक्क० द्विदिवंधो पुव्वकोडी । अंतोमुहुत्तं आवाधा । कम्मट्टिदी कम्म० । सव्वपुढ०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वणप्फदि०-वादरवणप्फदिपत्तेगसरीर० ए'दियमंगो । एवरि आयु० उक्क० द्विदि० पुव्वकोडी । सत्तवस्ससहस्साणि सादि० वेवस्ससहस्साणि सादि० एक्करादिंदिया० एक्कवस्ससहस्सा० तिणिएणवस्ससहस्साणि सादि० आवाधा । कम्म० कम्मणिसेगो । णिगोदजीवाणं सत्तएणं कम्माणं पुढविकाइयभंगो । आयु० सव्वणियोदाणं सुहुमएइंदियभंगो ।

२६. एकेन्द्रियोंमें बादर और बादर पर्याप्त जीवोंके सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक सागरका तीन बटे सात भाग, सात बटे सात भाग और दो बटे सात भागप्रमाण होता है। अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आवाधा होती है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते हैं। आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पूर्वकोटिप्रमाण है, साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण आवाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक सागरका पत्यका असंख्यातवाँ भाग कम तीन बटे सात भाग, सात बटे सात भाग और दो बटे सात भागप्रमाण है। अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आवाधा है, और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं। आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पूर्वकोटिप्रमाण है। अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आवाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं। सब पृथिवीकायिक, सब जलकायिक, सब अग्निकायिक, सब वायुकायिक, सब वनस्पतिकायिक और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंके सब कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध आदि एकेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पूर्वकोटिप्रमाण है, आवाधा क्रमसे साधिक सात हजार वर्ष, साधिक दो हजार वर्ष, एक दिनरात, एक हजार वर्ष और साधिक तीन हजार वर्ष प्रमाण है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं। निगोद जीवोंके सातों कर्मोंका स्थितिबन्ध आदि पृथिवीकायिक जीवोंके समान है। तथा सब निगोद जीवोंके आयुकर्मका स्थितिबन्ध आदि सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंके समान है।

विशेषार्थ—एकेन्द्रिय जीवोंके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्यराय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक सागरका तीन बटे सात भागप्रमाण होता है, मोहनीयका पूरा एक सागरप्रमाण होता है और नाम और गोत्रका एक सागरका दो बटे सात भागप्रमाण होता है। पर्याप्त एकेन्द्रियोंके और बादर पर्याप्त एकेन्द्रियोंके इन कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध इसी प्रकार होता है। शेष बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त एकेन्द्रियोंके इसमेंसे पत्यका असंख्यातवाँ भाग कम कर देनेपर उत्कृष्ट स्थिति-

२७. वेइंदि०-तेइंदि०-चउरिंदि० तेसिं चेव पज्जत्ताणं सत्तएणं कम्माणं उक्क०
 ट्टिदि० सागरोवमपणुवीसाए सागरोवमपणणासाए सागरोवमसदस्स तिरिण सत्त-
 भागा सत्त सत्तभागा वे सत्तभागा । अंतोमु० आबाधा । [आबाहूणिया] कम्मट्टिदी
 कम्म० । आयुग० उक्क० ट्टिदि० पुव्वकोडी । चत्तारिवस्साणि सोलसरादिंदियाणि
 सादिरेयाणि वे मासं च आबाधा । कम्मट्टिदी कम्म० । तेसिं चेव अपज्जत्ताणं
 सत्तएणं कम्माणं उक्क० ट्टिदिंब० एवं चेव । एवरि पलिदोवमस्स संवेज्जदिभागोण
 ऊणियं । [अंतोमुहुत्तमाबाधा ।] कम्मट्टिदी कम्म० । आयु० पंचिंदिय-तिरिक्ख०
 अपज्जत्तभंगो ।

बन्ध होता है। एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके स्थितिबन्धका यह बीजपद है। इसी बीजपदके अनुसार पृथिवी कायिक आदिके बादर, सूक्ष्म और इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध जानना चाहिये। आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सर्वत्र एक पूर्वकोटिप्रमाण होता है। मात्र आबाधामें अन्तर है; क्योंकि सब जीवोंकी आयु अलग अलग कही है। इसलिये जिसकी जितनी उत्कृष्ट आयु कही है उसके अनुसार उसके आयुकर्मका उत्कृष्ट आबाधाकाल जानना चाहिये। यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

२७. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय तथा इन्हींके पर्याप्त जीवोंके सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध क्रमसे पच्चीस, पचास और सौ सागर का तीन बटे सात भाग, सात बटे सात भाग और दो बटे सात भागप्रमाण होता है। अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा होती है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते हैं। आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पूर्वकोटिप्रमाण होता है, चार वर्ष, साधिक सोलह रातदिन और दो महीना प्रमाण उत्कृष्ट आबाधा होती है तथा कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते हैं। इन्हीं अपर्याप्त जीवोंके सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध इसी प्रकार होता है। इतनी विशेषता है कि वह पल्यका संख्यातवाँ भाग कम होता है। अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा होती है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते हैं। आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध आदि पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकोंके समान है।

विशेषार्थ—द्वीन्द्रिय और त्रीन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पच्चीस सागरका तीन बटे सात भागप्रमाण होता है, मोहनीयका पूरा पच्चीस सागरप्रमाण होता है तथा नाम और गोत्रका पच्चीस सागरका दो बटे सात भागप्रमाण होता है। द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकोंके सर्वत्र पल्यका संख्यातवाँ भाग कम करनेपर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। त्रीन्द्रिय और त्रीन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पचास सागरका तीन बटे सात भागप्रमाण होता है, मोहनीयका पूरा पचास सागरप्रमाण होता है तथा नाम और गोत्रका पचास सागरका दो बटे सात भागप्रमाण होता है। त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकोंके सर्वत्र पल्यका संख्यातवाँ भाग कम करनेपर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। चतुरिन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकोंके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सौ सागरका तीन बटे सात भागप्रमाण होता है, मोहनीयका पूरा सौ सागरप्रमाण होता है तथा नाम और गोत्रका सौ सागरका दो बटे सात भाग-प्रमाण होता है। चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकोंके सर्वत्र पल्यका संख्यातवाँ भाग कम करने-

२८. अवगद० णाणावर०-दंसणावर०-अंतराङ्गाणं उक्क० द्विदिवं० संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । अंतोमु० आबाधा । आवाधूणि कम्मद्विदी कम्म० । वेदणीय-णामागोदाणं उक्क० द्विदि० पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । अंतोमु० आवा० । आवाधू० कम्मद्विदी कम्मणि० । मोहणीय० उक्क० द्विदिवं० संखेज्जाणि वाससदाणि । अंतोमुहुत्तं आवा० । आवाधूणि० कम्मद्विदी कम्म० । सुहुमसंप० तिण्णं कम्माणं उक्क० द्विदिवं० मुहुत्तपुत्तं । अंतोमु० आवा० । आवाधू० कम्मद्विदी कम्म० । वेदणीय-णामा-गोदाणं उक्क० द्विदिवं० मासपुत्तं । अंतोमु० आबाधा । आवाधू० कम्मद्विदी कम्म० ।

२९. असण्णीसु सत्तण्णं कम्माणं उक्क० द्विदिवं० सागरोवमसहस्ससस तिण्ण सत्तभागा सत्त सत्तभागा वे सत्तभागा । अंतोमुहुत्तं आवा० । आवाधू० कम्मद्विदी कम्म० । आयुग० उक्क० द्विदिवं० पलिदोवमस्स असंखे०भागो । पर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है । आबाधा सर्वत्र अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है । आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सर्वत्र एक पूर्वकोटिप्रमाण है । मात्र इसकी आबाधामें अन्तर है, सब भेदोंकी उत्कृष्ट आयु अलग अलग कही है । इसलिये जिसकी जितनी उत्कृष्ट आयु है उसके अनुसार उसके आयुकर्मका उत्कृष्ट आबाधाकाल जानना चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

२८. अपगतवेदवाले जीवोंके ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता है, अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा होती है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते हैं । वेदनीय, नाम और गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पत्यका असंख्योत्तवाँ भागप्रमाण होता है, अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा होती है और आबाधासे न्यून कर्म स्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते हैं । मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यात सौ वर्षप्रमाण होता है, अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा होती है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते हैं । सूक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोंके तीन कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मुहूर्तपृथक्त्वप्रमाण होता है, अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा होती है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते हैं । वेदनीय, नाम और गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मासपृथक्त्वप्रमाण होता है, अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा होती है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते हैं ।

विशेषार्थ—यहाँ जो अपगतवेदी जीवके और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवके कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बतलाया है वह उपशमश्रेणीसे उतरनेवाले जीवके सूक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समयमें और अपगतवेदके अन्तिम समयमें प्राप्त होता है । सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें मोहनीयका और श्रेणिमें आयुकर्मका बन्ध नहीं होता, इसलिये सूक्ष्मसाम्परायसंयतके मोहनीय और आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका और अपगतवेदी जीवके मात्र आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका निर्देश नहीं किया । शेष कथन सुगम है ।

२९. असंखी जीवोंमें सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक हजार सागरका तीन बटे सात भाग, सात बटे सात भाग और दो बटे सात भागप्रमाण होता है, अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा होती है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते हैं । आयुकर्मका

पुव्वकोडितिभागं च आबाधा । कम्मट्टिदी कम्म० । एवमुक्कस्सओ अद्वाच्छेदो समत्तो ।

३०. जहणणगे पगदं । दुविधो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण
णाणावर०-दंसणावर०-मोहणीय०-अंतराङ्गाणं जहणणओ ट्टिदिवंधो अंतो० ।
अंतोमुहुत्तं आबाधा । आबाधू० कम्मट्टिदी कम्म० । वेदणीयस्स जहणणओ ट्टिदिवंधो
वारस मुहुत्तं । अंतोमु० आबाधा । आबाधू० कम्मट्टिदी कम्म० । आयुग० जह०
ट्टिदिवं० खुद्दाभवग्गहणं । अंतो० आबा० । कम्मट्टिदी कम्म० । [णामागोदाणं
जहणणओ ट्टिदिवंधो अट्ट मुहुत्तं । अंतोमुहुत्तमाबाधा । आबाधूणिया कम्मट्टिदी
कम्मणिसेगो ।] एवमोघभंगो मणुस० ३-पंचिदिय-तस० २-पंचमण०-पंचवचि०-
कायजोगि-ओरालियका०-अवगदवे०-लोभक०--आभि०-सुद०-ओधि०-मणपज्जव०-
संजद-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-ओधिदं०-सम्मादि०-खइगस०-सणिएण-आहारग ति ।
एवरि अवगदवे० आयुगं एत्थि । आभि०-सुद०-ओधिदं०-सम्मादि०-खइगस०
आयुग० जह० ट्टिदि० वासपुधत्तं । अंतोमु० आबाधा । कम्मट्टिदी कम्मणिसेगो ।
मणपज्जव०-संजदा० आयुग० जह० ट्टिदिवं० पल्लिदोवमपुधत्तं । अंतोमु० आबाधा ।
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पत्यके असंख्यातवै भागप्रमाण होता है, पूर्वकोटिके त्रिभागप्रमाण आबाधा
होती है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते हैं ।

विशेषार्थ—असंखी जीवोंके मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक हजार सागरप्रमाण,
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तरायका एक हजार सागरका तीन बटे सात
भागप्रमाण तथा नाम और गोत्रका एक हजार सागरका दो बटे सात भाग प्रमाण होता है ।
असंखी जीव मरकर प्रथम नरकमें और भवनत्रिकमें भी उत्पन्न होते हैं, इसलिए इस
दृष्टिसे इनके आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पत्यके असंख्यातवै भागप्रमाण होता है । शेष
कथन सुगम है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट अद्वाच्छेद समाप्त हुआ ।

३०. अब जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और
आदेश । ओघसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध
अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है, अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण
कर्मनिषेक हैं । वेदनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध बारह मुहूर्त है, अन्तर्मुहूर्त आबाधा है
और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं । आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध
शुल्लकभवग्रहण प्रमाण है, अन्तर्मुहूर्त आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं । नाम
और गोत्र कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तर्मुहूर्त है, अन्तर्मुहूर्त आबाधा है और आबाधासे
न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं । मनुष्यत्रिक, पंचेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी,
पाँच वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, अपगतवेदी, लोभकषायी, आभिनिबोधिक-
ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधि-
दर्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, संखी और आहारक जीवोंके इसी प्रकार ओघके
समान जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी जीवोंके आयुकर्मका बन्ध नहीं
होता । आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, सम्यग्दृष्टि और ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि
जीवोंके आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध वर्षपृथक्त्वप्रमाण होता है, अन्तर्मुहूर्त प्रमाण
आबाधा होती है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते हैं । मनःपर्ययज्ञानी और संयत

पुढवीए देवा-भवण०-वाणवे० । एवं चेव सव्वपंचिंदियतिरिक्ख-मणुसअपज्जत्त-पंचिं-
दियअपज्जत्ता० । एवरि आयु० ओघं ?

३२. विदियाए याव सत्तमा त्ति सत्तणं कम्माणं जह० द्विदिवं० अंतोकोडा-
कोडी । अंतोमुहुत्तं आवाधा । आवाधू० कम्मद्विदिकम्म० । आयु० णिरयोघं । एवं
जोदिसिय याव सव्वट्ट त्ति वेउव्वियका०-वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि०-विभंग०-
परिहार०-संजदासंजद०-तेउले०-पम्मले०-वेदगस०-सासण०-सम्भामि० । एवरि
एदेसु आयु० विसेसो । जोदिसिय-सोधम्मीसाण० आयु० जह० द्विदि० अंतो० ।
सणक्कुमार-माहिंद० मुहुत्तपुधत्तं । बह्व-बह्वुत्तर-लंतव-काविट्ट० दिवसपुधत्तं । सुक्क-
महासुक्क-सदर-सहस्सार० पक्खपुधत्तं । आणद-पाणद-आरण-अच्चुद० मासपुधत्तं ।
उवरि याव सव्वट्ट त्ति वासपुधत्तं । अंतोमु० आवा० । कम्मद्विदी कम्म० । वेउ-

चाहिये । तथा इसी प्रकार सब पंचेन्द्रिय तिर्यंच, मनुष्य अपर्याप्त और पंचेन्द्रिय अपर्याप्त
जीवों के जानना चाहिये । किंतु इतनी विशेषता है कि इनके आयुकर्मका कथन ओघके
समान है ।

विशेषार्थ—असंज्ञी जीव मर कर नरकमें उत्पन्न हो सकता है और ऐसे जीवके अप-
र्याप्त अवस्थामें असंज्ञीके योग्य बन्ध होता रहता है । इसीसे नरकमें सात कर्मोंका जघन्य
स्थितिवन्ध उक्त प्रमाण कहा है । संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त गर्भजकी जघन्य आयु अन्तमुहूर्त
प्रमाण होनेसे नरकमें आयुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध अन्तमुहूर्तप्रमाण कहा है ।
असंज्ञी जीव मर कर प्रथम नरक, भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें उत्पन्न हो सकता है ।
इसीसे इन मार्गणाओंमें सामान्य नारकियोंके समान जघन्य स्थितिवन्ध कहा है । सब
पंचेन्द्रिय तिर्यंच, मनुष्य अपर्याप्त और पंचेन्द्रिय अपर्याप्त इन मार्गणाओंमें यद्यपि एकेन्द्रिय
जीव भी मर कर उत्पन्न होता है पर इन मार्गणाओंमें उत्पन्न होनेके बाद अपर्याप्त अवस्था
में सात कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध असंज्ञीके होनेवाले स्थितिवन्धसे कम नहीं होता
ऐसा नियम है । यही कारण है कि इन मार्गणाओंमें भी सात कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध
उक्त प्रमाण कहा है । इन मार्गणाओंमें आयुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध क्षुद्रकभव स्थिति-
प्रमाण होनेसे आयुकर्मकी प्ररूपणा ओघके समान कही है । शेष कथन सुगम है ।

३२. दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक सातों कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध
अन्तःकोडीकोडीसागरप्रमाण होता है, अन्तमुहूर्तप्रमाण आवाधा होती है और आवाधासे
न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होता है । आयुकर्मका कथन सामान्य नारकियोंके समान
है । इसी प्रकार ज्योतिषियोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंके तथा वैक्रियिककाययोगी,
वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, विभङ्गज्ञानी, परिहार-
विशुद्धिसंयत, संयतासंयत, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, वेदकसम्यग्दृष्टि सासादनसम्यग्-
दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाओंमें
आयुकर्मके सम्बन्धमें कुछ विशेषता है—ज्योतिषी देव तथा सौधर्म और ऐशान कल्पमें
आयुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध अन्तमुहूर्तप्रमाण होता है । सानत्कुमार और माहेन्द्रमें
मुहूर्तपृथक्त्वप्रमाण होता है । ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर और लान्तव कापिष्ठमें दिवसपृथक्त्वप्रमाण
होता है । शुक्र महाशुक्र और शतार सहस्वारमें पक्षपृथक्त्वप्रमाण होता है । आनत प्राणत
और आरण अच्युतमें मासपृथक्त्वप्रमाण होता है । आगे सर्वार्थसिद्धि तक वर्षपृथक्त्वप्रमाण

वियका० आयु० देवोघं । आहार०-आहारमि० आयु० जह० द्विदि० पलिदोवम-
पुधत्तं । अंतोमु० आबाधा । कम्मद्विदी कम्म० । एवं परिहार०-संजदासंजदा० त्ति ।
विभंगे आयु० ओघं । तेउलेस्सिया० सोधम्मभंगो । पम्माए सणक्कुमारभंगो । वेदगे
आयु० ओधिभंगो । सासणे देवोघं ।

३३. तिरिक्खेसु सत्तएणं कम्माणं जह० द्विदि० सागरोवमस्स तिएणसत्त
भागा सत्तसत्त भागा बेसत्त भागा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ऊणिया ।
अंतोमु० आबा० । आबाधू० कम्मद्विदी क० । आयु० ओघं । एवं तिरिक्खभंगो
सव्वएइंदिय-सव्वपंचकाय-ओरालियमि०-कम्मइ०-मदि०-सुद०-असंजद०-किएण०-
णील-काउ०-अभसि०-मिच्छादि०-असणिएण-अणाहारग त्ति । एवरि कम्मइ०-
अणाहार० आयुगं एत्थि ।

होता है। अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा होती है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होता है। वैक्रि-
यिक काययोगमें आयुर्कर्मका विचार सामान्य देवोंके समान है। आहारककाययोगी और
आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें आयुर्कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध पत्योपमपृथक्त्वप्रमाण होता
है। अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा होती है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते हैं। इसी प्रकार
परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिये। विभंगज्ञानमें आयुर्कर्मका
कथन ओघके समान है। पीतलेश्यावालोंके आयुर्कर्मका कथन सौधर्मकल्पके समान है।
पद्मलेश्यावालोंके आयुर्कर्मका कथन सानत्कुमार कल्पके समान है। वेदकसम्यग्दृष्टियोंके
आयुर्कर्मका कथन अवधिज्ञानियोंके समान है और सासादनमें आयुर्कर्मका कथन सामान्य
देवोंके समान है।

विशेषार्थ—संज्ञी पंचेन्द्रियपर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध अन्तःकोडाकोडीसे कम नहीं
होता। इसी नियम कोध्यानमें रखकर इन दूसरी पृथिवी आदि मार्गणाओंमें सात कर्मोंका
स्थितिबन्ध कहा गया है। यद्यपि दूसरी पृथिवी आदिक मार्गणाओंमें निवृत्त्यपर्याप्त अवस्था
भी होती है पर यहां संज्ञी जीव ही मर कर उत्पन्न होता है इसलिये यहां किसी भी हालतमें
इससे कम स्थितिबन्ध सम्भव नहीं है। आयुर्कर्मके स्थितिबन्धमें जहां जो विशेषता
कही है वह जानकर समझ लेना चाहिये।

३३. तिर्यंचोंमें सात कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध एक सागरका पत्यका असंख्यातवां
भाग कम तीन वटे सात भाग, सातवटे सात भाग और दो वटे सात भागप्रमाण होता है।
अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा होती है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होता
है। आयुर्कर्मका कथन ओघके समान है। इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, सब पांचों
कायवाले, औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत,
कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अना-
हारक जीवोंके तिर्यंचोंके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि कर्मणकाययोगी
और अनाहारक जीवोंके आयुर्कर्मका बन्ध नहीं होता।

विशेषार्थ—तिर्यंचगतिमें जघन्य स्थितिबन्धके विचारमें एकेन्द्रियोंकी मुख्यता है।
उनके जो जघन्य स्थितिबन्ध होता है वही तिर्यंचगतिमें समझना चाहिये। यहां अन्य
जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं वे सब एकेन्द्रिय जीवोंके सम्भव हैं, इसलिये उन मार्गणाओंमें
भी यही व्यवस्था जाननी चाहिये। इन सब मार्गणाओंमें आयुर्कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध
क्षुदलैकभवप्रमाण होता है इसलिये आयुर्कर्मका कथन ओघके समान कहा है।

३४. बीइंदि०-तीइंदिय-चउरिदि० तेसिं धेव पज्जत्तापज्जत्ताणं सत्तएणं क० जह० द्विदिवं० सागरोवमपणुवीसाए सागरोवमपएणासाए सागरोवमसदस्स तिणिएणसत्त भागा सत्तसत्त मागा वेसत्त भागा पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण ऊणियं । अंतोमु० आबाधा । आबाधू० कम्मद्विदी कम्म० । आयुगस्स ओघं । तसपज्जत्त० बीइंदियभंगो ।

३५. इत्थि०-एवुंस० णाणावर०-दंसणावर०-अंतराइ० जह० द्विदिवं० संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । अंतोमु० आबा० । आबाधू० कम्मद्विदि० । वेदणीय-णामा-गोदाणं जह० द्विदिवं० पलिदो० असंखेज्जदिभागो । अंतो० आबा० । आबाधू० कम्मद्विदी क० । मोहणी० जह० द्विदिवं० संखेज्जाणि वस्ससदाणि । अंतो० आबा० । आबाधू० कम्मद्विदी क० । आयु० ओघं । पुरिसवें० छएणं कम्माणं जह० द्विदिवं० संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । अंतो० आबा० । आबाधू० कम्मद्विदी कम्म० । मोहणीय० सोलस वासाणि । अंतो० आबाधा । आबाधू० कम्मद्विदी क० । आयु० ओघं । अधवा णाणावर०-दंसणावर०-अंतराइगाणं जह० द्विदिवं० संखेज्जाणि वस्ससदाणि । अंतो० आबा० । आबाधू० कम्मद्विदी क० ।

३४. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंके तथा इन्हींके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंके सात कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध क्रमसे पच्चीस सागरका, पचास सागरका और सौ सागरका पत्यका संख्यातवां भाग कम तीन वटे सात भाग, सात वटे सात भाग और दो वटे सात भागप्रमाण होता है, अन्तमुहूर्तप्रमाण आबाधा होती है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होता है । आयुकर्मका विचार ओघके समान है । त्रसपर्याप्तका विचार द्वीन्द्रियोंके समान है ।

३५. स्त्रीवेदी और नपुंसकवेदी जीवोंके ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता है, अन्तमुहूर्तप्रमाण आबाधा होती है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होता है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध पत्यका असंख्यातवां भागप्रमाण होता है, अन्तमुहूर्त आबाधा होती है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होता है । मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात सौ वर्षप्रमाण होता है, अन्तमुहूर्तप्रमाण आबाधा होती है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होता है । आयुकर्मका विचार ओघके समान है । पुरुषवेदवाले जीवोंके छः कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता है, अन्तमुहूर्तप्रमाण आबाधा होती है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होता है । मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सोलह वर्षप्रमाण होता है, अन्तमुहूर्तप्रमाण आबाधा होती है, और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होता है । आयुकर्मका विचार ओघके समान है । अधवा, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात सौ वर्षप्रमाण होता है, अन्तमुहूर्तप्रमाण आबाधा होती है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होता है ।

विशेषार्थ—तीन वेदवाले जीवोंके सात कर्मोंका यह जघन्य स्थिति बन्ध क्षपक श्रेणीमें प्राप्त होता है और आयु कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध मिथ्यात्व गुणस्थानमें प्राप्त होता है, क्योंकि ओघके समान क्षुल्लक भवप्रमाण जघन्य स्थितिबन्ध वहींपर सम्भव है । अन्यत्र

३६. क्रोध-माण-माय० छरणं कम्माणं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । अंतोमु०
 आवा० । आवाधू० कम्मद्विदी कम्म० । मोहणीय० जह० द्विदिवं० क्रोधे वे मासा,
 माणे मासं, मायाए पक्खं । सन्वाणं अंतो० आवा० । आवाधू० । आयु० ओघं ।
 अधवा क्रोधे सत्तणं कम्माणं पुरिसभंगो । एवरि, मोह० जह० द्विदिवं० वेमासं ।
 अंतो० आवा० । आवाधू० कम्मद्वि० । माणे तिण्णक० जह० द्विदिवं० वासपु-
 धत्तं० । अंतो० आवा० । [आवाधूणिया कम्म० ।] वेदणीय-णामा-गोदाणं जह० द्विदिवं०
 संखेज्जाणि वाससदाणि । अंतोमु० आवा० । आवाधू० । मोहणीय० जह० मासं ।
 अंतो० आवाधा० । [आवाधूणिया कम्म० ।] मायाए तिण्णं कम्माणं जह० मास-
 पुधत्तं । अंतो० आवाधा० । [आवाधूणिया कम्म० ।] वेदणीय-णामा-गोदाणं जह०-
 वासपुधत्तं । अंतो० आवाधा० । [आवाधूणिया कम्म० ।] मोहणी० जह० पक्खं ।
 अंतो० आवा० । आवाधू० ।

आयुर्कर्मका इतना कम स्थिति बन्ध नहीं होता । यहाँ पुरुषवेदमें 'अधवा' कहकर विकल्पान्तरकी सूचना की है सो विचारकर इस कथनका सामंजस्य बिठला लेना चाहिए । दूसरे विकल्पद्वारा इसी बातकी सूचना की है । इसीसे पुरुषवेदमें वेदनीय, नाम और गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्ष प्रमाण तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायका जघन्य स्थिति बन्ध संख्यात सौ वर्ष प्रमाण कहा है ।

३६. क्रोध, मान और माया कषायवाले जीवोंके छह कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्ष प्रमाण होता है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा होती है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्म निषेक होता है । मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध क्रोधकषाय-वालेके दो महीना, मान कषायवालेके एक महीना और माया कषायवालेके एक पक्षप्रमाण होता है । सब कर्मोंकी अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा होती है और आबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक होता है । आयु कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध ओघके समान है । अथवा क्रोधकषायवालेके सात कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध पुरुष वेदवालेके समान है । इतनी विशेषता है कि मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध दो महीना है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । मानकषायवालेके तीन कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध वर्षप्रथक्त्व प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्म स्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात सौ वर्ष है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । मोहनीयकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध एक महीना है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । माया कषायवालेके तीन कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध मासपृथक्त्वप्रमाण है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध वर्ष-पृथक्त्वप्रमाण है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध पक्ष प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है ।

विशेषार्थ—उक्त तीन कषायवाले जीवोंके सात कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपक-

३७. सामाह्य-च्छेदोवद्वावण० तिणिण कर्माणं जह० मुहुत्तपुधत्तं । अंतो०
आबा० । [आबाधूणि०] । वेदणीय-णामा-गोदाणं मासपुधत्तं । अंतो० आबा० ।
[आबाधू० ।] मोह० ओघं । आयुग० जह० पलिदोवमपुधत्तं । अंतोमु० आबाधा० ।
[कम्मट्टिदी कम्म० ।] सुहुमसंप० छरणं कर्माणं ओघं ।

३८. उवसमस० चदुएणं कर्माणं जह० [बे अंतोमुहु०] अंतो० आबा० ।
[आबाधू० ।] वेदणी० जह० चउवीसं मुहुत्तं । अंतो० आबाधा० । [आबाधू० ।]
णामा-गोदाणं जह० सोलस मुहुत्तं । अंतो आबा० । [आबाधू० ।] एवं जहएणओ
अद्वाच्छेदो समत्तो ।

एवं अद्वाच्छेदो समत्तो !

श्रेणीमें और आयु कर्मका मिथ्यात्व गुणस्थानमें होता है यहाँ भी विकल्पान्तरके सम्बन्धमें वही बात जाननी चाहिए जिसका निर्देश पुरुषवेदके समय कर आये हैं ।

३७. सामाहिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत जीवोंके तीन कर्मोंका जघन्य स्थिति-
बन्ध मुहूर्तपृथक्त्वप्रमाण है, अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थिति-
प्रमाण कर्मनिषेक है । वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध मासपृथक्त्व-
प्रमाण है, अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक
है । मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध, आबाधा और निषेक रचना ओघके समान है ।
आयुर्कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध पत्योपमपृथक्त्वप्रमाण है, अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और
कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । सूक्ष्मसाम्पराय संयतके छह कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध,
आबाधा और निषेक रचना ओघके समान है ।

विशेषार्थ—उक्त दोनों संयम छठवें गुणस्थानसे लेकर नौवें गुणस्थान तक होते हैं ।
इसलिये क्षपकश्रेणीके नौवें गुणस्थानमें जहाँ जिस कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध होता है
वहाँ इनमें जघन्य स्थितिबन्ध जानना चाहिये । आयुर्कर्मका पत्योपमपृथक्त्वप्रमाण जघन्य
स्थितिबन्ध प्रमत्तसंयतके संक्लेश परिमाणोंकी प्रचुरताके होनेपर होता है । ओघसे छह
कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध आदि क्षपक सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें ही प्राप्त होता है ।
इसीसे सूक्ष्मसाम्परायसंयतके छह कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध आदि ओघके समान कहा है ।

३८. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके चार कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध दो अन्तर्मुहूर्त
प्रमाण है, अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है ।
वेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध चौबीस मुहूर्त है, अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे
न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । नाम और गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध सोलह मुहूर्त
है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है ।

विशेषार्थ—उपशम सम्यग्दृष्टिके यह जघन्य स्थितिबन्ध उपशमश्रेणीमें प्राप्त होता है
जो क्षपक श्रेणीमें प्राप्त हुए जघन्य स्थितिबन्धसे दूना होता है ।

इस प्रकार जघन्य अद्वाच्छेद समाप्त हुआ ।

इस प्रकार अद्वाच्छेद समाप्त हुआ ।

सव्व-णोसव्वबंधपरूवणा

३६. यो सो सव्वबंधो [णोसव्वबंधो] णाम तस्स इमो णिद्वेसो—ओघेण आदे-
सेण य । तत्थ ओघेण णाणावरणीयस्स द्विदिवंधो किं सव्वबंधो णोसव्वबंधो ? सव्व-
बंधो वा णोसव्वबंधो वा । सव्वाओ द्विदी बंधदि त्ति सव्वबंधो । तदो [उणियं]
द्विदि बंधदि त्ति णोसव्वबंधो । एवं सत्तएणं कम्माणं । एवं आणाट्ठारगं त्ति एदच्चं ।

उक्कस्स-अणुक्कस्सबंधपरूवणा

४०. यो सो उक्कस्सबंधो अणुक्कस्सबंधो णाम तस्स इमो णिद्वेसो—ओघेण आदे-
सेण य । तत्थ ओघेण णाणावरणीयस्स द्विदिवंधो किं उक्कस्सबंधो अणुक्कस्सबंधो ?
उक्कस्सबंधो वा अणुक्कस्सबंधो वा । सव्वुक्कस्सियं द्विदि बंधदि त्ति उक्कस्सबंधो ।

सर्वबन्ध नोसर्वबन्धपरूपणा

३९. जो सर्वबन्ध और नोसर्वबन्ध है उसका यह निर्देश है—ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश । इनमेंसे ओघकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयके स्थितिबन्धका क्या सर्वबन्ध होता है या नोसर्वबन्ध होता है ? सर्वबन्ध भी होता है और नोसर्वबन्ध भी होता है । सब स्थितियोंको बाँधता है इसलिये सर्वबन्ध होता है और उससे न्यून स्थितियोंको बाँधता है इसलिये नोसर्वबन्ध होता है । इसी प्रकार सात कर्मोंका कथन करना चाहिये । इस प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—यहाँ ज्ञानावरण आदि आठों कर्मोंके स्थितिबन्धका सर्वबन्ध भी होता है और नोसर्वबन्ध भी होता है यह बतलाया है । जब विवक्षित कर्मकी सब स्थितियोंका बन्ध होता है तब सर्वबन्ध होता है, अन्यथा नोसर्वबन्ध होता है । उदाहरणार्थ—ओघसे ज्ञानावरणकी सब स्थितियाँ तीस कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण हैं । जब इन सब स्थितियोंका बन्ध होता है तब सर्वबन्ध कहलाता है और जब इससे न्यून बन्ध होता है तब नोसर्वबन्ध कहलाता है । इसी प्रकार अन्य सात कर्मोंकी अलग अलग सब स्थितियोंका विचार कर सर्वबन्ध और नोसर्वबन्धका कथन करना चाहिये । मार्गणाओंमें विचार करते समय जिन मार्गणाओंमें यह ओघ परूपणा घटित हो जाय वहाँ ओघके समान जानना चाहिये और जिन मार्गणाओंमें ओघरूपणा घटित न हो वहाँ आदेशसे जहाँ जो उत्कृष्ट स्थिति हो उसे ध्यानमें रखकर सर्वबन्ध और नोसर्वबन्धका विचार करना चाहिये । उदाहरणार्थ—चारों गति, पंचन्द्रिय जाति, त्रसकाय, तीन योग, तीन वेद, चार कषाय, मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, विभंगज्ञान, असंयत, चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, कृष्णादि तीन लेश्या, भव्य, अभव्य, मिथ्यात्व संज्ञी और आहारक इन मार्गणाओंमें ओघके समान सर्वबन्ध और नोसर्वबन्ध होता है । तथा शेष मार्गणाओंमें आदेशसे सर्वबन्ध और नोसर्वबन्ध घटित करना चाहिये ।

उत्कृष्ट-अनुत्कृष्टबन्धपरूपणा

४०. जो उत्कृष्टबन्ध और अनुत्कृष्टबन्ध है उसका यह निर्देश है—ओघ और आदेश । ओघसे ज्ञानावरणीयके स्थितिबन्धका क्या उत्कृष्टबन्ध होता है या अनुत्कृष्टबन्ध ? उत्कृष्ट-
बन्ध भी होता है और अनुत्कृष्टबन्ध भी । सबसे उत्कृष्ट स्थितिको बाँधता है इसलिये

तदो ऊणियं बंधदि त्ति अणुकस्सबंधो । एवं सत्तएणं कम्माणं । एवं अणाहारग त्ति रोदव्वं ।

जहणण-अजहणणबन्धपरूवणा

४१. यो सो जहणणबंधो अजहणणबंधो णाम तस्स इमो णिद्देशो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण णाणावरणीयस्स ट्ठिदिबंधो किं जहणण० अजहणण० ? जहणणबंधो वा अजहणणबंधो वा । सव्वजहणणियं ट्ठिदि बंधमाणस्स जहणणबंधो । तदो उवरि बंधमाणस्स अजहणणबंधो । एवं सत्तएणं कम्माणं । एवं याव अणाहारग त्ति रोदव्वं । णिरएसु आयुग०^१ अजहणणबंधो । एवं सव्वअपज्जत्ताणं सत्तएणं कम्माणं अजहणणबंधो । केइ अप्पणो^२ [ट्ठिदि पडुच्च परूवेति । एवं] याव अणाहारग त्ति ओघं ।

सादि-अणादि-ध्रुव-अध्रुवबंधपरूवणा

४२. यो सो सादियबंधो अणादियबंधो ध्रुवबंधो अध्रुवबंधो णाम तस्स इमो णिद्देशो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तएणं कम्माणं उक्कस्स० अणुकस्स० उत्कृष्टबन्ध होता है और उससे न्यून स्थितिको बाँधता है इसलिये अनुत्कृष्टबन्ध होता है । इसी प्रकार सात कर्मोंका कथन करना चाहिये । इस एकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—सबसे उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी उत्कृष्टबन्ध संज्ञा है । जैसे, ज्ञानावरणका तीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थितिबन्ध होने पर अन्तिम निषेककी उत्कृष्टस्थितिबन्ध संज्ञा है और इससे न्यून स्थितिबन्ध होने पर वह अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध कहलाता है । शेष विचार सर्वबन्ध और नोसर्वबन्धके समान जानना चाहिये ।

जघन्य-अजघन्यबन्धपरूवणा

४१. जो जघन्यबन्ध और अजघन्यबन्ध है उसका यह निर्देश है—ओघ और आदेश । ओघसे ज्ञानावरणीयके स्थितिबन्धका क्या जघन्यबन्ध होता है या अजघन्यबन्ध होता है ? जघन्यबन्ध भी होता है और अजघन्य बन्ध भी होता है । सबसे जघन्य स्थितिको बाँधनेवालेके जघन्य बन्ध होता है और इससे अधिक स्थितिको बाँधनेवालेके अजघन्य बन्ध होता है । इसी प्रकार सात कर्मोंका कथन करना चाहिये । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि नारकियोंमें आयुकर्मका अजघन्य स्थितिबन्ध होता है । इसी प्रकार सब अपर्याप्तियोंके सात कर्मोंका अजघन्यबन्ध होता है । कितने ही आचार्य अपने अपने स्थितिबन्धकी अपेक्षा जघन्यबन्ध और अजघन्यबन्धका कथन करते हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ओघको ध्यानमें रख कर कथन करना चाहिए ।

सादि-अनादि-ध्रुव-अध्रुवबन्धपरूवणा

४२. जो सादिबन्ध अनादिबन्ध, ध्रुवबन्ध और अध्रुवबन्ध है उसका यह निर्देश है—ओघ और आदेश । उनमें से ओघसे सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध, अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध

१. मूलप्रतौ आयुग० णोसव्वबंधो इति पाठः । २. मूलप्रतौ कम्माणं णोसव्वबंधो इति पाठः ।

३. मूलप्रतौ अप्पणो ' ' ' ' ' याव इति पाठः ।

जहणबंधो किं सादि० अणादिय० ध्रुव० अद्भुव० ? सादिय-अद्भुवबंधो । अज-
हणबंधो किं सादि० ४ ? सादियबंधो वा अणादियबंधो वा ध्रुवबंधो वा अद्भुव-
बंधो वा । आयुगस्स चत्तारि^१ वि सा- [दिय-अद्भुवबंधो । एवं अ-] चक्खुदं०-
भवसि० । एवरि भवसि० ध्रुवं एत्थि । एवं सेसाणं याव अणाहारग ति ओघेण
साधूदूण एदंवं ।

सामित्तपरूवणा

४३. सामित्तं दुविधं, जहणणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सेण पगदं । दुविधो णिहेसो-

और जघन्य स्थितिबन्ध क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है या क्या अध्रुव है ? सादि है और अध्रुव है । अजघन्यस्थितिबन्ध क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है या क्या अध्रुव है ? सादि है, अनादि है, ध्रुव है और अध्रुव है । आयुकर्मके चारों ही सादि और अध्रुव होते हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक शेष सब मार्गणाओंमें सादिस्थितिबन्ध आदि ओघसे साध कर जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—कर्मका जो बन्ध रुककर पुनः होता है वह सादिबन्ध कहलाता है और बन्धव्युत्पत्तिके पूर्व तक अनादि कालसे जिसका बन्ध होता आ रहा है वह अनादिबन्ध कहलाता है । ध्रुवबन्ध अभव्योंके और अध्रुवबन्ध भव्योंके होता है । ये चारों ही उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य इन चार भेदोंमें घटित करने पर सोलह प्रकारके होते हैं । आगे आठों कर्मोंका आश्रय कर इसी विषयका खुलासा करते हैं—आयुके विना ज्ञानावरण आदि सात कर्मोंके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध कादाचित्क होते हैं तथा जघन्य स्थितिबन्ध क्षणिकश्रेणियोंमें होता है, इसलिये ये तीनों सादि और अध्रुवके भेदसे दो दो प्रकार के होते हैं किन्तु इस तरह अजघन्य स्थितिबन्ध कादाचित्क नहीं होता, क्योंकि जघन्य स्थितिबन्धके प्राप्त होनेके पूर्वतक अनादि कालसे जितना भी स्थितिबन्ध होता है वह सब अजघन्य कहलाता है । तथा उपश्रम श्रेणियोंमें उक्त सात कर्मोंकी बन्धव्युत्पत्ति होने पर पुनः उनका अजघन्य स्थितिबन्ध होने लगता है इसलिए अजघन्य स्थितिबन्धमें सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव ये चारों विकल्प बन जाते हैं । आयुकर्ममें उत्कृष्ट आदि चारों विकल्प सादि और अध्रुव दो ही प्रकारके हैं यह स्पष्ट ही है, क्योंकि आयुकर्मका सब जीवोंके कादाचित्क बन्ध होता है । अचक्षुदर्शन और भव्य मार्गणा एक तो कादाचित्क नहीं हैं और दूसरे ये कमसे क्षीणमोह और अयोगिकेवली होने तक रहती हैं, इसलिये इनमें सादि आदि प्ररूपणा पूर्ववत् बन जाती है, इसलिये इन मार्गणाओंमें उक्त प्ररूपणा पूर्ववत् कही है । केवल भव्य मार्गणामें ध्रुवविकल्प नहीं होता । कारण स्पष्ट है । शेष सब मार्गणाओंमें ये उत्कृष्ट स्थितिबन्ध आदि चारों सादि और अध्रुव ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि अन्य सब मार्गणाएँ यथासम्भव बदलती रहती हैं या सादि हैं इसलिये उनमें अनादि और ध्रुव ये विकल्प नहीं बनते । यद्यपि अभव्य मार्गणा ध्रुव है फिर भी उसमें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध आदिके अनादि और ध्रुव न होनेसे सादि और अध्रुव ये दो ही विकल्प घटित होते हैं ।

स्वामित्वप्ररूपणा

५३. स्वामित्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश

१. गो० क०, गा० १५२ ।

२. मूलप्रती चत्तारि वि सो.....चक्खुदं इति पाठः ।

ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तएणं कम्माणं उक्कस्सट्ठिदिवंधो कस्स होदि ? अएणदरस्स पंचिंदियस्स सएिणस्स मिच्छादिट्ठिस्स' सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्त-
गदस्स सागारजागारसुदोवजुत्तस्स उक्कस्सियाए ट्ठिदीए उक्कस्सट्ठिदिसंकिलेसेण
वट्ठमाणयस्स अथवा ईसिमज्झिमपरिणामस्स वा । आयुगस्स उक्कस्सिओ ट्ठिदि-
बंधो कस्स होदि ? अएणदरस्स मगुसस्स वा पंचिंदियतिरिक्खजोणणीयस्स वा
सएिणस्स सम्मादिट्ठिस्स मिच्छादिट्ठिस्स वा सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तगदस्स सागार-
जागारसुदोवजुत्तस्स तप्पाओग्गविसुद्धस्स वा तप्पाओग्गसंकिलिट्ठस्स वा उक्कसियाए
आबाधाए उक्कस्सगे ट्ठिदिवंधे वट्ठमाणयस्स ।

४४. आदेसेण एणरयगदीए एणरइएसु सत्तएणं कम्माणं उक्कस्सओ ट्ठिदिवंधो कस्स
होदि ? अएणदरस्स वि मिच्छादिट्ठिस्स सागारजागारसुदोवजुत्तस्स उक्कस्सियाए ट्ठिदीए
उक्कस्सए ट्ठिदिसंकिलेसे वट्ठमाणस्स अथवा ईसिमज्झिमपरिणामस्स । आयुगस्स उक्क-
ट्ठिदि० कस्स ? अएणदरस्स सम्मादिट्ठिस्स वा मिच्छादिट्ठिस्स वा सागारजागार०
तप्पाओग्गविसुद्धस्स उक्कस्सियाए आबाधाए उक्कस्सिए ट्ठिदिवंधे वट्ठमाणस्स । एवं
सव्वासु पुढवीसु । एवरि सत्तमाए पुढवीए आयु० मिच्छादिट्ठिस्स तप्पाओग्गविसुद्धस्स ।

दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थिति-
बन्धका स्वामी कौन है ? जो सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत श्रुतोपयोगसे उपयुक्त
है, उत्कृष्ट स्थितिबन्धके साथ उत्कृष्टस्थितिबन्धके योग्य संक्लेश परिणामवाला है अथवा ईषत्
मध्यम परिणामवाला है ऐसा कोई एक संज्ञी पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीव उत्कृष्ट स्थितिबन्ध-
का स्वामी है । आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो संज्ञी है, सम्यग्दृष्टि
या मिथ्यादृष्टि है, सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत श्रुतोपयोगसे उपयुक्त है,
तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है या तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है और उत्कृष्ट
आबाधाके साथ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा है ऐसा कोई एक मनुष्य या पञ्चेन्द्रिय
तिर्यञ्च योनिवाला जीव आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।

विशेषार्थ—यहां ओघसे आठों कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका निर्देश किया
गया है । विशेष वक्तव्य इतना ही है कि तेतीस सागर प्रमाण नरकायुका उत्कृष्ट स्थिति-
बन्ध मूलमें दिये गये विशेषणोंसे युक्त मनुष्य और तिर्यञ्च दोनोंके होता है किन्तु तेतीस
सागरप्रमाण उत्कृष्ट देवायुका बन्ध मात्र मनुष्यके ही होता है ।

४४. आदेशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी
कौन है ? जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत श्रुतोपयोगसे उपयुक्त है, उत्कृष्ट स्थितिबन्धके साथ
उत्कृष्टस्थितिबन्धके योग्य संक्लेश परिणामवाला है या ईषत् मध्यम परिणामवाला है ऐसा कोई
एक नारकी सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका
स्वामी कौन है ? जो सम्यग्दृष्टि है या मिथ्यादृष्टि है, साकार और जागृत उपयोगवाला होकर
भी विशुद्ध परिणामवाला है और उत्कृष्ट आबाधाके साथ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा है ऐसा
कोई एक नारकी आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें
जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें मिथ्यादृष्टि तत्प्रायोग्य विशुद्ध

४५. तिरिक्खेसु सत्तएणं कम्माणं ओघं । आयुगस्स मिच्छादिद्विद्विस्स तप्पाओग्ग-संक्रिलिद्वस्स । एवं पंचिंदियतिरिक्ख० ३ । पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तगेमु सत्तएणं कम्माणं उक्क० द्विदि० कस्स ? अएणदरस्स सएणस्स सागारजागारमुदोवजुत्तस्स तप्पाओग्गउक्कस्सियाए द्विदीए उक्कस्सए द्विदिसंक्रिलेसे वट्टमाणस्स । आयुगस्स उक्क० द्विदि० कस्स ? अएणद० सएणस्स वा असएणस्स वा सागारजागारमुदो-वजुदस्स तप्पाओग्गविसुद्धस्स उक्क० आवाधाए उक्कस्सिए द्विदिवंधे वट्टमाणस्स ।

४६. मणुस०४-पंचिंदिय०२-तस० २-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि-यका०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-विभंग०-असंज०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छादिद्वि-सएण-आहारग ति ओघभंगो । एवरि संजमविरद्विदाणं तप्पाओग्गविसुद्धो ति ए भाणिदव्वं । आयुगस्स मणुसअपज्ज०-पंचिंदिय-तसअप-

परिणामवाला नारकी जीव आयु कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी होता है ।

विशेषार्थ—नरकमें आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पूर्वकोटि प्रमाण होता है । तथा प्रारम्भके छह नरकोंमें सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों प्रकारके नारकियोंके यह स्थिति-बन्ध सम्भव है किन्तु सातवें नरकमें यह स्थितिबन्ध मिथ्यादृष्टिके ही होता है । यह उक्त कथनका तात्पर्य है । शेष कथन सुगम है ।

४५, तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका कथन ओघके समान है । आयु कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मिथ्यादृष्टि तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला तिर्यञ्च होता है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रिक उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामी होते हैं । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो संज्ञी है, साकार जागृत श्रुतोपयोगसे उपयुक्त है, तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिबन्धके साथ उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य संक्लेशपरिणामवाला है ऐसा कोई एक पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीव सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो संज्ञी है, या असंज्ञी है, साकार जागृत श्रुतोपयोगसे उपयुक्त है, तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है और उत्कृष्ट आबाधाके साथ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा है ऐसा पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीव आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।

विशेषार्थ—संज्ञी या असंज्ञी दोनों प्रकारके पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीव उनके योग्य पूर्वकोटि प्रमाण उत्कृष्ट आयुका बन्ध करते हैं इसलिये आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका स्वामी दोनोंको बतलाया है । शेष कथन सुगम है ।

४६. मनुष्य चतुष्क, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभङ्ग-ज्ञानी, असंयत, चक्षुदर्शनी, अक्षुदर्शनी, भव्यसिद्धिक, अभव्यसिद्धिक, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंके सब कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामित्वका कथन ओघके समान करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमें जो मार्गणाएँ संयम रहित हैं उनमें तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला जीव आयु कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी होता है यह नहीं कहना चाहिये । तथा मनुष्य अपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त मार्गणाओंमें

ज्जत्ता० पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

४७. देवाणां गिरयभंगो याव सहस्सार त्ति । आणद् याव उवरिमगेवज्जा त्ति सत्तएणां कम्माणं उक्क० ट्ठिदि० कस्स ? अएणद्० मिच्छादिट्ठिस्स सागारजागार० तप्पाओग्गसंकिलिड्ठस्स । आयु० देवभंगो । अणुदिस जाव सव्वट्ठ० त्ति सत्तएणां कम्माणं उक्क० ट्ठिदि० कस्स ? अएणदरस्स तप्पाओग्गसंकिलिड्ठस्स । आयु० [उक्क० ट्ठिदि० कस्स० । अएणद्०] तप्पाओग्गविसुद्धस्स० उक्क० वट्ठमा० ।

आयुर्कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तके समान जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—पहले ओघ प्ररूपणामें आयु कर्मके उत्कृष्ट स्थिति बन्धके स्वामीका कथन करते समय यह कह आये हैं कि जो संज्ञी है, सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि है, सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत श्रुतोपयोगसे उपयुक्त है, तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला या तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है और उत्कृष्ट आबाधासे युक्त होकर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा है ऐसा मनुष्य या पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिवाला जीव आयुर्कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी होता है । सो यह कथन अविकल रूपसे यहाँ कही गई सभी मार्गणाओंमें घटित होता है क्या यह एक प्रश्न है जिसका समाधान करते हुए यहाँ मूलमें कहा गया है कि जो मार्गणाएँ संयम रहित हैं उनमें यह कथन अविकलरूपसे घटित नहीं होता, क्योंकि संयम रहित मार्गणाओंमें आयुर्कर्मका तेतीस सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशुद्ध परिणामवालेके न होकर तत्प्रायोग्य संक्लेशपरिणामवालेके ही होता है । वे मार्गणाएँ ये हैं—मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, असंयत, अभव्य और मिथ्यादृष्टि । ऐसा नियम है कि मनुष्यायु, देवायु और तिर्यञ्चायुके सिवा शेष रहीं ११७ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवालोंके या तत्प्रायोग्य ईषत् मध्यम परिणामवालोंके ही होता है । इस नियमके अनुसार नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशुद्ध परिणामवालेके नहीं हो सकता और इन मार्गणाओंमें आयुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नरकायुका ही होता है, क्योंकि इन मार्गणाओंमें संयमकी प्राप्ति सम्भव न होनेसे देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नहीं हो सकता । इसीलिये इन मार्गणाओंका वारण करनेके लिये मूलमें उक्त कथन किया है । शेष कथन सुगम है । किन्तु मनुष्य अपर्याप्त जीव भी संज्ञी ही होते हैं, इसलिये इनमें आयु कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका कथन करते समय असंज्ञी विशेषण नहीं लगाना चाहिये ।

४७. देवोंमें सहस्सार कल्पतक आठों कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी नारकियोंके समान है । आनत कल्पसे लेकर उपरिम त्रैवेयकतकके देवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? मिथ्यादृष्टि साकार जागृत श्रुतोपयोगसे उपयुक्त और तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला कोई भी देव सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । यहाँ आयुर्कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका कथन सामान्य देवोंके समान है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला अन्यतर देव सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो साकार जागृत श्रुतोपयोगसे उपयुक्त है, तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है और उत्कृष्ट आबाधाके साथ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा है ऐसा अन्यतर देव आयुर्कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।

४८. एइंदिएसु सत्तएणं कम्मएणं उक्क० द्विदि० कस्स ? अएणदर० वादरस्स सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तगस्स सागारजागार० तप्पाओग्गसंकिलिद्वस्स । आयु० उक्क० द्विदि० कस्स ? अएणद० तप्पाओग्गविसुद्धस्स । एवं एइंदियवादरमुहुमपज्जत्ता-पज्जत्त-बीइंदि०-तेइंदि०-चदुरिंदि०-पज्जत्तापज्जत्त-सव्वपुहवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वण-प्फदि-पत्तेय०-णियोद-वादर-सुहुमपज्जत्तापज्जत्त० । एवरि पज्जत्तए पज्जत्तगहणं कादव्वं । अपज्जत्तए अपज्जत्तगहणं कादव्वं ।

४९. ओरालियका० सत्तएणं कम्मएणं ओघं । एवरि दुगदियस्स । आयु० ओघं । ओरालियमिस्से सत्तएणं कम्मएणं उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएणद० दुगदियस्स मिच्छादिद्विस्स सएणस्स तप्पाओग्गसंकिले० से काले सरीरपज्जत्ती गाहिदि त्ति तप्पाओग्ग० उक्क० संकिलेसे वट्टमाणगस्स । आयु० उक्क० द्विदि० कस्स ?

विशेषार्थ—यहाँ देवोंमें आठों कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका कथन करते समय तीन विभाग कर दिये हैं—पहला सहस्रार स्वर्ग तकका, दूसरा नौ त्रैवेयकतकका और तीसरा सर्वार्थसिद्धि तकका । नौ त्रैवेयक तक मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि दोनों होते हैं तथा सहस्रार कल्पतक सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ओघके समान बन जाता है, इसलिए ये विभाग किये गये हैं । बाकीकी सब विशेषताएँ आठों कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अद्वाच्छेदको देखकर समझ लेनी चाहिए ।

४८. एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो बादर है, सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य संक्लेश-परिणामवाला है ऐसा अन्यतर एकेन्द्रिय जीव सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थिति बन्धका स्वामी कौन है ? जो तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है ऐसा अन्यतर एकेन्द्रिय जीव आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार एकेन्द्रिय बादर और सूक्ष्म तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, सब पृथिवीकायिक, सब जलकायिक, सब अग्निकायिक, सब वायुकायिक, सब वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर तथा निगोद जीवोंके और इनके बादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोंका कथन करते समय 'पर्याप्त' पदका ग्रहण करना चाहिए और अपर्याप्तकोंका कथन करते समय 'अपर्याप्त' पदका ग्रहण करना चाहिए ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियादि इन मार्गशास्त्रोंमें सब कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अद्वाच्छेद पहले कह आये हैं । उसे ध्यानमें रखकर यहाँ उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका विचार कर लेना चाहिये । यहाँ केवल इतना ही बतलाया गया है कि विवक्षित मार्गशास्त्रोंमें किस योग्यताके होनेपर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है ।

४९. औदारिकाययोगमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका कथन ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि यह दो गतिके जीवोंके होता है । आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी ओघके समान है । औदारिक मिश्रकाययोगमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो मिथ्यादृष्टि है, संक्षी है, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है, तदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको प्राप्त होनेवाला है और तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशरूप परिणामोंसे युक्त है ऐसा अन्यतर दो गतिका जीव सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थिति-

अण्णद० तप्पाओग्गविसुद्ध० उक्क० । वेउव्वियं० सत्तएणं कम्माणं उक्क० द्विदि० कस्स ? अण्णदर० देवस्स वा ऐरइग्गस्स उक्कस्ससंकिलिट्ठ० । आयु० उक्क० द्विदि० कस्स ? अण्णद० सम्पादिद्वि० मिच्छादिद्वि० तप्पाओग्गविसुद्धस्स । वेउव्वियमि० सत्तएणं कम्माणं उक्क० द्विदि० कस्स ? अण्णद० देवस्स वा ऐरइयस्स वा मिच्छादिद्विस्स से काले सरीरपज्जत्ती गाहिदि त्ति । आहारका० सत्तएणं कम्माणं उक्क० द्विदि० कस्स ? अण्णद० पमत्तसंजदस्स तप्पाओग्गसंकिलिट्ठस्स । आयु० [उक्क० द्विदि० कस्स ? अण्णदर०] तप्पाओग्गविसुद्धस्स । एवं आहारमि० । एवरि से काले पज्जत्ती गाहिदि त्ति भाण्णिदव्वं । कम्मइ० सत्तएणं कम्माणं उक्क० द्विदि० कस्स ? अण्णद० चदुग्गदियस्स पंचिदियस्स सण्णस्स मिच्छादिद्विस्स सागारजागार-तप्पाओग्ग-उक्कस्ससंकिलिट्ठस्स ।

५०. इत्थि०—पुरिस० सत्तएणं कम्माणं उक्क० द्विदि० कस्स ? तिग्गदियस्स संकिलिट्ठस्स मिच्छादिद्वि० सागारजागार० उक्क०संकि० । आयु० ओघं । एवं एवुंसगवेदे । अवगदवे० सत्तएणं कम्मा० उक्क० द्विदि० कस्स ? अण्णद० उवसम-
बन्धका स्वामी है । आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिसे युक्त अन्यतर जीव आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । वैक्रियिककाययोगमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट संक्लेशरूप परिणामोंसे युक्त अन्यतर देव या नारकी जीव सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि वैक्रियिककाययोगी जीव आयु कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो देव या नारकी अनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको प्राप्त होगा ऐसा अन्यतर वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीव सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । आहारक काययोगमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । आयु कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । आहारकमिश्रकाययोगमें इसी प्रकार जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि तदनन्तर समयमें पर्याप्तिको प्राप्त होगा ऐसी स्थितिमें इसके उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिये । कर्मणकाययोगमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो चार गतिका जीव पञ्चेन्द्रिय है, संज्ञी है, मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है ऐसा अन्यतर कर्मण काययोगी जीव सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।

५०. स्त्रीवेदवाले और पुरुषवेदवाले जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो तीन गतिका जीव संक्लिष्ट परिणामवाला है, मिथ्यादृष्टि है और साकार जागृत उपयोगसे उपयुक्त है वह सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी ओघके समान है । इसी प्रकार नपुंसकवेदमें जानना चाहिये । अपगतवेदवाले जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? उपशम श्रेणिसे पतित होनेवाला जो अन्यतर अनिवृत्ति उपशमक जीव तदनन्तर समयमें सवेदी होगा

गस्स परिवदमाणस्स अणियट्टिस्स से काले सवेदो होहिदि त्ति चरिमे उक्क० द्विदिवंधे वट्टमाणस्स ।

५१. आधि०-सुद०-ओधि० सत्तएणं कम्माणं उक्क० द्विदि० कस्स ? अणण० चटुगदियस्स असंजदसं० मिच्छत्ताभिमुहस्स चरिमे उक्कस्सए द्विदिवंधे वट्टमाणस्स । आयु० उक्क० द्विदि० कस्स ? पमत्तसंज० तप्पाओग्गविमुद्दस्स । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-वेदगसं० । मणपज्जव० सत्तएणं कम्माणं उक्क० द्विदि० पमत्तसंजदस्स तप्पाओग्गसंकिलिद्धस्स असंजमाभिमुहस्स चरिमे उक्क० द्विदि० वट्टमा० । आयु० ओधिमंगो । एवं संजदा-सामाइ०-छेदोव० । एवरि मिच्छत्ताभिमुहस्स ।

५२. परिहार० सत्तएणं कम्माणं उक्क० द्विदि० पमत्तसंजदस्स सामाइय-छेदोवट्टावणाभिमुहस्स । आयु० पमत्तसंजदस्स तप्पाओग्गविमुद्दस्स । मुहुमसंप०

इस प्रकार जो अन्तिम उत्कृष्ट स्थितिबन्धमें अवस्थित है ऐसा अपगतवेदी जीव सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।

विशेषार्थ—नारकी नपुंसक होते हैं अतः यहां स्त्रीवेद और पुरुषवेदमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व नरक गतिके सिवा अन्य तीन गतियोंके जीवोंके कहना चाहिए । नपुंसकवेदकी अपेक्षा देवगतिके स्थानमें नरकगतिका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि देव नपुंसक नहीं होते । शेष कथन सुगम है ।

५१. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर चतुर्गतिका असंयतसम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यात्वके अभिमुख है और अन्तिम उत्कृष्ट स्थितिबन्धमें विद्यमान है वह सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला प्रमत्तसंयत जीव आयुर्कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो प्रमत्तसंयत जीव तत्प्रायोग्य संक्लेशपरिणामवाला है, असंयमके अभिमुख है और अन्तिम उत्कृष्ट स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह मनःपर्ययज्ञानी जीव सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी अवधिज्ञानीके समान है । इसी प्रकार संयत, सामायिक संयत और छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत जीवोंके कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमें मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संक्लेशपरिणाममें होता है इसलिये उक्त मार्गणाओंमें जिस मार्गणासे जहां के लिये पतन सम्भव है उसके सन्मुख हुए जीवके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व कहा है । पर इन मार्गणाओंमें आयुर्कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशुद्ध परिणामोंसे होता है, इसलिये उत्कृष्ट आयुर्बन्धके योग्य जहां विशुद्ध परिणाम सम्भव हैं उसे ध्यानमें रख कर सब मार्गणाओंमें आयुर्कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कहा है ।

५२. परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो प्रमत्तसंयत जीव सामायिक और छेदोपस्थापना संयमके अभिमुख है वह परिहारविशुद्धि संयत सात कर्मोंके उत्कृष्टस्थितिबन्धका स्वामी है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो प्रमत्तसंयत जीव तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह परिहारविशुद्धि-

छरणं कम्माणं उक्क० द्विदि० उवसामगस्स । संजदासंजद० सत्तणं कम्माणं उक्क०
द्विदि० दुगदियस्स मिच्छत्ताभिमुहस्स । आयु० तप्पाओग्गविसुद्धस्स ।

५३. किरणाए सत्तणं कम्माणं उक्क० द्विदि० कस्स ? तिरिक्खस्स
सण्णस्स मिच्छादिद्विस्स सन्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तगदस्स सागारजागार० उक्कस्स-
संकिलिद्वस्स । आयु० उक्क० द्विदि० तिरिक्खस्स वा मणुसस्स वा सण्णस्स
पज्जत्तस्स तप्पाओग्गसंकिलिद्वस्स । एणिल-काऊणं सत्तणं कम्माणं उक्क० द्विदि०
कस्स० ? अणण० एेरइगस्स । आयु० किरणाभंगो । तेउले० सत्तणं कम्माणं उक्क०
द्विदि० कस्स ? अणणद० सोधम्मीसाणंतदेवस्स । आयु० ओधिभंगो । पम्माए
सत्तणं कम्माणं उक्क० द्विदि० कस्स ? अणण० सहस्सारंतस्स मिच्छादिद्वि० ।
आयु० तेउले० भंगो । सुक्काए सत्तणं क० उक्क० द्विदि० कस्स ? अणण० आणद०—
देवस्स मिच्छादिद्विस्स तप्पाओग्गसंकिलिद्वस्स । आयु० पमत्तस्स० ।

५४. खइगस० सत्तणं क० उक्क० द्विदि० कस्स ? अणण० चदुगदियस्स
असंजदसम्मादिद्विस्स तप्पाओग्गसंकिलिद्वस्स । आयु० पमत्तसंज० । उपसमसम्मा०

संयत जीव आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। सूक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोंमें
छह कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी उपशामक होता है। संयतासंयतोंमें सात कर्मोंके
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मिथ्यात्वके अभिमुख हुआ दो गतिका जीव होता है।
आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला संयतासंयत
जीव होता है।

५३. कृष्णलेश्यामें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? जो
तिर्यचगतिका जीव संबन्धी है, मिथ्यादृष्टि है, सब पर्यातियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत
उपयोगसे उपयुक्त है और उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है वह सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थिति
बन्धका स्वामी है। आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? जो तिर्यच या मनुष्य
संबन्धी है, पर्याप्त है और तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थिति-
बन्धका स्वामी है। नील और कापोतलेश्यामें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका
स्वामी कौन है? कोई एक नारकी सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है।
आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कृष्णलेश्याके समान है। पीतलेश्यामें सात
कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? कोई एक सौधर्म और ऐशान
कल्पतकका देव सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। आयुकर्मके उत्कृष्ट
स्थितिबन्धका स्वामी अवधिज्ञानीके समान है। पद्मलेश्यामें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध
का स्वामी कौन है? अन्यतर सहस्रार कल्प तकका मिथ्यादृष्टि देव सात कर्मोंके उत्कृष्ट
स्थितिबन्धका स्वामी है। आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी पीतलेश्याके समान है।
शुक्ल लेश्यामें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? अन्यतर आनत कल्पका
मिथ्यादृष्टि और तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला देव सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका
स्वामी है। तथा प्रमत्तसंयत जीव आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है।

५४. चायिकसम्यग्दृष्टियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? जो
अन्यतर चार गतिका जीव असंयतसम्यग्दृष्टि है और तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है
वह सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी

सत्तएणं कम्माणं उक्क० द्विदि० कस्स ? अएण० असंजदसम्मा० तप्पाओग्ग-
उक्कस्ससंकिलिट्ठस्स भिच्छत्ताभिमुहस्स । सासणे सत्तएणं कम्माणं उक्क० द्विदि०
कस्स ? अएण० चटुगदियस्स सव्वसंकिलिट्ठस्स भिच्छत्ताभिमुहस्स । आयु० उक्क०
द्विदि० कस्स ? अएणद० मणुसस्स तप्पाओग्गविसुद्धस्स । सम्मामि० सत्तएणं
कम्माणं उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएणद० चटुगदियस्स उक्कस्ससंकिलिट्ठस्स
भिच्छत्ताभिमुहस्स ।

५५. असएिण० सत्तएणं कम्माणं उक्क० द्विदि० कस्स ? अएणद० पंचि-
दियपज्जत्तस्स सव्वसंकिलिट्ठस्स । आयु० उक्क० द्विदि० कस्स ? तप्पाओग्गसंकिलि-
ट्ठस्स । अणाहार० कम्मइगभंगो । एवं उक्कस्ससामित्तं समत्तं ।

५६. जहएणगे पगदं । दुविधो णिदेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण
अएणं कम्माणं जहएणओ द्विदिवंधो कस्स होदि ? अएणदरस्स ग्ववगस्स मृहुमसं-
पराइगस्स चरिमे द्विदिवंधे वट्टमाणस्स । मोह० जह० द्विदि० कस्स ? अएणद०

कौन है ? प्रमत्तसंयत जीव आयुर्कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । उपशम सम्यग्दृष्टि-
योंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि
तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है और मिथ्यात्वके अभिमुख है वह सात कर्मोंके
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । सासादन सम्यग्दृष्टियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्टस्थितिबन्धका
स्वामी कौन है ? जो अन्यतर चार गतिका जीव सबसे अधिक संक्लेश परिणामवाला है
और मिथ्यात्वके अभिमुख है वह सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । आयुर्कर्मके
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर मनुष्य तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला
है वह आयुर्कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट
स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर चार गतिका जीव उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम-
वाला है और मिथ्यात्वके अभिमुख है वह सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।

५५. असंज्ञियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर
पञ्चेन्द्रिय जीव पर्याप्त है और सबसे अधिक संक्लेश परिणामवाला है वह सात कर्मोंके
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो
तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला असंज्ञी जीव है वह आयुर्कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका
स्वामी है । अनाहारकोंमें सब कथन कार्मण काययोगियोंके समान है ।

विशेषार्थ—असंज्ञी जीव मरकर भवनवासी और व्यन्तर देव भी होते हैं और प्रथम
नरकमें भी जाते हैं । यहां असंज्ञियोंके आयुर्कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उत्कृष्ट संक्लेशरूप
परिणामोंसे ही कराया है । इससे विदित होता है कि असंज्ञियोंके देवायुकी अपेक्षा नरकायुका
स्थितिबन्ध अधिक होता है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ ।

५६. अब जघन्य स्वामीका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश ।
उनमेंसे ओघकी अपेक्षा छह कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर
सूक्ष्मसाम्परायिक क्षपक जीव अन्तिम स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह छह कर्मोंके जघन्य
स्थितिबन्धका स्वामी है । मोहनीयके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर
अनिवृत्ति क्षपक जीव अन्तिम जघन्य स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह मोहनीयके जघन्य

खवगअणियट्टिस्स चरिमे जह० वट्टमाणस्स । आयु० जह० ट्टिदि० कस्स ? अणणद० तिरिक्खस्स वा मणुस्सस्स वा एइदि० वेइदि० तेइदि० चट्टुरिदि० पंचिदियस्स वा सण्णि०असण्णि० बादर० सुहुम० पज्जत्तस्स वा अपज्जत्तस्स वा सागारजागार० तप्पाओग्गसंकिलिट्ठस्स जहणियाए आबाधाए जहणए ट्टिदिबन्धे वट्टमाणयस्स । एवं मणुस०३-पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालियका०-अवगद०-लोभक०-आभि०-सुद०-ओधि०-मणपज्जव०-संजद०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-ओधिदं०-सुक्कले०-भवसि०-सम्मादिट्टि-खइग०-सण्णि-आहारग त्ति । एवरि आयु० विसेसो जाणिदव्वो । अवगद० आयुगं एत्थि । आभि०-सुद०-ओधि०-ओधिदं०-सम्मादि०-खइग० आयु० जह० ट्टिदि० कस्स ? अणणद० देवस्स वा एरइयस्स वा तप्पाओग्गसंकिलि० जहणियाए आबाधाए जह० ट्टिदि० वट्टमाणगस्स । मणपज्जव०-संजद० आयु० जह० ट्टिदि० कस्स ? अणणद० पमत्तसंज० तप्पाओग्गसंकिलिट्ठस्स । सुक्काए आयु० जह० ट्टिदि० कस्स ? अणणद० देवस्स मिच्छादि० तप्पाओग्गसंकि० जह०आबाधा० जह०ट्टिदि० वट्टमाणस्स । सेसाणं ओघभंगो ।

स्थितिवन्धका स्वामी है । आयुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर तिर्यंच, मनुष्य, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, संज्ञी, असंज्ञी, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त जो भी हो, साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है और जघन्य आबाधाके साथ जघन्य स्थितिवन्ध कर रहा है वह आयुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, अपगतवेदी, लोभकषायी, आमिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, भव्यसिद्धिक, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिये । किन्तु आयुके सम्बन्धमें कुछ विशेषता है । यथा—अपगतवेदी जीवके आयुकर्मका बन्ध नहीं होता । आमिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि और ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें आयु कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव या नारकी जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है और जघन्य आबाधाके साथ जघन्य स्थितिका बन्ध कर रहा है वह आयुके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंमें आयु कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह आयु कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । शुक्ललेश्यामें आयु कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव जो मिथ्यादृष्टि है, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है और जघन्य आबाधाके साथ जघन्य स्थितिका बन्ध कर रहा है वह आयु कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । शेष मार्गणाओंमें आयु कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी ओघके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ ओघसे आठों कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धके स्वामीका विचार किया गया है । सात कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध त्तपक श्रेणियोंमें जहाँ जिस कर्मकी बन्धव्युच्छित्ति

५७. आदेसेण गिरयगईए गेरइएसु उक्क० कम्म० द्विदि० कस्स ? अएणद० असएणपंचिदि० सागारजागा० सव्वविसुद्धस्स पढम-विदियम० वट्टमाण० । आयु० जह० द्विदि० कस्स ? अएण० मिच्छादि० तप्पाओ० जह० सं० जह० आवा० जह० द्विदि० वट्ट० । एवं पढमाए मणुसअपज्जत्त-देवा-भवण०-वाणवें० । विदियाए याव सत्तमाए सत्तएणं कम्माणं जह० द्विदि० कस्स ? अएण० असं-जद० सव्वविसुद्धस्स । आयु० पढमपुढविभंगो । एवं जोदिसिय याव सव्वट्ट त्ति । एवरि अणुदिस याव सव्वट्ट त्ति आयुग० सम्मादिद्वि० ।

होती है वहाँ होता है । इस हिसाब से छह कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध क्षपक सूक्ष्मसाम्प-रायके अन्तिम समयमें प्राप्त होता है और मोहनीयका क्षपक अनिवृत्तिकरणमें, क्यों कि सूक्ष्म साम्परायमें मोहनीय कर्मका बन्ध नहीं होता । तथा आयु कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध सब प्रकारके मनुष्य और तिर्यंचोंके होता है, क्योंकि इन सबके आसन्नेपाद्वाकाल प्रमाण आयुकर्मके बन्ध होनेमें कोई बाधा नहीं आती । यहाँ अन्य वे मार्गणाएँ गिनार्थ हैं जिनमें क्षपक श्रेणीकी प्राप्ति सम्भव होनेसे यह ओघ प्ररूपणा बन जाती है । मात्र इन सब मार्ग-णाओंमें ओघके समान आयुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध नहीं प्राप्त होता, क्यों कि इनमेंसे आभिनिबोधिक आदि कुछ ऐसी मार्गणाएँ हैं जिनमें मिथ्यात्वकी प्राप्ति सम्भव नहीं और शुक्लेश्यामें मिथ्यात्वकी प्राप्ति भी हो गई तो वहाँ परिणामोंकी इतनी उज्वलता रहती है जिससे वहाँ आयुका आसन्नेपाद्वाकाल प्रमाण बन्ध नहीं होता । यही कारण है कि इन मार्गणाओंमें आयु कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है इस बातका अलगसे निर्देश किया है ।

५७. आदेशसे नरकगतिमें नारकियोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो असंक्षी पञ्चेन्द्रियचर जीव साकार जागृत है, सर्व विशुद्ध है और प्रथम द्वितीय समयमें स्थित है वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । आयुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो मिथ्यादृष्टि तत्प्रायोग्य जघन्य संक्षेप परिणामवाला है और जघन्य आबाधाके साथ जघन्य स्थितिका बन्ध कर रहा है वह आयु कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार प्रथम पृथिवीमें, मनुष्य अपर्याप्त सामान्य देव, भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें जानना चाहिये । दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके नारकियोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि सर्व विशुद्ध परिणामवाला जीव सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । आयु कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी पहली पृथिवीके समान है । इसी प्रकार ज्योतिषियोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सम्यग्दृष्टि जीव आयु कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है ।

विशेषार्थ—नरकमें असंक्षी जीव भी मरकर उत्पन्न होता है और उसके अपर्याप्त अवस्थामें असंक्षीके योग्य स्थितिवन्ध होता है । इसीसे सामान्यसे नरकमें असंक्षी पञ्चेन्द्रियचर जीवको सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कहा है । प्रथम नरक, देव, भवनवासी और व्यन्तर देव इन मार्गणाओंमें भी असंक्षी जीव मरकर उत्पन्न होता है, इसलिये यहाँ सामान्य नरकके समान प्ररूपणा की है । द्वितीयादि नरकोंमें मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षा सम्यग्दृष्टिके सात कर्मोंका स्थितिवन्ध न्यून होता है । शेष रहे देवोंमें भी ऐसा ही जानना

५८. तिरिक्खेसु सत्तएणं कम्माणं जहं द्विदिं कस्स ? अएणं वादर—
एइंदिं पज्जत्तं सव्वविसुद्धस्स जहं द्विदिं वट्टमां । आयुं ओघं । एवं सव्व-
एइंदिं-सव्वपंचकाय-ओरालियमिं-कम्मइगं-मदिं-सुदं-असंजं-किएणं-णीलं-
कारं-अभवसिं-मिच्छादिं-असएिण-अणाहारगं त्ति ।

५९. पंचिंदियतिरिक्खं ३ सत्तएणं कं जहं द्विदिं कस्स ? अएणं
असएिणस्स सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तगदस्स सागारजागारसव्वविसुद्धस्स जहं
द्विदिं वट्टमाणयस्स । आयुगस्स जहं द्विदिं कस्स ? अएणं सएिणस्स वा
असएिणस्स वा पज्जत्तस्स वा अपज्जत्तस्स वा सागारजागार-तप्पाओगगसंकिलिं
जहं द्विदिं वट्टमाणयस्स । एवं पंचिंदियतिरिक्खअपज्जं-पंचिंदियअपज्जत्ता त्ति ।

चाहिये, इसलिये इन मार्गणाओंमें सर्व विशुद्ध परिणामवाले सम्यग्दृष्टिको सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कहा है। अनुदिशसे लेकर आगे सब देव सम्यग्दृष्टि ही होते हैं, इसलिये वहाँ तो सम्यग्दृष्टि तत्प्रायोग्य संकलेश परिणामोंके होनेपर आयु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी होता है, पर यहाँ जो अन्य मार्गणाएँ गिनाई है उनमें आयु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धकी योग्यता मिथ्यादृष्टिके ही पाई जाती है, क्यों कि यहाँ मिथ्यादृष्टिके आयु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धके योग्य संकलेश परिणाम हो सकते हैं उतने अन्य गुणस्थान-वालेके नहीं।

५८. तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो वादर एकेन्द्रिय जीव पर्याप्त है, सर्व विशुद्ध है और जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। आयु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी ओघके समान है। इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, सब पाँचों स्थावरकाय, औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्तज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, कृष्णलेश्यावाले, नील-लेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, अभव्यसिद्धिक, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंका सबसे कम स्थितिबन्ध वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके होता है। इसीसे यहाँ तिर्यञ्चगतिमें सात कर्मोंके जघन्य स्थिति बन्धके स्वामीका कथन उनकी मुख्यतासे किया है। यहाँ अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें प्रायः यह स्थितिबन्ध सम्भव होनेसे उनका कथन ओघ तिर्यञ्चोंके समान करनेका निर्देश किया है। इन सब मार्गणाओंमें आयु कर्मका लुल्लक भव ग्रहणप्रमाण जघन्य स्थितिबन्ध सम्भव है, इसलिये आयु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामीका कथन ओघके समान किया है।

५९. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चिकमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो असंज्ञी जीव सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है और जघन्य स्थितिका बन्ध कर रहा है वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। आयु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर संज्ञी या असंज्ञी जीव जो कि पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, साकार जागृत हो, तत्प्रायोग्य संकलेश परिणामवाला हो और जघन्य स्थिति-बन्ध कर रहा हो वह आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तके जानना चाहिए।

६०. वेइंदि०-तेइंदि०-चदुरिंदि० सत्तएणं क० जह० द्विदि० कस्स ? अएण० पज्जत्तस्स सागारजागारसव्वविसुद्धस्स जह० द्विदि० वट्ट० । आयु० जह० द्विदि० कस्स ? अएण० पज्जत्तस्स वा अपज्जत्तस्स वा तप्पाओग्गसंक्किलि० जह० आवा० जह० द्विदि० वट्ट० । एवं तेसिं चैव पज्जत्तापज्जत्ता० । तसअपज्जत्ता० वेइंदिअपज्जत्तभंगो ।

६१. वेउव्वियका० सत्तएणं कम्माणं जह० द्विदि० कस्स ? अएणद० देवणे-रइगस्स सम्मादिद्वि० सागारजागारसव्वविसुद्धस्स जह० द्विदि० वट्टमाणयस्स । आयु० जह० द्विदि० कस्स ? अएणद० देवणे-रइगस्स तप्पाओग्गसंक्कि० मिच्छादि० । एवं वेउव्वियमिस्स० । एवरि सत्तएणं कम्माणं से काले सरीरसज्जत्ती गाहिदि त्ति । आहार०-आहारमि० सत्तएणं क० जह० द्विदि० कस्स ? अएण० पमत्तस्स सागारजागारसव्वविसुद्धस्स । आहारमिस्से से काले सरीरपज्जत्ती गाहिदि त्ति । आयु० जह० द्विदि० कस्स ? अएण० तप्पाओग्गसंक्किलिट्ठस्स ।

६२. इत्थि०-पुरिस०-एवुंस० सत्तएणं कम्माणं जह० द्विदि० कस्स ? अएण० अणियट्ठिखवगस्स जह० द्विदि० वट्टमाणयस्स । आयु० ओघं । एवरि इत्थि०-पुरिस०

६०. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर अपर्याप्त जीव साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है और जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर जीव पर्याप्त है या अपर्याप्त है, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है और जघन्य आबाधाके साथ जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह आयु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार इन तीनोंमें पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । तथा त्रस अपर्याप्तकोंमें द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है ।

६१. वैक्रियिककाययोगमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव और नारकी जीव जो कि सम्यग्दृष्टि है, साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है और जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव और नारकी जीव जो कि तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है और मिथ्यादृष्टि है वह आयु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसमें जो तदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको पूर्ण करेगा वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी होता है । आहारककाययोग और आहारक मिश्रकाययोगमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ! अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो साकार जागृत है और सर्वविशुद्ध है वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । आहारकमिश्र काययोगमें जो तदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको पूर्ण करेगा वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तत्प्रायोग्य संक्लेशपरिणामवाला जीव आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है ।

६२. स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर अनिर्वृत्तिक्षपक जीव जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी ओघके समान है ।

आयु०^१ सण्णस्स वा असण्णस्स वा [पज्जत्तस्स । एवुंस० सण्णस्स वा असण्णस्स वा] पज्जत्तस्स वा अपज्जत्तस्स वा । एवं कोधमाण-माय० ।

६३. विभंगे सत्तएणं कम्माणं जह० द्विदि० कस्स ? अएण० मणुसस्स संजमाभिमुहस्स सागारजागारसव्वविसुद्धस्स जह० द्विदि० वट्टमाणयस्स । आयु० जह० द्विदि० कस्स ? अएण० तिरिक्खस्स वा मणुसस्स वा सागारजागार-संकिलि० जह० आवा० ।

६४. सामाइ०-छेदोव० सत्तएणं कम्माणं जह० द्विदि० कस्स ? अएण० अणियट्ठिखवगस्स चरिमजह० द्विदि० वट्टमा० । आयु० जह० द्विदि० पमत्तसंज-दस्स तप्पाओग्गसंकिलि० । परिहारे सत्तएणं कम्माणं जह० द्विदि० अप्पमत्त० सव्वविसुद्धस्स । आयु० जह० द्विदि० आहारकायजोगिभंगो । सुहुमसंपराइ० छरणं कम्माणं ओघं । संजदासंजद० सत्तएणं क० जह० द्विदि० कस्स ? अएण० मणुसस्स संजमाभिमुहस्स सागारजागारसव्वविसुद्धस्स । आयु० दुग्दियस्स तप्पाओग्गसंकिलि० ।

६५. तेउले०-पम्मले० सत्तएणं क० जह० द्विदि० कस्स ? अएण० अप्पमत्त-
इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और पुरुषवेदमें जो संज्ञी हो, असंज्ञी हो और पर्याप्त हो वह आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । नपुंसक वेदमें संज्ञी हो, असंज्ञी हो, पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो वह आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार क्रोध, मान और माया कषायमें भी जानना चाहिए ।

६३. विभङ्गज्ञानमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर मनुष्य संयमके अभिमुख है, साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है और जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर तिर्यञ्च या मनुष्य साकार है, जागृत है, संक्लेश परिणामवाला है और जघन्य आवाधाके साथ जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह आयु-कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है ।

६४. सामायिक और छेदोपस्थापना संयममें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर अनिवृत्तिक्षपक अन्तिम जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो प्रमत्तसंयत जीव तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । परिहारविशुद्धिसंयममें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अप्रमत्तसंयत जीव सर्वविशुद्ध है वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी आहारक काययोगीके समान है । सूक्ष्मसाम्पराय संयममें छह कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी ओघके समान है । संयता-संयतोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर मनुष्य संयमके अभिमुख है, साकार जागृत है और सर्वविशुद्ध है वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो दो गतिका जीव तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है ।

६५. पीतलेश्या और पद्मलेश्यामें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ?

१. आयु० संकिलिट्ठस्स वा असण्णस्स इति पाठः ।

संजदस्स सागारजागारसव्वविमुद्धस्स । अथवा दंसणमोहखवगस्स से काले कद-
करणिज्जो होहिदि त्ति । आयुगस्स जह० द्विदि० कस्स ? अरण० देवस्स मिच्छा-
दिद्विस्स तप्पाओगसंकिलिद्विस्स जह० आवाधा० जह० द्विदि० वट्टमा० ।

६६. वेदगसम्मा० सत्तएणं क० तेउले० भंगो । आयु० देवणेरइयस्स तप्पा-
ओगस्स संकिलिद्विस्स । उवसमस० छरणं क० जह० द्विदि० कस्स ? अरण०
सुहुमसंपराइग० चरिमे जह० द्विदि० वट्टमा० । मोहणी० जह० द्विदि० कस्स ? अरण०
अणियद्विउवसमस्स चरिमे जह० द्विदि० वट्टमा० । सासणे सत्तएणं क० जह०
द्विदि० कस्स ? अरण० चदुगदियस्स सव्वविमुद्धस्स जह० द्विदि० वट्टमा० ।
अथवा संजमादो परिवदमाणस्स । आयु० जह० द्विदि० कस्स ? अरण० चदुगदि-
यस्स तप्पाओगसंकिलि० जह० द्विदि० वट्टमा० । सम्मामिच्छा० सत्तएणं क०
जह० द्विदि० कस्स ? अरण० सागारजागारसव्वविमुद्धस्स से काले सम्मत्तं पडि-
वज्जदि त्ति । एवं बंधसामित्तं समत्तं ।

जो अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीव साकार जागृत है और सर्वविशुद्ध है वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। अथवा जो दर्शनमोहका क्षपक जीव तदनन्तर समयमें कृतकृत्यवेदक-सम्यग्दृष्टि होगा वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? जो अन्यतर देव मिथ्यादृष्टि है, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है और जघन्य आबाधाके साथ जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है।

६६. वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी पीतलेश्याके समान है। आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? जो देव और नारकी जीव तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। उपशम-सम्यग्दृष्टियोंमें छह कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? जो अन्यतर सूक्ष्मसाम्प-राधिक जीव अन्तिम समयमें जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह छह कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। मोहनीय कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? जो अन्यतर अनिवृत्ति उपशामक जीव अन्तिम समयमें जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह मोहनीयकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। सासादनसम्यक्त्वमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? जो अन्यतर चार गतिका जीव सर्वविशुद्ध है और जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। अथवा संयमसे गिरकर जो सासादनसम्यग्दृष्टि हुआ है वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? जो अन्यतर चार गतिका जीव तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है और आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है। वह आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। सम्यग् मिथ्यादृष्टियों सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? जो अन्यतर साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है और तदनन्तर समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त होगा वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है।

१. मूलप्रती—माणस्स । आयु० जह० द्विदि० वट्टमा० । अथवा संजमादो परिवदमाणस्स । आयु० जह० द्विदि० कस्स ? अरण० चदुगदियस्स तप्पाओगसंकिलि० । सम्मामिच्छा० इति पाठः ।

बंधकालपरुवणा

६७. बंधकालं दुविधं—जहणायं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुविधो णिदोसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तएणं कम्माणं उक्कस्सओ द्विदिबंधो केवचिरं कालादो होदि ? जहणोण एगसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । अणु० जह० अंतो०, उक्क० अणमकालमसंखे० । आयु० उक्क० केवचिरं कालादो० ? जहणु० एग० । अणुक्क० जहणु० अंतो । एवं मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छादिट्ठि ति ।

विशेषार्थ—पहले सब मार्गणाओंमें जघन्य स्थितिबन्धके अद्वाच्छेदका कथन कर आये हैं। यहाँ उनके स्वामीका निर्देश किया है। इसलिये जहाँ जितना जघन्य स्थितिबन्ध कहा है उसे ध्यान में रखकर उक्त प्रकारसे उसके स्वामित्वको घटित कर लेना चाहिए।

इस प्रकार बन्धस्वामित्वका कथन समाप्त हुआ।

बन्धकाल परुपणा

६७. बन्धकाल दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। उनमेंसे ओघसे सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका कितना काल है? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका कितना काल है? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार मत्तज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचलुदर्शनी, भव्य, अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ—स्थितिबन्ध पहले उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्यके भेदसे चार प्रकारका बतला आये हैं। इनमें यहाँ सर्वप्रथम एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध कमसे कम कितने काल तक और अधिकसे अधिक कितने काल तक होता रहता है इसका विचार किया जा रहा है। यहाँ उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बतलाया है। इसका कारण यह है कि उत्कृष्ट संक्लेशरूप परिणाम अन्तर्मुहूर्तसे अधिक काल तक नहीं रहते। उसमें भी उन परिणामोंसे उतने काल तक उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। किसी जीवके एक समय तक उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होकर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध होने लगता है और किसीके अन्तर्मुहूर्त काल तक उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता रहता है। यही कारण है कि यहाँ सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। इन कर्मोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होकर पुनः वह अन्तर्मुहूर्त कालके पहले कभी नहीं होता। इसका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है; क्योंकि संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक समय तक और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध अन्तर्मुहूर्त काल तक होता है। इससे अधिक काल तक आयुकर्मका बन्ध ही नहीं होता। यही कारण है कि आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। यहाँ मत्तज्ञानी आदि जितनी मार्गणाएँ

६८. आदेसेण णेरइएमु सत्तएणं कम्माणं उक्क० ओघं । अणुक्क० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरोव० । आयु० ओघं । एवं सत्तसु पुढवीमु । एवरि अणुक्कस्स० अप्पणो द्विदी भाणिदव्वा ।

६९. तिरिक्खेसु ओघं । पंचिदियतिरिक्ख० ३-मणुस० ३-देवा याव सव्वट्टु त्ति यथासंखाए सत्तएणं कम्माणं उक्क० द्विदि० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । अणुक्क० जह० एग०, उक्क० [तिणिण पलिदोवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेणभहियणि] तिणिण पलिदो० पुव्वकोडिपु० तेत्तीसं सागरो० देवाणं अप्पणो द्विदी० । आयु० ओघं ।

७०. पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्त-मणुसअपज्जत्त-विगलिदि०-पंचिदिय-तसअपज्जत्ता० सत्तएणं कम्माणं उक्क० अणुक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो० । आयु ओघं ।

गिनाई हैं उनमें आठों कर्मोंका यह काल अविकल घटित हो जाता है, इसलिये इनके कथनको ओघके समान कहा है ।

६८. आदेशसे नारकियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । आयु-कर्मका काल ओघके समान है । इसी प्रकार सात पृथिवियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यहाँ अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण कहना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ सामान्यसे और प्रत्येक नरकमें अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण कहा है । सो इसका कारण यह है कि जिस जीवने पूर्व भवमें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेके बाद अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध किया । इसके बाद वह मरकर नरकमें गया और वहाँ निरन्तर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता रहा । इस प्रकार अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल प्राप्त हो जाता है । आगे सर्वत्र अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए ।

६९. तिर्यञ्चोंमें ओघके समान काल है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, मनुष्यत्रिक, सामान्य देव और सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल क्रमसे पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य, पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य, तेतीस सागर और देवोंके अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । आयु-कर्मका ओघके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय बतलानेका कारण यह है कि विवक्षित पर्यायमें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध किया और दूसरे समयमें अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध करके मरकर अन्य पर्यायमें चला गया । इससे यहाँ सर्वत्र स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय प्राप्त हो जाता है । शेष कथनका अनुगम पूर्ववत् है ।

७०. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त, विकेलन्द्रिय अपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । आयु-कर्मका ओघके समान है ।

७१. एइंदिएसु सत्तएणं कम्माणं उक्क० ढिदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणुक्क० जह० अंतो, उक्क० अअंखेज्जा लोणा । वादरएइंदि० अणुक्क० जह० एग०, उक्क० अंगुलस्स असंखे । वादरएइंदि० पज्जत० अणुक्क० जह० एग०, उक्क० संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । अपज्ज० अणु० जह० एग, उक्क० अंतो० । सुहुभएइंदि० अणुक्क० जह० अंतो, उक्क० अंगुलस्स असंखे० । पज्जत्ते अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अपज्ज० अणु० जहएणु० अंतो । सव्वेसिं उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो । सव्वेसु आयु० ओघं ।

७२. वेइंदि०-तेइंदि०-चउरिंदि०-तेसिं चेव पज्जत्ता० सत्तएणं कम्माणं उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणुक्क० जह० एग०, उक्क० संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । आयु० ओघं ।

विशेषार्थ—इन सब पर्यायोंमें एक जीवके रहनेका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसीसे यहाँ अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है।

७१. एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। बादर एकेन्द्रियोंमें अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इन सबके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। तथा इन सबमें आयुर्कर्मका काल ओघके समान है।

विशेषार्थ—खुदाबन्धमें एकेन्द्रिय जीवका उत्कृष्टकाल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन-प्रमाण अनन्तकाल दिया है और इसी प्रकार सूक्ष्म एकेन्द्रियका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण दिया है किन्तु यहाँ पर इनमें अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल क्रमसे असंख्यात लोकप्रमाण और अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण बतलाया है। इसका कारण क्या है यह विचारणीय है। इन जीवोंका खुदाबन्धमें जो उत्कृष्ट काल बतलाया है उतने काल तक सात कर्मोंका अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध नहीं होता, इसीसे यह काल दिया है। शेष कथन सुगम है। आगे सूक्ष्म पृथिवीकायिक आदिका जो अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कहा है वहाँ भी इसी प्रकार विचारणा कर लेनी चाहिए।

७२. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय तथा इनके पर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। आयु-कर्मका काल ओघके समान है।

७३. पंचिदिय-तसदोएणं सत्तएणं कम्माणं उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणुक्क०जह० एग०, उक्क० [अप्पणो सगट्ठिदीओ ।] आयु०ओघं ।

७४. पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० सत्तएणं कम्माणं उक्क० ओघं । अणुक्क० जह० एग०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । बादरे कम्मट्ठिदी । बादरपज्जत्ते संखेज्जा-णि वस्ससहस्साणि । सुहुमे० अंगुलस्स असंखे० । पज्जत्ते उक्कस्स-अणुक्कस्स-बंधा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । वणप्फदि० एइंदियभंगो । पत्तेगे कम्मट्ठिदी । पज्जत्ते संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । णिगोदेसु एइंदियभंगो । एवरि बादरे कम्म-ट्ठिदी । सुहुमवणप्फदि०-सुहुमणिगोदअपज्जत्तं मोत्तूण सेसं अपज्ज० पंचिदिय-अपज्जत्तभंगो । आयु० ओघं ।

७५. पंचमण०-पंचवचि० सत्तएणं कम्माणं उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । आयु० उक्क० ओघं । अणुक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं वेउन्विय०-आहार०-कोधादि ४ । कायजोगि० सत्तएणं क० उक्क० ओघं । अणु० जह०

७३. पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त तथा त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । आयुकर्मका काल ओघके समान है ।

७४. पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है । इन चारोंके बादरोंमें अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है । इनके बादरपर्याप्त जीवोंमें अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है । उनके सूक्ष्म जीवोंमें अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अङ्गुलके असंख्यातर्षे भागप्रमाण है । सूक्ष्म पर्याप्तकोंमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । वनस्पति-कायिकोंमें उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल एकेन्द्रियोंके समान है । वनस्पति प्रत्येक कायिकोंमें अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है । इनके पर्याप्तकोंमें अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है । निगोद जीवोंमें उक्त स्थितिबन्धका काल एकेन्द्रियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके बादरोंमें अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है । सूक्ष्म वनस्पतिकायिक अपर्याप्त और सूक्ष्मनिगोद अपर्याप्त जीवोंको छोड़ कर शेष अपर्याप्त जीवोंमें उक्त स्थितिबन्धका काल पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके समान है । आयुका काल ओघके समान है ।

७५. पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार वैक्रियिक काययोगी, आहारक काययोगी और क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंके जानना चाहिए । काययोगी जीवों में सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक

एग०, उक्क०अणंतकालमसंवे० । आयु०मणजोगिभंगो । एवं एवुंस०-असणिए० । आयु० ओघं । ओरालियकाजो० सत्तएणं क० उक्क० ओघं । अणु० ज० एग०, उक्क०वावीसं वस्ससहस्साणि देसूणाणि । आयु०मणजोगिभंगो । ओरालियमि०-वेउ-न्वियमि०-आहारमि० सत्तएणं कम्मएणं उक्क० जह० एग०, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । अणु० जहएणु० अंतो । ओरालियमि० आयु० ओघं । आहारमिस्से मणजोगिभंगो । कम्मइगका०-अणाहा० सत्तएणं कम्मएणं उक्क०जह० एग०, उक्क० बेसम० । अणुक्क० जह० एग०, उक्क० तिणिएणस० ।

७६. इत्थि०-पुरिस० सत्तएणं क० उक्क० ओघं । अणुक्क० जह० एगस०, उक्क० पलिदोवमसदपुधत्तं सागरोवमसदपुधत्तं । आयु० ओघं । अवगद० मणजोगिभंगो । एवं सुहुमसं० छरणं कम्मएणं ।

समय है और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। आयुकर्मका काल मनोयोगियोंके समान है। इसी प्रकार नपुंसकवेदी और असंज्ञी जीवोंके जानना चाहिए। इनके आयुकर्मका काल ओघके समान है। औदारिक काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है। आयुकर्मका काल मनोयोगियोंके समान है। औदारिक मिश्रकाययोगी, धैक्रियिक मिश्रकाययोगी और आहारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। औदारिक मिश्रमें आयुकर्मका काल ओघके समान है और आहारक मिश्रकाययोगमें आयुकर्मका काल मनोयोगियोंके समान है। कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है।

विशेषार्थ—औदारिक मिश्रकाययोगमें आयुबन्ध लब्ध्यपर्याप्तकोंके ही होता है, इसलिए यहाँ आयुकर्मके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान बन जाता है। शेष जिन योगोंमें आयुकर्मका बन्ध कहा है उनका जघन्य काल एक समय होनेसे उनमें आयुकर्मके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय कहा है। किन्तु आहारक मिश्रकाययोगमें कुछ विशेषता है। उसका यद्यपि जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त होता है तथापि यहाँ आयुकर्मके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय कहनेका कारण यह है कि कोई जीव आहारक मिश्रकाययोगका एक समय काल शेष रहनेपर भी आयुकर्मका बन्ध कर सकता है इसलिए यहाँ एक समय काल बन जाता है। कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन होता है इसका पहले विचार कर आये हैं। उसे देखते हुए ज्ञात होता है कि ऐसा जीव अधिकसे अधिक दो विग्रह लेकर ही उत्पन्न होता है। इसीसे यहाँ पर सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। शेष कथन सुगम है।

७६. स्त्रीवेद और पुरुषवेदमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल क्रमसे पल्योपम-शतपृथक्त्वप्रमाण और सागरोपमशतपृथक्त्वप्रमाण है। आयुकर्मका काल ओघके समान है। अपगतवेदियोंमें सात कर्मोंका काल मनोयोगियोंके समान है। इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायमें छह कर्मोंका काल होता है।

७७. विभंगे सत्तएणं क० उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवम० देसू० । आयु० ओघं । आभि०-सुद०-ओधि० सत्तएणं क० उक्क० जह० उक्क० अंतो० । अणु० जह० अंतो०, उक्क० छावट्टिसागरो० सादिरे० । आयु० ओघं । मणपज्ज० सत्तएणं कम्मएणं उक्क० जह० उक्क० अंतो० । अणु० जह० एगस०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । आयु० ओघं । एवं संजद-सामाइ०-छेदोव०-परिहार० । संजदासं-जदाणं सत्तएणं क० उक्क० जहरणु० अंतो० । अणु० जह० अंतो, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । आयु० ओघं । चक्खुदं० तसपज्जत्तभंगो । ओधिदंसणि-सम्मादिट्ठि० ओधिभंगो ।

७८. किरण०-णील०-काउ० सत्तएणं कम्मएणं उक्क० ओघं । अणु० जह० अंतो, उक्क० तेत्तीसं सत्तारस सत्त सागरोव० सादि० । आयु० ओघं । एवं तेउ०-पम्मले०-सुक्कलेस्साए सत्तएणं कम्मएणं उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० वे अट्टारस तेत्तीसं साग० । आयु० ओघं ।

विशेषार्थ—अपगतवेदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए यहाँ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । शेष कथन सुगम है ।

७७. विभङ्ग ज्ञानमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागरोपम है । आयु कर्मका काल ओघके समान है । आभिनिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक छयासठ सागरोपम है । आयु-कर्मका काल ओघके समान है । मनःपर्ययज्ञानमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कर्म पूर्वकोटि प्रमाण है । आयुकर्मका काल ओघके समान है । इसी प्रकार संयत, सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहारविशुद्धि संयत जीवोंके जानना चाहिए । संयतासंयतोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि-प्रमाण है । आयु कर्मका काल ओघके समान है । चक्षुदर्शनमें उक्त काल त्रसपर्याप्तकोंके समान है । अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टियोंमें उक्त काल अवधिज्ञानियोंके समान है ।

७८. कृष्ण, नील और कापोत लेश्यामें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल क्रमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सत्रह सागर और साधिक सात सागर है । आयु कर्मका काल ओघके समान है । इसी प्रकार पीत, पद्म और शुक्ल लेश्यामें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल क्रमसे साधिक दो सागर, साधिक अठारह सागर और साधिक तेतीस सागर है । आयुकर्मका काल ओघके समान है ।

१. मूलप्रती ओघं । आयु ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० वे अट्टारस तेत्तीसं साग० । खड्गसं० इति पाठः ।

७६. खड्गस० सत्तएणं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणु० जह० अंतो, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । आयु० ओघं । वेदगसम्मा० सत्तएणं कम्माणं उक्क० जह० उक्क० अंतो० । अणु० जह० अंतो०, उक्क० छावट्टिसाग० । आयु० ओघं । उवसमस०-सम्मापि० सत्तएणं क० उक्क० अणु० जह० उक्क० अंतो० । सासएण० सत्तएणं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणुक्क० जह० एग०, उक्क० छावलिगाओ । आयु० ओघं ।

८०. सएिण० पंचिंदियपज्जत्तभंगो । एवं उक्कस्सबंधकालो समत्तो ।

८१. जहणए पगदं । दुविधो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तएणं क० जहणएट्टिदिबंधकालो केवचिरं कालादो होदि ? जह० उक्क० अंतो० । अजहणए० केवचिरं कालादो ? अणादियो अपज्जवसिदो त्ति भंगो । यो सो सादि० जह० अंतो०, उक्क० अद्धपोगलपरियट्टं । आयु० उक्कस्सभंगो । एवं याव आहारगत्ति । आयु० ओघभंगो ।

७९. ज्ञायिकसम्यग्दृष्टियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागरोपम है । आयु कर्मका काल ओघके समान है । वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल छयासठ सागर है । आयु कर्मका काल ओघके समान है । उपशमसम्यग्दृष्टियों और सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । सासादनमें सात कर्मोंके उत्कृष्टस्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह आवलि है । आयु कर्मका काल ओघके समान है ।

८०. संक्षियोंमें सब कर्मोंका उक्त काल पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट बन्धकाल समाप्त हुआ ।

८१. अब जघन्य बन्ध कालका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका कितना काल है ? एक अनादि-अनन्त भङ्ग है और दूसरा सादि । उनमेंसे जो सादि भङ्ग है उसका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । आयु कर्मका काल उत्कृष्ट के समान है ।

विशेषार्थ—सात कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है और वह अन्तर्मुहूर्त काल तक होता रहता है । इसीसे सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । यद्यपि सात कर्मोंका अनादि कालसे अजघन्य स्थितिबन्ध ही होता है, पर जिसने अर्धपुद्गल परिवर्तन कालके प्रारम्भमें उपशमश्रेणिपर आरोहण किया है उसके उनका अजघन्य स्थितिबन्ध सादि होता है । अब यदि यह अजघन्य स्थितिबन्ध अन्तर्मुहूर्त काल तक रह कर पुनः श्रेणि पर आरोहण करनेसे छूट जाता है तो इसका

८२. आदेसेण गेरइएसु सत्तएणं कम्माणं जह० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अज्ज० जह० दसवस्ससहस्साणि विसमयूणाणि, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । एवं पढमाए पुढवीए । एवरि सगट्टिदी । विदियाए याव सत्तमा त्ति उक्कस्सभंगो । एवरि सत्तमाए अज० जह० अंतो० ।

८३. तिरिक्खेसु सत्तएणं कम्माणं जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० जह० एग०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । पंचिदियतिरिक्खे जहएणं तिरिक्खोघं । अज० जह० एग०, उक्क० सगट्टिदी० । पंचिदियतिरिक्खअपज्जत० जह० अजह० उक्कस्सभंगो ।

जघन्य काल अन्तमुहूर्त उपलब्ध होता है और यदि ऐसा जीव कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक पुनः श्रेणी पर नहीं चढ़ता है तो इसका काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण प्राप्त होता है। यही कारण है कि सात कर्मोंके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है।

८२. आदेशसे नारकियोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल दो समय कम दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। इसी प्रकार पहली पृथिवीमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण कहना चाहिए। दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं तक कालकी प्ररूपणा उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है।

विशेषार्थ—जो तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला असंखी जीव मरकर नरकमें उत्पन्न होता है उसके एक या दो समय तक सात कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध होता है। इसीसे यहां सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। दस हजार वर्षप्रमाण नरककी जघन्य स्थितिमेंसे ये दो समय कम कर देनेपर वहां अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल होता है। उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है। पहली पृथिवीकी अपेक्षा यह प्ररूपणा इसी प्रकार है। कारण कि असंखी जीव पहली पृथिवीमें ही उत्पन्न होता है। मात्र यहां अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल यहां की उत्कृष्ट स्थिति एक सागर प्रमाण कहना चाहिए। शेष पृथिवियोंमें जघन्य स्थितिबन्ध के कालका विचार उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कालके समान कर लेना चाहिए।

८३. तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रिकमें जघन्य स्थितिबन्धका काल सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका काल उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कालके समान है।

विशेषार्थ—यद्यपि तिर्यञ्च गतिमें एक जीवके रहनेका उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है तथापि ऐसा जीव तिर्यञ्च गतिकी सब योनियोंमें परिभ्रमण कर लेता है इसलिए सात कर्मोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल इतना उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि इस जीवके पर्याप्त एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होने पर जघन्य स्थितिबन्ध सम्भव है अतः यहां सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके कालकी मुख्यतासे अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

८४. मणुस३ जह० जहरणु० अंतो० । अज० जह० एग०, उक्क० सग-
द्विदी० । मणुसअपज्ज० सत्तणं क० जह० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अज०
खुदाभव० विसमयूणं, उक्क० अंतो० ।

८५. देवाणं णिरयोघं । भवण०-वाणवें० पढमपुढविभंगो । एवरि सगद्विदी० ।
जोदिसिय याव सव्वद्व त्ति उक्कसभंगो ।

८६. सव्वएइंदिएसु सत्तणं क० जह० तिरिक्खोघं । अज० जह० एग०,
उक्क० असंखेज्जा लोगा । बादर० अंगुलस्स असंखेज्जदि० । पज्जत्ते संखेज्जाणि
वस्ससहस्साणि । बादरअपज्ज० जह० एगसमयं, उक्क० अंतो० । सुहुमेइंदि० जह०
एग०, उक्क० अंगुलस्स असंखे० । पज्जत्तापज्ज० जह० एगस०, उक्क० अंतो० ।

८४. मनुष्यत्रिकमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल
अन्तर्मुहूर्त है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी
अपनी स्थितिप्रमाण है। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल दो
समय कम खुदाभवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकमें सात कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध क्षणिकश्रेणीमें उपलब्ध होता
है और वह अन्तर्मुहूर्त काल तक होता है। इसीसे यहाँ इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल
अन्तर्मुहूर्त कहा है। शेष कथन सुगम है।

८५. देवोंमें सामान्य नारकियोंके समान काल है। भवनवासी और व्यन्तरोमें पहली
पृथिवीके समान काल है। इतनी विशेषता है कि यहाँ अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट
काल कहते समय अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिए। ज्योतिषियोंसे
लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें इन्हींके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कालके समान काल कहना
चाहिए।

८६. सब एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका काल सामान्य तिर्यञ्चोंके
समान है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात
लोकप्रमाण है। इनके बादरोंमें अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें
भागप्रमाण है। बादर पर्याप्तकोंमें अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष
है। बादर अपर्याप्तकोंमें अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट
काल अन्तर्मुहूर्त है। सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय
है और उत्कृष्टकाल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इनके पर्याप्तकों और अपर्याप्तकोंमें
अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—सामान्य एकेन्द्रियोंमें अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल जिस प्रकार
तिर्यञ्चोंमें घटित करके बतला आये हैं उस प्रकार से घटित कर लेना चाहिए। तथा एके-
न्द्रियके शेष अवान्तर भेदोंमें यह काल उस उसकी कायस्थिति जान कर समझ लेना
चाहिए। मात्र सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें यह काल अपनी कायस्थिति प्रमाण प्राप्त न होकर
अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण उपलब्ध होता है इतना विशेष जानना चाहिए। शेष
कथन स्पष्ट ही है।

८७. वेइंदि०-तेइंदि०-चदुरिंदि० तेसिं चेव पज्जत्ताणं सत्तएणं क० जह० तिरि-
क्खोघं । अज० जह० एग०, उक्क० संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । अपज्ज०
पंचिदियतिरिक्खअपज्जतभंगो । पंचिदिय-तस० तेसिं चेव पज्जत्ताणं सत्तएणं० क०
जह० ओघं अज० जह० अंतो०, उक्क० सगट्ठिदी० । अपज्जत्ता० पंचिदियतिरिक्ख-
अपज्जतभंगो ।

८८. सव्वपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ-वणप्फदि-पत्तेय०-णिगोद० सत्तएणं क०
जह० एइंदियभंगो । अजह० जह० एग०, उक्क० अणुकस्सभंगो ।

८९. पंचमण०-पंचवचि० सत्तएणं क० जह० अजह० जह० एग०, उक्क० अंतो ।
कायजोगि० सत्तएणं कम्मणं जह० जह० एग०, उक्क० अंतो । अजह० जह० एग०,
उक्क० अणंतका० । ओरालियका० सत्तएणं क० जह० जह० एग०, उक्क० अंतो ।
अज० जह० एग०, उक्क० वावीसं वस्ससहस्साणि देसू । ओरालियमि०-वेउव्वियमि०-
आहारमि० उक्कस्सभंगो । वेउव्वियका० मणजोगिभंगो । एवं आहारका० कम्मइ०-
अणाहार० उक्कस्सभंगो ।

८७. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय तथा इन्हींके पर्याप्तकोंमें सात कर्मोंके
जघन्य स्थितिबन्धका काल सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। द्वीन्द्रिय आदि तीनों अप-
र्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान काल है। पञ्चेन्द्रिय और त्रस तथा
इनके पर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अजघन्य
स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तमुर्हृत है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण
है। इनके अपर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान काल है।

८८. सब पृथ्वीकायिक, सब जलकायिक, सब अग्निकायिक, सब वायुकायिक,
वनस्पतिकायिक, सब वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर और सब निगोद जीवोंमें सात
कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका काल एकेन्द्रियोंके समान है। इनमें अजघन्य स्थितिबन्धका
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धके उत्कृष्ट कालके
समान है।

८९. पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य और
अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुर्हृत है। काय
योगी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट
काल अन्तमुर्हृत है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल
अनन्तकाल है। औदारिक काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुर्हृत है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल
एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है। औदारिकमिश्रकाययोगी,
वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अपने उत्कृष्ट स्थितिबन्धके
समान काल है। वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें मनोयोगियोंके समान काल है। इसी प्रकार
आहारककाययोगियोंके जानना चाहिए। कर्मणकाययोगी और अनाहारकोंमें अपने अपने
उत्कृष्ट स्थितिबन्धके समान काल है।

६०. इत्थि०-पुरिस०-एवुंस० सत्तएणं क० जह० ओघं । अज० जह० एग०, उक्क० पलिदोवमसदपुधत्तं । जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं । जह० एग०, उक्क० अणंतकालमसंखे० । अवगद० सत्तएणं क० जह० ओघं । अज० जह० एगस०, उक्क० अंतो० । एवं सुहुमसंप० ङ्खणं कम्माणं ।

६१. कोधादि४ सत्तएणं क० मणभंगो ।

६२. मदि०-सुद० सएत्तएणं क० जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० ज० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । विभंगे सत्तएणं क० जह० जह० उक्क० अंतो० । अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० देसू० । आभिणि०-सुद०-

विशेषार्थ—काययोगमें जघन्य स्थितिवन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, इसलिए इनमें अजघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल अपनी काय स्थितिप्रमाण घटित हो जाता है जो कि अनन्त काल अर्थात् असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण उपलब्ध होता है। शेष कथन सुगम है।

६०. स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका काल ओघके समान है। स्त्रीवेदमें अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सौ पल्यपृथक्त्वप्रमाण है। पुरुषवेदमें जघन्य काल अन्तमुर्हृत है और उत्कृष्ट काल सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण है। तथा नपुंसकवेदमें जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण अनन्त काल है। अपगतवेदमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका काल ओघके समान है। अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुर्हृत है। इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंयममें छह कर्मोंका काल है।

विशेषार्थ—जो जीव पुरुषवेदसे उपशमश्रेणि पर आरोहण करता है वह उपशमश्रेणिमें मरण कर नियमसे पुरुषवेदी ही होता है, इसलिये इसमें अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय उपलब्ध नहीं होता। यही कारण है कि पुरुषवेदमें सातों कर्मोंके अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय नहीं कहा। फिर भी यह काल कैसे प्राप्त होता है यह घटित करके बतलाते हैं—एक पुरुषवेदी जीव उपशम श्रेणि पर चढ़ा और उतर कर वह सात कर्मोंका अजघन्य स्थितिवन्ध करने लगा। पुनः अन्तमुर्हृतके बाद वह उपशमश्रेणि पर चढ़ा और अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें उसने मोहनीयकी तथा सूक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समयमें उसने शेष छह कर्मोंकी बन्धव्युच्छित्ति की। इस प्रकार यदि देखा जाय तो यहाँ सात कर्मोंके अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्यकाल अन्तमुर्हृत उपलब्ध हो जाता है। यही कारण है कि पुरुषवेदमें यह काल उक्त प्रकारसे कहा है। शेष कथन सुगम है।

९१. क्रोधादि चारमें सात कर्मोंका उक्त काल मनोयोगियोंके समान है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मनोयोगियोंके सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका काल कह आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए।

९२. मत्तज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तमुर्हृत है। अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल अन्तमुर्हृत है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है। विभङ्गज्ञानमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुर्हृत है। अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेत्तीस सागर है। आभिनिबोधिक

ओधि०-भणपज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-संजदासंजद० उक्कस्सभंगो ।
असंजद०-अभवसि०-भिच्छादिट्ठि मदिभंगो ।

६३. चक्खुदं० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खु०-भवसि० ओघं । एवरि भवसि०
अणादियो अपज्जवसिदो एत्थि । ओधिदं०-सम्मादि०-खइग०-वेदग० उक्कस्सभंगो ।

६४. किएण-णील-काउ० उक्कस्सभंगो । तेउले०-पम्मले० सत्तएणं क० जह०
जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० जह० अंतो०, उक्क० वे अट्टारस सागरोव०
सादिरे० । सुक्काए सत्तएणं क० जह० जह० उक्क० अंतो० । अज० जह० अंतो०,
उक्क० तेत्तीसं साग० सादिरे० ।

६५. उवसम० सत्तएणं क० जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० जह०
उक्क० अंतो० । सासणस० अट्टएणं क० सम्माभि० सत्तएणं क० उक्कस्सभंगो ।
सएिण० पंचिदियपज्जत्तभंगो । असएिण० तिरिक्खोघं ।

६६. आहार० सत्तएणं क० जह० जह० उक्क० अंतो० । अज० जह० एग०,
उक्क० अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो । एवं बंधकालो समत्तो ।

ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना
संयत, परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत इनमें जघन्य स्थिति बन्धका काल उत्कृष्टके
समान है । असंयत, अभव्य और मिथ्यादृष्टियोंमें मत्यज्ञानियोंके समान है ।

९३. चक्षुदर्शनवालोंमें त्रसपर्याप्तकोंके समान है । अचक्षुदर्शनवाले और भव्य जीवोंमें
ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि भव्योंमें अनादि-अपर्यवसित विकल्प नहीं होता ।
अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें कालअपने अपने
उत्कृष्टके समान है ।

९४. कृष्ण, नील और कापोत लेश्यामें काल अपने उत्कृष्टके समान है । पीत और
पद्मलेश्यामें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल
अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट काल
क्रमसे साधिक दो सागर और साधिक अठारह सागर है । शुक्ललेश्यामें सात कर्मोंके जघन्य
स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य
काल अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है ।

९५. उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय
है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल
अन्तर्मुहूर्त है । सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें आठ कर्मोंका और सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें सात कर्मोंका
काल उत्कृष्टके समान है । संज्ञियोंमें पंचेन्द्रियपर्याप्तकोंके समान काल है और असंज्ञियोंमें
सामान्य तिर्यञ्चोंके समान काल है ।

९६. आहारकोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्त-
र्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंगुलके
असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

१. मूलप्रतौ उक्क० जह० अंतो इति पाठः ।

अंतरपरूवणा

६७. बंधंतरं दुविधं—जहणणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुविधो णिदोसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तएणं कम्माणं उक्कस्सट्ठिदि-बंधंतरं जह० अंतो०, उक्क० अणंतकालमसंखे० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । आयुग० उक्क० जह० पुव्वकोडिदसवस्ससहस्साणि समयूणाणि, उक्क० अणंतकालमसंखे० । अणु० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादिरे० ।

विशेषार्थ—इस प्रकरणमें जहाँ जो विशेषता थी उसका हम स्पष्टीकरण कर आये हैं । साधारणतः सर्वत्र अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण प्राप्त होता है और जहाँ भवस्थिति ही कायस्थिति है वहाँ तत्प्रमाण प्राप्त होता है । बहुत सी ऐसी भी मार्गणाएँ हैं जिनमें भवस्थिति और कायस्थितिका प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, इसलिए वहाँ उस मार्गणाका जो उत्कृष्ट काल हो तत्प्रमाण अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कहना चाहिए । मात्र कुछ मार्गणाएँ इस नियमका अपवाद है । उदाहरणार्थ मत्यज्ञान और श्रुताज्ञानका उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है पर इनमें अजघन्य स्थितिबन्ध का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण ही प्राप्त होता है । सो इसका खुलासा सामान्य तिर्यञ्चोंके समान जान लेना चाहिए । तथा इसी प्रकार सर्वत्र सब कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धके जघन्य और उत्कृष्ट कालका तथा अजघन्य स्थितिबन्धके जघन्य कालका खुलासा ओघ प्ररूपणाको और बन्धस्वामित्वको देखकर कर लेना चाहिए । यहाँ इतना विशेष कहना है कि यहाँ सर्वत्र आयुकर्मके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल नहीं कहा है । सो इसका कारण यह है कि जहाँ आयुकर्मका बन्ध सम्भव है वहाँ आयुकर्म के जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण उपलब्ध होता है । यही कारण है कि इसका कहीं भी निर्देश नहीं किया है ।

इसप्रकार बन्धकाल समाप्त हुआ ।

अन्तरपरूपणा

९७. बन्धका अन्तरकाल दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । सर्वप्रथम उत्कृष्टका प्रकरण है । इसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमें से ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम पूर्वकोटि और दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होनेके बाद पुनः उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कमसे कम अन्तर्मुहूर्त कालके बाद होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । तथा जो संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीव उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंसे सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करके एकेन्द्रिय और विकेन्द्रिय पर्यायमें आवलिके असंख्यातवै भागमात्र पुद्गल परिवर्तनकाल तक परिभ्रमण कर पुनः संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त होकर उक्त कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है उसके उक्त सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका

६८. आदेसेण एरइगोसु सत्तएणं कम्माणं उक्क० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० देसू० । अणुक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो । आयुग० उक्क० एत्थि अंतरं । अणुक्क० जह० अंतो०, उक्क० छम्मासं देसू० । एवं सत्तपु-
ढवीसु अप्पणो द्विदी देसूणा ।

उत्कृष्ट अन्तर काल उपलब्ध होता है। इसीसे यहाँ उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल अर्थात् असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण कहा है। सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होनेसे यहाँ इनके अनु-
त्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्टअन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। ओघसे आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पूर्वकोटिकी आयुवाला तिर्यञ्च और मनुष्य अपने प्रथम त्रिभाग कालके शेष रहने पर करता है। यदि ऐसा जीव उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करके और उसको अपकर्षण द्वारा दश हजार वर्ष प्रमाण करके प्रथम नरकमें या भवनवासी और व्यन्तरोंमें उत्पन्न होकर तथा वहाँ क्रमसे पूर्व कोटिप्रमाण आयुका बन्ध करके पुनः मनुष्य और तिर्यञ्चोंमें उत्पन्न होकर पुनः प्रथम त्रिभागमें तेतीस सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयुका बन्ध करता है तो आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम पूर्वकोटि और दस हजार वर्ष प्रमाण उपलब्ध होता है। यही कारण है कि इसका जघन्य अन्तर उक्त-
प्रमाण कहा है। उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है यह स्पष्ट ही है। जो जीव अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे आयुकर्मका अनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध करता है उसके उसका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त उपलब्ध होता है और जिस मनुष्य और तिर्यञ्चने प्रथम त्रिभागमें आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध किया तथा इसके बाद द्वितियादि समयोंमें अनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध किया। अनन्तर उत्कृष्ट स्थितिके साथ वह देव या नारकी हुआ। पुनः वहाँ उसने आयुके अन्तमें अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहनेपर पुनः आयुका अनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध किया तो उसके आयुकर्मके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका साधिक तेतीस सागर उत्कृष्ट अन्तर काल उपलब्ध होता है। यही कारण है कि यहाँ आयुकर्मके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है।

९८. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थिति-
बन्धका अन्तर नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है। इसी प्रकार सात पृथिवियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि प्रत्येक पृथिवीमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिए।

विशेषार्थ—सातों पृथिवियोंमें सातों कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे या कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट आयुके अन्तरसे हो सकता है। इसीसे यहाँ सातों कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर सामान्यसे कुछ कम तेतीस सागर तथा प्रत्येक पृथिवीकी अपेक्षा कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति-
प्रमाण कहा है। यहाँ आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अवसर यदि आता है तो एकबार ही आता है। इसीसे आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर काल नहीं कहा है। शेष कथन सुगम है।

६६. तिरिक्खेसु सत्तएणां कम्माणं ओघभंगो । आयु० उक्क० एत्थि अंतरं । अणुक्क० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णिण पलिदो० सादि० । पंचिंदियतिरिक्ख०३ सत्तएणां क० उक्क० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोटिपुधत्तं । अणु० ओघं । आयु० तिरिक्खोघं । पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज० सत्तएणां कम्माणं उक्क० जहणु० अंतो० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । आयु० उक्क० जह० अंतो० सम-यूणं, उक्क० अंतो० । अणुक्क० जहणुक्क० अंतो० । एवं सव्वअपज्जत्ताणां तसाणां थावराणां णादव्वं । मणुस०३ पंचिंदियतिरिक्खभंगो ।

१००. देवेसु सत्तएणां कम्माणं उक्क० जह० अंतो०, उक्क० अट्टारससागरो० सादिरे० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । आयु० णिरयभंगो । एवं सव्वदेवाणां अप्पण्णो ढिदी देसूणा कादव्वा ।

१०१. एइंदिएसु सत्तएणां क० उक्क० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा ।

९९. तिर्यञ्चोमें सात कर्मोंका अन्तर ओघके समान है । आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका अन्तर नहीं है । आयुकर्मके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है । पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है । आयुकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति बन्धका अन्तर सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध का जघन्य अन्तर एक समय कम अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार त्रस और स्थावर सब अपर्याप्तकोंके जानना चाहिए । मनुष्यत्रिकमें पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भंग है ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंकी कायस्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होनेसे इनमें आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त उपलब्ध हो जाता है ।

१००. देवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अट्टारह सागर है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आयुकर्मका भङ्ग नारकियोंके समान है । इसी प्रकार सब देवोंके सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल कहते समय वह कुछ कम अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिए ।

विशेषार्थ—देवोंमें सात कर्मोंका ओघ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बारहवें कल्पतक होता है । इसीसे यहाँ सामान्य रूपसे देवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक अट्टारह सागर प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१०१. एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक

१०३. पंचिंदिय-तस० तेसिं चैव पज्जत्ता० सत्तएणं क० उक्क० जह० अंतो०, उक्क० सगट्ठिदी । अणु० ओघं । आयु० ओघं । एवरि उक्कस्सं कायट्ठिदी ।

१०४. पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वणप्फदि-पत्तेय०-णियोद० सत्तएणं क० उक्क० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । पत्तेगे कायट्ठिदी । अणु० ओघं । आयु० उक्क० जह० बाबीसं वस्ससहस्साणि सत्तवस्ससह० तिण्णिण रादिंदियाणि तिण्णिण वस्ससह० दसवस्ससह० अंतो० समयू०, उक्क० कायट्ठिदी । अणु० जह० अंतो०, उक्क० भवट्ठिदी सादिरे० । एवमेदेसिं बादराणं । एवरि सत्तएणं कम्मयाणं

उत्कृष्ट अन्तर तथा आयुर्कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट और जघन्य अन्तर तथा इसके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल मूलमें कही हुई विधिसे ले आना चाहिए । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम अपनी-अपनी भवस्थिति प्रमाण कहा है सो इसका कारण यह है कि पूर्व पर्याय में जिस समय उत्कृष्ट आयुबन्ध हुआ अगली पर्यायमें उसी समय उत्कृष्ट आयुबन्ध होनेपर एक समय कम अपनी-अपनी भवस्थिति प्रमाण जघन्य अन्तर-काल आ जाता है । शेष कथन सुगम है ।

१०३. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है । आयु कर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि आयुर्कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अपनी-अपनी कायस्थिति प्रमाण है ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक सागरोपम-सहस्रप्रमाण, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण, त्रसकायिकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक दो हजार सागरप्रमाण और त्रसकायिकपर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति दो हजार सागर प्रमाण है । इस कायस्थितिको ध्यानमें रखकर यहाँ सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल व आयुर्कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल ले आना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

१०४. पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, वनस्पति-कायिक प्रत्येकशरीर और निगोद जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्त-र्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । प्रत्येक वनस्पतिकायिकोंमें उत्कृष्ट अन्तर उनकी कायस्थितिप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर क्रमसे एक समय कम बाईस हजार वर्ष, एक समय कम सात हजार वर्ष, एक समय कम तीन रात-दिन, एक समय कम तीन हजार वर्ष, दोमें एक समय कम दस हजार वर्ष और एक समय कम अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है । तथा उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक भवस्थितिप्रमाण है । इसी प्रकार इनके बादरोंमें अन्तरकाल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कर्मस्थितिप्रमाण है तथा बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीरमें सात

उक्क० द्विदि० उक्कस्सं कम्मद्विदी । बादरवणप्फदि० अंगुलस्स असंखे० । एदेसिं पज्जत्ताणं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । आयुग० उक्क० द्विदि० जह० भवद्विदी समयू०, उक्क० सगद्विदी० । सव्वसुहुमाणं सुहुमेइंदियभंगो ।

१०५. पंचमण०-पंचवचि० सत्तएणं क० उक्क० एत्थि अंतरं । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । आयुग० उक्क० अणु० एत्थि अंतरं । एवं वेउव्वियका०-आहारका०-कोधादि४ । कायजोगि-ओरालि० एवं चेव । एवरि आयु० उक्क० एत्थि अंतरं । अणु० जह० अंतो०, उक्क० वावीसं वस्ससहस्साणि सत्तवस्सहस्साणि सादिरे० । ओरालियमि०-वेउव्वियमि०-आहारमि०-कम्मइग०-अणाहारगेषु सत्तएणं क० उक्क०

कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा इनके पर्याप्तकोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल संख्यात हजार वर्ष है । आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम भवस्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । सब सूक्ष्मकायिकोंमें सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके समान जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति प्रत्येककी असंख्यात लोकप्रमाण है ।^१ तथा निगोद जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति ढाई पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है ।^२ बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक, बादर वायुकायिक, बादर वनस्पति प्रत्येकशरीर तथा बादर निगोद इनकी उत्कृष्ट कायस्थिति कर्मस्थितिप्रमाण है ।^३ तथा इन सब बादर पर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति संख्यात हजार वर्षप्रमाण है ।^४ इतनी विशेषता है कि बादर निगोद पर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अन्तमुहूर्त प्रमाण है ।^५ इन सब सूक्ष्म जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण है और इनके पर्याप्तकोंकी अन्तमुहूर्तप्रमाण है ।^६ इस प्रकार इस कायस्थितिको ध्यानमें रखकर यहाँ आठों कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल ले आना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

१०५. पाँचों मनयोगी और पाँचों वचनयोगी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । आयुकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार वैक्रियिककाययोगी, आहारककाययोगी और क्रोधादि चार कषायमें जानना चाहिए । काययोगी और औदारिककाययोगी जीवोंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे साधिक बाईस हजार वर्ष और साधिक सात हजार वर्ष है । औदारिकमिश्रकाययोगी वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । औदारिकमिश्रकाययोगमें आयुकर्मके उत्कृष्ट

१. ध० पु० ७ पृ० १४३ । २. ध० पु० ७ पृ० १४८ । ३. ध० पु० ७ पृ० १४४ और १४९ । ४. ध० पु० ७ पृ० १४६ । ५. ध० पु० ७ पृ० १४९ । ६. ध० पु० ७ पृ० १४७ ।

अणुक्क० एत्थि अंतरं । आयु० ओरालियमि० उक्क० अणु० बादरएइंदियअपज्जत्त-
भंगो । आहारमिस्स० आयु० एत्थि अंतरं ।

१०६. इत्थि०-पुरिस०-एवुंस० सत्तएणं कम्मएणं उक्क० जह० अंतो०, उक्क०
पलिदोवमसदपुधत्तं सागरोवमसदपुधत्तं अणंतकालमसंखे० । अणु० ओघं । आयु०
तिएणं वि उक्क० जह० पुव्वकोडिसवस्ससहस्साणि समयू० । उक्क० अप्पण्णो
कायट्ठिदी । अणु० जह० अंतो०, उक्त्सेएण पणवएणं पलिदो० सादि० तेत्तीसं-
सादि० । अवगद० सत्तएणं क० उक्क० एत्थि अंतरं । अणु० जह० उक्क० अंतो ।

और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तरका निर्देश बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तिकोंके समान है । तथा
आहारकमिश्रकाययोगमें आयुर्कर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—जिस जीवके प्रारम्भमें सात कर्मोंका अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध होकर बीचमें
एक समयके लिए उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है उसके पांचों मनोयोग और पांचों वचन-
योगमेंसे कोई एक योगमें अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय उपलब्ध होता
है और उपशम श्रेणिपर चढ़कर और पुनः उतरकर विवक्षित योगमें अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध
करता है उसके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर्मुहूर्तप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर उपलब्ध होता
है । इन योगोंमेंसे प्रत्येकका काल इतना अल्प है जिससे इनमें दो बार उत्कृष्ट स्थितिबन्ध
या दो बार उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट आयुर्कर्मका बन्ध सम्भव नहीं है, इसलिए इनमें सात
कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तरका तथा आयुर्कर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धके
अन्तरका निषेध किया है । काययोगमें आयुर्कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल सम्भव
नहीं है यह तो स्पष्ट ही है, क्योंकि जो पिछली बार काययोगमें आयुर्कर्मका उत्कृष्ट स्थिति-
बन्ध कर चुका है उसके दूसरी पर्यायमें पुनः उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करने तक बीचमें अनेक
बार योगपरिवर्तन होकर मन, वचन और काय तीनों योग हो लेते हैं । हाँ, औदारिककाय-
योगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष प्रमाण होनेसे सामान्यसे काययोगमें साधिक
बाईस हजार वर्ष प्रमाण तथा औदारिक काययोगमें साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण आयुके
अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल अवश्य बन जाता है । शेष कथन सुगम है ।

१०६. स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका
जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर तीनों वेदोंमें क्रमसे सौ पत्य पृथक्त्व^१ सौ
सागरपृथक्त्व^२ और असंख्यात पुद्गल परिवर्तनोंमें लगनेवाले कालके बराबर अनन्त काल^३ है ।
अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल ओघके समान है । तीनों ही वेदोंमें आयुर्कर्मके उत्कृष्ट
स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल एक समय कम एक पूर्वकोटि और दस हजार वर्ष है ।
तथा उत्कृष्ट अन्तरकाल अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य
अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर स्त्रीवेदमें साधिक पचपन पत्य तथा शेष दो वेदोंमें
साधिक तेतीस सागर है । अपगतवेदमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर नहीं
है तथा अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—तीनों वेदोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति सौ पत्यपृथक्त्व, सौ सागरपृथक्त्व और
अनन्त काल है । इसीसे यहाँ सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम उक्त

१. मूलप्रतौ जह० जह० अंतो इति पाठः ।

२. ध० पु० ७ पृ० १५३ ।

३. ध० पु० ७ पृ० १५६ ।

४. ध० पु० ७ पृ० १५७ ।

५. देखो ध० पु० ७ पृ० १५८ ।

१०७. मदि०-सुद०-असंज०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छादि० मूलोघं । विभंगे सत्तएणं क० उक्क० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० देसू० । अणु० ओघं । आयु० णिरयोघं । आभि०-सुद०-ओधि० सत्तएणं कम्मा० उक्क० एत्थि अंतरं । अणु० ओघं । आयु० उक्क० जह० पल्लिदो० सादि०, उक्क० छावट्टिसाग० देसू० । अणु० ओघं । एवं ओधिदं०-सम्मादि० । मणपज्जव० सत्तएणं क० उक्क० एत्थि अंतरं । अणुक्क० जहणु० अंतो० । आयु० उक्क० एत्थि अंतरं । अणुक्क० जह० अंतो०, उक्कस्सेण पुण्वकोडितिभागं देसू० । एवं संजदाणं । सामाइ०-छेदो०-परिहार० सत्तएणं क० उक्क० अणु० एत्थि अंतरं । आयु० मणपज्जवभंगो । एवं संजदासंजदा० ।

प्रमाण कहा है । आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर काल ओघ प्ररूपणामें जिस प्रकार घटित करके बतला आये हैं उस प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदकी अपेक्षा उत्कृष्ट नरकायुका और स्त्रीवेद तथा पुरुषवेदकी अपेक्षा उत्कृष्ट देवायुका बन्ध कराके यह अन्तर काल लाना चाहिए । स्त्रीवेदी जीवकी उत्कृष्ट भवस्थिति पचपन पत्यप्रमाण और पुरुषवेदी व नपुंसकवेदीकी उत्कृष्ट भवस्थिति तेतीस सागर प्रमाण होनेसे आयुकर्मके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर स्त्रीवेदमें साधिक पचपन पत्य तथा पुरुषवेद और नपुंसकवेदमें साधिक तेतीस सागर कहा है । अपगतवेदमें सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उपशमश्रेणीसे उतरते समय होता है । तथा इसके बाद वह सवेदो हो जाता है । इससे अपगतवेदमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा मरणके विना उपशान्त मोहका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होनेसे अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१०७. मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, भव्य, अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें आठों कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल मूलोघके समान है । विभङ्गज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल ओघके समान है । तथा आयुकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर सामान्य नारकियोंके समान है । आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है । आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक पत्यप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम लुयासठ सागर है । तथा अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण है । इसी प्रकार संयत जीवोंमें जानना चाहिये । सामायिक संयत छेदोपस्थापना संयत और परिहारविशुद्धि संयतोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है ।

१. मूलप्रतौ आयु० जह० उक्क० जह० इति पाठः । २. घ० पु० ७ पृ० १६३ ।

३. तत्त्वा०, अ० ४ सू० ३३ । ४. घ० पु० ७ पृ० १५० ।

सुहुमसंप० छरणं कम्मा० उक्क० अणु० एत्थि अंतरं ।

१०८ चक्खुदंसणी० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खुदं० ओघं ।

१०९ किरण-णील-काउ० सत्तणं क० उक्क० जह० अंतो, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० सत्तारस-सत्तसागरो० देसू० । अणु० ओघं । आयु० उक्क० एत्थि अंतरं । अणु० जह० अंतो, उक्क० छम्मासं देसूणं । तेउ-पम्माए सत्तणं क० उक्क० जह० अंतो, उक्क० बे अट्टारस सागरो० सादिरे० । सेसं देवोघं । सुक्काए सत्तणं

आयुर्कर्मका भंग मनःपर्ययज्ञानके समान है । इसी प्रकार संयतासंयतोंके जानना चाहिए । सूक्ष्मसाम्पराय-शुद्धिसंयतोंमें छह कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—विभङ्ग ज्ञानका उत्कृष्ट काल सातवें नरकमें उत्कृष्ट आयुवाले नारकीके कुछ कम तेतीस सागर होता है । इसीसे इसमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त प्रमाण कहा है । आभिनिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानमें सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मिथ्यात्वके सम्मुख हुए अविरत सम्यग्दृष्टिके होता है । यही कारण है कि इनमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । सौधर्म और ऐशान कल्पकी जघन्य स्थिति साधिक पत्यप्रमाण होती है । इसीसे इन तीन ज्ञानोंमें आयुर्कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक पत्यप्रमाण कहा है । भवनत्रिकमें सम्यग्दृष्टिका उत्पाद नहीं होता, इसलिए इससे कम अन्तरकाल उपलब्ध नहीं होता । मात्र यहाँ पूर्व-कोटिके आयुवाले मनुष्यके प्रथम त्रिभागमें तेतीस सागरप्रमाण उत्कृष्ट आयुका बन्ध करावे । पुनः अपकर्षण द्वारा आयुको साधिक पत्यप्रमाण स्थापित कराके सौधर्म और ऐशान कल्पमें उत्पन्न करावे । अनन्तर पुनः पूर्वकोटि प्रमाण आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न कराके प्रथम त्रिभागमें तेतीस सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयुका बन्ध कराके यह अन्तरकाल ले आवे । इनमें आयुर्कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल जो कुछ कम छयासठ सागरप्रमाण कहा है सो यह वेदकसम्यक्त्वके उत्कृष्ट कालको ध्यानमें रखकर कहा है । यहाँ वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त कराके प्रारम्भमें और अन्तमें आयुर्कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करानेसे यह अन्तरकाल प्राप्त होता है । शेष कथन सुगम है ।

१०८. चक्षुदर्शनी जीवोंमें त्रस पर्याप्तकोंके समान भंग है और अचक्षुदर्शनी जीवोंमें ओघके समान है ।

विशेषार्थ—त्रस पर्याप्तकोंके समान चक्षुदर्शनी जीवोंकी कायस्थिति है, इसलिये इनमें आठ कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल त्रसपर्याप्तकोंके समान कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१०९. कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावालोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे साधिक तेतीस सागर, कुछ कम सत्रह सागर और कुछ कम सात सागर है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर नहीं है, अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है । पीत और पद्मलेश्यामें सात कर्मोंमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे साधिक दो सागर और साधिक अठारह सागर है । शेष अन्तर सामान्य देवोंके समान है । शुक्ल-

क० उक्० ब० जह० अंतो०, उक्० अट्टारस साग० सादि० । अणुक्० ओघं ।
आयु० देवभंगो तिएणं पि ।

११०. खड्गस० सत्तएणं क० उक्० जह० अंतो, उक्० तेत्तीसं साग० सादि० ।
अणु० ओघं । आयु० उक्० एत्थि अंतरं । [अणुक्० पगदिअंतरं ।] वेदग० सत्तएणं
क० उक्० अणु० एत्थि अंतरं । आयु० उक्० जह० पलिदो० सादिरे०, उक्०
झावट्टिसाग० देसु० । अणु० पगदिअंतरं । उवसमस० सत्तएणं क० ओधिभंगो ।
सासणस० सम्भाभि० अट्टएणं क० सत्तएणं क० उक्० अणु० एत्थि अंतरं ।

लेश्यामें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अट्टारह सागर है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है । आयुकर्मका भंग तीनों ही लेश्याओं में सामान्य देवोंके समान है ।

विशेषार्थ—कृष्ण, नील और कापोत लेश्याका उत्कृष्ट काल क्रमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सत्रह सागर और साधिक सात सागर है । इसीसे इन लेश्याओंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त प्रमाण कहा है । मात्र नील और कापोत लेश्यामें यह कुछ कम उपलब्ध होता है । इन लेश्याओंका इतना बड़ा काल नरकमें ही उपलब्ध होता है और नरकमें आयुकर्मका बन्ध अधिकसे अधिक छह माह काल शेष रहनेपर होता है । इसीसे इन लेश्याओंमें आयुकर्मके अनुत्कृष्ट स्थिति बन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम छह माह कहा है । पीत और पद्मलेश्याका उत्कृष्ट काल क्रमसे साधिक दो सागर और साधिक अट्टारह सागर है । तथा शुक्ललेश्याका काल यद्यपि साधिक तेतीस सागर है पर शुक्ललेश्यामें सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सहस्रार कल्पमें ही होता है यही कारण है कि इन तीन लेश्याओंमें सात कर्मोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल क्रमसे साधिक दो सागर साधिक अट्टारह सागर और साधिक अट्टारह सागर कहा है ।

११०. ज्ञायिकसम्यग्दृष्टियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है । आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर प्रकृति बन्धके अन्तरके समान है । वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक पत्यप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छयासठ सागर प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर प्रकृतिअन्तरके समान है । उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें सात कर्मोंका अन्तर अवधिज्ञानीके समान है । सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें क्रमसे आठ और सात कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर नहीं है ।

विशेषार्थ—ज्ञायिकसम्यग्दृष्टिके अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे सात कर्मोंका अपने योग्य उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सम्भव है । कारण कि उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध इससे कम अन्तरकाल से नहीं होता । तथा इसके साधिक तेतीस सागरके अन्तरसे भी सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सम्भव है । कारण कि ज्ञायिक सम्यग्दर्शनके होने पर यह जीव संसारमें साधिक तेतीस सागर कालसे अधिक काल तक नहीं रहता । यतः यह जीव ज्ञायिकसम्यग्दर्शन उत्पन्न होनेके प्रारम्भमें और अन्तमें सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करे और मध्यमें अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता रहे तो यह अन्तरकाल उपलब्ध हो जाता है । यही कारण है कि इसके सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य

१११ सण्ण० पंचिदियपज्जत्तभंगो । असण्ण० सत्तण्णं क० मूलोघं । आयु० उक्क० णत्थि अंतरं । अणु० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी सादिरे० ।

११२. आहार० सत्तण्णं क० उक्क० जह० अंतो०, उक्क० अंगुलस्स असंखे । अणु० ओघं । आयु० ओघं । एवरि सगट्ठिदी भाण्णिदव्वा । एवं उक्कस्सट्ठिदिबंधं-तरं समत्तं ।

११३. जहण्णए पगदं । दुविधो णिदेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तण्णं कम्मणां जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । आयु०-जह० जह० खुद्दाभव० समयूणां, उक्क० बेसागरोवमसहस्साणि सादि० । अज० जह०

अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर कहा है । ज्ञायिकसम्य-क्त्वमें देवायुके प्रकृतिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर एकपूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण कह आये हैं । वही यहां अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल उपलब्ध होता है । इसीसे यहां आयुकर्मके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान कहा है शेष कथन सुगम है ।

१११. संक्षी जीवोंमें आठों कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान है । असंक्षी जीवोंमें सात कर्मोंके स्थितिबन्धका अन्तर मूलोघके समान है । आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पूर्वकोटि है ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी कायस्थिति सौ सागरपृथक्त्व है । यही संक्षियोंकी कायस्थिति है । इसीसे यहां संक्षियोंमें आठों कर्मोंके उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान कहा है । मूलोघ प्ररूपणामें सात कर्मोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंक्षियोंकी मुख्यतासे कहा है । यही कारण है कि यहां सात कर्मोंके स्थितिबन्धका अन्तरकाल मूलोघके समान घटित हो जाता है । शेष कथन सुगम है ।

११२. आहारक जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट अन्तर ओघके समान है । आयुकर्मके उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि अपनी स्थिति कहनी चाहिए ।

विशेषार्थ—आहारकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण होती है । यहां इससे असंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल लिया गया है । यही कारण है कि सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल उक्क प्रमाण कहा है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिबन्धान्तर समाप्त हुआ ।

११३. अब जघन्य अन्तरकालका प्रकरण है । इसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम क्षुद्रक भवप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो हजार सागर है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मु-

अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० सादिरि० । एवं अचक्खुदं०-भवसि० ।

११४. आदेसेण एरइएसु सत्तएणं क० जह० अज० एत्थि अंतरं । आयु० जह० एत्थि अंतरं । अज० उक्कस्सभंगो । एवं पढमपुढवि-देवोर्घं-भवाण०-वाणवें० । एवं चेव विदियाए याव सत्तमि ति । एवरि सत्तएणं क० जह० जह० अंतो०, उक्क० सगट्टिदी देसूणा । अजहरण० अणुक्कस्सभंगो ।

हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इसी प्रकार अचक्षुदर्शनी और भव्य जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—ओघसे सात कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध क्षणिक श्रेणिमें होता है, इसलिए यहाँ सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तरका निषेध किया है । जो जीव उपशमश्रेणिमें सात कर्मोंका एक समयके लिए अबन्धक होकर दूसरे समयमें मरणकर पुनः उनका बन्ध करने लगता है उसके सात कर्मोंके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर काल उपलब्ध होता है और जो अन्तर्मुहूर्तके लिए अबन्धक होकर पुनः उनका बन्ध करता है उसके सात कर्मोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल उपलब्ध होता है । इसीसे यहाँ अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । आयुर्कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध क्षुद्रक भवग्रहण प्रमाण है । एक जीवने पूर्व भवमें जघन्य आयुका बन्ध किया । पुनः वही जीव दूसरे भवमें उसी समय जघन्य आयुका बन्ध करता है । इसीसे आयु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल एक समय कम क्षुद्रकभवग्रहण प्रमाण कहा है । प्रस पर्यायमें रहनेका उत्कृष्ट काल साधिक दो हजार सागर है । किसी जीवको इतने कालतक जघन्य आयुका बन्ध नहीं होता । यही कारण है कि जघन्य आयुके स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक दो हजार सागर कहा है । जघन्य स्थितिबन्धके सिवा अजघन्य स्थितिबन्ध है । इसका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर उपलब्ध होता है । इसी से यहाँ आयुर्कर्मके अजघन्य स्थितिबन्धका यह अन्तर काल कहा है । आगे जहाँ ओघके समान अन्तर काल आवे उसे इसी प्रकार घटित करना चाहिए ।

११४. आदेशसे नारकियोंमें सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । आयुर्कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर उत्कृष्टके समान है । इसी प्रकार पहली पृथिवी, सामान्य देव, भवनवासी और वानव्यन्तर देवोंके जानना चाहिए । दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर अनुत्कृष्टके समान है ।

विशेषार्थ—नरकमें सात कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध असंशीचर जीवके प्रथम और द्वितीय समयमें सम्भव है और इसके बाद अजघन्य स्थितिबन्ध होता है । तथा जो असंशीचर नहीं है उसके सर्वदा अजघन्य स्थितिबन्ध होता है । इसीसे सामान्यसे नरकमें सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । आयुर्कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे जघन्य आबाधा कालके रहने पर होता है । इसके बाद पुनः आयुर्कर्मका बन्ध नहीं होता । यही कारण है कि यहाँ आयुर्कर्मके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका भी निषेध किया है । अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल उत्कृष्टके समान है यह स्पष्ट ही है ।

११५. तिरिक्खेसु सत्तएणं क० जह० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । अज० ओघं । आयु० जह० जह० खुदाभवग्गहणं समयूणं, उक्क० पलिदोव० असंखे० । अज० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णिण पलिदो० सादिरे० । पंचिंदियतिरिक्ख० ३ सत्तएणं क० जह० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । अज० ओघं । आयु० जह० जह० खुदाभव० समयू०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । अज० अणुक्कस्सभंगो । एवरि पज्जत्त-जोण्णिणीसु आयु० जह० एत्थि अंतरं । अज० पगदिअंतरं । पंचिंदियतिरिक्खअप-ज्जत्त० सत्तएणं क० जह० जह० उक्क० अंतो० । अज० ओघं । आयु० जह० जह० खुदाभव० समयू०, उक्क० अंतो० । अज० जहणु० अंतो० । एवं सव्वअपज्जत्ताणं तसाणं थावराणं च । एवरि मणुसअपज्जत्त० सत्तएणं क० जह० अज० एत्थि अंतरं । मणुस० ३ सत्तएणं क० जह० अजह० एत्थि अंतरं । आयु० पंचिंदियतिरिक्ख भंगो । जोदिसिय याव सव्वट्ठ ति उक्कस्सभंगो ।

यतः असंखी जीव प्रथम नरकमें तथा भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें उत्पन्न होता है अतः प्रथम नरक, सामान्य देव, भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें सामान्य नरकके समान प्ररूपणा बन जाती है । यही कारण है कि इन मार्गणाओंमें सामान्य नरकके समान अन्तरकाल कहा है । द्वितीयादि पृथिवियोंमें जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्ध कभी भी सम्भव है । इसीसे इनमें जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

११५. तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है । आयुर्कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम क्षुल्लकभवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य प्रमाण है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्वप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है । आयु-कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम क्षुल्लकभवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्वप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर अनुत्कृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि पर्याप्त और योनिनी जीवोंमें आयुर्कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । तथा अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है । आयुर्कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम क्षुल्लकभवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार त्रस और स्थावर सब अपर्याप्तकोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्तकोंके सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । मनुष्य त्रिकमें सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । आयुर्कर्मके स्थितिबन्धका अन्तर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । ज्योतिषियोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धितक अन्तर उत्कृष्टके समान है ।

११६. एइंदिएसु सत्तएणं क० जह० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । अज० ओघं । आयुग० जह० जह० खुदाभव० समयू०, उक्क० पलिदो० असं० । अज० जह० अंतो०, उक्क० बावीसं वस्ससह० सादिरे० । वादरएइंदिय० सत्तएणं क० जह० जह० अंतो०, उक्क० अंगुलस्स असंखे० । अज० ओघं । सेसं तं चेव । वादरपज्जत्ते सत्तएणं क० जह० जह० अंतो०, उक्क० संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । अज० ओघं । आयु० जह० एत्थि अंतरं । अज० पगदिअंतरं । सव्ववादरे पज्जत्त० आयु० जह० एत्थि अंतरं । अज० पगदिअंतरं । सुहुमेइंदि० सत्तएणं क० जह० जह० अंतो०, उक्क० अंगुलस्स असंखे० । अज० ओघं । आयु० जह० जह० खुदाभव० समयू०, उक्क० पलिदो० असंखे० । अज० जहएणुक्क० अंतो । पज्जत्ते सत्तएणं क० अपज्जत्तभंगो । आयु० जह० एत्थि अंतरं । अज० जह० उक्क० अंतो० ।

विशेषार्थ—यद्यपि तिर्यञ्च सामान्यकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्त कालप्रमाण है पर यह सब तिर्यञ्चोंकी है। इसीसे इनमें जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल उनकी कायस्थितिप्रमाण न कहकर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है, क्योंकि जो तिर्यञ्च सूक्ष्म एकेन्द्रिय होकर परिभ्रमण करते हैं उनकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण होती है और इनमें सामान्य तिर्यञ्चोंकी अपेक्षा सात कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध सम्भव नहीं है। तिर्यञ्चोंमें एकेन्द्रियोंकी मुख्यतासे जघन्य आयुका बन्ध अधिकसे अधिक पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक नहीं होता। इसीसे इनमें आयुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्यके असंख्यातवें काल प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

११६. एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर ओघके समान है। आयुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम क्षुल्लकभवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष है। वादर एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अद्भुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर ओघके समान है। शेष अन्तर वही है। वादर पर्याप्तके सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार वर्ष है। अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर ओघके समान है। आयुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान है। सब वादर पर्याप्त जीवोंमें आयुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान है। सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अद्भुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर ओघके समान है। आयुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समयकम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें सात कर्मोंके जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर अपर्याप्तकोंके समान है। आयुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है। तथा अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है।

११७. बेईदि०-तेईदि०-चदुरिदि० अट्टरणं कम्माणं उक्कससभंगो । आयु० जह० जह० ओघं । उक्कसं सगट्टिदी । अज० अणुक्कससभंगो । एवं पज्जत्ता० । एवरि आयु० जह० एत्थि अंतरं ।

११८. पंचिदिय-तस०२ सत्तरणं कम्माणं मूलोघं । आयु० जह० जह० खुदाभव० समयूणं, उक्क० सगट्टिदी । पज्जत्ते एत्थि अंतरं । अज० ओघं ।

विशेषार्थ—सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण है । इसी बातको ध्यानमें रखकर एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धके उत्कृष्ट अन्तरकालका खुलासा सामान्य तिर्यञ्चोंकी प्ररूपणाके समय कर ही आये हैं । एकेन्द्रिय जीवकी उत्कृष्ट भवस्थिति बाईस हजार वर्ष प्रमाण है । इसीसे इनके आयुकर्मके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वर्षप्रमाण कहा है । बादर एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीसे इनमें आठों कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । इनके पर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति संख्यात हजार वर्षप्रमाण है । यही कारण है कि इनके सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल संख्यात हजार वर्षप्रमाण कहा है । इनके आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध होने पर मर कर वे बादर पर्याप्त नहीं होते । इसीसे इनके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । शेष कथन स्पष्ट ही है किन्तु यहाँ और सर्वत्र इतना विशेष समझना चाहिए कि जहाँ जिसकी कायस्थिति आदिप्रमाण अन्तरकाल कहा है वहाँ उस स्थितिके प्रारम्भ और अन्तमें विवक्षित स्थितिका बन्ध कराकर इस प्रकार अन्तरकाल ले आये ।

११७. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंमें आठों कर्मोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल उत्कृष्ट के समान है । आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल ओघके समान है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अपनी अपनीस्थितिप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल अनुत्कृष्टके समान है । इसी प्रकार इनके पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—द्वीन्द्रिय आदि पर्याप्तकोंके जघन्य आयु क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण बँधती है जिससे वे भवान्तरमें पर्याप्त नहीं रहते । इससे इनमें जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं उपलब्ध होता । यही कारण है कि इनमें आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । शेष कथन स्पष्ट है ।

११८. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोंमें आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । तथा सबके अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक एक हजार सागर है, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति सौ सागर पृथक्त्व है, त्रस कायिकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक दो हजार सागर है और त्रसकायिक पर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति दो हजार सागर है । इसे ध्यानमें रखकर इन चारोंमें आयुकर्मके जघन्य

११६. पुढवि०आउ०-तेउ-वाउ-वणप्फदि-पत्तेग० सत्तएणं क० उक्कस्सभंगो । आयु० जह० जह० खुदाभव० समयूणं, उक्क० पलिदो० असंखे० । पज्जत्तगे एत्थि अंतरं । अजह० पगदिअंतरं । णिगोदेसु सत्तएणं कम्माणं एइंदियभंगो । आयुग० सुहुमेइंदियभंगो । बादरणिगोद० सत्तएणं कम्माणं जह० जह० अंतो, उक्क० कम्म-द्विदी । अज० ओघं । आयु० जह० [जह०] खुदाभव० समयू०, उक्क० पलिदो० असंखे० । अज० जहणु० अंतो० । बादरणिगोदपज्ज० बादरपज्जत्तभंगो । सुहुमणिगोद० सत्तएणं क० जह० जह० अंतो०, उक्क० अंगुलस्स असंखे० । आयु० जह० जह० खुदाभव० समयू०, उक्क० पलिदो० असंखे० । अज० अणुक्कस्सभंगो । सुहुमणिगोदपज्जत्ता० सुहुमएइंदियपज्जत्तभंगो ।

१२० पंचमण०-पंचवचि० जह० अज० एत्थि अंतरं । एवं कोधादि०४ । एवरि लोभे मोहणी० ओघं ।

स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल ले आना चाहिए । इनके पर्याप्तकोंमें आयुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धके अन्तरकालके निषेधका वही कारण है जो द्वीन्द्रिय आदि पर्याप्तकोंमें अन्तरकालका कथन करते समय बतला आये हैं । शेष कथन सुगम है ।

११९. पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक और वनस्पति प्रत्येकशरीर जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल उत्कृष्टके समान है । आयुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तरकाल एक समय कम क्षुल्लक भव ग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इनके पर्याप्तकोंमें आयुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तर नहीं है । अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान है । निगोद जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल एकेन्द्रियोंके समान है । तथा आयुकर्मके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके समान है । बादर निगोद जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कर्मस्थितिप्रमाण है । अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । आयुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम क्षुल्लकभवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । बादर निगोद पर्याप्त जीवोंमें आठों कर्मोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान है । सूक्ष्म निगोद जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । आयुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम क्षुल्लक भव-ग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर अनुत्कृष्टके समान है । सूक्ष्मनिगोद पर्याप्तकोंमें आठों कर्मोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान है ।

१२०. पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीवोंमें आठ कर्मोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि लोभकषायमें मोहनीयका भङ्ग ओघके समान है ।

विशेषार्थ—लोभकषाय दसवें गुणस्थानतक होता है, इसलिए इसमें ओघके समान

१२१. कायजोगि० सत्तणं क० ओघं । ओरालियका० सत्तणं क० मणजोगिभंगो । आयु० उक्कस्सभंगो । ओरालियमिस्स० सत्तणं क० उक्कस्सभंगो । आयु० मणुसअपज्जत्तभंगो । वेउव्वियका० सत्तणं क० जह० एत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० ! आयु० जह० अजह० एत्थि अंतरं । एवं आहारकायजो० । वेउव्वियमि० सत्तणं क० आहारमि० अट्टणं क० कम्मइ०—अणाहार० सत्तणं क० जह० अजह० एत्थि अंतरं ।

१२२. इत्थि०-पुरिस०-एवुंस० सत्तणं क० जह० अजह० एत्थि अंतरं । आयु० जह० एत्थि अंतरं । अज० अणुक्कस्सभंगो । एवरि एवुंस० आयु० जह० जह० खुदाभव० समयूणं, उक्कस्सं सागरोवमसदपुधत्तं । अवगद० सत्तणं क० एत्थि अंतरं । अज० जह० उक्क० अंतो० ।

मोहनोय कर्मके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त घटित हो जाता है । शेष कथन सुगम है ।

१२१. काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है । औदारिक काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल मनोयोगियोंके समान है । तथा आयुर्कर्मका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । तथा आयुर्कर्मका भङ्ग मनुष्य-अपर्याप्तकोंके समान है । वैक्रियिक काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आयुर्कर्मके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार आहारकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें आठ कर्मोंके तथा कामर्णकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है ।

१२२. स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । आयुर्कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । तथा अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल अनुत्कृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदमें आयुर्कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तरकाल सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण है । अपगतवेदमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है तथा अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—तीनों वेदोंमें सात कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध क्षुल्लकश्रेणियोंमें होता है इसलिए इनमें सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । नपुंसकवेदमें आयुर्कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण बतलानेका कारण यह है कि इतने कालतक यह जीव संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्यायमें रह सकता है जिससे इसके योग्य आयुर्कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध न हो । इसके बाद यह पञ्चेन्द्रिय पर्यायमें जाकर यथायोग्य काल आनेपर जघन्य आयुका बन्ध करता है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

१२३. मदि-सुदअण्णा० सत्तएणं क० तिरिक्खोघं । आयु० मूलोघं । एवं असंजद०-अभवसि०-मिच्छादिट्ठि ति । विभंगे णिरयोघं । आभि०-सुद०-ओधि० सत्तएणं क० जह० एत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । आयु० जह० जह० पलिदो० सादिरे०, उक्क० छावट्टिसागरो० सादि० । अज० अणुक्कस्सभंगो । एवं ओधिदं०-सम्मादिट्ठि० । मणपज्जव०-संजदा-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप०-संजदासंजदा० उक्कस्सभंगो । चक्खुदं० तसपज्जत्तभंगो ।

१२४. छएणं लेस्साणं सत्तएणं क० जह० एत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । आयु० उक्कस्सभंगो । एवरि तेउ-पम्माणं यदि दंसणमोहखवगस्स दिज्जदि सत्तएणं क० जह० एत्थि अंतरं । अज० जह० उक्क० अंतो० ।

१२५. खइग० सत्तएणं क० ओघं । आयु० जह० एत्थि अंतरं । अज० पगदिअंतरं । वेदगस०-सत्तएणं क० जह० एत्थि अंतरं । अज० जह० उक्क० अंतो० ।

१२३. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य स्थिति-बन्धका अन्तरकाल सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । तथा आयुर्कर्मके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल मूलोघके समान है । इसी प्रकार असंयत, अभव्य और मिथ्या दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । विभङ्गज्ञानमें आठों कर्मोंके जघन्य और अजघन्य स्थिति-बन्धका अन्तरकाल सामान्य नारकियोंके समान है । अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आयुर्कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पल्यप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर प्रमाण है । तथा अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर अनुत्कृष्टके समान है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारविशुद्धि संयत, सूक्ष्मसाम्पराय संयत और संयता-संयत जीवोंमें इनके उत्कृष्टके समान अन्तरकाल है । चक्षुदर्शनी जीवोंमें त्रसपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है ।

१२४. छह लेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आयु-कर्मका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि पीत और पद्मलेश्यामें यदि दर्शन मोहनीयकी क्षपणा होती है तो इनमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल तो नहीं ही है पर अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—पहले जघन्य स्थितिबन्धके स्वामीका निर्देश कर आये हैं । वहाँ पीत और पद्मलेश्यामें जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी दो प्रकारका जीव बतलाया है—एक प्रमत्त-संयत जीव और दूसरा दर्शन मोहनीयकी क्षपणा करनेवाला जीव । इसी बातको ध्यानमें रखकर यहाँ सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल दो प्रकारसे कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१२५. क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । आयुर्कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । तथा अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान है । वेदक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका

आयु० उक्कस्सभंगो । अज० जह० अंतो, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । उवसमस०-
सासण०-सम्मामि० उक्कसभंगो । साणिया० पंचिंदियपज्जत्तभंगो । असणिया० सत्तएणं
क० तिरिक्खोघं । आयु० जह० जह० खुद्दाभव० समयू०, उक्क० पलिदो० असंखे० ।
अज० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी सादिरे० । आहाराणुवादेण आहारा० अट्टएणं
कम्माणं ओघं । एवं बंधंतरं समत्तं ।

बन्धसणियासपरूवणा

१२६. बंधसणियासं दुविधं—जहणायं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुविधो
णियासो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण णाणावरणीयस्स उक्कस्सट्ठिदिं बंधतो
छएणं कम्माणं णियमा बंधगो । तं तु उक्कस्सा वा अणुक्कस्सा वा । उक्कस्सादो अणु-
क्कस्सा समयूणमादिं कादूण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागूणं बंधदि । आयुगस्स
सिया बंधगो सिया अबंधगो, णियमा उक्कस्सा । आवाधा पुण भयणियाज्जा । एवं
छएणं कम्माणं । आयुगस्स उक्कस्सट्ठिदिं बंधतो सत्तएणं कम्माणं णियमा बंधगा ।
तं तु उक्कस्सा वा अणुक्कस्सा वा, उक्कस्सादो अणुक्कस्सा तिट्ठाणपदिदं बंधदि—असंखे-

जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल
उत्कृष्टके समान है । तथा अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट
अन्तर साधिक तेतीस सागर है । उपशम सम्यग्दृष्टि, सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यग्-
मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सभी कर्मोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । संज्ञी जीवोंमें आठों कर्मोंका भङ्ग
पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान है । असंज्ञी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके
समान है । तथा आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल एक समय कम
क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।
अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक
एक पूर्वकोटि प्रमाण है । आहार मार्गणाके अनुवादसे आहारक जीवोंमें आठों कर्मोंके जघन्य
और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है ।

इस प्रकार बन्धान्तर समाप्त हुआ ।

बन्धसन्निकर्षप्ररूपणा

१२६. बन्ध सन्निकर्ष दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है ।
उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा ज्ञाना-
वरणीयकी उत्कृष्ट स्थितिको बाँधनेवाला छह कर्मोंका नियमसे बन्धक होता है, परन्तु उसे
उत्कृष्ट बाँधता है या अनुत्कृष्ट बाँधता है । यदि अनुत्कृष्ट बाँधता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा
एक समयसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक बाँधता है । यह जीव आयु कर्मका
कदाचित् बन्धक होता है और कदाचित् बन्धक नहीं होता है । यदि बन्धक होता है तो
नियमसे उत्कृष्ट बाँधता है, परन्तु आवाधा भजनीय होती है । इसी प्रकार छह कर्मोंके
विषयमें जानना चाहिए । आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिको बाँधनेवाला जीव सात कर्मोंका
नियमसे बन्धक होता है । परन्तु उसे उत्कृष्ट बाँधता है अथवा अनुत्कृष्ट बाँधता है । यदि
अनुत्कृष्ट बाँधता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा वह तीन स्थान पतित बाँधता है । असंख्यातवां

ज्जदिभागहीणं वा संखेज्जदिभागहीणं वा संखेज्जगुणहीणं वा । एवं ओघभंगो तिरि-
क्ख-पंचिदियतिरिक्ख० ३-मणुस० ३-पंचिदिय-तस० २-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-
ओरालियका०-इत्थि०-पुरिस०-णवुंस०-कोधादि० ४-मदि-सुद०-विभंगणा०-असंजद०-
चक्खुदं०- [अचक्खुदं०-] किएणले०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छादि०-सएिण०-
आहारग ति ।

१२७. आदेसेण गिरयगईए णेरइएसु सत्तएणं कम्मएणं ओघं । एवरि आयु०
ए बंधदि । आयु० उक्क० बंधंतो सत्तएणं क० गियमा बंधगो । गियमा अणु०

भाग हीन बांधता है अथवा संख्यातवां भाग हीन बांधता है अथवा संख्यात गुणहीन
बांधता है । इस प्रकार ओघके समान तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रिय
द्विक, त्रसद्विक, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, स्त्री-
वेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभङ्ग-
ज्ञानी, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, कृष्णलेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, संक्षी
और आहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—एक पदार्थके साथ दूसरे पदार्थको मिलाकर विचार करना सन्निकर्ष है ।
यहाँ बन्धका प्रकरण है और सामान्यसे आठों कर्मोंके स्थितिबन्धका विचार चल रहा है,
इसलिए इस सन्निकर्ष अनुयोग द्वारमें यह बतलाया गया है कि किस किस कर्मका कितना
स्थितिबन्ध होनेपर अन्य किन कर्मोंका कितना स्थितिबन्ध होता है । पहिले ओघसे विचार
किया गया है । सब कर्म आठ हैं, उनमेंसे ज्ञानावरणीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध होने
पर आयुके सिवा अन्य शेष छह कर्मोंका स्थितिबन्ध नियमसे होता है । कारण कि ज्ञानावर-
णीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मिथ्यात्वमें होनेसे वहाँ दर्शनावरणादि शेष छह कर्मोंका भी
बन्ध होता है । यह तो मानी हुई बात है कि एक कर्मके स्थितिबन्धके योग्य उत्कृष्ट परिणाम होने
पर अन्य कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य परिणाम हों अथवा न भी हों इसलिए जब ज्ञाना-
वरणीयकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है तब अन्य छह कर्मोंका स्थितिबन्ध उत्कृष्ट भी होता
है और अनुत्कृष्ट भी होता है । यही बात दर्शनावरण आदिकी अपेक्षासे भी जान लेनी चाहिए ।
यह बात सुनिश्चित है कि आयुकर्मका बन्ध त्रिभागके पहिले नहीं होता, त्रिभागमें भी यदि
आयुबन्धके योग्य परिणाम होते हैं तो ही होता है अन्यथा नहीं, इसलिए जो जीव ज्ञाना-
वरणकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है वह आयुकर्मका स्थितिबन्ध करता भी है और
नहीं भी करता है । यदि करता है तो उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ही करता है अन्यथा अनुत्कृष्ट
स्थितिबन्ध करता है । अब रहा आयुकर्म, सो आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिकी बाँधनेवाला जीव
सात कर्मोंका नियमसे बन्धक होता है यह तो सुनिश्चित है । केवल देखना यह है कि शेष
कर्मोंकी स्थिति कितनी बाँधती है सो यह बात उन उन कर्मोंके बन्धके योग्य परिणामों पर
निर्भर है इसलिए यहाँ यह बतलाया है कि आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला
शेष सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति भी बाँधता है अथवा अनुत्कृष्ट स्थिति भी बाँधता है । यहाँ
कुछ अन्य मार्गणाएँ गिनाई हैं जिनमें यह ओघप्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है । यहाँ
इन मार्गणाओंके संकलनमें इस बातका ध्यान रक्खा गया है कि जिन मार्गणाओंमें आठों-
कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सम्भव है वे मार्गणाएँ ही यहाँ ली गई हैं ।

१२७. आदेशसे नरक गतिमें नारकियोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका सन्निकर्ष
ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि इसके आयुकर्मका बन्ध नहीं होता । आयुकर्मका

संखेज्जगुणहीणं बंधदि । एवं सव्वणिरय-पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज०-
सव्वदेव-पंचिंदिय-तसअपज्ज०-ओरालियमि०-वेउव्वियका०-आहारका०-आहारमि०-
आभि०-सुद०-ओधि०-मणपज्ज०-संजदा-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-संजदा'संजद-
ओधिदं०-णील०-काउ०-तेउ०-पम्म०-सुकलेस्सा-सम्मादिट्ठि-खइगस०-वेदगस०-सास-
ण० । उवसम० सत्तएणं क० ।

१२८. एइंदिएसु सत्तएणं क० ओघं । आयुगं एण बंधदि । आयुग० उक्क०
बंधंतो सत्तएणं क० णियमा अणु० । उक्क० अणु० असंखेज्जभागहीणं बंधदि । एवं
सव्वएइंदिय-विगल्लिंदिय-पंचकायाणं णिदोदाणं च । एवरि विगल्लिंदिएसु आयु० उक्क०
बंधंतो सत्तएणं क० संखेज्जभागहीणं बंधदि ।

१२९. वेउव्वियमि०-कम्मइ०-सम्मामि०-अणाहार० सत्तएणं० क० मूलोघं
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाला जीव सात कर्मोंका नियमसे बन्धक होता है । परन्तु नियमसे
संख्यातगुणो हीन अनुत्कृष्ट स्थितिको बाँधता है । इसी प्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय
तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त, सब देव, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, औदारिकमिश्र-
काययोगी वैक्रियिक काययोगी, आहारक काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, आभिनिबोधिक-
ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत,
परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, पीत-
लेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि,
और सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । तथा उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके सात
कर्मोंका इसी प्रकार सन्निकर्ष है ।

विशेषार्थ—एक उपशम सम्यग्दृष्टि मार्गणाको छोड़कर यहाँ कही गई शेष सब मार्ग-
णाओंमें सात या आठ कर्मोंका बन्ध सम्भव है । किन्तु इन मार्गणाओंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट
स्थितिबन्धके योग्य परिणामोंके होने पर आयुकर्मका बन्ध नहीं होता । और यह बात उत्कृष्ट
स्थितिबन्धके स्वामीका निर्देश करनेवाले अनुयोगद्वारासे भलो भाँति जानी जा सकती है ।

१२८. एकेन्द्रिय जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका सन्निकर्ष ओघके समान
है । इतनी विशेषता है कि यह आयुकर्मका बन्ध नहीं करता । आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध
करनेवाला जीव सात कर्मोंका नियमसे अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है । तथापि उत्कृष्टकी
अपेक्षा अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातवें भागहीन करता है । इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, सब
विकलेन्द्रिय, पाँच स्थावरकायिक और निगोद जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है
कि विकलेन्द्रियोंमें आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाला जीव सात कर्मोंकी स्थिति अपने
उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेक्षा संख्यातवें भागहीन बाँधता है ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियों और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें सात कर्मोंमेंसे प्रत्येकके
स्थितिबन्धके कुल भेद पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं और विकलत्रयोंमें पत्यके संख्या-
तवें भागप्रमाण हैं । इसलिए एकेन्द्रियों और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें असंख्यात भाग-
वृद्धिके समान असंख्यात भागहानि ही सम्भव है तथा विकलत्रयोंमें दो वृद्धियोंके समान दो
हानियाँ भी सम्भव हैं । यही कारण है कि यहाँ उक्त जीवोंमें इस बातको ध्यानमें रखकर
सन्निकर्षका निर्देश किया है ।

१२९. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और अनाहारक

आयु० वज्ज० । अवगद० णाणावर० उक्क० बंधतो छरणं कम्माणं णियमा बंधगो ।
णियमा उक्कस्सा । एवं छरणं कम्माणं । एवं सुहुमसंप० छरणं क० ।

१३०. असण्ण० सत्तणं कम्माणं ओघं । आयु० उक्क० सत्तणं कम्माणं
णियमा बंधगो । तं तु उक्क० अणु०^१ विट्ठाणपदिदं बंधदि—असंखेज्जभागहीणं
संखेज्जभागहीणं वा । एवमुक्कस्सओ बंधसण्णयासो समत्तो ।

१३१. जहणणए पगदं । दुविधो णिद्वेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ
ओघेण णाणावरणीयस्स जहणं द्विदिं बंधतो पंचणं कम्माणं णियमा
बंधदि । णियमा जहणण० । दोणं पगदीणं अबंधगो^२ । मोह० जहणणद्विदिबंधगो

जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका सन्निकर्ष मूलोघके समान है । किन्तु इतनी विशे-
षता है कि इन मार्गणाओंमें आयुर्कर्मका बन्ध नहीं होता । अपगतवेदमें ज्ञानावरणकी
उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव छह कर्मोंका नियमसे बन्धक होता है । तथा नियमसे
उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार शेष छह कर्मोंके आश्रयसे सन्निकर्ष
जानना चाहिए । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंयतके छह कर्मोंका परस्पर सन्निकर्ष
जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ जितनी मार्गणाएँ ग्रहण की हैं उन सबमें आयुर्कर्मका बन्ध नहीं होता
यह स्पष्ट है । अपगतवेद और सूक्ष्मसाम्परायमें एक समयका परिणाम एक ही विशुद्धिको
लिये हुए होता है, इसलिए एक कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होनेपर सबका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध
होता है । यही कारण है कि यहाँ उत्कृष्ट स्थितिबन्धके साथ अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धके सन्निक-
र्षका विधान नहीं किया । तथा मोहनीयका बन्ध नौवें गुणस्थान तक ही होता है इसलिए
सूक्ष्मसाम्परायमें मोहनीयके बिना छह कर्मका सन्निकर्ष कहा है ।

१३०. असंखी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका सन्निकर्ष ओघके समान है ।
आयुर्कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला सात कर्मोंका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु
उसे अनुत्कृष्ट बाँधता है जो उत्कृष्टकी अपेक्षा दो स्थानपतित बाँधता है । या तो असंख्यातवाँ
भागहीन बाँधता है या संख्यातवाँ भागहीन बाँधता है ।

विशेषार्थ—असंखियोंमें एकेन्द्रियसे लेकर असंखी पञ्चेन्द्रिय तक जीव लिये गए हैं । जो
द्वीन्द्रियादिक जीव हैं वे आयुर्कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते समय शेष कर्मोंका अपने उत्कृष्ट
स्थितिबन्धसे संख्यात भागहीन अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते हैं और जो एकेन्द्रिय जीव हैं वे
आयुर्कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते समय अपने उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे असंख्यात भागहीन
अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते हैं । इसीसे असंखी जीवोंमें उक्त प्रकारसे सन्निकर्ष कहा है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट बन्धसन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

१३१. अब जघन्य सन्निकर्षका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—
ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्ध करने
वाला पाँच कर्मोंका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता
है और दो प्रकृतियोंका अबन्धक होता है । मोहनीयकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला

१. मूलप्रतौ अणु० बंधदि विट्ठाण-इति पाठः । २. मूलप्रतौ अबंधगो एवं पंचिदि० जहणणुक्क०
मोह० इति पाठः ।

छरणं क० गियमा बं० । गियमा अज० । जह० अज० संखेज्जगुणब्भहियं बंधदि ।
 आयुगं ए बंधदि । आयु० जह० द्विदि० बंधंतो सत्तएणं कम्माणं गियमा बंधदि ।
 गियमा अज० । जह० अज० असंखेज्जगुणब्भहियं बंधदि । एवं ओघभंगोमणुस० ३-
 पंचिंदिय-तस० २-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालियका०-इत्थिवे०-पुरिसवे०-
 एवुंस०-अवगदवे०-कोधादि० ४-आभि०-सुद०-ओधि०-मणपज्जव०-संजदा-चक्खुदं०-
 अचक्खुदं-ओधिदं०-सुक्कले०-भवसि०-सम्मादि०-खइगस०-उवसम०-सरिण-आहारग
 त्ति । एवरि इत्थिवे० एणाव० जह० छरणं कम्माणं गियमा जहरणा । आयुगं
 ए बंधदि । एवं छरणं कम्माणं । एवं पुरिस०-एवुंस०-कोध-माण-मायाकसायाणं ।
 १३२. आदेसेण गिरएसु एणावरणीयं जह० द्विदी बं० छरणं क०

जीव छह कर्मोंका नियमसे बन्धक होता है किन्तु अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है । जो अजघन्य स्थिति जघन्य स्थितिकी अपेक्षा संख्यातगुणी अधिक बाँधता है । यह आयुकर्मको नहीं बाँधता । आयुकर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सात कर्मोंका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है । जो जघन्यकी अपेक्षा अजघन्य स्थिति असंख्यातगुणी अधिक बाँधता है । इस प्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, अपगतवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, आभिनिबोधिकाज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी शुक्ललेस्यावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदमें ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला छह कर्मोंकी नियमसे जघन्य स्थितिका बन्धक होता है । किन्तु यह आयुकर्मको नहीं बाँधता । इसी प्रकार छह कर्मोंकी अपेक्षा जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार पुरुषवेद, नपुंसकवेद, क्रोधकषाय, मानकषाय और मायाकषायवाले जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—क्षपक सूक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समयमें ज्ञानावरणादि छह कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध होता है और मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपक अनिवृत्तिकरणमें होता है किन्तु तब शेष छह कर्मोंका अजघन्य स्थितिबन्ध होता है । तथा आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध मिथ्यात्व गुण स्थानमें होता है । इसी बीजपदको ध्यानमें रखकर यहां ओघसे सन्निकर्ष कहा है । यहां अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमेंसे कुछ को छोड़कर शेष सब मार्गणाओंमें यथासम्भव यह ओघप्ररूणा बन जाती है । किन्तु जिन मार्गणाओंमें कुछ विशेषता है उसे जानकर उस मार्गणामें उतनी विशेषता कहनी चाहिए । उदाहरणार्थ उपशमसम्यग्दृष्टि मार्गणामें उपशम श्रेणिकी अपेक्षा ज्ञानावरण आदिका स्थितिसन्निकर्ष कहना चाहिए और इसमें आयुकर्मका बन्ध नहीं होता इस लिए इसकी अपेक्षासे सन्निकर्षका कथन नहीं करना चाहिए । स्त्रीवेद आदि मार्गणाओंमें जो विशेषता है वह अलगसे कही ही है ।

१३२. आदेशसे नारकियोंमें ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव छह

णियमा० । तं तु जहण्णा^१ वा०२ समउत्तरमादिं कादूण पलिदोवमस्स असंखेज्जदि-
भागब्भहियं बंधदि । आयु० अबंधगा । एवं छरणं कम्माणां । आयु० जह० द्विदि०
बंधं सत्तणं क०^३ णियमा० अज० संखेज्जगुणब्भहियं बंधदि । एवं सब्बणिरय-
मणुसअपज्जत्त-सब्बदेव-वेउव्वियकायजोगि-आहारका०-आहारमि०-विभंग०-परिहार०-
संजदासंजद०-तेउ०पम्म०-वेदग०-सासणत्ति ।

१३३. तिरिक्खेसु सत्तणं क० णिरयभंगो । आयु० जह० द्विदि०बंधं सत्तणं
क० णियमा अज०^३ तिट्ठाणपदिदं—असंखेज्जभागब्भहियं वा [संखेज्जभागब्भहियं
वा] संखेज्जगुणब्भहियं वा बंधदि । एवं पंचिंदियतिरिक्ख०४ । एवरि जह० द्विदि०
बंधं सत्तणं क० णियमा० अज० विट्ठाणपदिदं—संखेज्जदिभागब्भहियं वा संखेज्ज-

कर्मोंका नियमसे बन्धक होता है । किन्तु उनकी जघन्य स्थितिका बन्धक होता है अथवा
अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है । यदि अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तो एक
समयसे लेकर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अधिक स्थितिका बन्धक होता है । यह जीव
आयुकर्मका अबन्धक होता है । इसी प्रकार छह कर्मोंकी अपेक्षा कथन करना चाहिए ।
आयुकर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सात कर्मोंकी नियमसे अजघन्य स्थिति-
का बन्धक होता है । उसका बन्धक होता हुआ भी जघन्यकी अपेक्षा नियमसे संख्यातगुणी
अधिक अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार सब नारकी, मनुष्य अपर्याप्त,
सब देव, वैक्रियिककाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, विभङ्गज्ञानी,
परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, पीतलेश्यावाले, पञ्जलेश्यावाले, वेदकसम्यग्दृष्टि और
सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—अन्य कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध होते समय आयुकर्मकी जघन्य
स्थितिका बन्ध नहीं होता और आयुकर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध होते समय अन्य कर्मोंकी
जघन्य स्थितिका बन्ध नहीं होता यह सामान्य नियम है जो ओघ और आदेश दोनों
प्रकारसे घटित होता है । इसलिए आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धके साथ अन्य कर्मोंके
जघन्य स्थितिबन्धका सन्निकर्ष घटित नहीं होता यह स्पष्ट ही है । साथ ही श्रेणिके सिवा
अन्यत्र शेष सात कर्मोंमेंसे किसी एककी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव अन्य कर्मकी
अजघन्य स्थितिका ही बन्ध करता है यह भी नियम है । इसी सिद्धान्तको ध्यानमें रक्क कर
यहाँ उक्त प्रकारसे सन्निकर्ष कहा है ।

१३३. तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका सन्निकर्ष नारकियोंके समान है ।
आयुकर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सात कर्मकी नियमसे तीन स्थानपतित
अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है । जो या तो असंख्याततवाँ भाग अधिक अजघन्य
स्थितिका बन्धक होता है या संख्यातवाँभाग अधिक अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है अथवा
संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च
चतुष्कके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि आयुकर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करने-
वाला जीव सात कर्मकी नियमसे दो स्थानपतित अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है । वह

१. जहण्णा वा ४ सम-इति पाठः । २. मूलप्रतौ क० णियमा० णियमा० अज० इति पाठः ।
३. अज० विट्ठाणपदिदं इति पाठः ।

गुणब्भहियं वा । एवं पंचिंदिय-तसअपज्जत्ता० । तिरिक्खोघभंगो ओरालियमि०-
मदि०-सुद०-असंजद०-किएण०-णील०-काउ०-अभवसि०-मिच्छा०-असणिए त्ति ।
एवं चेव एइंदिय०-वेइंदिय०-तेइंदि०-चदुरिंदिय०-पंचका०-णियोदाणं च । एवरि एइं-
दिय-थावरकाएसु आयु० जह० ट्टिदिबं० सेसं असं० भागब्भहियं बंधदि । विगलिंदि०
संखेज्जदिभागब्भहियं बंधदि ।

१३४. वेउन्वियमि०-कम्मइ०-सम्माभि०-अणाहार० आयु० वज्ज णिरयभंगो ।
अवगद्वे० सत्तएणं क० सुहुमसंप० छएणं कम्माणं ओघं । एवं जहएणसणिएयासो
समत्तो । एवं बंधसणिएयासो समत्तो ।

गाणाजीवेहि भंगविचयपरूवणा

१३५. गाणाजीवेहि भंगविचयं दुविधं—जहएणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए
पगदं । तत्थ इमं अट्टपदं—ये गाणावरणीयस्स उक्कस्सियाए ट्टिदीए बंधगा जीवा
ते अणुक्कस्सियाए अबंधगा । ये अणुक्कस्सियाए ट्टिदीए बंधगा जीवा ते उक्कस्सि-

या तो संख्यातवाँ भाग अधिक अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है अथवा संख्यातगुणी
अधिक अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त और त्रस
अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । औदारिकमिश्रकाययोगी, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत,
कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके
सामान्य तिर्यञ्चोंके समान जानना चाहिए । तथा एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय,
पाँचों स्थावरकाय और निगोद जीवोंके इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है
कि एकेन्द्रिय और स्थावरकायिक जीवोंमें आयुकर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला
जीव शेष कर्मोंकी असंख्यातवाँ भाग अधिक अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है तथा विकले-
न्द्रियोंमें संख्यातवाँ भाग अधिक अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोंमें एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय जीवोंका समावेश
होता है । इसीसे यहाँ आयुकी जघन्य स्थितिके बन्धके समय शेष कर्मोंका जो बन्ध होता
है वह जघन्यसे अजघन्य तीन स्थानपतित होता है ऐसा कहा है । एकेन्द्रियों और विकल-
त्रयके कथनका स्पष्टीकरण मूलमें किया ही है ।

१३४. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और अनाहारक
जीवोंमें आयुकर्मके सिवा शेष सन्निकर्ष नारकियोंके समान है । अपगतवेदी जीवोंमें सात
कर्मोंका तथा सूक्ष्मसाम्परायिक संयतोंमें छह कर्मोंका सन्निकर्ष ओघके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ कही गई मार्गणाओंमें आयु कर्मका बन्ध नहीं होता, इसलिए यहाँ
आयुकर्मको छोड़कर ऐसा कहा है । शेष कथन सुगम है । इस प्रकार जघन्य सन्निकर्ष
समाप्त हुआ ।

इस प्रकार बन्धसन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचयपरूवणा

१३५. नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट ।
उत्कृष्टका प्रकरण है । उसमें यह अर्थप्रद है—जो ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक
जीव होते हैं वे उसकी अनुत्कृष्ट स्थितिके अबन्धक होते हैं । जो ज्ञानावरणकी अनुत्कृष्ट

याए द्विदीए अबन्धगा । एवं पगदिं बंधंति तेषु पगदं, अबन्धगेषु अबन्धवहारो । एदेण अट्टपदेण दुविधो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अट्टएणं कम्माणं उक्कस्सियाए द्विदीए सिया सव्वे अबन्धगा, सिया अबन्धगा य बंधगो य, सिया अबन्धगा य बंधगा य । एवं अणुक्कस्से वि । एवरि पडिलोमं भाणिट्ठं । एवमो-घभंगो तिरिक्खोघं-कायजोगि-ओरालियकाय०-ओरालियमि०-कम्मइ०-एवुंसय०-को-धादि०-४-मदि०-सुद०-असंजद०-अचक्खु०-किरण०-णीलले०-काउ०-भवसि०-अभव-सि०-मिच्छादि०-असणिए-आहार०-अणाहारगत्ति । एवरि कम्मइ०-अणाहार० सत्त-एणं कम्माणं भाणिट्ठं ।

स्थितिके बन्धक जीव होते हैं वे उसकी उत्कृष्ट स्थितिके अबन्धक होते हैं । इस प्रकार जो जीव प्रकृतिका बन्ध करते हैं उनका यहाँ प्रकरण है । अबन्धकोंका प्रकरण नहीं है । इस अर्थपदकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिके कदाचित् सब जीव अबन्धक हैं, कदाचित् बहुत जीव अबन्धक हैं और एक जीव बन्धक है तथा कदाचित् बहुत जीव अबन्धक हैं और बहुत जीव बन्धक हैं । इसी प्रकार अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धमें भी कथन करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि वहाँ इससे प्रतिलोम रूपसे कथन करना चाहिए । इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसक-वेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्णलेश्या-वाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्गविचय कहना चाहिए ।

विशेषार्थ—भङ्गविचय शब्दका अर्थ है भेदोंका वर्गीकरण करना । यहाँ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंके अबन्धकोंके साथ किस प्रकार कितने भङ्ग होते हैं यह बतलाया गया है । आठों कर्मोंकी ओघ उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कदाचित् एक भी नहीं होता, कदाचित् एक होता है और कदाचित् नाना होते हैं । तथा इसकी अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कदाचित् सब होते हैं, कदाचित् एक कम सब होते हैं और कदाचित् नाना होते हैं । इसलिए अबन्धकोंको मिलाकर इनके भङ्ग लानेपर इस प्रकार होते हैं—कदाचित् ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिके सब अबन्धक होते हैं, कदाचित् बहुत जीव अबन्धक होते हैं और एक जीव बन्धक होता है तथा कदाचित् बहुत जीव अबन्धक होते हैं और बहुत जीव बन्धक होते हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेक्षा कदाचित् सब जीव बन्धक होते हैं । कदाचित् बहुत जीव बन्धक होते हैं और एक जीव अबन्धक होता है तथा कदा-चित् बहुत जीव बन्धक होते हैं और बहुत जीव अबन्धक होते हैं । यहाँ अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह ओघ प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है इसलिए उनके कथनको ओघके समान कहा है । इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाओंमें उत्कृष्ट और अनु-त्कृष्ट स्थितिबन्ध जहाँ जो सम्भव हो वह लेना चाहिए । मात्र कार्मणकाययोग और अना-हारक इन दो मार्गणाओंमें आयुर्कर्मका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनमें सात कर्मोंकी अपेक्षा भङ्गविचय कहना चाहिए ।

१३६. आदेसेण णेरइएसु सत्तणं कम्माणं ओघं । आयु० उक्क० अणु० अट्टभंगो । उक्कस्सं अबंधपुव्वं, अणुक्कस्सं बंधपुव्वं । एवं सव्वणिरय-सव्वपंचि-दियतिरिक्ख०-सव्वमणुस्स०-सव्वदेवा०-वेइंदि०-तेइंदि०-चदुरिंदि० तेसिं पज्जत्ता-पज्जत्ता० पंचिदिय-तस० तेसिं पज्जत्तापज्जत्ता०-बादरपुढविकाइय-आउ०-तेउ०-वाउ०-बादरवणप्फदिपत्तेयसरीर-पज्जत्ता० पंचमण०-पंचवचि०-वेउव्वियका०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-आभि०-सुद०-ओधि०-मणपज्जव-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-संजदासंजद-चक्खुदं०-ओधिदं०-तेउले०-पम्मले० सुक्कले०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-सणिए त्ति । एवरि मणुसअपज्जत्त० अट्टणं कम्माणं विवरीदा अट्ट भंगा कादव्वा । एवं आहार०-आहारमि०-सासण त्ति । एवं चेव वेउव्वियमिस्स०-अवगद०-सुहुमसं० उवसम०-सम्माभि० अप्पपगदी० ।

१३७. एइंदिए० सत्तणं क० उक्क० अणुक्क० अत्थि बंधगा य अबंधगा य । आयु० ओघं । एवं बादर-सुहुमपज्जत्तापज्जत्त० बादर-पुढविकाइय-आउ०-तेउ०-वाउ०-बादरवणप्फदिपत्तेय०अपज्जत्त० सव्वसुहुमपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-सव्व-

१३६. आदेशसे नारकियोंमें सात कर्मोंका भङ्गविचय ओघके समान है । आयुकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टके आठ भङ्ग होते हैं । उत्कृष्ट स्थितिबन्धके भङ्ग अबन्धपूर्वक कहने चाहिए और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धके भङ्ग बन्धपूर्वक कहने चाहिए । इसी प्रकार सब नारकी सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, सब मनुष्य, सब देव, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा इन तीनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय और इनके पर्याप्त अपर्याप्त, त्रस और इनके पर्याप्त अपर्याप्त, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, वैक्रियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभङ्गज्ञानी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, पीत लेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि वेदकसम्यग्दृष्टि और संक्षी जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्तकोंमें आठ कर्मोंके विपरीत क्रमसे आठ भङ्ग करने चाहिए । मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान आहारक काययोगी, आहारकमिश्र-काययोगी और सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके आठ भङ्ग कहने चाहिए । तथा इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, सूक्ष्मसाम्परायसंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्या-दृष्टि जीवोंके अपने अपने कर्मोंके अनुसार भङ्ग कहने चाहिए ।

१३७. एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके अनेक जीव बन्धक हैं और अनेक जीव अबन्धक हैं । आयुकर्मका भङ्गविचय ओघके समान है । इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय तथा इन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, बादर जलकायिक अपर्याप्त, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त, बादर वायुकायिक अपर्याप्त, बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, सब सूक्ष्म पृथिवीकायिक, सब सूक्ष्म जलकायिक, सब सूक्ष्म अग्निकायिक, सब सूक्ष्म वायुकायिक, सब वनस्पतिकायिक, और सब निगोद

वणप्फदि-णिगोदाणां च । पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं बादर० बादरवणप्फदि-पत्तेय० अट्टण्णं कम्माणं मूलोघं । एवं उक्कस्सं समत्तं ।

१३८. जहण्णगे पगदं । तं चेव अट्टपदं कादव्वं । तस्स दुविधो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तण्णं कम्माणं उक्कस्सभंगो । आयु० जह० अजह० अत्थि बंधगा य अबंधगा य । एवं ओघभंगो पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं चेव बादर० वणप्फदिपत्तेय०-कायजोगि-ओरलियका०-णवुंस-कोधादि०-अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति ।

जीवोंके जानना चाहिए । पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और इन चारोंके बादर तथा बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर जीवोंके आठों कर्मोंका भङ्गविचय मूलोघके समान है ।

विशेषार्थ—ओघप्ररूपणामें उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेक्षा कदाचित् सब जीव अबन्धक होते हैं, कदाचित् नाना जीव अबन्धक होते हैं और एक जीव बन्धक होता है तथा कदाचित् नाना जीव अबन्धक होते हैं और नाना जीव बन्धक होते हैं । तथा अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेक्षा कदाचित् सब जीव बन्धक होते हैं, कदाचित् नाना जीव बन्धक होते हैं और एक जीव अबन्धक होता है और कदाचित् नाना जीव बन्धक होते हैं और नाना जीव अबन्धक होते हैं यह बतला आये हैं । प्रकृतमें आयुकर्मकी अपेक्षा इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए, यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट भङ्गविचय समाप्त हुआ ।

१३८. अब जघन्य भङ्गविचयका प्रकरण है । यहाँ अर्थपद पूर्वोक्त ही जानना चाहिए । इसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंका भङ्गविचय उत्कृष्टके समान है । आयुकर्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके अनेक जीव बन्धक हैं और अनेक जीव अबन्धक हैं । इस प्रकार ओघके समान पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और इन चारोंके बादर, वनस्पतिकायिक, प्रत्येकशरीर, काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ ओघसे सात कर्मोंका भङ्गविचय उत्कृष्टके समान है । सो इस कथन का यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार ओघसे सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका भङ्गविचय कह आये हैं उस प्रकार यहाँ जघन्य स्थितिबन्धका कहना चाहिए और जिस प्रकार ओघसे सात कर्मोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका भङ्गविचय कह आये हैं उस प्रकार यहाँ अजघन्य स्थितिबन्धका कहना चाहिए । इसके अनुसार निम्न भङ्ग उपलब्ध होते हैं—कदाचित् सब जीव जघन्य स्थितिके अबन्धक होते हैं, कदाचित् बहुत जीव अबन्धक होते हैं और एक जीव बन्धक होता है, कदाचित् बहुत जीव अबन्धक होते हैं और बहुत जीव बन्धक होते हैं । अजघन्यकी अपेक्षा—कदाचित् सब जीव अजघन्य स्थितिके बन्धक होते हैं, कदाचित् बहुत जीव बन्धक होते हैं, और एक जीव अबन्धक होता है तथा कदाचित् बहुत जीव बन्धक होते हैं और बहुत जीव अबन्धक होते हैं । आयुकर्मका विचार स्पष्ट है, क्योंकि उसकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके बन्धक और अबन्धक जीव सतत उपलब्ध होते हैं । यहाँ अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह ओघप्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है इसलिए उनका कथन ओघके समान कहा है ।

१३६. आदेसेण गेरइएसु अट्टएणं वि कम्माणं उक्कस्सभंगो । एवं सव्वणिरय-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-सव्वमणुस-सव्वदेव-सव्वविंगलिंदिय-सव्वपंचिदिय-तस-बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-बादरवणप्फदिपत्तेयपज्जत्ताणं पंचमण०-पंच-वचि०-वेउव्वियका०-वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि०-इत्थि०-पुरिस०-अवगदवे०-विभंग०-आभि०-सुद०-ओधि०-मणपज्ज०-संज०-सामाइ०-छेदो०-परिहार-सुहुमसंप०-संजदासंजद०-चक्खुदं०-ओधिदंस०-तेउले०-पम्मले०-सुक्कले०-सम्मादिट्ठि-खइग०-वेदग०-उवसम०-सासण०-सम्माभि०-सणिए ति ।

१४०. तिरिक्खेसु अट्टएणं क० जह० अजह० अत्थि बंधगा य अबंधगा य । एवं सव्वएइंदिय-बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-बादरवणप्फदिपत्तेय० अपज्जत्ता तेसिं सुहुमपज्जत्तापज्जत्त० सव्ववणप्फदि-णिगोद-ओरालियमि०-कम्मइ०-मदि०-सुद०-असंज०-क्किणएले-णील०-काउ०-अभवसि०-मिच्छादि-असणिए-अणाहारग ति । एवं णाणाजीवेहि भंगविचयं समत्तं ।

१३६. आदेशसे नारकियोंमें आठों ही कर्मोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, सब मनुष्य, सब देव, सब विकलेन्द्रिय, सब पञ्चेन्द्रिय, सब ब्रह्म, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, अपगतवेदी, विभङ्गज्ञानी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसाम्परायसंयत, संयतासंयत, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए ।

१४०. तिर्यञ्चोंमें आठों कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके अनेक जीव बन्धक हैं और अनेक जीव अबन्धक हैं । इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, बादरपृथिवीकायिक अपर्याप्त, बादर जलकायिक अपर्याप्त, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त, बादर वायुकायिक अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, इनके सूक्ष्म तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, सब वनस्पतिकायिक, सब निगोद, औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञो और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—आशय यह है कि इन मार्गणाओंमें सर्वदा जघन्य स्थितिके बन्धक नाना जीव हैं और अजघन्य स्थितिके बन्धक नाना जीव हैं । इसलिए यहां अन्य भङ्ग सम्भव नहीं हैं ।

इस प्रकार नानाजीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय समाप्त हुआ ।



भागाभागप्परूपणा

१४१. भागाभागं द्विविधं—जहणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । द्विविधो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अट्टएणं वि कम्माणं उक्कस्सद्विदि-
बन्धगा सव्वजीवाणं केवडियो भागो ? अणंतभागो । अणुक्कस्सद्विदिवंधगा जीवा
सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? अणंता भागा । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं काय-
जोगि०-ओरालियका०-ओरालियभि०-कम्मइ०-एवुंस०-कोधादि०-४-मदि०-सुद०-
असंज०-अचक्खुदं०-किएण०-णील०-काउले०-भवसि-अभवसि०-भिच्छादि०-अस-
एण-आहार०-आणाहारग ति ।

१४२. आदेसेण एरइएसु अट्टएणं कम्माणं उक्क० बंध० केव० ? असंखेज्जदि-
भागो । अणुक्क० बंध० केव० ? असंखेज्जा भागा । एवं सव्वएरइय-सव्वपंचि-
दियतिरिक्ख-मणुस-मणुसअपज्जत्त-देव-भवणादि याव सहस्सार ति आणद याव
अणुत्तरा ति सत्तएणं कम्माणं सव्वविगलंदिय-पंचिदिय-तसपज्जत्तापज्जत्त-सव्व-

भागाभागप्ररूपणा

१४१. भागाभाग दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी
अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा आठों ही कर्मोंकी
उत्कृष्ट स्थितिकी बाँधनेवाले जीव कितने भाग प्रमाण हैं ? अनन्तवें भाग प्रमाण हैं । अनु-
त्कृष्ट स्थितिकी बाँधनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? अनन्त बहुभाग
प्रमाण हैं । इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिक काययोगी,
औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मण काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले,
मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्या-
वाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंका भागाभाग
जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले कुल जीव असंख्यात होते हैं । और
अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले अनन्त होते हैं । इस संख्याको ध्यानमें रख कर ही
यहाँ पर उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके अनन्तवें भाग प्रमाण कहे गये
हैं और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके अनन्त बहु भाग प्रमाण कहे
गये हैं । यहाँ पर गिनाई गई अन्य मार्गणाओंमें यह भागाभाग घटित हो जाता है इसलिए
उनकी प्ररूपणा ओघके समान कही है ।

१४२. आदेशसे नारकियोंमें आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव
सब नारकियोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिका
बन्ध करनेवाले नारकी जीव कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । इसी
प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च, मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्यदेव, भवनवा-
सियोंसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देव आयुकर्मके बिना सात कर्मोंके बन्धकी अपेक्षा आनत-
कल्पसे लेकर अनुत्तर विमानवासी देव, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त
और अपर्याप्त, ब्रह्म, ब्रह्मपर्याप्त और अपर्याप्त, सब पृथ्वीकायिक, सब जलकायिक सब

पुढवि०—आउ०—तेउ०—वाउ०—बादरवप्फदिपत्तेय०—पंचमण—पंचवचि०—वेउव्विय०—
वेउव्वियमि०—इत्थि०—पुरिस०—विभंग०—आभि०—सुद०—ओधि०—संजदासंजद०—
चक्खुदं०—ओधिदं०—तेउ०—पम्मले०—सुक्कले०—सम्मादि०—खइग०—वेदग०—उवस-मस०—
सासण०—सम्माभिच्छादि०—सणिए ति ।

१४३. मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु अट्टणं कम्मणां उक्क० द्विदि० केवडि० ?
संखेज्जदिभागा । अणुक्क० बंध० केव० ? संखेज्जा भागा । एवं सव्वट्ट-आहार०-
आहारमि०-अवगदवे०-मणपज्जव०-संजदा-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसं० ।

अग्निकायिक, सब वायुकायिक, बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर, पाँचों मनोयोगी, पाँचों
वचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी,
आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, संयतासंयत, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी,
पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्य-
ग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और संज्ञी जीवोंका भागा-
भाग जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—सामान्यसे आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले नारकी जीव
तथा अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले नारकी जीव संख्यात हैं फिर भी उत्कृष्टसे अनु-
त्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले नारकी जीव असंख्यात गुरे हैं । यही कारण है कि यहाँ
आठों कर्मोंकी उत्कृष्टस्थितिका बन्ध करनेवाले नारकी जीव सब नारकी जीवोंके असं-
ख्यातवें भाग कहे हैं और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले नारकी जीव सब नारकी
जीवोंके असंख्यात बहुभाग प्रमाण कहे हैं । यहाँ गिनाई गई अन्य सब मार्गणाओंमें यह
प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है इसी लिए उनके भागाभागका कथन सामान्य नारकि-
योंके समान कहा है । मात्र आयुकर्मकी अपेक्षा आनतकल्पसे लेकर अपराजित तकके देव,
शुक्ललेश्यावाले और ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि इन मार्गणाओंमें भागाभागके प्रमाणमें कुछ विशे-
षता है जिसका निर्देश आगे करनेवाले हैं । यहाँ मूलमें 'अनुत्तरा' ऐसा पाठ है, इससे पाँच
अनुत्तर विमानोंका ग्रहण होना चाहिए, किन्तु सर्वार्थसिद्धिका भागाभाग स्वतन्त्र रूपसे
कहा है इसलिए इस पद द्वारा चार अनुत्तर विमान ही लिए गए हैं । दूसरे सर्वार्थसिद्धिके
अहमिन्द्रोंकी संख्या संख्यातप्रमाण ही है और यहाँ पर असंख्यात संख्यावाली मार्गणाओंका
भागाभाग कहा गया है, इसलिए भी अनुत्तर पदसे यहाँ पर सर्वार्थसिद्धिका ग्रहण नहीं
होता है । इस प्रकरणमें उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि ये दो ऐसी मार्गणाएँ भी
गिनाई हैं जिनमें आयुकर्मका बन्ध नहीं होता, इसलिए उनमें सात कर्मोंकी अपेक्षा यह
भागाभाग जानना चाहिए ।

१४३. मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनिर्योमें आठों कर्मोंकी उत्कृष्टस्थितिका बन्ध करने-
वाले जीव कितने भाग प्रमाण हैं ? संख्यातवें भाग प्रमाण हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध
करनेवाले जीव कितने भाग प्रमाण हैं ? संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । इसी प्रकार सर्वार्थ-
सिद्धिके देव आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत,
सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्परायसंयत
जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—ये सब मार्गणाएँ संख्यात संख्यावाली हैं, इसीलिए उक्त प्रमाण भागाभाग

१४४. आणद याव अपराजिदा त्ति सुक्कले०-खइग० आयु० सव्वट्ठभंगो ।

१४५. ईंदिएसु सत्तएणं कम्माणं णिरयभंगो । आयु० ओघं । एवं वणप्फदि-
णियोदेसु । एवं उक्कस्सं सम्मत्तं ।

१४६. जहएणगे पगदं । दुविधो णिदेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण
सत्तएणं कम्माणं जह० अजह० उक्कस्सभंगो । आयु० जह० द्विदिवंध० केव-
डियो भागो ? असंखेज्जदिभागो । अजह० द्विदि० केवडि० ? असंखेज्जा भागा ।
एवं ओघभंगो कायजोगि—ओरालियका०—एवुंस०—कोधादि०४—अचक्खुदं०—भवसि०—
आहारग त्ति ।

बन जाता है। मात्र इनमेंसे अपगतवेदी और सूक्ष्मसाम्परायसंयत इन दो मार्गणाओंमें
आयुर्कर्मका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनमें सात कर्मोंकी अपेक्षा भागाभाग जानना चाहिए।

१४४. आनतकल्पसे लेकर अपराजित विमान तकके देव शुक्ल लेश्यावाले और
ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें आयुर्कर्मका भागाभाग सर्वार्थसिद्धिके देवोंके समान है।

विशेषार्थ—ये सब मार्गणाएँ यद्यपि असंख्यात संख्यावाली हैं तथापि इनमें आयुर्कर्मकी
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात ही होते हैं, इसलिए इनमें
आयुर्कर्मकी अपेक्षा सर्वार्थसिद्धिके समान भागाभाग हो जाता है।

१४५. एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंका भागाभाग नारकियोंके समान है। आयुर्कर्मका
भागाभाग ओघके समान है। इसी प्रकार वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें जानना
चाहिए।

विशेषार्थ—यद्यपि ये मार्गणाएँ अनन्त संख्यावाली हैं तथापि इनमें सात कर्मोंकी
उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अपनी अपनी जीवराशिके असंख्यातवें भाग प्रमाण
हैं और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं इसलिए इनका
भागाभाग नारकियोंके समान कहा है। मात्र इनमें आयुर्कर्मकी अपेक्षा भागाभाग का विचार
ओघके समान करना चाहिए, क्योंकि इन मार्गणाओंमें आयुर्कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध
करनेवाले जीव अनन्तवें भागप्रमाण ही होते हैं और शेष अनन्त बहुभाग प्रमाण जीव अनु-
त्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले होते हैं।

इस प्रकार उत्कृष्ट भागाभाग समाप्त हुआ।

१४६. अब जघन्य भागाभागका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—
ओघ और आदेश। उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका
बन्ध करनेवाले जीवोंका भागाभाग उत्कृष्टके समान है। आयुर्कर्मकी जघन्य स्थितिका
बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं।
अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने भाग प्रमाण हैं? असंख्यात बहुभागप्रमाण
हैं। इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि
चार कंषायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ—पहिले उत्कृष्ट भागाभागका विचार कर आए हैं उसी प्रकार यहाँ भी
विचार कर लेना चाहिए। मात्र आयुर्कर्मकी अपेक्षा इस भागाभागमें कुछ अन्तर है। यहाँ
आयुर्कर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सब जीव राशिके असंख्यातवें भागप्रमाण
होते हैं इसलिए आयुर्कर्मकी जघन्य स्थितिको बाँधनेवाले जीव सब जीवराशिके

१४७. मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु आणद याव सव्वदृ त्ति आहार०-आहारमि०-अवगदवे०-मणपज्जव०-संजद०-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप०-सुक्कले०-खइग० जह० अजह० उक्कस्सभंगो । सेसाणं सव्वेसिं सव्वपगदीणं जह० द्विदि० केव०? असं०भागो । अज० द्विदि० केव० ? असंखेज्जा भागा । एवं भागाभागा समत्तं ।

परिमाणपरूवणा

१४८. परिमाणं दुविधं, जहणणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सगे पगदं । दुविधं—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अट्ठणं कम्माणं उक्क० द्विदिबंध० केव-डिया ? असंखेज्जा । अणुक्क० द्विदि० केव० ? अणंता । एवं ओघभंगो तिरि-क्खोघं कायजोगि-ओरालियका०-ओरालियमि०-कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-किरण०-णील०-काउले०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छादि०-असणिएण०-आहार०-अणाहारग त्ति ।

असंख्यातवें भागप्रमाण कहे हैं और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण कहे हैं ।

१४९. मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी, आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, आहारक काययोगी, आहारक मिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसाम्परायसंयत, शुक्ल-लेश्यावाले और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका भागाभाग उत्कृष्टके समान है । शेष सब मार्गणाओंमें जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं ।

विशेषार्थ—यहां जितनी मार्गणाएँ कहीं है उनमेंसे किन्हींकी संख्या संख्यात है, किन्हींकी असंख्यात है और किन्हींकी अनन्त है । जिन मार्गणाओंका भागाभाग उत्कृष्टके समान कहा है उनमें बहुतोंकी संख्या संख्यात है और कुलुकी असंख्यात इत्यादि सब बातोंको ध्यानमें रखकर भागाभागका विचार कर लेना चाहिए ।

इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ ।

परिमाणपरूपणा

१४८. परिमाण दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक मिश्र काययोगी, कर्मण काययोगी, नपुंसक वेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्णलेश्यावाले, नील लेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीको देखते हुए स्पष्ट ज्ञात होता है कि ओघसे और इन मार्गणाओंमें उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातसे अधिक नहीं हो

१४६. आदेसेण एरइएसु अट्टएणं कम्माणं उक्क० अणु० द्विदिवंध० केव० ? असंखेज्जा । एवं सव्वणिरय-सव्वपंचिंदियतिरिक्ख-मणुसअपज्जत्त० देवा भवणादि याव सहस्सार त्ति सव्वविगल्लिंदिय-सव्वपंचिंदिय-तस-सव्वपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-बादरवणप्फदिपत्तेय०-पंचमण०-पंचवचि०-वेउव्वियका०-वेउव्वियमि०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-चक्खुदं०-[तेउले०-]पम्मले०-सणिए त्ति । एवरि तेउ-पम्म० उक्क० संखेज्जा ।

१५०. मणुस्सेसु अट्टएणं कम्माणं उक्क० द्विदि० बंध० केव० ? संखेज्जा । अणुक्क० द्विदि० बंध० केव० ? असंखेज्जा । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सव्वट्ट०-आहार०-आहारमि०-अवगदवे०-मणपज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसं० सत्तएणं क० उक्क० अणुक्क० द्विदिवंध० केव० ? संखेज्जा ।

१५१. सव्वएइंदि० सत्तएणं क० उक्क० अणुक्क० द्विदिवंध० केव० ?

सकते । उदाहरणार्थ—ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त संक्लेश परिणामवाला मिथ्यादृष्टि जीव करता है । गणनाकी अपेक्षा ये असंख्यात ही होते हैं । यही कारण है कि यहांपर आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात बतलाए हैं और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अनन्त कहे हैं ।

१४६. आदेशसे नारकियोंमें आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, देव, भवनवासियोंसे लेकर सहस्वार कल्प तकके देव, सब विकलेन्द्रिय, सब पञ्चेन्द्रिय, सब ब्रह्म, सब पृथ्वीकायिक, सब जलकायिक, सब अग्निकायिक, सब वायुकायिक, सब बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वैक्रियिक काययोगी, वैक्रियिक मिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी, चक्षुदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले और संज्ञी जीवोंका परिमाण जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पीत लेश्यावाले और पद्मलेश्यावाले जीवोंमें उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात होते हैं ।

विशेषार्थ—ये सब मार्गणाएँ असंख्यात संख्यावाली हैं और इनमें उत्कृष्ट स्थिति व अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात बन जाते हैं, इसलिए इनका उक्त प्रमाण परिमाण कहा है । जिन दो मार्गणाओंमें अपवाद है उनका निर्देश अलगसे किया ही है ।

१५०. मनुष्योंमें आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले कितने हैं ? संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले कितने हैं ? असंख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी, सर्वार्थसिद्धिके देव, आहारकाययोगी, आहारक मिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्यय-ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारविशुद्धि संयत और सूक्ष्म-साम्पराय संयत जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं ।

विशेषार्थ—ये मनुष्य पर्याप्त आदि सब मार्गणाएँ संख्यात संख्यावाली हैं इसलिए इनमें उक्त प्रमाण घटित हो जाता है ।

१५१. सब एकेंद्रियोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले

अणंता । आयु० उक्क० द्विदिवं० केव० ? असंखेज्जा । अणु० द्विदिवं० केव० ? अणंता । एवं सव्ववणप्फदि-णिगोदाणं ।

१५२. आभि०-सुद०-ओधि० सत्तएणं क० उक्क० अणुक्क० द्विदिवं० केव० ? असंखेज्जा । आयु० उक्क० संखेज्जा । अणु० द्विदि० असंखेज्जा । एवं संजदासंजद०-ओधि०-सम्मादि०-वेदग०-सासण०-सम्माभिच्छा० । आणद याव अवराइदा त्ति सुक्कले०-खइग० सत्तएणं क० उक्क० अणुक्क० असंखेज्जा । आयु० मणुसिभंगो ।

१५३. जहणएण पगदं । दुविधो णिद्वेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तएणं क० जह० द्विदिवं० केत्तिया ? संखेज्जा । अजह० के० ? अणंता । आयु० जह० अज० द्विदि० अणंता । एवं कायजोगि-ओरालियका०-एवुंस०-कोधादि०-अचक्खु०-भवसि०-आहारग त्ति ।

जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इसी प्रकार सब वनस्पति और सब निगोदिया जीवोंका परिमाण जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यद्यपि ये मार्गणाएँ अनन्त संख्यावाली हैं तथापि इनमें आयुकर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अनन्तवें भाग प्रमाण ही होते हैं, इसलिए यहां इनकी संख्या असंख्यात बतलाई है । शेष कथन सुगम है ।

१५२. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, सासा-दन सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका परिमाण जानना चाहिए । आनत कल्पसे लेकर अपराजित तकके देव, शुक्ल लेश्यावाले और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं । तथा आयुकर्मकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव मनुष्यनियोंके समान हैं ।

विशेषार्थ—यहां गिनाई गईं सब मार्गणाएँ असंख्यात संख्यावाली हैं तथापि इनमें आयुकर्मकी अपेक्षा कुछ विशेषता है जिसका निर्देश अलग अलग मूलमें किया ही है । शेष कथन सुगम है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट परिमाण समाप्त हुआ ।

१५३. अब जघन्य परिमाणका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । आयुकर्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अनन्त हैं । इसी प्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंका परिमाण जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, इसलिए यहां

१५४. आदेसेण एेरइएसु० उक्कस्सभंगो । तिरिक्खेसु अट्टएणं कम्माणं जह० अजह० द्विदिबं० केव० ? अणंता । एवं सव्वएइंदिय-वणप्फदि-णिगोद-ओरालियमि०-कम्मइ०-मदि०-सुद०-असंज०-किरण०-णील०-काउ०-अभवसि०-मिच्छादि-असणिएण-अणाहारग ति ।

१५५. सव्वपंचिंदियतिरिक्ख-सव्वमणुस-सव्वदेव-विगलिंदिय-सव्वपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-बादरवणप्फदिपत्तेय०-वेउव्विय०-वेउव्वियमि०-आहार०-आहार-मि०-मणपज्ज०-अवगदवे०-संजदा-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसं० उक्कस्सभंगो । एवरि मणुसोघं आयु० जह० अजह० असंखेज्जा ।

१५६. पंचिंदिय-तस०२ सत्तएणं कम्माणं जह० बंध० संखेज्जा । अजह० असं-खेज्जा । आयु० जह० अजह० असंखेज्जा । एवं पंचमण०-पंचवचि०-इत्थि०-

सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात कहे हैं। बाकी सब जीव अनन्त हैं, इसलिए अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अनन्त कहे हैं। आयुकर्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अनन्त हैं यह स्पष्ट ही है, क्योंकि एकेन्द्रिय आदि अधिकतर जीव इन दोनों आयुओंका बन्ध करते हैं। यहां अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह प्ररूपणा अविक्ल घटित हो जाती है इसीलिए उनका परिमाण ओघके समान कहा है।

१५४. आदेशसे नारकियोंमें आठों कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण उत्कृष्टके समान है। तिर्यञ्चोंमें आठों कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय वनस्पतिकायिक, निगोद जीव, औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुता-ज्ञानी, असंयत, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक मार्गणाओंमें परिमाण जानना चाहिए।

१५५. सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, सब मनुष्य, सब देव, विकलेन्द्रिय, सब पृथिवीकायिक, सब जलकायिक, सब अग्निकायिक, सब वायुकायिक, सब बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, मनःपर्ययज्ञानी, अपगतवेदी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धि-संयत और सूक्ष्मसाम्परायसंयत मार्गणाओंमें आठों कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण अपने अपने उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि सामान्य मनुष्योंमें आयुकर्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले मनुष्य असंख्यात हैं।

विशेषार्थ—आयुकर्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले मनुष्योंमें अपर्याप्त मनुष्योंकी मुख्यता है इसलिए यहां इनका परिमाण असंख्यात कहा है। शेष कथन सुगम है।

१५६. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं। अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं। आयुकर्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं। इसी प्रकार पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभङ्ग-

पुरिस०-विभंग०-संजदासंजद०-चक्खुदं०-सणिए ति ।

१५७. आभि०-सुद०-ओधि० अट्टएणं कम्माणं जह० संखेज्जा । अज० असं-
खेज्जा । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-वेदगस० ।

१५८. तेउ०-पम्मले० सत्तएणं क० जह० संखेज्जा । अजह० असंखेज्जा ।
आयुग० जह० अज० असंखे० ।

१५९. सुक्कले०-खइग० सत्तएणं क० जह० संखेज्जा । अज० असंखेज्जा ।
आयु० जह० अज० संखेज्जा ।

१६०. सासण० सम्मामि० अट्टएणं कम्माणं सत्तएणं कम्माणं जह० अजह०
असंखेज्जा । एवं परिमाणं समत्तं ।

ज्ञानी, संयतासंयत, चक्षुदर्शनी और संज्ञी मार्गणाओंमें परिमाण जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—जो विभङ्गज्ञानी और संयतासंयत जीव संयमके अभिमुख होता है उसीके
सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध सम्भव है । यतः ऐसे जीव संख्यात होते हैं अतः इन
दोनों मार्गणाओंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण संख्यात
कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

१५७. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें आठों कर्मोंकी जघन्य
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं । अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असं-
ख्यात हैं । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि और वेदसम्यग्दृष्टि मार्गणाओंमें परिमाण
जानना चाहिए ।

१५८. पीतलेश्या और पद्मलेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करने
वाले जीव संख्यात हैं । अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं । आयुकर्मकी
जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं ।

विशेषार्थ—सर्वविशुद्ध अप्रमत्तसंयत जीव जो पीत और पद्मलेश्यावाले होते हैं उनके
सात कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध होता है । इस अपेक्षासे इन दोनों मार्गणाओंमें सात कर्मोंकी
जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात कहे हैं । शेष कथन सुगम है ।

१५९. शुक्ललेश्यावाले और क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका
बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं । अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं
तथा आयुकर्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं ।

विशेषार्थ—दर्शनमोहनीयकी क्षणिका प्रारम्भ मनुष्य ही करते हैं और वे संख्यात
होते हैं । यद्यपि अन्य तीन गतियोंमें सञ्चयकी अपेक्षा ये असंख्यात होते हैं पर गति और
आगतिकी अपेक्षा ये संख्यातसे अधिक नहीं होते । यही कारण है कि क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंमें
आयुकर्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात कहे हैं । इसी
प्रकार शुक्ललेश्यामें या तो देवायुका बन्ध होता है या मनुष्यायु का । इसीसे इसमें आयुकर्म
की जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले संख्यात कहे हैं ।

१६०. सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें क्रमसे आठों कर्मों और
सात कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात होते हैं ।

विशेषार्थ—इन दोनों मार्गणाओंमेंसे प्रत्येक मार्गणावाले जीवोंकी संख्या पत्न्यके
असंख्यातवें भागप्रमाण कही है । इससे यहाँ सात कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका
बन्ध करनेवाले जीवोंकी असंख्यात संख्याके प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती ।

इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ ।

खेत्तपरूवणा

१६१. खेत्तं दुविधं—जहणायं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुविधो णिहोसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अट्टरणं कम्माणं उक्क० द्विदि-बन्ध० खेवडिखेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । अणुक्क०बन्ध० केव० ? सव्व-लोगे । एसिं परिमाणे उक्क०द्विदिबन्धगा असंखेज्जा अणुक्क०बन्ध० अणंता तेसिं उक्कस्स०बन्ध० केव० खेत्ते ? लोगस्स असं०, अणु० सव्वलोगे एइंदिय-पंचका-याणं मोत्तूण । सेसाणं सव्वेसिं सव्वे भंगा उक्क० अणु०बन्ध० लोगस्स असंखेज्ज० ।

१६२. एइंदिय-सुहुमेइंदियपज्जत्तापज्जत्त० सत्तएणं कम्माणं उक्क० अणु० सव्वलोगे । आयु० उक्क० लोगस्स असं० । अणु० सव्वलोगे । वादरएइंदियपज्ज-त्तापज्जत्त० सत्तएणं कम्माणं उक्क० अणु०बन्ध० केव० ? सव्वलो० । आयु०

क्षेत्र प्ररूपणा

१६१. क्षेत्र दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकका असंख्यातवाँ भाग क्षेत्र है । अनुत्कृष्टस्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । जिनकी संख्या उत्कृष्ट स्थितिके बन्धकी अपेक्षा असंख्यात है और अनुत्कृष्ट स्थितिके बन्धकी अपेक्षा अनन्त है उनका उत्कृष्ट स्थितिके बन्धकी अपेक्षा कितना क्षेत्र है ? लोकका असंख्यातवाँ भाग क्षेत्र है तथा अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवालोंका सब लोक क्षेत्र है । मात्र एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकाय जीवोंको छोड़कर यह क्षेत्र कहा है । शेष सब जीवोंके सब भङ्ग अर्थात् उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले शेष जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

विशेषार्थ—ओघसे सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्यादृष्टि जीवके संक्लेशरूप परिणामोंके होने पर होता है । तथा आयुर्कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति का बन्ध इसके या सर्व विशुद्ध परिणामवाले संयतके होता है । यतः इनका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है अतः आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका उक्त प्रमाण क्षेत्र कहा है । तथा आठों कर्मोंकी अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब लोक क्षेत्र है यह स्पष्ट ही है । यहाँ शेष सब मार्गणाओंको तीन भागोंमें विभक्त कर दिया है । एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंको स्वतंत्र छोड़ दिया है, क्योंकि इनका क्षेत्र आगे कहनेवाले हैं । शेष अनन्त संख्यावाली मार्गणाओंका क्षेत्र यहीं बतला दिया है और शेष जितनी असंख्यात और संख्यात संख्यावाली मार्गणाएँ बचती हैं उन सबमें सब पदोंकी अपेक्षा क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण बतलाया है । शेष कथन सुगम है ।

१६२. एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । आयुर्कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । तथा अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । बादर एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले

उक्क० लोगस्स असंखेज्ज० । अणु० लोग० संखेज्जदिभागे ।

१६२. पुढवि०-आउ०-तेउ० अट्टएणं कम्माणं मूलोघं । तेसिं सुहुमपज्जत्ताप-
ज्जत्त० एइंदियभंगो । बादरपुढवि०-आउ०-तेउ० सत्तएणं क० उक्क० लोगस्स
असं० । अणु० सन्वलोगे । आयु० उक्क० अणु० लोगस्स असंखेज्जदि० । बादर-
पुढवि०-आउ०-तेउ०पज्जत्ता० अट्टएणं क० उक्क० अणु० लोगस्स असं० । बादर-
पुढवि०-आउ०-तेउ०अपज्जत्ता० सत्तएणं क० एइंदियभंगो । आयु० उक्क० अणु०
लोगस्स असं० ।

जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है ।

१६३. पृथिवीकायिक, जलकायिक और अग्निकायिक जीवोंमें आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र मूलोघके समान है । इन्हीके सूक्ष्म तथा पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें आठ कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र एकेन्द्रियोंके समान है । बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक और बादर अग्निकायिक जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सब लोकप्रमाण है । आयु-कर्मकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त और बादर अग्नि-कायिक पर्याप्त जीवोंमें आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, बादर जलकायिक अपर्याप्त और बादर अग्निकायिक अपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र एकेन्द्रियोंके समान है । आयु-कर्मकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

विशेषार्थ—पृथिवीकायिक, जलकायिक और अग्निकायिक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है, इसलिए इनमें आठों कर्मोंकी अपेक्षा क्षेत्र ओघके समान कहा है । पहले एकेन्द्रिय सूक्ष्म और उनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें आठों कर्मोंकी अपेक्षा क्षेत्रका विचार कर आये हैं । उसी प्रकार सूक्ष्म पृथिवीकायिक, और इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें आठों कर्मोंकी अपेक्षा क्षेत्र प्राप्त होता है, इसलिए इनके कथनको एकेन्द्रियोंके समान कहा है । बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक और बादर अग्निकायिक जीवोंका मारणान्तिक और उपपादपदकी अपेक्षा सर्व लोकप्रमाण क्षेत्र होते हुए भी स्वस्थान क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका व आयुकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवालोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र कहा है । सात कर्मोंकी अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सर्व लोक है यह स्पष्ट ही है । बादर पृथिवी कायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त और बादर अग्निकायिक पर्याप्त जीवोंका स्वस्थान, समुद्रात व उपपाद सभी पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है, इसलिए इनमें आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण कहा है । यद्यपि बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, बादर जलकायिक अपर्याप्त और बादर अग्निकायिक अपर्याप्त जीवोंका स्वस्थान क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और मारणान्तिक समुद्रात व उपपादपदकी अपेक्षा सर्वलोक क्षेत्र है

१६४. वाउ० सत्तएणं क० उक्क० बं० केव० ? लोग० संखेज्जदिभागे । अणु० सव्वलो० । आयु० ओघं । बादरवाउ० सत्तएणं क० उक्क० लोग० संखेज्ज० । अणु० सव्वलो० । आयु० उक्क० लोग० असं० । अणु० लोगस्स० संखेज्ज० । बादरवाउपज्जत्ता० सत्तएणं क० उक्क० अणु० लोग० संखेज्ज० । आयु० उक्क० लोग० असं० । अणु० लोग० संखेज्ज० । बादरवाउअपज्ज० सत्तएणं क० उक्क० अणु० सव्वलोगे । आयु० उक्क० लोग० असंखे० । अणु० लोग० संखेज्जदि० । सुहुमवाउपज्जत्तापज्जत्त० सत्तएणं क० उक्क० अणु० सव्वलोगे । आयु० ओघं ।

तथापि इनमें सात कर्मोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र एकेन्द्रियोंके समान प्राप्त होता है, इसलिए इस क्षेत्रको एकेन्द्रियोंके समान कहा है। पर इनका स्वस्थान क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है इसलिए इनमें, आयुकर्मकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है।

१६४. वायुकायिक जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र कितना है ? लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सब लोक है। आयुकर्मकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र ओघके समान है। बादर वायुकायिक जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सब लोक है। आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। बादर वायुकायिक अपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सब लोक है। आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। सूक्ष्म वायुकायिक और इनके पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सब लोक है। आयुकर्मकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र ओघके समान है।

विशेषार्थ—बादरवायुकायिक और उनमें अपर्याप्त जीवोंका स्वस्थान क्षेत्र लोकका संख्यातवां भागप्रमाण तथा मारणान्तिक समुद्घात और उपपाद पदकी अपेक्षा सर्वलोक क्षेत्र है। बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंका स्वस्थान समुद्घात और उपपादपदकी अपेक्षा लोकका असंख्यातवां भागप्रमाण क्षेत्र है। इसी विशेषताको ध्यानमें रख कर इन जीवोंमें सात कर्मोंके व आयुकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट क्षेत्र का विचार कर लेना चाहिए। मात्र आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सर्वत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। शेष कथन सुगम है।

१६५. वण्णफदि-णिगोद० तेसिं सुहुमपज्जत्तापज्जत्त० सत्तएणं क० उक्क० अणु० सव्वलोगे । आयु० ओघं । बादरवण्णफदि-णिगोद० सत्तएणं क० सुहुमभंगो । आयु० मणुसिभंगो । बादरवण्णफदिपत्तेय० बादरपुढविकाइयभंगो । एवं उक्कस्सयं समत्तं ।

१६६. जहरणणे पगदं । दुविधो णिहसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तएणं क० जह० द्विदिबंध० केव० ? लोगस्स असंखेज्ज० । अज० सव्वलोगे । आयु० जह० अजह० सव्वलो० । एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालियका०-णवुंस०-

१६५. वनस्पतिकायिक और निगोद तथा इनके सूक्ष्म और पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । आयुकर्मकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र ओघके समान है । बादर वनस्पतिकायिक और बादर निगोद जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सूक्ष्म जीवोंके समान है । आयुकर्मकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र मनुष्यनिर्योके समान है बादरवनस्पति प्रत्येक शरीर जीवोंमें आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र बादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—वनस्पतिकायिक और निगोद तथा इनके सूक्ष्म और उनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । इसीसे इनमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब लोक क्षेत्र कहा है । ओघसे आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सब लोकप्रमाण बतला आये हैं । उक्क मार्गणावाले जीवोंका क्षेत्र सब लोक होनेसे इनमें भी ओघप्ररूपणा घटित हो जाती है, इसलिए इनमें आयुकर्मकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र ओघके समान कहा है । पहले सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंका क्षेत्र बतला आये हैं । वह क्षेत्र यहां बादरवनस्पतिकायिक और बादर निगोद जीवोंमें अविकल घटित हो जाता है इसलिए सात कर्मोंकी अपेक्षा इनकी प्ररूपणाको सूक्ष्म जीवोंके समान कहा है । बादर वनस्पतिकायिक और बादर निगोद जीवोंका स्वस्थान क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है और मनुष्यनिर्योका स्वस्थान क्षेत्र भी इतना ही है, इसलिए इन मार्गणाओंमें आयुकर्मकी अपेक्षा मनुष्यनिर्योके समान क्षेत्र कहा है । बादर पृथिवीकायिकोंका स्वस्थान क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और मारणान्तिक समुद्रात व उपपाद पदकी अपेक्षा सर्वलोक क्षेत्र हैं । बादरवनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंका क्षेत्र भी इतना ही है । इसीसे इनमें आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र बादरपृथिवीकायिक जीवोंके समान कहा है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट क्षेत्र समाप्त हुआ ।

१६६. अब जघन्य क्षेत्रका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । आयुकर्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । इसी प्रकार ओघके

जह० अजह० सव्वलो० । बादरपुढवि०-आउ०-तेउ० तेसिं च अपज्जत्ता० बादरवण-
प्फदि-णिगोदपज्जत्तापज्ज० बादरवणप्फदिपत्तेय० तस्सेव अपज्जत्त० सत्तएणं क०
ओघं । आयु० णिरयभंगो । बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-पज्जत्ता० बादरवणप्फ०पत्तेय-
पज्जत्ता०अट्टएणं कम्माणं उक्कस्सभंगो । बादरवाउ०अपज्जत्ता० सत्तएणं क० तिरि-
क्खोघं । आयु० जह० अज० लोग० संखेज्ज० । बादरवाउ०पज्जत्त० अट्टएणं क०
जह० अजह० लोग० संखेज्ज० । सेसाणं सव्वेसिं सव्वे भंगा । एवं खेत्तं समत्तं ।

फोसणपरूपणा

१७०. फोसणं दुविधं—जहएणयं उक्कस्सरयं च । उक्कस्सए पगदं । दुविधं—
ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तएणं कम्माणं उक्कस्सट्ठिदिबंधगेहि केविडियं खेत्तं
फोसिदं ? लोगस्स असंखे० अट्ट-तेरह चौदसभागा । अणुक्क० बंध० सव्वलो० । आयु०
उक्क० अणु० खेत्तभंगो । एवं ओघभंगो कायजोगि०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-
अचक्खुदं०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छादि०-आहारग ति ।

आठ कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सब लोक है ।
बादर पृथ्वीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक और इनके अपर्याप्त, बादर
वनस्पतिकायिक, बादर निगोद और इनके पर्याप्त तथा अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक
प्रत्येक शरीर तथा इनके अपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका
बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र ओघके समान है । आयुकर्मकी जघन्य और अजघन्य स्थिति-
का बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र नारकियोंके समान है । बादर पृथ्वीकायिक, पर्याप्त, बादर
जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त और बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर पर्याप्त
जीवोंमें आठ कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र उत्कृष्टके
समान है । बादर वायुकायिक अपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थिति-
का बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । आयुकर्मकी जघन्य और
अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातर्वे भागप्रमाण है । बादर
वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें आठ कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले
जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातर्वे भागप्रमाण है । शेष सब मार्गणाओंमें सब भङ्ग होते हैं ।

इस प्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ ।

स्पर्शनपरूपणा

१७०. स्पर्शन दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी
अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंकी
उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्या-
तर्वे भाग, कुछ कम आठबटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु क्षेत्रका
स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोकका स्पर्शन किया
है । आयुकर्मकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके
समान है । इस प्रकार ओघके समान काययोगी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्त्यज्ञानी,
श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और आहारक मार्गणाओंमें
स्पर्शन जानना चाहिए ।

१७१. आदेसेण एरइएसु सत्तएणां क० उक्क० अणु० छच्चोद० । आयु० खेत्तभंगो । पढमाण् खेत्तभंगो । विदियाए याव सत्तमा त्ति सत्तएणां क० उक्क० अणु० बे'तिगिण-चत्तारि-पंच-छच्चोदस० । आयु० खेत्तभंगो । तिरिक्खेसु सत्तएणां क० उक्क० छच्चोद० । अणु० सन्वलोगो । आयु० खेत्तभंगो । एवं एणुंस०-किणाले० ।

१७२. पंचिदियतिरिक्ख०३ सत्तएणां क० उक्क० छच्चोद० । अणु० लोग० असंखे० सन्वलो० । आयु० खेत्तभंगो ।

विशेषार्थ—सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त संकलेश परिणामवाले जीव करते हैं, इनका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अतीत कालीन स्पर्शन विहारवत्स्वस्थानकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और मारणान्तिक समुद्रातकी अपेक्षा तेरह बटे चौदह राजु है। यही जानकर यहां उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। शेष कथन सुगम है।

१७१. आदेशसे नारकियोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयु-कर्मकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। पहिली पृथ्वीमें आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। दूसरी पृथ्वीसे लेकर सातवीं पृथ्वी तकके नारकियोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने क्रमसे कुछ कम एक बटे चौदह राजु, कुछ कम दो बटे चौदह राजु, कुछ कम तीन बटे चौदह राजु, कुछ कम चार बटे चौदह राजु, कुछ कम पांच बटे चौदह राजु और कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकर्मका भङ्ग क्षेत्रके समान है। तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकर्मका भङ्ग क्षेत्रके समान है। इसी प्रकार नपुंसकवेदी और कृष्णलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ—सामान्य नारकियोंका अतीत कालीन स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजु है। प्रथम पृथिवीमें लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण स्पर्शन है। द्वितीयादि पृथिवियोंमें कुछ कम एक बटे चौदह राजु आदि स्पर्शन है। इसे ध्यानमें रखकर सामान्यसे नरकमें और प्रत्येक पृथिवीमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। तिर्यञ्चोंमें जो नीचे सातवीं पृथिवीतक मारणान्तिक समुद्रात करते हैं उन्हींके सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजु उपलब्ध होता है यह जानकर उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। शेष कथन सुगम है।

१७२. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रिकमें सात कर्मोंकी उत्कृष्टस्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकर्मका भङ्ग क्षेत्रके समान है।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रिकमें कुछ कम छह बटे चौदह राजुका स्पष्टीकरण सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। इन तीन प्रकारके तिर्यञ्चोंका वर्तमान निवास लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है और अतीत कालीन निवास मारणान्तिक और उपपादपदकी अपेक्षा सर्व लोक है। यह जानकर इनमें सात कर्मोंकी अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले उक्त

१७३. पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्ता० सत्तएणं क० उक्क० अणु० लोग० असंखे० सव्वलोगो वा । आयु० खेत्तभंगो । एवं मणुसअपज्जत्त-सव्वविगल्लिदिय-पंचिदिय-तसअपज्जत्ता० बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०पज्जत्ता० बादरवण-प्फदि०पत्तेयपज्जत्ता० ।

१७४. मणुस० सत्तएणं क० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० लोग० असंखे० सव्वलो० । आयु० खेत्तभंगो । देवेषु सत्तएणं क० उक्क० अणु० अट्ट-णवचोद्दस० । आयु० उक्क० अणु० अट्टचोद्दस० । एवं सव्वदेवाणं अप्पणो फोसणं कादव्वं ।

१७५. एइंदिएसु सत्तएणं क० उक्क० अणु० सव्वलोगो । आयु० उक्क० लोग० असंखे० । अणु० बंध० सव्वलोगो । एवं बादरएइंदियपज्जत्तापज्जत्ता० । एवरि

तिर्यञ्चोका उक्क प्रमाण स्पर्शन कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१७३. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुकर्मका भङ्ग क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, बादरपृथ्वीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्नि-कायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त और बादरवनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीरपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंका वर्तमान कालीन स्पर्शन लोकके असंख्या-तवें भागप्रमाण और मारणान्तिक व उपपाद पदकी अपेक्षा अतीतकालीन स्पर्शन सब लोक है । यहां अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनका स्पर्शन इसी प्रकार है, इसलिए इनमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका उक्क प्रमाण स्पर्शन कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१७४. मनुष्य त्रिकमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सबलोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुकर्मका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । देवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कर्म नौ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुकर्मकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सब देवोंके अपना अपना स्पर्शन जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—देव विहारवत्स्वस्थानकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा कुछ कम नौ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन करते हैं । किन्तु मारणान्तिक समुद्घात के समय आयुबन्ध नहीं होता इसलिए इनके आयुकर्मकी अपेक्षा केवल कुछ कम आठ बटे चौदह राजु प्रमाण स्पर्शन कहा है । भवनवासी आदि देवोंमें अपने अपने स्पर्शनको जानकर यहां यथासम्भव स्पर्शनका निर्देश करना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

१७५. एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुकर्मकी उत्कृष्टस्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट

आयु० अणु० लोग० संखे० । सुहुमएइंदियपज्जत्तापज्ज० सत्तएणं क० उक्क० अणु०
सव्वलो० । आयु० उक्क० लोग० असंखे० सव्वलो० । अणु० सव्वलोगो । एवं
सव्वसुहुमाणं ।

१७६. पंचिंदिय-तस०२ सत्तएणं क० उक्क० अट्ट-तेरह० । अणु० अट्टचोदस०
सव्वोलोगो वा । आयु० उक्क० खेत्तभंगो । [अणुक्क०-]अट्टचोदस० । एवं पंचमएण०-
पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-चक्खुदंसणि ति ।

स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें आयुकर्मकी अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सबलोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयु-कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्टस्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सबलोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सब सूक्ष्म जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहां सूक्ष्म एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन दो प्रकारका कहा है सो उसमें से लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन वर्तमान कालकी अपेक्षा कहा है और सब लोकप्रमाण स्पर्शन अतीत कालकी अपेक्षा कहा है । शेष कथनका विचार इन मार्गणाओंके स्पर्शनको देखकर कर लेना चाहिए ।

१७६. पञ्चेन्द्रिय; पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी और चक्षुदर्शनी जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ विहारवत्स्वस्थानकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु स्पर्शन उपलब्ध होता है । यह सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेक्षा स्पर्शन है किन्तु अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेक्षा तो कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोक स्पर्शन उपलब्ध होता है । इनमेंसे कुछ कम आठ बटे चौदह राजु स्पर्शनका खुलासा पूर्ववत् है और सब लोकप्रमाण स्पर्शन मारणा-न्तिक समुद्धातकी अपेक्षा जानना चाहिए । कारण कि अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले उक्त जीव सब लोकमें मारणान्तिक समुद्धात करते हुए उपलब्ध होते हैं । आयुकर्मकी अपेक्षा स्पर्शनका विचार करते हुए अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन केवल कुछ कम आठ बटे चौदह राजु कहा है सो इसका कारण यह है कि मारणान्तिक समुद्धातके समय आयुकर्मका बन्ध नहीं होता, अतएव विहारवत्स्वस्थानकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह राजु स्पर्शन ही यहाँ सम्भव है, इससे अधिक नहीं ।

१७७. पुढवि०-आउ-तेउ० तेसिं च बादर० सत्तएणं क० उक्क० लोग० असंखे० सव्वलो० । अणु० सव्वलो० । आयु० खेत्तभंगो । बादरपुढवि०-आउ०-तेउ० अपज्ज-त्ता० सत्तएणं क० उक्क० अणु० सव्वलो० । आयु० खेत्तभंगो । बादरवणप्फदिपत्तेय० बादरपुढविभंगो । वाउ० पुढवि०भंगो । एवरि जम्हि लोगस्स असंखे० तम्हि लोगस्स संखेज्ज० । वणप्फदि-णिगोद० पुढविकाइयभंगो । एवरि सत्तएणं क० उक्क० सव्वलो० ।

१७८. ओरालियका० सत्तएणं क० उक्क० ङ्चोइस० । अणु० सव्वलो० । आयु० खेत्तभंगो । ओरालियभि० अट्टएणं क० उक्क० लोग० असंखे० । अणु० सव्वलो० । वेउव्वियका० सत्तएणं क० उक्क० अणु० अट्टेरेहं० । आयु० उक्क० अणु० अट्ट-

१७७. पृथिवीकायिक, जलकायिक, अशिकायिक और इनके बादर जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकर्मका भङ्ग क्षेत्रके समान है। बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, बादर जलकायिक अपर्याप्त और बादर अशिकायिक अपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकर्मका भङ्ग क्षेत्रके समान है। बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंमें आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन बादर पृथिवीकायिकके समान है। वायुकायिक जीवोंमें आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन पृथिवीकायिकके समान है। इतनी विशेषता है कि जहाँ लोकका असंख्यातवाँ भाग कहा है वहाँ लोकका संख्यातवाँ भाग लेना चाहिए। वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन पृथिवीकायिकके समान है। इतनी विशेषता है कि सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—यहाँ पृथिवीकायिक आदि जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन वर्तमान कालकी अपेक्षासे कहा है। शेष स्पर्शन यहाँ कही गईं मार्गणाओंके स्पर्शनका ध्यान रखकर जान लेना चाहिए।

१७८. औदारिक काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकर्मका भङ्ग क्षेत्रके समान है। औदारिकमिश्रकाययोगवाले जीवोंमें आठ कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिककाययोगवाले जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकर्मकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

१. मूलप्रती -तेरह० । आयु० उक्क० अणु० अट्टेरेह०, आउ० इति पाठः ।

चौदस० । वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि०-अवगद०-मणपज्ज०-संजदा-सामाइ०-
छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप० खेत्तभंगो । कम्मइ०-अणाहार० सत्तएणं क० उक्क०
वारहचौदस० । अणु० सव्वलोगो ।

१७६. आभि०-सुद०-ओधि० सत्तएणं क० उक्क० अणु० अट्टचौदस० । आयु०
उक्क० खेत्तभंगो । अणु० अट्ट० । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-खड्ग०-वेदगस०-उवसमस० ।

१८०. संजदासंजद० सत्तएणं कम्मएणं उक्क० खेत्त० । अणु० छच्चौदस० ।
आयु० उक्क० अणु० खेत्तभंगो ।

१८१. एणिल०-काउ सत्तएणं क० उक्क० चत्तारि-वे-चौदस० । अणु० सव्वलो०,
वैक्रियिक मिश्रकाययोगवाले, आहारककाययोगवाले आहारकमिश्रकाययोगवाले, अपगतवेदी,
मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और
सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें आठ कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले
जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । कर्मणकाययोगवाले और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंकी
उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम बारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया
है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले औदारिक काययोगी जीव
नीचे सातवीं पृथिवी तक मारणान्तिक समुद्रात करते हैं इसलिए इनका कुछ कम छह बटे
चौदह राजु प्रमाण स्पर्शन कहा है । औदारिकमिश्रकाययोगमें आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका
बन्ध उरु योगवाले सब जीवोंके न होकर कतिपय जीवोंके ही होता है । जिनका कुल स्पर्शन
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाणसे अधिक नहीं होता इसलिए इनका उरु प्रमाण स्पर्शन कहा
है । मारणान्तिक समुद्रातमें आयुबन्ध नहीं होता इसलिए वैक्रियिककाययोगमें आयुकर्मकी
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन केवल कुछ कम आठ बटे
चौदह राजुप्रमाण कहा है ।

१७९. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट
और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका
स्पर्शन किया है । आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके
समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि, वेदक-
सम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें स्पर्शन जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—उरु मार्गणाओंमें कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन यथासम्भव
विहारवत्स्वस्थान आदि पदोंकी अपेक्षा होता है । शेष कथन सुगम है ।

१८०. संयतासंयतोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन
क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुकर्मकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका
स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—संयतासंयतोंका मारणान्तिक समुद्रातकी अपेक्षा कुछ कम छह बटे चौदह
राजुप्रमाण स्पर्शन होता है ।

१८१. नीललेश्यावाले और कापोत लेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका
बन्ध करनेवाले जीवोंने क्रमसे कुछ कम चार बटे चौदह राजु और कुछ कम दो बटे चौदह

आयु० ओघं । तेउ०-पम्म०-सुकले० सत्तएणं क० उक्क० अणु० अट्ट-एवचोदस०
अट्टचोदस० छच्चोदस० । आयु० उक्क० खेत्त० । अणु० अट्ट० अट्टचोदस०
छच्चोदस० ।

१८२. सासणं सत्तएणं क० उक्क० अणु० अट्ट-बारह० । आयु० उक्क० खेत्त-
भंगो । अणु० अट्टचोदस० । सम्माभि० सत्तएणं क० उक्क० अणु० अट्टचोदस० ।
असएणं खेत्त० । एवं उक्कस्सफोसणं समत्तं ।

राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुकर्मकी अपेक्षा स्पर्शन ओघके समान है । पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले और शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने पीतलेश्याकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह राजु व कुछ कम नौ बटे चौदह राजु क्षेत्रका, पद्मलेश्याकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका और शुक्ललेश्याकी अपेक्षा कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने क्रमसे कुछ कम आठ बटे चौदह राजु, कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—पाँचवीं पृथिवी यहाँसे कुछ कम चार राजु और तीसरी पृथिवी कुछ कम दो राजु है । इसी बातको ध्यानमें रखकर नील और कापोतलेश्यामें क्रमसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कुछ कम चार राजु और कुछ कम दो राजु स्पर्शन कहा है । यह स्पर्शन मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा उपलब्ध होता है । शेष कथन स्पष्ट है । इतनी विशेषता है कि पीतलेश्यामें आयुकर्मकी अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु होता है । कारण कि मारणान्तिक समुद्घातके समय आयुबन्ध नहीं होता इसलिए यहाँ कुछ कम नौ बटे चौदह राजु स्पर्शन उपलब्ध नहीं होता ।

१८२. सासादनं सम्यग्दृष्टियोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राजु क्षेत्र का स्पर्शन किया है । आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्र का स्पर्शन किया है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । असंखियोंमें आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—सासादनमें विहारवत्स्वस्थान आदिकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा कुछ बारह बटे चौदह राजु स्पर्शन होता है । आयुका बन्ध होते समय मारणान्तिक समुद्घात नहीं होता । इन बातोंको ध्यानमें रखकर सासादनमें उक्क स्पर्शन कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्पर्शन समाप्त हुआ ।

१८३. जहणणे पगदं । दुविधो णिदोसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अट्टणं क० जह० अज० खेत्तभंगो । एवं पढमपुढवि०-तिरिक्ख-सव्वएइंदिय-पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं बादर-बादरअपज्जत्ता० सव्ववणप्फदि-णिगोद०-सव्वसुहुम० कायजो०-ओरालियका०-ओरालियमि०-वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि०-कम्मइय० एवुंस०-अवगदवे०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-मणपज्जव०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसं०-असंजद०-अचक्खुदं०-किरण०-णील०-काउ०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छादि०-असण्ण-आहार०-अणाहारग ति ।

१८४. आदेसेण ऐरइएसु सत्तएणं कम्माणं जह० खेत्तभंगो । अज० अणुक्कस्स-भंगो । आयु० खेत्तभंगो । विदियाए याव सत्तमा ति सत्तएणं क० जह० खेत्त० । अज० अणु०भंगो । आयु० खेत्त० ।

१८३. अब जघन्य स्पर्शनका प्रकरण है । इसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा आठ कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्र के समान है । इसी प्रकार पहली पृथ्वी, तिर्यञ्च, सब एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक तथा इन पृथिवी आदिके बादर और बादर अपर्याप्त, सब वनस्पति, सब निगोद, सब सूक्ष्मकायिक, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, अपगतवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसाम्परायसंयत, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्णलेश्यावाले, नील लेश्यावाले, भव्य, अव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें आठों कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध क्षपक श्रेणिमें होता है और इनका स्पर्शन क्षेत्रके समान ही है, क्योंकि इन जीवोंने त्रिकालमें लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक क्षेत्रका स्पर्शन नहीं किया । तथा सात कर्मोंकी अजघन्य और आयुकर्मकी जघन्य व अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान सब लोक है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि एकेन्द्रिय आदि सब जीवोंके ये स्थितियाँ यथायोग्य उपलब्ध होती हैं । यहाँ पहली पृथिवी आदि अन्य मार्गणाओंमें स्पर्शन प्ररूपणा इसी प्रकार जानना चाहिए यह कहा है सो इस कथनका यह तात्पर्य है कि जिस प्रकार ओघ स्पर्शन अपने क्षेत्रके समान है उसी प्रकार पहली पृथिवी आदि मार्गणाओंमें प्राप्त होनेवाला स्पर्शन अपने अपने क्षेत्रके समान है । उदाहरणार्थ पहली पृथिवीमें आठों कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । यहाँ प्राप्त होनेवाला स्पर्शन भी इसी प्रकार जानना चाहिए ।

१८४. आदेशसे नारकियोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्यस्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अनुत्कृष्टके समान है । आयुकर्मका भङ्ग क्षेत्रके समान है । दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके नारकियोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अनुत्कृष्टके समान है । आयुकर्मका भङ्ग क्षेत्रके समान है ।

१८५. पंचिदियतिरिक्ख०४-सव्वमणुस-सव्वदेव-सव्वविगल्लिंदिय-सव्वपंचिदिय-तस-बादरपुठवि०-आउ-तेउ०-वाउ०-पज्जत्ता० बादरवणप्फदिपत्तेय० तस्सेव पज्जत्ता-पज्जत्त० पंचमण०-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-आभि०-सुद०-ओधि०-संजदा-संजद-चक्खुदं०-ओधिदं०-तेउ०-पम्मले०-सुक्कले०-सम्मादि०-खइग०-वेदगस०-उवस-मस०-सणिए त्ति एदेसिं सव्वेसिं सत्तएणं क० जह० खेत्त० । अज० अप्पण्णो अणुक्कस्सफोसणभंगो । एवरि आयु० एसिं जह० ट्ठिदिबं० खुद्दाभवग्गहणं तेसिं जह० खेत्तभंगो । अज० अणु०भंगो । सेसाणं उक्कस्सभंगो । एवरि जोदिसियादिउवरि-मदेवाणं सत्तएणं क० जह० सव्वदेवाणं आयु० जहणयस्स च विहारवदिफोसणं कादव्वं ।

विशेषार्थ—जो असंज्ञी जीव नरकमें उत्पन्न होते हैं उन्हींके जघन्य स्थितिबन्ध सम्भव है। इसीसे नरकमें जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवालोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। कारण कि ये प्रथम नरकमें ही उत्पन्न होते हैं अतः इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण ही होता है। इनके सिवा शेष सब नारकियोंके अजघन्य स्थितिबन्ध होता है। यही कारण है कि अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले नारकी जीवोंका स्पर्शन अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंके समान कुछ कम छुह बटे चौदह राजु कहा है। यह सामान्य नारकियोंके स्पर्शनका विचार है। इसी प्रकार दूसरी पृथिवीसे लेकर प्रत्येक पृथिवीके नारकियोंके स्पर्शनका विचार कर लेना चाहिए। मात्र प्रत्येक पृथिवीमें अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले नारकियोंका स्पर्शन अपने अपने अनुत्कृष्टके समान प्रत्येक पृथिवीके स्पर्शनके अनुसार कथन करना चाहिए।

१८५. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च चतुष्क, सब मनुष्य, सब देव, सब विकलेन्द्रिय, सब पञ्चेन्द्रिय, सब त्रस, बादर पृथिवीकायिकपर्याप्त, बादरजलकायिकपर्याप्त, बादरअग्नि-कायिकपर्याप्त, बादरवायुकायिक पर्याप्त, बादरवनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और इन्हीके पर्याप्त-अपर्याप्त, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभङ्गज्ञानी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, संयतासंयत, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, पीत-लेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि और संज्ञी इन सब जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अपने अपने अनुत्कृष्ट स्पर्शनके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें जिनके आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध लुद्रक भवग्रहण प्रमाण होता है उनके जघन्य स्थितिकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अजघन्य स्थितिकी अपेक्षा स्पर्शन अनुत्कृष्टके समान है। शेष सब जीवोंके आयुकर्मकी अपेक्षा स्पर्शन उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि ज्योतिषियोंसे लेकर ऊपरके देवोंके सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका और सब देवोंके आयु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका विहारवत् स्वस्थान पदके समान स्पर्शन जानना चाहिए।

विशेषार्थ—भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें सात कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध उत्पत्तिके प्रथम और द्वितीय समयमें उपलब्ध होता है, क्योंकि इनमें असंज्ञी जीव मरकर उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन दो प्रकारके देवोंको छोड़कर ज्योतिषियोंसे लेकर शेष सब देवोंके सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध और सब देवोंके आयुकर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध विहार

१८६. वेजवियका० सत्तएणं क० जह० अट्टचोदस० । अज० अट्ट-तेरह० ।
 आयु० जह० अज० अट्टचोदस० । सासएणं सत्तएणं क० जह० अज० अट्ट-बारह० ।
 आयु० जह० अट्टचोदस० । सम्मामिच्छादि० सत्तएणं क० जह० अज० अट्ट-
 चोदस० । एवं फोसणं समत्तं ।

कालपरुवणा

१८७. कालं दुविधं—जहएणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुविधो णिद्वेसो—
 ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तएणं क० उक्क० द्विदिबं० केवचि० ? जह०
 एगस०, उक्क० पल्लिदोव०असंखे० । अणुक्क० द्विदिबं० केवचि० ? सव्वद्धा ।

वत्स्वस्थानमें सम्भव होनेसे इनकी अपेक्षा जहाँ विहारवत्स्वस्थानकी अपेक्षा जो स्पर्शन हो उतना स्पर्शन होता है। इसी बातको ध्यानमें रखकर मूलमें इस स्पर्शनका विशेष रूपसे अलगसे उल्लेख किया है। शेष सब मार्गणाओंके सम्बन्धमें जहाँ जो विशेष बात कही है उसे ध्यानमें रखकर स्पर्शन प्राप्त कर लेना चाहिए।

१८६. वैक्रियिककाययोगवाले जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयु कर्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सासादन सम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकर्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—वैक्रियिककाययोगमें कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु स्पर्शन मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा उपलब्ध होता है। यहां इस अवस्थामें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका व आयुकर्मका बन्ध नहीं होता अतः इस अपेक्षासे उक्त मार्गणामें यह स्पर्शन नहीं कहा है। किन्तु सासा दनमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सात कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध सम्भव है, इसलिए इसमें सात कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राजु कहा है। मात्र मारणान्तिक समुद्धातके समय यहां आयुकर्मका बन्ध नहीं होता, इसलिए इस अपेक्षासे कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण ही स्पर्शन कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ।

कालपरुवणा

१८७. काल दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। उसमें से ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना काल है? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनुत्कृष्टस्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना

आयु० उक्क० जह० एग०, उक्क० आवलियाए असंखेज्जदि० । अणु० सव्वद्धा । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं पुढवि-आउ०-तेउ०-वाउ०-वादरवणप्फदिपत्ते०-कायजोगि-ओरालियका०-ओरालियमि०-कम्मइग०-एवुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंजद०-अचक्खु०-किरण०-णील०-काउ०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छादि०-असण्ण-आहार-अणाहारम त्ति । एवरि कम्मइ०-अणाहार० सत्तएणं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० आवलियाए असंखेज्जदिभागो ।

१८८. आदेसेण एरइएसु सत्तएणं कम्माणं मूलोघो । आयु० उक्कस्स० ओघ-भंगो । अणु० जह० अंतो०, उक्क० पलिदो० असंखे० । एवं सव्वणिरय-सव्वपंचिदियति-रिक्ख० देवा याव सहस्सार त्ति सव्वविगल्लिदिय-सव्वपंचिदिय-तस-वादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-पज्जत्ता० बादरवणप्फदिपत्तेय०-पज्जत्ता० पंचमण०-पंचवचि०-

काल है ? सब काल है । आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, पृथिवी कायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, बादरवनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर, काय-योगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनो, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें काल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

विशेषार्थ—एक जीवकी अपेक्षा कालका विचार पहले कर आये हैं । यहाँ नाना जीवोंकी अपेक्षा कालका विचार किया गया है । आशय यह है कि नाना जीव अन्तरके बिना आठों कर्मोंकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिका कमसे कम कितने काल तक और अधिकसे अधिक कितने काल तक बन्ध करते रहते हैं इसी बातका इस अनुयोगद्वारमें निर्देश किया है । यहाँ अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है यह तो स्पष्ट ही है, क्योंकि ओघसे अनन्तानन्त जीव और यहाँ गिनाई गई मार्गणाओंमेंसे प्रत्येक मार्गणावाले यथासम्भव अनन्त या असंख्यात जीव प्रति समय आठों कर्मोंकी उत्कृष्टके सिवा किसी न किसी स्थितिका अवश्य बन्ध करते हैं । उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध काल मूलमें निर्दिष्ट किया ही है । इसका आशय यह है कि जिस स्थितिका जघन्य या उत्कृष्ट जो काल कहा है उतने काल तक किसी न किसी जीवके उस स्थितिका निरन्तर बन्ध होता रहता है । आगे अन्तरकाल आ जाता है ।

१८८. आदेशसे नारकियोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल मूलोघके समान है । आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च, देव, सहस्सार कल्पतकके देव, सब विकलेन्द्रिय, सब पञ्चेन्द्रिय, सब अस, बादर पृथिवीकायिकपर्याप्त, बादरजल-कायिकपर्याप्त, बादर अग्निकायिकपर्याप्त, बादर वायुकायिकपर्याप्त, बादर वनस्पति प्रत्येक

वेउन्विय०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-चक्खुदं०-तेउ०-पम्म०-सण्णि ति । एणवरि पंच-
मण०-पंचवचि०-वेउन्वियका० आयु० अणु० जह० एग० ।

१८६. मणुसेसु सत्तएणं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणु०
सव्वद्धा । आयु० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेज्जसम० । अणु० एणियभंगो ।
मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सत्तएणं क० मणुसोयं । आयु० उक्क० जह० एग०,
उक्क० संखेज्जसम० । अणु० जह० उक्क० अंतो० । एवं सव्वट्ठे । मणुसअपज्ज०
सत्तएणं क० उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० पल्लिदो० असंखे० । आयु०
एणियभंगो ।

शरीर पर्याप्त, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, वैक्रियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी,
विभंगज्ञानी, चक्षुदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले और संज्ञी जीवोंमें स्पर्शन जानना
चाहिए। इतनी विशेषता है कि पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी और वैक्रियिककाययोगी
जीवोंमें आयुकर्मकी अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है।

विशेषार्थ—नरकमें सब जीवराशि असंख्यात है और आयुकर्मका बन्ध प्रत्येक जीवके
अन्य कर्मके समान सर्वदा होता नहीं, इस लिए वहाँ आयुकर्मकी अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध
करनेवाले जीवोंका सर्वदा काल न होकर वह जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट पल्यके असंख्या-
तवें भागप्रमाण होता है ऐसा यहाँ समझना चाहिए। तथा पाँच मनोयोग, पाँच वचनयोग
और वैक्रियिककाययोग इनमेंसे प्रत्येक योगका जघन्य काल एक समय होनेसे इन योगोंमें
आयुकर्मकी अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय बन जाता
है। शेष कथन सुगम है।

१८७. मनुष्योंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल
एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका
सब काल है। आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय
है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल
नारकियोंके समान है। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनिर्योमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल सामान्य मनुष्योंके समान है। आयुकर्मकी उत्कृष्ट
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय
है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है।
इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिमें जानना चाहिए। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और
अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्य-
के असंख्यातवें भागप्रमाण है। आयुकर्मका भङ्ग नारकियोंके समान है।

विशेषार्थ—मनुष्योंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध पर्याप्त अवस्थाके होने पर
ही होता है और पर्याप्त मनुष्य संख्यात है। यही कारण है कि मनुष्योंमें सात कर्मोंकी
उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्त-
र्मुहूर्त कहा है। सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कमसे कम एक समय तक होता है
इसलिए जघन्य काल एक समय कहा है तथा एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त
है। अब मान लो, संख्यात मनुष्य एकके बाद एक उत्कृष्ट स्थितिबन्धका प्रारम्भ करते हैं तो
उस सब कालका जोड़ अन्तर्मुहूर्त ही होगा। इसलिए उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। यतः

१६०. आणद याव अवरजिदा त्ति सत्तएणं कम्भाणं ओघं । आयु० मणु-
सिभंगो । एवं सुकले०-खड्ग० ।

१६१. सव्वएइंदिय-बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-बादरवणप्फदिपत्तेय० अ-
पज्जत्ता तेसिं चेव सव्वसुहुम० सव्ववणप्फदि-णिगोदाणं च सत्तएणं क० उक्क० अणु०

मनुष्यगति मार्गणाके जीव निरन्तर उपलब्ध होते हैं अतः इनमें अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध सर्वदा पाये जानेके कारण इसका काल सर्वदा कहा है। आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध एक समय तक होता है, इसलिए यदि कोई एक मनुष्य प्रथम समयमें आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है और द्वितीयादि समयोंमें कोई आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नहीं करता तो मनुष्योंमें आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका एक समय काल उपलब्ध होता है और यदि संख्यात समय तक निरन्तर संख्यात मनुष्य आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते रहते हैं तो आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका संख्यात समय काल उपलब्ध होता है। यहाँ आयु-कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका इससे अधिक काल उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि पर्याप्त मनुष्य ही उत्कृष्ट आयुका बन्ध करते हैं और वे संख्यात होते हैं। यही कारण है कि सामान्य मनुष्योंमें आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। आयुकर्मके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है यह तो स्पष्ट ही है, क्योंकि एक बारमें एक जीवके आयुकर्मका बन्ध अन्तर्मुहूर्त काल तक होता रहता है। तथा उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, क्योंकि निरन्तर इतने काल तक नाना जीव आयुबन्ध कर सकते हैं। इसमें लब्धपर्याप्त जीवोंकी प्रधानता होनेसे यह काल उपलब्ध होता है। यही कारण है कि मनुष्योंमें आयुकर्मके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। यह सामान्य मनुष्योंकी अपेक्षा काल घटित करके बतलाया है। मनुष्योंके शेष भेदोंमें इस कालको ध्यानमें रखकर कालका विचार कर लेना चाहिए। सर्वार्थसिद्धिके देव संख्यात होते हैं इसलिए उनमें मनुष्यिनियोंके समान आठों कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेक्षा काल उपलब्ध होता है यह स्पष्ट ही है।

१९०. आनत कल्पसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल ओघके समान है। आयु कर्मका भंग मनुष्यिनियोंके समान है। इसी प्रकार शुक्ललेश्यावाले और ज्ञायिक सम्यग्दृष्टियोंमें काल जानना चाहिए।

विशेषार्थ—इन मार्गणाओंमें लगातार आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात ही होते हैं इसलिए इनमें आयु कर्मका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान कहा है। मनुष्यपर्याप्तिकोंके समान न कहकर मनुष्यिनियोंके समान कहनेका कारण यह है कि मनुष्य पर्याप्तिकोंसे मनुष्यिनियोंकी संख्या तिगुनी होती है जिससे उत्कृष्ट काल अधिक उपलब्ध होता है।

१६१. सब एकेन्द्रिय, बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक, बादर वायुकायिक, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर तथा इनके अपर्याप्त और इन्हींके सब सूक्ष्म, सब वनस्पतिकायिक और सब निगोद जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है। आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध

सन्वद्धा । आयु० उक्क० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । अणु० सन्वद्धा ।

१६२. वेडव्वियमि० सत्तएणं कम्माणं उक्क० अणु० द्विदिबं० कालो जह० अंतो०, उक्क० पलिदो० असंखे० । आहारका० सत्तएणं क० उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । आयु० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेज्जसमया । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । आहारमि० सत्तएणं क० उक्क० अणु० जह० उक्क० अंतो० । आयु० उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० संखेज्जसम० अंतो० । अवगदवे० सुहुम० सत्तएणं क० छएणं क० उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० !

१६३. आभि०-सुद०-ओधि० सत्तएणं क० उक्क० जह० अंतो०, उक्क० पलिदो० असंखे० । अणु० सन्वद्धा । आयु० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेज्ज० । अणु० णिरयभंगो । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-वेदग० ।

१६४. मणपज्ज० सत्तएणं क० उक्क० जह० उक्क० अंतो० । अणु० सन्वद्धा । आयु० मणुसिभंगो । एवं संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार० । संजदासंजदा० अट्टएणं

करनेवाले जीवोंका काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है ।

१९२. वैक्रियिकमिश्रकाययोगवाले जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । आहारकाययोगवाले जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । आयुर्कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । आहारकमिश्रकाययोगवाले जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । आयुर्कर्मकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल क्रमसे संख्यात समय और अन्तर्मुहूर्त है । अपगतवेदवाले और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें क्रमसे सात और छह कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

१९३. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है । आयुर्कर्मकी उत्कृष्टस्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । तथा अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल नारकियोंके समान है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें काल जानना चाहिए ।

१९४. मनःपर्ययज्ञानवाले जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है । आयुर्कर्मका भंग मनुष्यिनियोंके समान है । इसी प्रकार संयत,

कम्माणं ओधिभंगो । उवसम०-सम्मामि० सत्तएणं क० उक्क० अणु० जह० अंतो०,
उक्क० पलिदो० । सासण० सत्तएणं क० मणुसअपज्जत्तभंगो । आयु० उक्क० जह०
एग०, उक्क० संखेज्जसम० । अणु० देवोघं । एवं उक्कस्सकालं समत्तं ।

१६५. जहणणगे पगदं । दुविधो णिहेसो—ओघेण आसेण य । तत्थ ओघेण
सत्तएणं क० जह० द्विदिबंधं जह० उक्क० अंतो० । अज० सव्वद्धा । आयु० जह०
अज० सव्वद्धा । एवं ओघभंगो एवुंस०-कोधादि०४-अचक्खु०-भवसि०-
आहारग ति ।

१६६. आदेसेण एरइएसु सत्तएणं क० जह० जह० एग०, उक्क० आवलि०
असंखे० । अज० सव्वद्धा । आयु० उक्कस्सभंगो । एवं पढमाए देव-भरण०-
वाणवे० । विदियादि याव सत्तमा ति उक्कस्सभंगो ।

सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें काल जानना
चाहिए । संयतासंयत जीवोंमें आठों कर्मोंका भङ्ग अवधिज्ञानियोंके समान है । उपशम
सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध
करनेवाले जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें
भागप्रमाण है । सासादन सम्यग्दृष्टियोंमें सात कर्मोंका भङ्ग मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान है ।
आयुर्कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट
काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल सामान्य देवोंके
समान है ।
इस प्रकार उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ ।

१९५. अब जघन्य कालका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ
और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका
जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है तथा अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका
काल सर्वदा है । आयु कर्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका
काल सर्वदा है । इसी प्रकार ओघके समान नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, अचलु-
दर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—सात कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, इसलिए इसका
जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

१९६. आदेशसे नारकियोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है । आयुर्कर्मका भङ्ग उत्कृष्टके समान है ।
इसी प्रकार पहली पृथिवी, सामान्य देव, भवनवासी और व्यन्तर देवोंके जानना चाहिए ।
दूसरीसे लेकर सातवीं पृथिवीतक सब कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करने-
वाले जीवोंका काल उत्कृष्टके समान है ।

विशेषार्थ—यदि एक या नाना असंखी जीव मरकर नरकमें एक साथ उत्पन्न होते हैं
और वहाँ तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका एक समय बन्ध करते हैं तो सात कर्मोंके जघन्य
स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है और आवलिके असंख्यातवें भाग-
प्रमाण कालतक उत्पन्न होते रहते हैं तो इतना काल उपलब्ध होता है । यही कारण है कि
नरकमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल
आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । प्रथम पृथिवी, सामान्य देव, भवनवासी और

१६७. तिरिक्खेसु अट्टरणं कं जहं अजं सव्वद्धा । एवं सव्वएइंदिय-
बादरपुठविं-आउं-तेउं-वाउंअपज्जं तेसिं च सव्वसुहुमं सव्ववणप्फदि-
ण्णिगोदं-बादरवणं-पत्तेयं-अपज्जत्तां ओरालियमिं-कम्मइं-मदिं-सुदं-असंजं-
किरणं-णीलं-काउं-अभवसिं-मिच्छां-असण्ण-अणाहारगं त्ति । पंचिदिय-
तिरिक्खं४ अट्टरणं कं जहं अजं उक्कस्सभंगो ।

१६८. मणुसेसु सत्तणं कं ओघं । आयुं जहं जहं एगं, उक्कं
आवलिं असंखें । अजं जहं अंतो, उक्कं पलिदो असंखे । एवं मणुस-
पज्जत्त-मणुसिणीसु । एवरि आयुं उक्कस्सभंगो । मणुसअपज्जं सत्तणं कं
जहं जहं एगं, उक्कं आवलियाए असंखे । अजं जहं खुदाभवग्गहणं
विसमयूणं, उक्कं पलिदो असंखे । आयुं उक्कस्सभंगो ।

व्यन्तर देवोंमें यह काल इसी प्रकार उपलब्ध होता है, इसलिए इन मार्गणाओंमें यह काल
उक्त प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१९७. तिर्यञ्चोंमें आठों कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले
जीवोंका काल सर्वदा है । इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, बादर
जलकायिक अपर्याप्त, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त, बादर वायुकायिक अपर्याप्त तथा इन्हींके
सब सूक्ष्म, सब वनस्पतिकायिक, सब निगोद, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर अप-
र्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, कृष्ण
लेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक
जीवोंके जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च चतुष्कमें आठों कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल उत्कृष्टके समान है ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध एकेन्द्रियोंके होता है और
अजघन्य स्थितिका बन्ध यथासम्भव सबके होता है तथा आयुर्कर्मकी जघन्य स्थितिका
बन्ध यथासम्भव सबके होता है और अजघन्य स्थितिका बन्ध भी सबके होता
है, इसलिये यहां इनका सब काल बन जाता है । यहां गिनाई गई अन्य मार्गणाओंमें भी
इसी प्रकार सब काल घटित कर लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अनाहारकोंके आयु-
कर्मकी स्थितिके बन्धका काल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इनके आयुर्कर्मका बन्ध नहीं
होता । शेष कथन सुगम है ।

१९८. मनुष्योंमें सात कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले
जीवोंका काल ओघके समान है । आयुर्कर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके
असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियंत्रोंमें जानना चाहिए ।
इतनी विशेषता है कि इनमें आयुर्कर्मका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सात
कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट
काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका
जघन्य काल दो समय कम क्षुद्रक भवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें
भागप्रमाण है । तथा आयुर्कर्मका भङ्ग उत्कृष्टके समान है ।

१६६. जोदिसिय याव सव्वट्ठा त्ति उक्कस्सभंगो । सव्वविगल्लिदिय-पंचिदिय-तस०अपज्जत्त-बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०पज्जत्ता० बादरवणप्फदिपत्तेय०पज्जत्ताणं च मूलोघं । एवं-पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं बादर० वणप्फदिपत्तेय० । एवरि आयु० ओघं ।

२००. पंचिदिय-तस०२ सत्तएणं क० मूलोघं । आयु० णिरयभंगो । एवं इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-संजदासंजद०-चक्खुदं०-तेउ०-पम्मले०-सणिए त्ति ।

२०१. पंचमण०-पंचवचि० सत्तएणं क० जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० सव्वट्ठा । आयु० उक्कस्सभंगो । कायजोगि-ओरालियका० सत्तएणं क० मणजोगिभंगो । आयु० मूलोघं । वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि०-मणपज्ज० संजद-सामाइय०-छेदो०-परिहार०-सम्मामि० जह० अज० उक्कस्सभंगो । अवगद०

विशेषार्थ—मनुष्योंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धमें क्षपक श्रेणिको प्राप्त मनुष्योंकी मुख्यता है और अजघन्य स्थिति बन्धमें शेष सब मनुष्योंकी मुख्यता है इसलिए यहाँ सात कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका ओघके समान काल बन जाता है। आयु-कर्मके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धमें यथासम्भव सब मनुष्योंकी मुख्यता है इसलिए यहाँ आयु-कर्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका मूलमें कहा हुआ काल बन जाता है। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंकी संख्या संख्यात होनेसे इनमें आयु-कर्मके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका काल उत्कृष्टके समान ही घटित होता है।

१९९. ज्योतिषियोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल उत्कृष्टके समान है। सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक-पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त और बादर घनस्पति प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंका भङ्ग मूलोघके समान है। इसी प्रकार पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और इनके बादर तथा वनस्पतिकायिकप्रत्येकशरीर जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें आयु-कर्मका भङ्ग ओघके समान है।

२००. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग मूलोघके समान है। आयु-कर्मका भङ्ग नारकियोंके समान है, इसी प्रकार स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभङ्गज्ञानी, संयतासंयत, चक्षुदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए।

२०१. पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। आयु-कर्मका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। काययोगी और औदारिक काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग मनोयोगियोंके समान है। आयु-कर्मका भङ्ग मूलोघके समान है। वैक्रियिकमिध्रकाययोगी आहारककाययोगी, आहारकमिध्रकाययोगी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदो-पस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सम्यगिमथ्यादृष्टि जीवोंमें आठों कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल उत्कृष्टके समान है। अपगतवेदी

सत्तण्णं क० सुहुम० छण्णं क० जहं० मूलोघं । अज० अणु०भंगो ।

२०२. आभि०-सुद०-ओधि०-सुक०-सम्मा०-खड्गसम्मा०-वेदगस० सत्तण्णं क० मूलोघं । सुक्काए खड्ग० आयु० मणुसिभंगो । सेसाणं उक्कस्सभंगो ।

२०३. उवसमस० सत्तण्णं क० जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० जह० अंतो०, उक्क० पलिदो० असंखे० । सासण० सत्तण्णं क० जह० अज० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखे० । आयु० गिरयभंगो । एवं कालं समत्तं ।

अंतरपरुवणा

२०४. अंतरं दुविधं—जहण्णयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुविधो णिहोसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण अट्टण्णं क० उक्कस्सद्विदिबन्धंतरं जह० एग०, उक्क० अंगुलस्स असंखे० असंखेज्जाओ ओसप्पिण्णि-उस्सप्पिणीओ । अणु० एत्थि अंतरं । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं चैव बादर० बादर० वण० पत्तेय० कायजोगि-ओरालियका०-ओरालियमि०-कम्मइ०-एणुंस०-

जीवोंमें सात कर्मोंकी और सूक्ष्मसाम्परायिक जीवोंमें छह कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल मूलोघके समान है । अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल अनुत्कृष्टके समान है ।

२०२. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, शुक्लेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिक-सम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग मूलोघके समान है । शुक्लेश्यावाले और ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें आयुकर्मका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है तथा शेष मार्गणाओंमें आयुकर्मका भङ्ग उत्कृष्टके समान है ।

२०३. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है । सासादन सम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है । आयुकर्मका भङ्ग नारकियोंके समान है ।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ ।

अन्तरपरुपणा

२०४. अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है जो असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीकालके बराबर है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और इनके बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी,

कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु-किरण०णील०-काउ०-भवसि०-अभ-
वसि०-मिच्छादि०-असण्णिण०-आहाराणाहारग ति ।

२०५. आदेसेण णेरइएसु सत्तएणं कम्माणं उक्क० अणु० द्विदिवंधंतरं
ओघो । आयु० उक्क० जह० एग०, उक्क० अंगुल० असंखे० असं० ओसप्पि०
उस्सप्पि० । अणु० जह० एग०, उक्क० चउवीसं मुहु० अडदालीसं मुहुत्तं पक्खं
मासं वे मासं चत्तारि मासं छम्मासं वारसमासं ।

२०६. पंचिंदिय-तिरिक्ख० सत्तएणं क० ओघं । आयु० उक्क० ओघं ।

कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत,
अचक्षुदर्शनी, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि,
असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ नाना जीवोंकी अपेक्षा आठों कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध-
के अन्तर कालका निरूपण किया गया है । ओघसे सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अङ्गुलके असंख्यातवें भाग काल प्रमाण है । सो इसका
यह अभिप्राय है कि यदि सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध न हो तो कमसे कम एक
समय तक और अधिकसे अधिक अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक सात कर्मोंमेंसे
प्रत्येक कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव नहीं होता । परन्तु अनुत्कृष्ट स्थितिके
बन्धके लिए यह बात नहीं है । उसका बन्ध करनेवाले सब या बहुत जीव सर्वदा पाये जाते
हैं । यह ओघ प्ररूपणा अन्य जिन मार्गणाओंमें सम्भव है उनका निरूपण ओघके समान है
ऐसा कहकर यहाँ उनका नाम निर्देश किया है । मात्र इनमेंसे कितनी ही मार्गणाओंमें ओघ
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है और कितनी ही मार्गणाओंमें आदेश उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है
इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए ।

२०५. आदेशसे नारकियोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध
करनेवाले जीवोंका अन्तर ओघके समान है । आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले
जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण
है जो असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके बराबर है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध
करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे चौबीस मुहूर्त,
अड़तालीस मुहूर्त, एक पक्ष, एक महिना, दो महिना, चार महिना, छह महिना और बारह
महिना है ।

विशेषार्थ—नरक सामान्य, और प्रथम पृथिवी आदि सात पृथिवियोंमें आयुकर्मके
अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल अलग अलग है जो उक्क आठ स्थानोंमें उत्पत्तिके
अन्तर कालके समान है । तात्पर्य यह है कि यदि कोई जीव मरकर नरकमें उत्पन्न हो तो
कमसे कम एक समय और अधिकले अधिक बाह मुहूर्त तक नहीं उत्पन्न होता । इसके
बाद कोई न कोई जीव किसी न किसी नरकमें अवश्य ही उत्पन्न होता है । इसी प्रकार
प्रथमादि पृथिवियोंमें क्रमसे अड़तालीस मुहूर्त आदि काल प्रमाण उत्कृष्ट उत्पत्तिका अन्तर
है । जो यह उत्पत्तिका अन्तर है वही अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर है यह उक्त
कथनका तात्पर्य है । शेष कथन सुगम है ।

२०६. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च चतुष्कर्म सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । आयुकर्मकी

अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । पज्जत्त-जोगिणीसु चउवीसं मुहुत्तं ।
अपज्जत्ते अंतो० ।

२०७. मणुस०३ सत्तएणं क० ओघं । आयु० उक्क० ओघं । अणु० गिरय-
भंगो । मणुसअपज्ज० पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो । एवरि अट्टएणं क० अणु०
जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखे० ।

२०८. देवा० गिरयभंगो । एवरि सव्वट्ठे आयु० अणुक्क० जह० एग०,
उक्क० पलिदो० संखेज्ज० ।

२०९. सव्वएइंदि०-बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०अपज्जत्ता तेसिं चेव सव्व-
सुहुम० सव्ववणप्फदि-णिगोद० बादरवण०पत्तेय०अपज्जत्त० सत्तएणं क०
उक्क० अणु० एत्थि अंतरं । आयु० मूलोघं । सव्वविगलिंदिय-सव्वपंचिंदिय-तस०
सव्वपंचिंदियतिरिक्खभंगो । बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०पज्जत्ता० बादरवणप्फदि-

उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका अन्तर ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिका
बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।
पर्याप्त तिर्यञ्च और योगिनी तिर्यञ्चोंमें उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूर्त है । तथा अपर्याप्त
तिर्यञ्चोंमें अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—यहां पर्याप्त तिर्यञ्च और योगिनी तिर्यञ्चोंमें चौबीस मुहूर्त आयुर्कर्मके
अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कहा है । तथा सामान्य और अपर्याप्त तिर्यञ्चोंमें यह
अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । सो इस कथनका यह तात्पर्य प्रतीत होता है कि यदि इस बीच
आयुकी उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्ध न हो तो जिसका जितना अन्तरकाल कहा है उतने काल-
तक उस उस मार्गणमें आयुर्कर्मका बन्ध करनेवाला एक भी जीव नहीं होता ।

२०७. मनुष्य त्रिकमें सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । आयुर्कर्मकी उत्कृष्ट
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका अन्तर ओघके समान है । तथा अनुत्कृष्ट स्थितिका भङ्ग
सामान्य नारकियोंके समान है । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके
समान जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि आठों कर्मोंकी अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध
करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें
भाग प्रमाण है ।

२०८. देवोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि सर्वर्थसिद्धिमें
आयुर्कर्मकी अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और
उत्कृष्ट अन्तर पत्यके सख्यातवें भागप्रमाण है ।

२०९. सब एकेन्द्रिय, बादरपृथिवीकायिक अपर्याप्त, बादर जलकायिक अपर्याप्त,
बादरअग्निकायिक अपर्याप्त, बादरवायुकायिक अपर्याप्त और उन्हींके सब सूक्ष्म, सब
वनस्पति, सब निगोद, बादर वनस्पतिप्रत्येकशरीर अपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट
और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । आयुर्कर्मका भङ्ग
मूलोघके समान है । सब विकलेन्द्रिय, सब पञ्चेन्द्रिय और सब त्रसोंका भङ्ग सब
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । बादरपृथिवीकायिक पर्याप्त, बादरजलकायिक पर्याप्त,
बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त और बादर वनस्पतिकायिक

पज्जत्ता० पंचिंदियतिरिक्खभंगो । एवरि तेउ० आयु० अणु० जह० एग०, उक्क० चउवीसं मुहुत्तं ।

२१०. पंचमण०-पंचवचि०-वेउव्वियका०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-चक्खुदं०-सण्णि० मणुसभंगो । वेउव्वियमि० सत्तएणं क० उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० बारस मुहुत्तं । आहार०-आहारमि० अट्टएणं कम्मएणं उक्क० ओघो । अणु० जह० एग०, उक्क० वासपुधत्तं ।

२११. अवगद०-सुहुमसं० सत्तएणं क० झएणं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० वासपुधत्तं । अणु० जह० एग०, उक्क० झम्मासं ।

२१२. आभि०-सुद०-ओधि० सत्तएणं क० ओघं । आयु० उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० मासपुधत्तं । एवं ओधिदं०-सुकुले०-सम्मादि०-खड्गस०-

पर्याप्त जीवोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । इतनी विशेषता है कि अग्निकायिक पर्याप्त जीवोंमें आयुकर्मकी अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूर्त है ।

२१०. पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वैक्रियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभङ्गज्ञानी, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंका भङ्ग मनुष्योंके समान है । वैक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका भङ्ग ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त है । आहारककाययोगी और आहारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्ष पृथक्त्व है ।

विशेषार्थ—लोकमें वैक्रियिक मिश्रकाययोग कमसे कम एक समयतक और अधिकसे अधिक बारह मुहूर्ततक नहीं होता । इसी प्रकार आहारक काययोग और आहारक मिश्रकाययोगका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण है । इसीसे वैक्रियिक मिश्रकाययोगमें सात कर्मोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त कहा है । तथा आहारक काययोग और आहारक मिश्रकाययोगमें आठों कर्मोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

२११. अवगतवेदी और सूक्ष्म साम्परायसंयत जीवोंमें क्रमसे सात और छह कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है ।

विशेषार्थ—उक्क मार्गणाओंमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर उपशम श्रेणिके अन्तरकी और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर क्षपकश्रेणिके अन्तरकी अपेक्षासे कहा है ।

२१२. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और

वेदग० । एवरि खड्ग० आयु० अणु० उक्क० वासपुधत्तं । मणपज्ज सत्तएणां
कम्माणं ओघं । आयु० उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० वासपुधत्तं ।
एवं परिहार०-संजद-सामाइ०-छेदो० । संजदासंजदा० ओधिभंगो ।

२१३. तेउ०-पम्म० सत्तएणां क० ओघं । आयु० उक्क० ओघं । अणु० जह०
एग०, उक्क० अडदालीसं मुहुत्तं पक्खं । उवसम० सत्तएणां क० उक्क० ओघं ।
अणु० जह० एग०, उक्क० सत्त रादिदियाणि । सासएण०-सम्मामि० मणुसअपज्जत्तभंगो ।

२१४. जहएणए पगदं । दुविधो णिदेसो-ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण

उत्कृष्ट अन्तर मास पृथक्त्व है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, क्षायिक सम्यग्दृष्टि और वेदक सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें आयुकर्मकी अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है। मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है। आयु-कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका भङ्ग ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है। इसी प्रकार परिहार-विशुद्धिसंयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए। संयता-संयतोंका भङ्ग अवधिज्ञानियोंके समान है।

विशेषार्थ—यहां जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं वे सब निरन्तर मार्गणाएँ हैं, इसलिए इनमें सात कर्मोंके अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव निरन्तर पाये जाते हैं यह तो स्पष्ट ही है। पर आयुकर्मका बन्ध सर्वदा न होकर त्रिभागमें तद्योग्य परिणामोंके होनेपर ही होता है, इसलिए आयुकर्मके स्थितिबन्धकी अपेक्षा अन्तरकाल प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती। फिर भी वह अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेक्षा कितना होता है यह ही स्वतन्त्र रूपसे यहां बतलाया गया है। शेष कथन सुगम है।

२१३. पीत लेश्यावाले और पद्मलेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है। आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे अडतालीस मुहूर्त और एक पक्ष है। उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात है। सासादन-सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका भङ्ग मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान है।

विशेषार्थ—पीत और पद्मलेश्या भी निरन्तर मार्गणाएँ हैं। तथापि इनमें आयुकर्मका सर्वदा बन्ध नहीं होता। इसलिए उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर तो ओघके समान है और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर कितना है यही बात यहां स्वतन्त्र रूपसे बतलाई गई है। यहां कही गई उपशम सम्यग्दृष्टि, सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि ये तीन सान्तर मार्गणाएँ हैं, इसलिए इनका जघन्य और उत्कृष्ट जो अन्तरकाल है वही इनमें अपने-अपने कर्मोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर है। उसमें भी सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टिका अन्तर मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान है इसलिए इनका कथन मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान कहा है। शेष कथन सुगम है।

२१४. जघन्य अन्तरका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और

सत्तएणं क० जह० द्विदिवं० जह० एग०, उक्क० ङ्गमासं । अज० एत्थि अंतरं । आयु० जह० अजह० एत्थि अंतरं । एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालियका०-कोधादि०-अचक्खुदंसणि-आहारग ति ।

२१५. सव्वणिरय-सव्वपंचिंदियतिरिक्ख-मणुसअपज्ज०-सव्वदेव-सव्वविगलिंदिय-पंचिंदिय-तसअपज्ज०-वेउव्वि०-वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि०-विभंग०-परिहार०-संजदासंजद०-तेउ०-पम्म०-वेदग०-सासण०-सम्मामि० एदेसिं उक्कस्सभंगो ।

२१६. तिरिक्खेसु अट्टएणं क० जह० अज० एत्थि अंतरं । एवं सव्वए-इंदिय-बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-अपज्जत्ता० तेसिं चेव सव्वसुहुम० सव्ववण-प्फदि-णियोद०-बादरवण०-पत्ते०-अपज्जत्त०-ओरालियमि०-कम्मइ०-मदि०-सुद०-असंज०-किएण-णील-काउ०-अभवसि०-मिच्छादि०-असणिए-आहारग ति ।

आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवों का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महिना है । अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । आयुकर्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । इसीप्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, क्रोधादि चार कषायवाले, अचक्षुदर्शनी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—क्षपक श्रेणीका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महिना प्रमाण है । यही कारण है कि यहाँपर जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महिना प्रमाण कहा है । सात कर्मोंकी अजघन्य स्थितिका बन्ध और आयुकर्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव निरन्तर उपलब्ध होते हैं इसलिए इनका अन्तर नहीं कहा है । यहाँ गिनाई गई अन्य मार्गणाओंमें यह व्यवस्था बन जाती है इसलिए उनका अन्तर ओघके समान कहा है ।

२१५. सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, सब देव, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, वैक्रियिक काययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारक-काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, विभङ्गज्ञानी, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, पीत-लेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, वेदकसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि इन मार्गणाओंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है ।

विशेषार्थ—आशय यह है कि उत्कृष्ट काल प्ररूपणामें जिस प्रकार इन मार्गणाओंमें आठों कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर कहा है उसी प्रकार यहाँपर जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल जानना चाहिए और जिस प्रकार वहाँ अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल कहा है उसी प्रकार यहाँ अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल जानना चाहिए ।

२१६. तिर्यञ्चोंमें आठों कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, बादर जलकायिक अपर्याप्त, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त, बादर वायुकायिक अपर्याप्त और उन्हींके सब सूक्ष्म, वनस्पतिकायिक, निगोद, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, औदारिक मिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, कृष्णलेश्यावाले, नील लेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

२१७. मणुस०३ सत्तएणं क० ओघं । एवरि मणुसिणीसु वासपुधत्तं । आयु० उक्कस्सभंगो । मणुसपज्जत्तभंगो पंचिंदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-पुरिस०-चक्खुदंसणि त्ति । एवरि पुरिस० सत्तएणं क० वासं सादिरेयं ।

२१८. पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं बादर० बादरवणप्फदिपत्तेय० सत्तएणं क० उक्कस्सभंगो । आयु० अजह० जह० एत्थि अंतरं । तेसिं पज्जत्ता० उक्कस्सभंगो । इत्थि० उक्कस्सभंगो । एवरि सत्तएणं क० जह० जह० ए०, उक्क० वासपुधत्तं । एवं एवुंस० । एवरि आयु० ओघं । अवगदवे०-सुहुम० सत्तएणं क० छएणं क० जह० अज० जह० एगस०, उक्क० छम्मासं ।

२१९. आभि०-सुद०-ओधि० सत्तएणं क० ओघं । एवरि ओधि० वासपु-

२१७. मनुष्यत्रिकमें सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व-प्रमाण है । आयुकर्मका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, पुरुषवेदी और चक्षुदर्शनी जीवोंमें अन्तरकाल मनुष्य-पर्याप्तकोंके समान है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदी जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक वर्ष है ।

विशेषार्थ—वैसे पुरुषवेदकी अपेक्षा क्षपकश्रेणीमें उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष है पर 'मनुष्य पर्याप्त' शब्दसे पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी मनुष्योंका ग्रहण होता है इसलिए मनुष्य पर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान छह महीना कहा है । क्षपकश्रेणीमें स्त्रीवेदका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है, इसलिये मनुष्यनियोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका यह उत्कृष्ट अन्तर कहा है । शेष कथन स्पष्ट है ।

२१८. पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और इनके बादर तथा बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । आयुकर्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । इनके पर्याप्त जीवोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । स्त्रीवेदवाले जीवोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदियोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है । इसी प्रकार नपुंसकवेदी जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें आयुकर्मका भङ्ग ओघके समान है । अपगत-वेदी और सूक्ष्म साम्परायसंयत जीवोंमें क्रमसे सात कर्मों और छह कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है ।

विशेषार्थ—क्षपकश्रेणिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना होनेसे अपगतवेद और सूक्ष्मसाम्परायसंयतका यही अन्तर उपलब्ध होता है । यही कारण है कि इन दोनों मार्गणाओंमें क्रमसे सात और छह कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका उक्त प्रमाण अन्तर काल कहा है । शेष कथन स्पष्ट है ।

२१९. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका अन्तर ओघके समान है । इतनी विशेषता

धत्तं । आयु० उक्कस्सभंगो । एवं ओधिदं० । सुक्कं०-सम्मादि०-खइग० आभिणि०-भंगो । मणपज्ज० सत्तएणं क० जह० जह० एगस०, उक्क० वासपुधत्तं । सेसाणं उक्कस्सभंगो ।

२२०. संजदे सत्तएणं क० ओघं । आयु० उक्कस्सभंगो । एवं सामाइ०-छेदो० । परिहार० मणपज्जवभंगो । उवसम० सत्तएणं क० जह० जह० एग०, उक्क० वासपुध० । अज० जह० एग०, उक्क० सत्त रादिदियाणि । एवं अंतरं समत्तं ।

भावपरूवणा

२२१. भावाणुगमेण दुविधं—जहणएयं उक्कस्सयं च । उक्क० पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । तत्थ ओघेण अट्टएणं कम्माणं उक्कस्साणु०बंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । एवं अणाहारग त्ति रोदव्वं ।

है कि अवधिज्ञानमें जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है । आयुर्कर्मका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । अवधिज्ञानी जीवोंके समान अवधिदर्शनी जीवोंके जानना चाहिए । शुक्ललेण्यावाले, सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंका भङ्ग आभिनिबोधिक ज्ञानियोंके समान है । मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है । शेषका भङ्ग उत्कृष्टके समान है ।

विशेषार्थ—क्षपकश्रेणीकी अपेक्षा अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और अवधिदर्शनका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण होनेसे इन मार्गणाओंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट है ।

२२०. संयतोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । आयु कर्मका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । इसी प्रकार सामायिक संयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए । परिहारविशुद्धिसंयतोंका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानके समान है । उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है । अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात है ।

विशेषार्थ—उपशम श्रेणिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व-प्रमाण होनेसे यहां उपशमसम्यक्त्वमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण कहा है । तथा उपशम सम्यक्त्वका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात होनेसे इसमें इन्हीं सात कर्मोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन रात कहा है । शेष कथन सुगम है ।

इस प्रकार अन्तर काल समाप्त हुआ ।

भावपरूवणा

२२१. भावानुगम दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा आठों कर्मोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाले जीवोंका कौन-सा भाव है ? औदयिक भाव है ! उसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

२२२. जह० पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । तत्थ ओघेण अट्टरणं क० जह० अज० को भावो ? ओदङ्गो भावो । एवं याव अणाहारग त्ति रोदव्वं ।

जीवअप्पाबहुगपरूवणा

२२३. अप्पाबहुगं दुविधं—जीवअप्पाबहुगं चेव द्विदिअप्पाबहुगं चेव । जीवअप्पाबहुगं तिविधं—जहणं उक्कस्सं जहणुक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सव्वत्थोवा अट्टरणं क० उक्कस्सगद्विदिबन्धगा जीवा । अणु०द्विदिबन्धगा जीवा अणंतगुणा । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं कायजोगि-ओरालिय०-ओरालियमि०-कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि०-४-मदि०-सुद०-असंज०-अच-क्खु०-किण्ण०-णील०-काउ०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छादि०-असण्णि०-आहार०-अणाहारग त्ति ।

२२२. अब जघन्य भावानुगमका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा आठों कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कौनसा भाव है ? औदयिक भाव है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यद्यपि ज्ञानावरण आदि आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कोई भी भाव होता है पर यहां पर स्थितिबन्ध के कारणभूत भावका ग्रहण किया है । यह भाव सिवा औदयिकके अन्य नहीं हो सकता, इसीसे यहां एक मात्र औदयिक भावका निर्देश किया है । अन्यत्र भी स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धका कारणभूत भाव एकमात्र कषाय बतलाया है । इससे भी उक्त कथनकी ही पुष्टि होती है ।

इस प्रकार भावप्ररूपणा समाप्त हुई ।

जीव अल्पबहुत्व प्ररूपणा

२२३. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—जीव अल्पबहुत्व और स्थिति अल्पबहुत्व । जीव अल्पबहुत्व तीन प्रकारका है—जघन्य, उत्कृष्ट और जघन्योत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अनन्तगुणे हैं । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्तज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्ण लेश्यावाले, नील लेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक मार्गणाओंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ अल्पबहुत्व दो प्रकारका कहा है—जीव अल्पबहुत्व और स्थिति अल्पबहुत्व । कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट तथा जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका ओघ और आदेशसे अल्पबहुत्व जिस प्रकरणमें कहा गया है वह जीव अल्पबहुत्व प्ररूपणा है और जिस प्रकरणमें कर्मोंकी उत्कृष्टादि स्थिति, उनकी आभाधा आदिका अल्पबहुत्व कहा गया है वह स्थिति अल्पबहुत्व है । उनमेंसे सर्वप्रथम जीव अल्प-

२२४. आदेसेण गेरइएसु सव्वत्थोवा अट्टरणं क० उक्क०बंध० । [अणुक्कस्स-] द्विदिवं० जीवा असंखेज्जगुणा । एवं गिरयभंगो सव्वेसिं असंखेज्जरासीणं । मणु-सपज्जत्त-मणुसिणीसु सव्वत्थोवा अट्टरणं क० [उक्कस्सद्विदि-] वं० जीवा । अणु०बंध० जीवा संखेज्जगुणा । एवं सव्वेसिं संखेज्जरासीणं । एइंदिय-वणप्फदि-णियोदेसु आयु० मूलोघं । सत्तरणं कम्माणं गिरयभंगो ।

२२५. जहरणए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघेण—सत्तरणं क० सव्वत्थोवा जह० । अज०बंध० जीवा अणंतगु० । आयु० सव्वत्थोवा जह० । अज०-बंध०जीवा असंखेज्जगु० । एवमोघभंगो कायजोगि-ओरालियका०-णवुंस०-कोधादि०४-अचक्खुदं०-भवसि०-अणाहारग ति । सेसाणं सव्वेसिं परित्तापरित्ताणं रासीणं धेत्तूण अट्टरणं सत्तरणं पि सव्वत्थोवा जह०द्विदिवं० । अजह०द्विदिवं० जीवा असंखेज्जगुणा । संखेज्जरासीणं पि सव्वत्थोवा जह० । अजह०संखेज्जगु० ।

२२६. जहरणुक्कस्सए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघेण सव्वत्थोवा बहुत्वका आश्रय लेकर उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका अल्पबहुत्व कहा गया है । ओघसे आठों कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाले जीव अनन्त हैं, इसलिए उक्त प्रमाण अल्पबहुत्व कहा है । शेष कथन स्पष्ट है ।

२२४. आदेशसे नारकियोंमें आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार नारकियोंके समान सब असंख्यात राशियोंका अल्पबहुत्व जानना चाहिए । मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनिर्योमें आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार सब संख्यात राशियोंका अल्पबहुत्व जानना चाहिए । एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें आयुकर्मका अल्पबहुत्व मूलोघके समान है । तथा सात कर्मोंका अल्पबहुत्व नारकियोंके समान है ।

२२५. जघन्य अल्पबहुत्वका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सात कर्मोंकी जघन्यस्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अनन्तगुणे हैं । आयुकर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । अजघन्यस्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषाय वाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य, और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । शेष सब परीतापरीत राशियोंको ग्रहणकर आठ कर्मों और सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । संख्यात राशियोंकी अपेक्षा भी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं ।

२२६. जघन्योत्कृष्ट अल्पबहुत्वका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ निर्देश और आदेश निर्देश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका

१. मूलप्रत्तौ मोत्तूण इति पाठः । २. मूलप्रत्तौ अजह० असंखेज्जगु० इति पाठः ।

सत्तएणं क० जह०द्विदिबं० जीवा । उक्कस्सद्विदिबं० जीवा असंखेज्जगुणा । अज-
हरणमणुक्कस्सद्विदिबं० जीवा अणंतगु० । आयुग० सव्वत्थोवा' उक्क०द्विदिबं० जीवा ।
जह०द्विदिबं० जीवा अणंतगु० । अज०अणु० असंखेज्जगु० । एवं ओघभंगो काय-
जोगि-ओरालियका०-एणुं स०-कोधादि०४-अचक्खुदं०-भवसि०-आहारग ति ।

२२७. आदेसेण एणइएसु सव्वत्थोवा सत्तएणं क० जह०द्विदिबं० । उक्क०-
द्विदिबं० असंखेज्जगु० । अज०अणु० असं० गु० । आयु० सव्वत्थोवा उक्क० ।
जह०द्विदिबं० असं०गु० । अजहरणमणु०वं० असं०गु० । एवं सव्वणिरय० देवाणं
याव सहस्सार ति ।

२२८. तिरिक्खेसु सव्वत्थोवा अट्टएणं कम्माणं उक्क०द्विदिबं० जीवा । जह०-
द्विदिबं० जी० अणंतगु० । अज०मणु० द्विदिबं० असं०गु० । पंचिंदियतिरिक्ख०४
सव्वत्थोवा अट्टएणं कम्माणं उक्क० । जह० असं०गु० । [अज०मणु० असं०गु० ।]
एवं पंचिंदिय-तसअपज्ज० ।

२२९. मणुसेसु सत्तएणं कम्माणं थोवा जह०द्विदिबं० । उक्क०द्विदिबं०
संखेज्जगु० । अज०मणु० असं०गु० । आयु० गिरयभंगो । एवं मणुसपज्जत्त-मणु-

बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्या-
तगुणे हैं । इनसे अजघन्यानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अनन्तगुणे हैं । आयुर्कर्मकी
उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करने वाले जीव सबसे स्तोक हैं । जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले
जीव अनन्तगुणे हैं । इनसे अजघन्यानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात
गुणे हैं । इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिक काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि
चार कषायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

२२७. आदेशसे नारकियोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे
थोड़े हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य
अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । आयुर्कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका
बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असं-
ख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं ।
इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य देव, सहस्रारकल्प तकके देवोंके जानना चाहिए ।

२२८. तिर्यञ्चोंमें आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक
हैं । इनसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अनन्तगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च चतुष्कर्म आठों कर्मोंकी
उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे जघन्य स्थितिका बन्ध करने-
वाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असं-
ख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए ।

२२९. मनुष्योंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक
हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । आयुर्कर्मका भङ्ग नारकियोंके समान है ।
इसी प्रकार मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनिर्यातोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असं-

सिणीसु । एवरि संखेज्जं कादव्वं । एवं सव्वट्ठे । मणुसअपज्जत्ता० णिरयभंगो ।

२३०. आणद याव एवगेवज्जा त्ति सत्तएणं क० थोवा उक्क०ट्टिदिबं० [जह०] संखे०गु० । अजह०मणु० असंखेज्जगु० । आयु० मणुसिभंगो । अणुदिसादि याव अवराइदा त्ति सत्तएणं क० थोवा जह०ट्टिदिबं० । उक्क०ट्टिदिबं० संखेज्जगु० । अज०मणु० असंखेज्जगु० । आयु० मणुसिभंगो ।

२३१. एइंदिएसु सत्तएणं क० थोवा जह०ट्टिदिबं० । उक्क०ट्टिदिबं० संखेज्जगु० । अज०मणुट्टिदिबं० असंखेज्जगु० । आयु० मूलोघं । एवं सव्वएइंदिय-सव्वविगल्लिंदिय-सव्वपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वणप्फदि-णियोद०-बादरवणप्फ०पत्तेय० । एवरि वणप्फदि-णियोदेसु आयु० एइंदियभंगो । सेसाणं पंचिंदियतिरिक्खभंगो ।

२३२. पंचिंदिय-तस० सत्तएणं क० सव्वत्थोवा जह०ट्टिदिबं० । उक्कट्टिदिबं० असंखेज्जगु० । अज०मणु०ट्टिदिबं० असं०गु० । आयु० पंचिंदियतिरिक्खभंगो । एवं पंचमण०-पंचवचि०-वेउव्वियका०-वेउव्वियमि०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-संजदा-संजद०-चक्खुदं०-तेउ०-पम्म०-सम्मामि०-सणिए त्ति । ओरालियमि० सव्वत्थोवा

ख्यातके स्थानमें संख्यात कहना चाहिए । इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिमें जानना चाहिए । मनुष्य अपर्याप्तकोंका भङ्ग नारकियोंके समान है ।

२३०. आनतकल्पसे लेकर नव त्रैवेयक तकके जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले देव सबसे स्तोक हैं । इनसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले देव संख्यात-गुणें हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले देव असंख्यातगुणें हैं । आयुकर्मका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है । अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले देव सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले देव संख्यातगुणें हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले देव असंख्यात-गुणें हैं । आयुकर्मका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है ।

२३१. एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणें हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । आयुकर्मका भङ्ग मूलोघके समान है । इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, सब पृथिवीकायिक, सब जलकायिक, सब अग्निकायिक, सब वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, निगोद, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें आयुकर्मका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है और शेष मार्गणाओंमें आयुकर्मका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है ।

२३२. पञ्चेन्द्रिय और त्रसकायिक जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । आयुकर्मका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । इसी प्रकार पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभङ्गज्ञानी, संयतासंयत, चक्षु-दर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, सम्यग्निमथ्यादृष्टि और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए ।

अट्टणं क० उक्क०द्विदिबं० । जह०द्विदिबं० अणंतगु० । अज०मणु०द्विदिबं० असं०गु० । एवं कम्मइ०-मदि०-सुद०-असंज०-किण्ण०-णील०-काउ०-भवसि०-मिच्छादि०-असण्ण-अणाहारग ति । आहार०-आहारमि० सत्तणं क० सव्वत्थोवा जह०द्विदिबं० । उक्क०द्विदिबं० संखेज्जगु० । अज०मणु०द्विदिबं० सं०गु० । आयु० मणुसिभंगो । एवं मणपज्जव-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहारग ति । अवगदवे०-सुहुमसं० सत्तणं क० छणं क० उक्क०द्विदिबं० थोवा । जह०द्विदिबं० संखेज्जगु० । अज०मणु०द्विदिबं०^१ संखेज्जगु० ।

२३३. आभि-सुद०-ओधि० सत्तणं क० सव्वत्थोवा जह०द्विदिबं० । उक्क०द्विदिबं० असं०गु० । अज०मणु०द्विदिबं० असं०गु० । आयु० सव्वत्थोवा उक्क०द्विदिबं० । जह०द्विदिबं० संखेज्जगु० । अज०मणु०द्विदिबं० असं०गु० । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-वेदगसम्मादि० ।

२३४. सुकले० सत्तणं क० सव्वत्थोवा जह०द्विदिबं० । उक्क०द्विदिबं० असं०गु० ।

औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें आठ कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक है । इनसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अनन्तगुणें हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । इसीप्रकार कार्मणकाययोगी, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, कृष्ण लेश्यावाले, नील लेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, भव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । आहारक काययोगी और आहारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणें हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणें हैं । आयुकर्मका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है । इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापनासंयत, और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके जानना चाहिए । अपगतवेदी और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें क्रमसे सात कर्म और छह कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणें हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणें हैं ।

२३३. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणें हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टिके जानना चाहिए ।

२३४. शुक्लेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । इनसे

^१ मूलप्रतौ द्विदिबं० असं० गु० इति पाठः ।

अज०मणु०द्विदिबं० असं०गु० । आयु० मणुसिभंगो । एवं खड्गस० । उवसम० सत्तएणं
क० सव्वत्थोवा जह०द्विदिबं० । उक्क० असं०गु० । अज०मणुद्विदिबं० असंखे०गु० ।
सासएणं सव्वत्थोवा. सत्तएणं क० जह०द्विदिबं० । उक्क०द्विदिबं० असं०गु० ।
अज०मणु०द्विदिबं० असं०गु० । आयु० सव्वत्थोवा उक्क०द्विदिबं० । जह०द्विदिबं०
असं०गु० । अज०मणुद्विदिबं० असं०गु० । एवं जीवअप्पाबहुगं समत्तं ।

द्विदिअप्पाबहुगपरूवणा

२३५. द्विदिअप्पाबहुगं तिविधं—जहएणयं उक्कस्सयं जहएणुक्कस्सयं च । उक्क-
स्सए पगदं । सव्वत्थोवा अट्टएणं कम्माणं उक्कस्सओ द्विदिबंधो । यद्विदिबंधो
विसेसाधियो । एवं याव अणाहारग त्ति ऐदव्वं ।

२३६. जहएणए पगदं । अट्टएणं कम्माणं सव्वत्थोवा जहएणओ द्विदिबंधो ।
यद्विदिबंधो विसेसाधियो । एवं याव अणाहारग त्ति ऐदव्वं ।

२३७. जहएणुक्कस्सए पगदं । दुवि०—ओवे० आदे० । ओघेण अट्टएणं कम्माणं
सव्वत्थोवा जहएणद्विदिबंधो । यद्विदिबंधो विसेसाधियो । उक्कस्सद्विदिबंधो असंखे-
ज्जगु० । यद्विदिबंधो विसेसा० । एवं ओघभंगो मणुस० ३-पंचिदिय-तस० २-पंचमएण०-

अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । आयुकर्मका भङ्ग मनु-
ष्यनिर्योके समान जानना चाहिए । इसी प्रकार क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंके जानना चाहिए ।
उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे
स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । इनसे अजघन्य
अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । सासादन सम्यग्दृष्टि
जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । इनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध
करनेवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे
स्तोक हैं । इनसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । इनसे अजघन्य
अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणें हैं ।

इस प्रकार जीव अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

स्थिति अल्पबहुत्वप्ररूपणा

२३५. स्थिति अल्पबहुत्व तीन प्रकारका है—जघन्य, उत्कृष्ट और जघन्य उत्कृष्ट ।
उत्कृष्टका प्रकरण है । इसकी अपेक्षा आठों कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है ।
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

२३६. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा आठों कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक
है । यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

२३७. जघन्य उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ
और आदेश । ओघकी अपेक्षा आठ कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । यत्स्थिति-
बन्ध विशेष अधिक है । इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध
विशेष अधिक है । इसी प्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों

पंचवचि०-कायजोगि-ओरालियका०-इत्थि०-पुरिस०-एवुंस०-कोधादि०४-आभि०-सुद०-ओधि०-चक्कुदं०-अचक्कुदं०-ओधिदं०-सुकले०-भवसि०-सम्मादि०-खइगस०-उवसम०-सण्ण-आहारग ति ।

२३८. आदेसेण एरइएसु अट्टएणं क० सव्वत्थोवा जह०द्विदिबन्धो । यद्विदिबन्धो विसेसाहिओ । उक्क०द्विदिबं० संखे०गु० । यद्विदिबन्धो विसेसाधिओ । एवं सव्वणिरय-पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज०-सव्वदेव-पंचिदिय-तस-अपज्ज०-ओरालियमि०-वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि०-कम्मइ०-सम्मामि०-अणाहारग ति ।

२३९. तिरिक्खेसु सत्तएणं क० सव्वत्थोवा जह०द्विदिबन्धो । यद्विदिबन्धो विसे० । उक्क०द्विदिबं० सं०गु० । यद्विदिबं० विसेसा० । आयु० जह०द्विदिबं० सव्वत्थोवा । यद्विदिबन्धो विसेसाधिओ । उक्क०द्विदिबं० असंखे०गु० । यद्विदिबं० विसे० । एवं तिरिक्खोघभंगो पंचिदियतिरिक्ख०३-मदि०-सुद०-विभंग०-असंज०-किरण०-णील०-काउ०-तेउले०-पम्मले०-अभवसि०-सासण०-मिच्छादिद्वि ति ।

२४०. एइदिएसु सत्तएणं कम्मएणं सव्वत्थोवा जह०द्विदिबं० । यद्विदिबं०

मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसक-वेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुकुलेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, उपशम-सम्यग्दृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

२३८. आदेशसे नारकियोंमें आठों कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त, सब देव, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिक-मिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, सम्यग्मिथ्या-दृष्टि और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और सम्यग्मिथ्यादृष्टि इन दो मार्गणाओंमें आयु-कर्मका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनमें सात कर्मोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहना चाहिए ।

२३९. तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंके समान पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चविक, मत्यज्ञानी, श्रुता-ज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, असंयत, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, पीतलेश्या-वाले, पद्मलेश्यावाले, अभव्य, सासादनसम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए ।

२४०. एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध

विसे० । उक्क०द्विदिबं० विसे० । यद्विदिबं० विसेसा० । आयुग० णिरयभंगो । एवं सव्वएइंदिय-विगल्लिंदिय-पंचकायाणं ।

२४१. अवगदवे० णाणाव०-दंसणाव०-मोह०-अंतराङ्ग० सव्वत्थोवा जह०-द्विदिबं० । यद्विदिबं० विसे० । उक्क०द्विदिबं० संखेज्जगु० । यद्विदिबं० विसे० । वेदणीय-णामा-गोदाणं सव्वत्थोवा जह०द्विदिबं० । यद्विदिबं० विसे० । उक्क०द्विदिबं० असंगु० । यद्विदिबं० विसे० ।

२४२. मणपज्ज० सत्तएणं क० ओघं । आयु० णिरयभंगो । एवं संजद-सामाइ०-छेदो० ।

२४३. सुहुमसं० छएणं कम्मएणं सव्वत्थोवा जह०द्विदिबं० । यद्विदिबं० विसे० । उक्क०द्विदिबं० संखेज्जगु० । यद्विदिबं० विसे० ।

२४४. परिहार०-संजदासंज०-वेदगस० देवभंगो । एवरि वेदग० आयु० ओधिभंगो । असएणं सत्तएणं क० पंचिदियतिरिक्खभंगो । आयु० मूलोघभंगो । एवं द्विदिअप्पाबहुगं समत्तं ।

२४५. भूयो द्विदिअप्पाबहुगं दुविधं—सत्थाणअप्पाबहुगं चेव परत्थाणअप्पाबहुगं चेव । सत्थाणअप्पाबहुगं द्विदिअप्पाबहुगभंगो । परत्थाणअप्पाबहुगं तिविधं—

विशेष अधिक है । आयुकर्मका भङ्ग नारकियोंके समान है । इस प्रकार सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय और पाँच कायवाले जीवोंके जानना चाहिए ।

२४१. अपगतवेदी जीवोंमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।

२४२. मनःपर्ययज्ञानमें सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । आयुकर्मका भङ्ग नारकियोंके समान है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए ।

२४३. सूक्ष्मसाम्परायसंयतोंमें छह कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।

२४४. परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत और बेदक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें सामान्य देवोंके समान अल्पबहुत्व है । इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें आयुकर्मका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । असंखी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है और आयुकर्मका भङ्ग मूलोघके समान है ।

इस प्रकार स्थिति अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

२४५. पुनः स्थिति अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—स्वस्थान अल्पबहुत्व और परस्थान अल्पबहुत्व । स्वस्थान अल्पबहुत्व स्थिति अल्पबहुत्वके समान है । परस्थान अल्पबहुत्व

जहणणयं उक्कस्सयं जहणणुक्कस्सं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०—ओघेण आदेसेण य । तत्थं ओघेण सव्वत्थोवा आयु० उक्कट्टिदिबं० । यट्टिदिबं० विसे० । णामा-गोदाणं उक्क०ट्टिदिबं० संखेज्जगु० । यट्टिदिबं० विसे० । चदुएणं क० उक्क०ट्टिदिबं० विसे० । यट्टिदिबं० विसे० । मोह० उक्क०ट्टिदिबं० संखेज्जगु० । यट्टिदिबं० विसे० ।

२४६. आदेसेण णोइएसु सव्वत्थोवा आयु० उक्क०ट्टिदिबं० । यट्टिदिबं० विसे० । णामा-गोदाणं उक्क०ट्टिदिबं० असं० गु० । यट्टिदिबं० विसे० । चदुएणं क० उक्क०ट्टिदिबं० विसे० । यट्टिदिबं० विसे० । मोह० उक्क०ट्टिदिबं० संखेज्जगु० । यट्टिदिबं० विसे० । एवं सव्वणिरय-पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज०-सव्व-एइंदिय-विगल्लिंदिय-पंचकायाणं पंचिंदिय-तसअपज्ज०-ओरालियमि०-वेउन्वियका०-असणिए त्ति ।

२४७. ओघभंगो तिरिक्ख०४-मणुस०३-पंचिंदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालियका०-इत्थि०-पुरिस०-एवुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-विभंग०-असंज०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-किएण०-णील०-काउ०-तेउ०-पम्मले०-सुकले०-भव-सि०-अभवसि०-मिच्छादि०-सणिए-आहारग त्ति ।

२४८. सव्वदेवा० णिरयभंगो । एवरि अणुदिस याव सव्वट्ठा त्ति उवरि

तीन प्रकारका है—जघन्य, उत्कृष्ट और जघन्य उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नाम और गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मोहनीयकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।

२४६. आदेशसे नारकियोंमें आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नाम और गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मोहनीयकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, सब पांचों स्थावरकाय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिककाययोगी और असंज्ञी जीवोंके जानना चाहिए ।

२४७. तिर्यञ्च चतुष्क, मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, शुक्ललेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंके ओघके समान भङ्ग हैं ।

२४८. सब देवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अनुदिशसे

मोह० उक्क० द्विदि० विसे० । यद्विदिबं० विसे० ।

२४६. आहार०-आहारमि० सव्वद्वभंगो । एवरि एामा-गोदा० संखेज्जगु० । वेउव्वियमि० सव्वत्थोवा एामा-गोदा० उक्क० द्विदिबं० । यद्विदिबं० विसे० । चदुएणं क० उक्क० द्विदिबं० विसे० । यद्विदिबं० विसे० । मोह० उक्क० द्विदिबं० सं०गु० । यद्विदिबं० विसे० । एवं कम्मइ०-सम्मामि०-अणाहारग ति । एवरि सम्मामि० मोह० उक्क० द्विदिबं० विसे० । यद्विदिबं० विसे० ।

२५०. अवगद० सव्वत्थोवा मोह० उक्क० द्विदिबं० । यद्विदिबं० विसे० । एामाव०-दंसणाव०-अंतराइ० उक्क० द्विदिबं० सं०गु० । यद्विदिबं० विसे० । एामा-गोदाणं उक्क० द्विदिबं० असं०गु० । यद्विदिबं० विसे० । वेदणी० उक्क० द्विदिबं० विसे० । यद्विदिबं० विसे० ।

२५१. आभि०-सुद०-ओधिदं० अट्टएणं क० मूलोघं । एवरि मोह० उक्क०-द्विदिबं० विसे० । यद्विदिबं० विसे० । एवं मणपज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परि-हार०-संजदासंजद०-ओधिदं-सम्मादि०-खइग० वेदग०-उवसम०-सासण ति । एवरि उवसमे आयु० एत्थि ।

लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मोहनीयकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।

२४६. आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सर्वार्थसिद्धिके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि नाम और गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें नाम और गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे चार कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मोहनीयकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार कर्मणकाययोगी, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।

२५०. अपगतवेदी जीवोंमें मोहनीयकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मका उत्कृष्टस्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नाम और गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे वेदनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।

२५१. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें आठों कर्मोंका भङ्ग मूलोघके समान है । इतनी विशेषता है कि मोहनीयकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक-संयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि उपशमसम्यक्त्वमें आयुर्कर्मका बन्ध नहीं होता ।

२५२. सुहुमसंप० सव्वथोवा णाणाव०-दंसणाव०-अंतराइ० उक्क०द्विदिबं० । यद्विदिबं० विसे० । णामा-गोदाणं उक्क०द्विदिबं० सं०गु० । यद्विदिबं० विसे० । वेदणी० उक्क०द्विदिबं० विसे० । [यद्विदिबं० विसेसाहिओ ।] एवं उक्कस्सं समत्तं ।

२५३. जहरणगे पगदं । सव्वथोवा आयु० जह०द्विदिबं० । यद्विदिबं० विसे० । मोह० जह०द्विदिबं० संखे०गु० । यद्विदिबं० विसे० । णाणावर०-दंसणावर०-अंतराइ० जह०द्विदिबं० सं०गु० । यद्विदिबं० विसे० । णामागोदाणं जह०द्विदिबं० सं०गु० । यद्विदिबं० विसे० । वेदणी० जह०द्विदिबं० विसे० । याद्विदिबं०विसे० । एवं ओघभंगो मणुस०३-पंचिंदिय-तस०२-पंचमण-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि-यका०-पुरिस०-कोधादि०४-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-भवसि०-सण्ण-आहारग ति ।

२५४. आदेसेण णेरइएसु उक्कस्सभंगो । णवरि विदियादि याव सत्तमा ति मोह० जह०द्विदिबं० विसे० । यद्विदिबं० विसे० ।

२५५. तिरिक्खेसु सव्वतिरिक्ख-मणुसअपज्ज०-सव्वदेव-सव्वएइंदिय-विगलिं-दिय-पंचिंदिय-तसअपज्ज०-सव्वपंचकायाणं ओरालियमि०-मदि०-सुद०-विभंग०-असंजद०-पंचले०-अभवसि०-मिच्छादि०-असण्ण ति एदेसिं सव्वेसिं णिरयोघं ।

२५२. सूक्ष्म साम्परायसंयत जीवोंमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नाम और गोत्र कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे वेदनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ।

२५३. जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे मोहनीयकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नाम और गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे वेदनीयकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसीप्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, पुरुषवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, चक्षुदर्शनी, अक्षुदर्शनी, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए।

२५४. आदेशसे नारकियोंमें अल्पबहुत्वका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक मोहनीयकर्मका जघन्य स्थिति बन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

२५५. तिर्यञ्चोंमें सब तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, सब देव, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रसअपर्याप्त, सब पाँच स्थावरकाय, औदारिकमिश्रकाययोगी, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, असंयत, पाँचलेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी

एवरि जोदिसिय याव सव्वट्टा त्ति वेउव्वियका०-तेउ०-पम्मले० विदियपुढविभंगो । एवं वेउव्वियमि० । एवरि आयु० एत्थि ।

२५६. कम्मइ०-सम्मामि०-अणाहारग त्ति उक्कस्सभंगो । आहार०-आहारमि०-उक्कस्सभंगो ।

२५७. इत्थि०-एवुंस० सव्वत्थोवा आयु० जह० द्विदिबं० । यट्ठिदिबं० विसे० । मोह० जह०द्विदिबं० सं०गु० । यट्ठिदिबं० विसे० । एणावा०-दंसणाव०-अंतराइ० जह०द्विदिबं० संखे०गु० । यट्ठिदिबं० विसे० । एणामा-गोदाणं जह०द्विदिबं० असंखे०गु० । यट्ठिदिबं० विसे० । वेदणी० जह०द्विदिबं० विसे० । यट्ठिदिबं० विसे० । अवगदवे० मूलोघं । एवरि आयुगं एत्थि । एवं सुहुमसं० । एवरि मोह० वज्ज० ।

२५८. आभि०-सुद०-ओधि० सव्वत्थोवा मोह० जह०द्विदिबं० । यट्ठिदिबं० विसे० । एणावा०-दंसणाव०-अंतराइ० जह०द्विदिबं० सं०गु० । यट्ठिदिबं० विसे० । एणामा-गोदाणं जह०द्विदिबं० सं०गु० । यट्ठिदिबं० विसे० । वेदणी० जह०द्विदिबं० विसे० । यट्ठिदिबं० विसे० । आयु० जह०द्विदिबं० सं०गु० । यट्ठिदिबं० विसे० । एवं ओधिदं०-

इन सबके अल्पबहुत्वका भङ्ग नारकियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि ज्योतिषियोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव वैक्रियिककाययोगी, पीत लेश्यावाले और पद्म लेश्यावाले जीवों में अल्पबहुत्वका भङ्ग दूसरी पृथिवीके समान है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके आयुकर्मका भङ्ग नहीं होता।

२५६. कर्मणकाययोगी, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और अनाहारक जीवोंमें अल्पबहुत्वका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अल्पबहुत्वका भङ्ग उत्कृष्टके समान है।

२५७. स्त्रीवेदी और नपुंसकवेदी जीवोंमें आयुकर्मका जघन्यस्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे मोहनीयकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मका जघन्यस्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नाम और गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे वेदनीयकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। अपगतवेदी जीवोंमें अल्पबहुत्वका भङ्ग मूलोघके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके आयुकर्मका बन्ध नहीं होता। इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत जीवोंके कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके मोहनीय कर्मको छोड़कर अल्पबहुत्व कहना चाहिए।

२५८. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नाम और गोत्रकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे वेदनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्या-

सण्ण-आहारग त्ति । एवरि इत्थि०-एवुंस० एणामा-गोदा० जह० द्विदिबं० असं०गु० । यद्विदिबं० विसे० ।

२६०. आदेसेण एणेरइएसु सव्वत्थोवा आयु० जह० द्विदिबं० । यद्विदिबं० विसे० । उक्क० द्विदिबं० सं०गु० । यद्विदिबं० विसे० । एणामा-गोदाणं जह० द्विदिबं० असं०गु० । यद्विदिबं० विसे० । एणणाव०-दंसणाव०-वेदणी०-अंतराइ० जह० द्विदिबं० विसे० । यद्विदिबं० विसे० । मोह० जह० द्विदि० सं०गु० । यद्विदिबं० विसे० । एणामा-गोदाणं उक्क० द्विदिबं० सं०गु० । यद्विदिबं० विसे० । तीसिगाणं उक्क० द्विदिबं० विसे० । यद्विदिबं० विसे० । मोह० उक्क० द्विदिबं० संखे०गु० । यद्विदिबं० विसे० । एवं पढमपुढवि०-देवोधं-भरण०-वाणवेंतर त्ति । विदियाए याव सत्तमा त्ति एवं चेव । एवरि मोह० जह० द्विदिबं० विसे० । यद्विदिबं० विसे० । एणामा-गोदाणं उक्क० द्विदिबं० सं०गु० । यद्विदिबं० विसे० । तीसिगाणं उक्क० द्विदिबं०-विसे० । यद्विदिबं० विसे० । मोह० उक्क० द्विदिबं० सं०गु० । यद्विदिबं० विसे० ।

२६१. तिरिक्खेसु सव्वत्थोवा आयु० जह० द्विदिबं० । यद्विदिबं० विसे० । एणामा-गोदाणं जह० द्विदिबं० असं०गु० । यद्विदिबं० विसे० । चदुएणं क० जह०-

और नपुंसकवेदी जीवोंमें नाम और गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।

२६०. आदेशसे नारकियोंमें आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नाम और गोत्रकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नाम और गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे तीसिय प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार पहली पृथिवी, सामान्य देव, भवनवासी और व्यन्तर देवोंके जानना चाहिए । दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मोहनीयकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नाम और गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे तीसिय कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।

२६१. तिर्यञ्चोंमें आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नाम और गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे चार कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष

द्विदिवं० विसे० । यद्विदिवं० विसे० । मोह० जह०द्विदिवं० सं०गु० । यद्विदिवं० विसे० । आयु० उक्क०द्विदिवं० सं०गु० । यद्विदिवं० विसे० । णामा-गोदाणं उक्क०द्विदिवं० सं० गु० । यद्विदिवं० विसे० । तीसिगाणं उक्क०द्विदिवं० विसे० । यद्विदिवं० विसे० । मोह० उक्क०द्विदिवं० सं०गु० । यद्विदिवं० विसे० ।

२६२. पंचिदियति०३-विभंगे० सव्वत्थोवा आयु० जह०द्विदिवं० । यद्विदिवं० विसे० । उक्क०द्विदिवं० असं०गु० । यद्विदिवं० विसे० । णामा-गोदाणं जह०-द्विदिवं० सं०गु० । यद्विदिवं० विसे० । चदुणं क० जह०द्विदिवं० विसे० । यद्विदिवं० विसे० । मोह० जह०द्विदिवं० सं०गु० । यद्विदिवं० विसे० । णामा-गोदाणं उक्क०द्विदिवं० सं०गु० । यद्विदिवं० विसे० । तीसिगाणं उक्क०द्विदिवं० विसे० । यद्विदिवं० विसे० । मोह० उक्क०द्विदिवं० सं०गु० । यद्विदिवं० विसे० । एवं असण्णं । एवरि णामा-गोदाणं जह०द्विदिवं० असंखे०गुणं कादन्वं ।

२६३. मदि०-सुद०-किण्ण०-णील०-काउ०-अभवसि०-मिच्छादि० तिरिक्खोघ-भंगो । पंचिदियतिरिक्खअप०-मणुसअप०-पंचिदिय-तसअप०-ओरालियमि० णिरय-भंगो । जोदिसिय-प्पहुडि याव उवरिमगेवज्जा त्ति विदियपुढविभंगो ।

अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मोहनीयकर्मका जघन्य स्थिति-बन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे आयुर्कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नाम और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे तीसियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।

२६२. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक और विभङ्गज्ञानी जीवोंमें आयुर्कर्मका जघन्य स्थिति-बन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे आयुर्कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नाम और गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे चार कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नाम और गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थिति-बन्ध विशेष अधिक है । इससे तीसियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार असंखी जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि नाम और गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा कहना चाहिए ।

२६३. मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, कृष्ण लेश्यावाले, नील लेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान अल्पबहुत्व है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त और औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें नारकियोंके समान अल्पबहुत्व है । ज्योतिषियोंसे लेकर उपरिम त्रैवेयक तकके देवोंमें

अणुदिस याव सव्वट्ठा त्ति आणदभंगो । एवरि मोहं उक्कं द्विदिवं विसे ।
यद्विदिवं विसे ।

२६४. एइंदिण्यु सव्वत्थोवा आयुं जहं द्विदिवं । यद्विदिवं विसे ।
उक्कं द्विदिवं संगुं । यद्विदिवं विसे । णामा-गोदाणं जहं द्विदिवं असंगुं ।
यद्विदिवं विसे । तेसिं चेव उक्कस्सद्विदिवं विसे । यद्विदिवं विसे । चदु-
एणं कं जहं द्विदिवं विसे । यद्विदिवं विसे । तेसिं चेव उक्कं द्विदिवं
विसे । यद्विदिवं विसे । मोहं जहं द्विदिवं संगुं । यद्विदिवं विसे ।
तस्सेव उक्कं द्विदिवं विसे । यद्विदिवं विसे । एवं सव्वएइंदिय-सव्वविगलिं-
दिय-सव्वपंचकायाणं ।

२६५. वेउव्वियकां विदियपुढविभंगो । एवं वेउव्वियमिं । एवरि आयुं
णत्थि । सम्मामिच्छादिट्ठीं सव्वट्ठभंगो । आयुं णत्थि । आहारं-आहारमिं
सव्वट्ठभंगो । एवरि णामा-गोदाणं जहं द्विदिवं संगुं । कम्मइं-अणाहारग
त्ति पढमपुढविभंगो । आयुं णत्थि ।

२६६. अवगदवे सव्वत्थोवा मोहं जहं द्विदिवं । यद्विदिवं विसे ।

दूसरी पृथिवीके समान अल्पबहुत्व है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें आनत
कल्पके समान अल्पबहुत्व है । इतनी विशेषता है कि अनुदिशादिकमें मोहनीयका उत्कृष्ट
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।

२६४. एकेन्द्रियोंमें आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे यत्स्थिति-
बन्ध विशेष अधिक है । इससे आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे
यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नाम और गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यात
गुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे उन्हींका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष
अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे चार कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध
विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे उन्हींका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध
विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मोहनीयका जघन्य स्थिति
बन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे उसीका उत्कृष्ट स्थिति
बन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय,
सब विकलेन्द्रिय और सब पाँच स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिए ।

२६५. वैक्रियिक काययोगी जीवोंमें दूसरी पृथिवीके समान अल्पबहुत्व है । इसी प्रकार
वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके आयुकर्मका
बन्ध नहीं होता । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सर्वार्थसिद्धिके समान अल्पबहुत्व है । किन्तु
इनके आयुकर्मका बन्ध नहीं होता । आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी
जीवोंमें सर्वार्थसिद्धिके समान अल्पबहुत्व है । इतनी विशेषता है कि इनमें नाम और गोत्र
कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें पहली
पृथिवीके समान अल्पबहुत्व है । पर इनके आयुकर्मका बन्ध नहीं होता ।

२६६. अपगतवेदी जीवोंमें मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है ।
इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मका

गाणाव०-दंसणाव०-अंतराइ० जह०द्विदिबं० सं०गु० । यद्विदिबं० विसे० ।
 गामा-गोदाणं जह०द्विदिबं० सं०गु० । यद्विदिबं० विसे० । वेदणी० जह०द्वि-
 दिबं० विसे० । यद्विदिबं० विसे० । मोह० उक्क०द्विदिबं० सं०गु० । यद्विदिबं०
 विसे० । गाणाव०-दंसणाव०-अंतराइ० उक्क०द्विदिबं० सं०गु० । यद्विदिबं० विसे० ।
 गामा-गोदाणं उक्क०द्विदिबं० असं०गु० । यद्विदिबं० विसे० । वेदणी० उक्क०द्वि-
 दिबं० विसे० । [यद्विदिबंधो विसेसाहियो ।]

२६७. आभि०-सुद०-ओधि० सन्वत्थोवा मोह० जह०द्विदिबं० । यद्विदिबं०-
 विसे० । गाणाव०-दंसणाव०-अंतराइ० जह०द्विदिबं० सं०गु० । यद्विदिबं०
 विसे० । गामा-गोदाणं जह०द्विदिबं० संखेज्जगु० । यद्विदिबं० विसे० । वेदणीय०
 जह०द्विदिबं० विसे० । यद्विदिबं० विसे० । आयु० जह०द्विदिबं० सं०गु० ।
 यद्विदिबं० विसे० । तस्सेव उक्क०द्विदिबं० असं०गु० । यद्विदिबं० विसे० । गामा-
 गोदाणं उक्क०द्विदिबं० सं०गु० । यद्विदिबं० विसे० । तीसिगाणं उक्क०द्विदिबं०
 विसे० । यद्विदिबं० विसे० । मोह० उक्क०द्विदिबं० विसे० । यद्विदिबं० विसे० ।
 एवं ओधिदं०-सुकले०-सम्मादि०-खइग० । एवरि सुकले० मोह० उक्कद्विदिबं०

जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नाम और गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे वेदनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नाम और गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे वेदनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

२६७. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नाम और गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे वेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे उसीका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नाम और गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे तीसियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि और चाधिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। मनःपर्ययज्ञानी,

सं०गु० । यद्विदिवं० विसे० । मणपज्ज०-सामाई०-छेदो० तं चव । एवरि आयु०
जह०द्विदिवं० असं०गु० । यद्विदिवं० विसे० । तस्सेव उक्क०द्विदिवं० सं०गु० ।
यद्विदिवं० विसे० ।

२६८. परिहार०-संजदासंजद० आहारकायजोगिभंगो । सुहुमसंप० सव्वत्थोवा
णाणाव०-दंसणाव०-अंतराई० जह०द्विदिवं० । यद्विदिवं० विसे० । णामा-गोदाणं
जह०द्विदिवं० संखेज्जगु० । यद्विदिवं० विसे० । वेदणी० जह०द्विदिवं० विसे० ।
यद्विदिवं० विसे० । णाणाव०-दंसणाव०-अंतराई० उक्कद्विदिवं० सं०गु० । यद्विदिवं०
विसे० । णामा-गोद० उक्क०द्विदिवं० सं०गु० । यद्विदिवं० विसे० । वेदणी० उक्क०-
द्विदिवं० विसे० । यद्विदिवं० विसे० । असंज० मदिभंगो ।

२६९. तेउ०-पम्म० सव्वत्थोवा आयुग० जह०द्विदिवं० । यद्विदिवं० विसे० ।
तस्सेव उक्क०द्विदिवं० असं०गु० । यद्विदिवं० विसे० । णामागोदाणं जह०द्विदिवं०
सं०गु० । यद्विदिवं० विसे० । णाणाव०-दंसणाव०-वेदणी०-अंतराई० जह०द्विदिवं०
विसे० । यद्विदिवं० विसे० । मोह० जह०द्विदिवं० विसे० । यद्विदिवं० विसे० ।
णामा-गोदाणं उक्क०द्विदिवं० सं०गु० । यद्विदिवं० विसे० । सेसाणं तीसिगाणं

सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंके यही अल्पबहुत्व है। इतनी विशेषता है कि इनके आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे उसीका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है।

२६८. परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंमें आहारक काययोगी जीवोंके समान अल्पबहुत्व है। सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवोंमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नाम और गोत्र कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे वेदनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नाम और गोत्र कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे वेदनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। असंयतोंमें सब कर्मोंका मत्तज्ञानियोंके समान अल्पबहुत्व है।


२६९. पीतलेश्या और पद्मलेश्यावाले जीवोंमें आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे उसीका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नाम और गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नाम और गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे शेष तीसियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध

उक्क०द्विदिबं० विसे० । यद्विदिबं० विसे० । मोह० उक्क०द्विदिबं० सं०गु० । यद्विदिबं०
विसे० । एवं वेदगस०-सासण० । एवरि मोह० उक्क०द्विदिबं० विसे० ।
यद्विदिबं० विसे० ।

एवं परत्थाणअप्पाबहुगं समत्तं ।

एवं भूयो द्विदिअप्पाबहुगं समत्तं ।

एवं मूलपगदिद्विदिबन्धे चउवीसमणियोगदारं समत्तं ।



विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट
स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार वेदक-
सम्यग्दृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मोह-
नीयका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है।

इस प्रकार परस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ।

इस प्रकार भूयः स्थितिवन्ध अल्पबहुत्व समाप्त हुआ।

इस प्रकार मूल प्रकृति स्थितिवन्धमें चौबीस अनुयोगद्वार समाप्त हुए।



भुजगारबंधो

२७०. भुजगारबंधे त्ति तत्थ इमं अट्टपदं—याओ एण्णिण्णं द्विदीओ बंधदि अणंतरादिसक्काविदविदिकंते समये अप्पदरादो बहुदरं बंधदि त्ति एसो भुजगार-बंधो णाम । अप्पदरबंधे त्ति तत्थ इमं अट्टपदं—याओ एण्णिण्णं द्विदीओ बंधदि अणंतरउस्सक्काविदविदिकंते समए बहुदरादो अप्पदरं बंधदि त्ति एसो अप्पदर-बंधो णाम । अवट्टिदबंधे त्ति तत्थ इमं अट्टपदं—याओ एण्णिण्णं द्विदीओ बंधदि अणंतरओसक्काविद-उस्सक्काविदविदिकंते समए तत्तियाओ तत्तियाओ चए बंधदि त्ति एसो अवट्टिदबंधो णाम । अवत्तव्वबंधे त्ति तत्थ इमं अट्टपदं—अबंधदो बंधदि त्ति एसो अवत्तव्वबंधो णाम । एदेण अट्टपदेण तत्थ इमाणि तेरस अणियोगद्वाराणि-समुक्त्तिणा सामित्तं जाव अप्पावहुगे त्ति ।

समुक्त्तिणागुगमो

२७१. समुक्त्तिणाए दुवि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण सत्तएणं क० अत्थि भुजगारबंधगा अप्पदरबंधगा अवट्टिदबंधगा अवत्तव्वबंधगा य ! आयुगस्स

भुजगारबन्धप्ररूपणा

२७०. भुजगारबन्ध यथा—उसके सम्बन्धमें यह अर्थपद है—वर्तमान समयमें जिन स्थितियोंको बाँधता है उन्हें अनन्तर अतिक्रान्त समयमें घटी हुई बाँधी गई अल्पतर स्थितिसे बहुत बाँधता है यह भुजगार बन्ध है । अल्पतरबन्ध यथा—उसके विषयमें यह अर्थपद है—वर्तमान समयमें जिन स्थितियोंको बाँधता है उन्हें अनन्तर अतिक्रान्त समयमें बढ़ी हुई बाँधी गई बहुत स्थितिसे अल्पतर बाँधता है यह अल्पतरबन्ध है । अवस्थितबन्ध यथा—इसके विषयमें यह अर्थपद है—वर्तमान समयमें जिन स्थितियोंको बाँधता है उन्हें अनन्तर अतिक्रान्त समयमें घटी हुई या बढ़ी हुई बाँधी गई स्थितिसे उतनी ही उतनी ही बाँधता है यह अवस्थितबन्ध है । अवक्लव्यबन्ध यथा—उसके विषयमें यह अर्थपद है—बन्धका अभाव होनेके बाद पुनः बाँधता है यह अवक्लव्यबन्ध है । इस अर्थपदके अनुसार यहाँ ये तेरह अनुयोगद्वार हैं—समुत्कीर्तना और स्वामित्वसे लेकर अल्पबहुत्व तक ।

विशेषार्थ—यहाँ भुजगार आदिके द्वारा बन्धका विचार किया जा रहा है । प्रथम समयमें अल्पका बन्ध करके अनन्तर बहुतका बन्ध करना भुजगारबन्ध है । इसी प्रकार बहुतका बन्ध करके अल्पका बन्ध करना अल्पतरबन्ध है । पिछले समयमें जितना बन्ध किया है, अगले समयमें उतना ही बन्ध करना अवस्थितबन्ध है और विवक्षित कर्मके बन्धका अभाव होने पर पुनः बन्ध होना अवक्लव्य बन्ध है । प्रकृतमें स्थितिबन्धका प्रकरण है इसलिए ये चारों स्थितिबन्धकी अपेक्षा घटित करने चाहिए । यहाँ इसका विचार तेरह अनुयोगोंके द्वारा किया गया है । अनुयोगद्वार ये हैं—समुत्कीर्तना, स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व ।

समुत्कीर्तनानुगम

२७१. समुत्कीर्तना दो प्रकारकी है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंका भुजगारबन्ध करनेवाले जीव हैं, अल्पतरबन्ध करनेवाले जीव हैं, अवस्थित-बन्ध करनेवाले जीव हैं और अवक्लव्यबन्ध करनेवाले जीव हैं । आयुकर्मका अवक्लव्य बन्ध

अत्थि अवत्तव्वबंधगा अप्पदरबंधगा य । एवं ओघभंगो मणुस०३-पंचिदिय-तस०२-
पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालियका०-आभि०-सुद०-ओधि०-मणपज्ज०-संजद-
चक्खु०-अचक्खु०-ओधिदं०-सुकले०-भवसि०-सम्मादि०-खइग०-सणिएण-आहारगत्ति ।

२७२. वेउव्वियमि०-कम्मइ०-सम्माभि०-अणाहारग० सत्तएणं क० सुहुमसं०
छ० अत्थि भुज० अप्पद० अवट्टिद० । अवगद०-उवसमस० सत्तएणं क० अत्थि
भुज० अप्पद० अवट्टिद० अवत्तव्वबंधगा य । सेसाणं सव्वेसिं सत्तएणं क० अत्थि
भुज० [अप्पद०] अवट्टिदबंधगा य । आयु० मूलोघं । एवरि लोभे मोहणी० ओघं ।
करनेवाले जीव हैं और अल्पतरबन्ध करनेवाले जीव हैं । इसी प्रकार ओघके समान मनु-
ष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रिय द्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदा-
रिककाययोगी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, चक्षु-
दर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्लेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि,
संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—आयुर्कर्मका प्रथम समयमें जो बन्ध होता है वह अवक्कव्य ही होता है,
क्योंकि बन्धमें अन्तर पड़कर पुनः बन्ध होना इसीका नाम अवक्कव्य है । इसे भुजगार,
अल्पतर या अवस्थितबन्ध नहीं कह सकते, इसलिए इसकी अवक्कव्य संज्ञा है । तथा द्विती-
यादि समयोंमें अल्पतर बन्ध होता है क्योंकि आयुर्कर्मका प्रथम समयमें जो स्थितिबन्ध
होता है उससे द्वितीयादि समयोंमें उत्तरोत्तर वह हीन हीनतर ही होता है ऐसा नियम है ।
यह तो आयुर्कर्मकी व्यवस्था हुई । अब रह गये शेष कर्म सो उनके भुजगार आदि चारों बन्ध
सम्भव हैं । इनमें अवक्कव्य बन्ध तो उपशमश्रेणि पर चढ़कर पुनः प्रतिपातकी अपेक्षा या
मरणकी अपेक्षा घटित कर लेना चाहिए । तथा शेष तीन किसीके भी हो सकते हैं । पिछले
समयकी अपेक्षा अगले समयमें स्थितिबन्धकी वृद्धिके कारणभूत संक्लेश परिणामोंके होने पर
भुजगार स्थितिबन्ध होता है, स्थितिबन्धकी हानिके कारणभूत विशुद्ध परिणामोंके होने पर
अल्पतर स्थितिबन्ध होता है और अवस्थित स्थितिबन्धके कारणभूत परिणामोंके होने पर
अवस्थित स्थितिबन्ध होता है । शेष कथन सुगम है ।

२७२. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और अनाहारक
जीवोंमें सात कर्मोंका और सूक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोंमें छह कर्मोंका भुजगार बन्ध करने-
वाले जीव हैं, अल्पतरबन्ध करनेवाले जीव हैं और अवस्थितबन्ध करनेवाले जीव हैं । अप-
गतवेदी और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंका भुजगारबन्ध करनेवाले जीव हैं, अल्प-
तरबन्ध करनेवाले जीव हैं, अवस्थितबन्ध करनेवाले जीव हैं और अवक्कव्य बन्ध करनेवाले
जीव हैं । शेष सब मार्गणाओंमें सात कर्मोंका भुजगारबन्ध करनेवाले जीव हैं, अल्पतरबन्ध
करनेवाले जीव हैं और अवस्थितबन्ध करनेवाले जीव हैं । तथा आयुर्कर्मका भङ्ग मूलोघके
समान है । इतनी विशेषता है कि लोभकषायवाले जीवोंमें मोहनीयकर्मका भङ्ग ओघके
समान है ।

विशेषार्थ—उपशमसम्यक्त्व और अपगतवेद उपशम श्रेणि पर चढ़ते और उतरते
समय दोनों अवस्थाओंमें उपलब्ध होते हैं, इसलिए इन दोनों मार्गणाओंमें सात कर्मोंके
चारों पद होते हैं । लोभकषाय सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान तक होता है, इसलिए इसमें
मोहनीयकर्मके चारों पद सम्भव हैं, शेष छह कर्मोंके नहीं क्योंकि इस मार्गणामें शेष छह
कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पद ही होते हैं । इसलिए इसमें मोहनीयका भङ्ग

सामित्ताणुगमौ

२७३. सामित्ताणुगमेण दुविहो णिदेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तएणं क० भुज० अप्पद० [अवट्ठि०] कस्स ? अरणदरस्स । अवत्तव्वबंधो कस्स ? अरणदरस्स उवसमणादो परिवदमाणस्स मणुसस्स वा मणुसिणीए वा पढमसमय-देवस्स वा । एवं ओघभंगो मणुस०३-पंचिंदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि० कायजोगि-ओरालियका०-अवगद०-आभि० सुद०-ओधि०-मणपज्ज०-संजद०-चक्खु०-अचक्खु०-ओधिदं०-सुकले०-भवसि०-सम्मादि०-खड्ग०-उवसमस०-सरिण-आहारग ति । एवरि मणुस०३-पंचमण०-पंचवचि०-ओरालियका०-अवगद०-मणपज्ज०-संजदा० सत्तएणं क० अवत्तव्व० कस्स ? अरणदरस्स उवसमणादो परिवदमाणस्स । एदेसिं सव्वेसिं आयु० अवत्तव्वबंधो कस्स ? अरणदरस्स पढमसमए आयुबंधमाणस्स । तेण परं अप्पदरबंधो ।

२७४. वेउव्वियमि०-कम्मइ०-सम्माभि०-अणाहार० सत्तएणं क० भुज० अप्प० अवट्ठि० कस्स ? अरणदरस्स । एवं सुहुमसं० छएणं कम्मएणं । सेसाएणं-

ओघके समान कहा है शेषका नहीं । इनके सिवा यहाँ अन्य जितनी मार्गणाओंका निर्देश किया है उनमें उपशमश्रेणिकी प्राप्ति या उपशम श्रेणिके उपशान्त मोह गुणस्थानकी प्राप्ति होकर पुनः पतन सम्भव नहीं है, इसलिए उनमें सात कर्मोंके अवक्लव्य पदका विधान नहीं किया । शेष कथन सुगम है ।

स्वामित्वानुगम

२७३. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंके भुजगारबन्ध, अल्पतरबन्ध और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव इनका स्वामी है । अवक्लव्यबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर मनुष्य या मनुष्यिनी उपशमश्रेणिके गिर रहा है या उपशमश्रेणिके मरकर प्रथम समयवर्ती देव हुआ है वह अवक्लव्यबन्धका स्वामी है । इस प्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रिय-द्विक, त्रसद्विक, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, अपगतवेदी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, उपशम-सम्यग्दृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिक, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, औदारिककाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंमें सात कर्मोंके अवक्लव्यबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो उपशमश्रेणिके पतित हो रहा है वह सात कर्मोंके अवक्लव्यबन्धका स्वामी है । इन सब मार्गणाओंमें आयु-कर्मके अवक्लव्यबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो प्रथम समयमें आयुकर्मका बन्ध कर रहा है वह अवक्लव्य बन्धका स्वामी है । इससे आगे अल्पतरबन्ध होता है ।

२७४. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगारबन्ध, अल्पतरबन्ध और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर उक्त मार्गणावाला जीव स्वामी है । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें छह कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितबन्धोंका स्वामित्व जान लेना चाहिए । शेष सब

सर्व्वेसिं सत्तएणं कम्माणं भुज० अप्पद० अवट्टिदि० कस्स ? अएणदरस्स । आयु० मूलोघं । एवरि लोभे मोह० ओघं ।

कालाणुगमो

२७५. कालाणुगमेण दुविधो णिद्वेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तएणं क० भुज० केवचिरं कालादो होंति ? जह० एगस०, उक्क० चत्तारि सम० । अप्पद० जह० एग०, उक्क० तिणिएण सम० । अवट्टिद० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० जहएणु० एगस० । आयु० अवत्त० जहएणु० एगस० । अप्पद० जह० उक्क० अंतो० । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं तस-तसपज्जत्ता० । एवरि तिरिक्खोघं अवत्तव्वं एत्थि ।

मार्गणाओंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तत्त्वमार्गणावाला जीव स्वामी है । आयुकर्मका भङ्ग मूलोघके समान है । इतनी विशेषता है कि लोभकषायमें मोहनीय कर्मका भङ्ग ओघके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ आठों कर्मोंके भुजगारस्थितिबन्ध आदिमेंसे किसका ओघ और आदेश से कौन स्वामी है इस बातका विचार किया गया है । ओघसे इनके स्वामित्वका विचार सुगम है और जिन मार्गणाओंमें ओघप्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है उनका विचार भी सुगम है । मात्र जिन मार्गणाओंमें उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव नहीं वहाँ सात कर्मोंका अवक्लव्यबन्ध नहीं होता और जिन मार्गणाओंमें आयुकर्मका बन्ध नहीं होता उनमें आयु-कर्मकी अपेक्षा भङ्ग नहीं प्राप्त होते इतना विशेष जानना चाहिए ।

इस प्रकार स्वामित्वानुगम समाप्त हुआ ।

कालानुगम

२७५. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंके भुजगारबन्धका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय है । अल्पतरबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है । अवस्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्त-मुहूर्त है । अवक्लव्यबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । आयुकर्मके अवक्लव्य-बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अल्पतरबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सामान्य तिर्यञ्चोंके सात कर्मोंका अवक्लव्य-बन्ध नहीं होता ।

विशेषार्थ—यहाँ भुजगार आदि बन्धोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल कितना है यह बतलाया गया है । भुजगार, अल्पतर और अवस्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है यह स्पष्ट ही है । मात्र इनके उत्कृष्ट कालका विचार करना है । ओघसे भुजगारबन्ध और अल्पतरबन्धका उत्कृष्ट काल दो पर्यायोंकी अपेक्षा उपलब्ध होता है । जो एकेन्द्रिय आदि द्वीन्द्रिय आदिमें और पञ्चेन्द्रिय आदि चतुरिन्द्रिय आदिमें मरकर जन्म लेते हैं उनके क्रमसे भुजगारबन्धका उत्कृष्ट काल चार समय और अल्पतरबन्धका उत्कृष्ट काल तीन समय उपलब्ध होता है । अवस्थितबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । कारण कि भुजगार या अल्पतर बन्ध होनेके बाद अधिकसे अधिक अन्तमुहूर्त कालतक समान स्थितिबन्ध

२७६. णिरएसु सत्तएणं क० भुज०-अप्पद०बं० जह० एग०, उक्क० बे सम० ।
अवट्ठिद० ओघं । आयु० ओघो चेव । एवं सव्वणिरय-सव्वमणुस-सव्वदेव-सव्वए-
इंदिय-सव्वविगल्लिंदिय-पंचकाय०-पंचमण०-पंचवचि०-ओरालियमि०-वेउव्वियका०-
वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि०-विभंग०-मणपज्ज०-संजद०-सामाइ०-छेदो०-परि-
हार०-संजदासंजद०-सासण त्ति । एवरि आयु० जोगेसु अप्पद० जह० एग० ।
आभि०-सुद०-ओधि०-ओधिदं०-तेउ०-पम्मले०-सुकले०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-
उवसमस०-सणिए त्ति एवं चेव । एवरि भुज० जह० एग०, उक्क० तिणिए सम० ।
एदेसिं सव्वेसिं सत्तएणं क० एसिं अवत्तव्वबं० यमिह अत्थि तेसिं ओघं कादव्वं ।

होता रहता है । उपशान्तमोहसे सूक्ष्मसाम्परायमें आनेपर मोहनीय और आयुके बिना छह
कर्मोंका तथा सूक्ष्मसाम्परायसे अनिवृत्तिकरणमें आनेपर मोहनीयका अथवा उपशान्त
मोहमें मरकर देव होनेपर प्रथम समयमें आयुके बिना सात कर्मोंका अवक्लव्यबन्ध होता है ।
इसीसे अवक्लव्यबन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय कहा है । यहां अन्य जितनी
मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें चारों पदोंका ओघके समान काल उपलब्ध हो जाता है इसलिए
उनके कथनको ओघके समान कहा है । मात्र सामान्य तिर्यञ्चोंके उपशमश्रेणिकी प्राप्ति
सम्भव न होनेसे इनमें अवक्लव्य पदका निषेध किया है । आयुकर्मका मात्र त्रिभागमें या
मरणके अन्तर्मुहूर्त काल पूर्व अन्तर्मुहूर्त कालतक बन्ध होता है । और वह बन्ध नियमसे
प्रथम समयमें अवक्लव्य और इसके बाद अल्पतर ही होता है । यही कारण है कि इसमें
अवक्लव्य और अल्पतर ये दो पद कहकर इनका क्रमसे एक समय और अन्तर्मुहूर्त काल
कहा है ।

२७६. नारकियोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य काल एक
समय और उत्कृष्ट काल दो समय है । अवस्थितबन्धका काल ओघके समान है । आयुकर्म-
का भङ्ग ओघके ही समान है । इसी प्रकार सब नारकी, सब मनुष्य, सब देव, सब एके-
न्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, सब पांचों स्थावरकाय, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, औदा-
रिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी,
आहारकमिश्रकाययोगी, विभङ्गज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोप-
स्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत और सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना
चाहिए । इतनी विशेषता है कि योगोंमें आयुकर्मके अल्पतरबन्धका जघन्य काल एक समय
है । आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, अवधिदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्या-
वाले, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि
और संज्ञी जीवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें भुजगारबन्धका
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है । तथा इन सब सामान्य नारकी
आदि पूर्वोक्त मार्गणाओंमेंसे जिन मार्गणाओंमें अवक्लव्यबन्ध है वहां उसका काल ओघके
समान कहना चाहिए ।

विशेषार्थ—एक पर्यायमें भुजगार और अल्पतरबन्ध लगातार अधिकसे अधिक दो
समयतक होता है, इसलिए सामान्य नारकियोंमें या जो मार्गणाएँ एक पर्यायतक सीमित
हैं या एक पर्यायके भीतर बदलती रहती हैं उनमें भुजगार और अल्पतरबन्धका उत्कृष्ट
काल दो समय कहा है । तथा आभिनिबोधिकज्ञानी आदि मार्गणाएँ एक पर्यायतक ही
सीमित नहीं हैं । पर्यायके बदलनेपर भी वे बनी रहती हैं, इसलिए इनमें भुजगार बन्धका

२७७. पंचिदियतिरिक्खेसु सत्तएणं कम्माणं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तिणिण सम० । अवट्ठि० आयुगं मूलोघं । एवं पंचिदियतिरिक्खपज्ज०-जोणिणीसु पंचिदियतिरिक्खअप० पंचिदि० तस्सेव पज्जत्तापज्जत्ता० ओरालियमि०-इत्थि०-पुरिस०-असणिण०-आहारग ति । एवरि पंचिदि० तस्सेव पज्ज० अवत्त० ओघं ।

२७८. कायजोगि-एवुंस०-क्रोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-क्किण०-णील०-काउ०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छादि० सत्तएणं क० भुज० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । अप्पद० जह० एग०, उक्क० तिणिण सम० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । आयु० ओघं । एवरि सत्तएणं क० यमिह अवत्त० अत्थि तमिह ओघं ।

२७९. कम्मइ०-अणाहा० सत्तएणं क० भुज०-अप्प० जहएणुक्क० एग० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० तिणिण सम० ।

२८०. अवगद० सत्तएणं क० भुज०-अप्प०-अवत्तव्व० जहएणु० एग० । अवट्ठि०

उत्कृष्ट काल तीन समय उपलब्ध होनेसे वह तीन समय कहा है । साधारणतः आयु कर्मके अल्पतरबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कह आये हैं पर किसी भी योगमें योग-परिवर्तनकी अपेक्षा या अन्य प्रकारसे उसका जघन्य काल एक समय घटित हो जाता है, इसलिए योगोंमें आयुकर्मके अल्पतरबन्धका जघन्य काल एक समय कहा है । शेष कथन सुगम है ;

२७७. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतर बन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है । अवस्थित बन्धका और आयुकर्मका भङ्ग मूलोघके समान है । इसीप्रकार पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च पर्याप्त, पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च योनिनी, पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च अपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय और उन्हींके पर्याप्त अपर्याप्त, औदारिक मिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, असंज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय और उनके पर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंके अवक्तव्य बन्धका काल ओघके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च और अन्य मार्गणाओंमें भुजगार और अल्पतर-बन्धका उत्कृष्ट काल तीन समय दो पर्यायोंकी अपेक्षा कहा है । शेष कथन सुगम है । इसी प्रकार आगे भी यथासम्भव कालका विचार कर लेना चाहिए ।

२७८. काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य, अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार बन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय है । अल्पतर बन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है । अवस्थित बन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । आयुकर्मका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि सात कर्मोंका जिन मार्गणाओंमें अवक्तव्य बन्ध है उनमें उसका काल ओघके समान है ।

२७९. कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतर बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थित बन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है ।

२८०. अपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्य बन्धका

ओघं । सुहुमसं० छरणं क० भुज०-अप्प० जहणु० एग० । अवट्टि० ओघं ।
सम्माभि० सत्तणं क० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० बे सम० । अवट्टि० ओघं ।
अथवा आभि०-सुद०-ओधि०-सम्मादि०-खड्गस०-सरिण-तिणिणले० भुज० जह०
एग०, उक्क० सत्थाणे दो लभदि । कालगदे एकं लभदि ।

एवं कालो समत्तो ।

अंतराणुगमो

२८१. अंतरं दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सत्तणं कम्माणं भुज०-अप्पद०-
अवट्टि०-बंधंतरं केवचिरं ? जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त०-बंध० जह० अंतो०,
उक्क० अद्धपोगल० । आयु० अवत्त०-अप्प० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा०
सादि० । एवं ओघभंगो अचक्खु०-भवसि० ।

जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितबन्धका काल ओघके समान है । सूक्ष्म-
साम्परायसंयत जीवोंमें छह कर्मोंके भुजगार और अल्पतर बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट
काल एक समय है । अवस्थितबन्धका काल ओघके समान है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें
भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है ।
अवस्थितबन्धका काल ओघके समान है । अथवा आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधि-
ज्ञानी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, संज्ञी और तीन लेश्याओंमें भुजगारबन्धका जघन्य
काल एक समय और उत्कृष्ट काल स्वस्थानमें दो समय और मरनेपर एक समय
उपलब्ध होता है ।

इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ ।

अन्तरानुगम

२८१. अन्तर दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंके भुज-
गार, अल्पतर और अवस्थित बन्धका अन्तर कितना है ? जघन्य अन्तर एक समय और
उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्लव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर
कुछ कम अर्द्धपुद्गल परिवर्तनकाल है । आयुकर्मके अवक्लव्य और अल्पतर बन्धका जघन्य
अन्तरअन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इसी प्रकार ओघके समान
अचक्षुदर्शनी और भव्य जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—भुजगार अल्पतर और अवस्थित बन्धोंके परस्पर एक दूसरेसे एक समयके
लिए व्यवहित होनेपर इनका जघन्य अन्तर एक समय उपलब्ध होता है । तथा अवस्थित
बन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होनेसे भुजगार और अल्पतर बन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त
उपलब्ध होता है । जो जीव उपशमश्रेणीपर आरोहण करके अन्तर्मुहूर्त काल तक सात कर्मोंका
बन्ध नहीं करता है उसके अवस्थित बन्धका अन्तर्मुहूर्त काल प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल उप-
लब्ध होता है । एकबार उपशमश्रेणीपर आरोहण करनेके बाद उतरकर पुनः उपशम श्रेणीपर
आरोहण करके उपशान्तमोह होनेमें कमसे कम अन्तर्मुहूर्त काल लगता है और अधिकसे
अधिक कुछ कम अर्द्धपुद्गल परिवर्तन काल लगता है । इसीलिए सात कर्मोंके अवक्लव्यबन्धका
जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्द्धपुद्गलपरिवर्तन
प्रमाण कहा है । एकबार आयुका बन्ध होनेके बाद पुनः दूसरी बार आयुके बन्ध होनेमें

२८२. आदेसेण णेरइएसु सत्तएणं क० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० बे सम० । आयु० अवत्त०-अप्पद० जह० अंतो०, उक्कस्सेण व्ममासं देसूणं । एवं सव्वणिरय-सव्वदेव-वेउव्वियमि०-विभंग० ।
 २८३. तिरिक्खेसु सत्तएणं क० भुज०-अप्प० ओघं । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । आयु० अवत्त०-अप्पद० जह० अंतो०, उक्क० तिरिण पलिदो० सादिरे० । एवं एवुंस०-मदि०-सुद०-असंज०-किएण०-णील०-काउ०-अभवसि०-मिच्छादि० । एवरि आयु० किएण०-णील०-काउले० णिरयभंगो । सेसाणं मूलोघं ।

कमसे कम अन्तर्मुहूर्त और अधिकसे अधिक साधिक तेतीस सागर काल लगता है । इसीसे आयुकर्मके अवकव्य और अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर कहा है । अचक्षुदर्शन और भव्य जीवोंमें यह व्यवस्था अविकल घटित हो जाती है इसलिए इनमें उक्त पदोंका अन्तरकाल ओघके समान कहा है ।

२८२. आदेशसे नारकियोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । आयुकर्मके अवकव्य और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है । इसी प्रकार सब नारकी, सब देव, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और विभङ्गज्ञानी जीवोंके जानना चाहिए ।

२८३. तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरबन्धका अन्तर ओघके समान है । अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । आयु-कर्मके अवकव्य और अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है । इसी प्रकार नपुंसकवेदी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले और कापोतलेश्यावाले जीवोंमें आयुकर्मके पदोंका अन्तर सामान्य नारकियोंके समान है । तथा शेष मार्गणाओंमें आयुकर्मके पदोंका अन्तर मलोघके समान है ।

विशेषार्थ—कृष्ण, नील और कापोत लेश्याएँ नरकमें सतत बनी रहती हैं । अन्यत्र इनका अन्तर्मुहूर्त काल उपलब्ध होता है, इसलिए आयुकर्मकी अपेक्षा दोनों पदोंका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम छह महीना जैसा कि नारकियोंके कह आये हैं उसी प्रकार इन लेश्याओंमें प्राप्त होनेसे इनका अन्तरकाल सामान्य नारकियोंके समान कहा है । तथा ओघसे आयुकर्मके दो पदोंका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर जिस प्रकार घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहां कही गई नपुंसकवेदी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अभव्य और मिथ्यादृष्टि मार्गणाओंमें भी जान लेना चाहिए, क्योंकि नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर प्रमाण होनेसे जिसने पूर्वभवमें पूर्वकोटिके त्रिभागमें आयुबन्ध करके पुनः नरकगतिमें छह महीना कालके शेष रहनेपर आयुबन्ध किया है उसके आयुकर्मके दोनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर उपलब्ध होता है । इन मार्गणाओंमें इन पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है यह स्पष्ट ही है । शेष कथन सुगम है ।

२८४. पंचिदियतिरिक्खेसु सत्तएणं क० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० तिणिएण सम० । आयु० तिरिक्खोघं । एवं पंचि-दियतिरिक्खजोणिएणी-पंचिदियतिरिक्खअप०-इत्थि०-पुरिस०-असणिएण ति । एदेसिं आयु० विसेसो । पंचिदियतिरिक्ख०अप० जहएणु० अंतो० । इत्थि०-पुरिस०-असणिएण० जह० अंतो०, उक्क० पणवएणं पलिदो० सादि० तेत्तीसं सा० सादि० पुव्वकोडी सादिरे० ।

२८५. मणुस० सत्तएणं क० भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० मूलोघं । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । आयु० तिरिक्खोघं । मणुसअप० पंचिदियतिरिक्ख-अपज्जत्तभंगो । एवरि अवट्ठि० उक्क० वे० सम० ।

२८६. सव्वएइंदिय-विगल्लिदिय-पंचकायाणं आयु० मोत्तूण णिरयभंगो । सव्व-

२८४. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है। आयुकर्मके पदोंका अन्तर सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिनी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और असंखी जीवोंके जानना चाहिए किन्तु इनके आयुकर्मके पदोंके अन्तरमें विशेषता है। यथा—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तक जीवोंमें आयुकर्मके पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। तथा स्त्रीवेदी पुरुषवेदी और असंखी जीवोंमें आयुकर्मके पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे साधिक पचपन पत्य, साधिक तेतीस सागर और साधिक एक पूर्वकोटि है।

विशेषार्थ—यहाँ स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और असंखी जीवोंकी भवस्थितिको जानकर आयुकर्मके दोनों पदोंका उससे साधिक उत्कृष्ट अन्तरकाल कहा है। शेष कथन सुगम है।

२८५. मनुष्यत्रिकमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित बन्धका अन्तर मूलोघके समान है। अवक्लव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व है। आयुकर्मके पदोंका अन्तर सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि अवस्थित बन्धका उत्कृष्ट अन्तर दो समय है।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकमें सात कर्मोंके अवक्लव्य बन्धका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व कहनेका कारण इनकी अपनी अपनी कायस्थिति है। क्योंकि जिसने अपनी अपनी कायस्थितिके प्रारम्भमें आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्तका होने पर और अन्तमें अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहने पर उपशमश्रेणि पर आरोहण कर उतरते समय सात कर्मोंका अवक्लव्य बन्ध किया है उसके इस पदका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्तप्रमाण प्राप्त होता है। तथा मनुष्य अपर्याप्तमें भुजगार और अल्पतर बन्धका उत्कृष्ट काल दो समय होनेसे इसमें अवस्थित बन्धका उत्कृष्ट अन्तर दो समय प्राप्त होता है। शेष कथन सुगम है। इसी प्रकार आगे भी यथासम्भव भुजगार आदि पदोंका काल और उस उस मार्गणाकी कायस्थिति आदि जानकर अन्तरकाल ले आना चाहिए।

२८६. सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पाँच स्थावरकाय जीवोंमें आयुकर्मको छोड़कर शेष कर्मोंके पदोंका अन्तर नारकियोंके समान है। सब सूक्ष्म और सब अपर्याप्तक

सुहुम-सव्वअपज्जत्ताणं च आयु० पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो । सेसाणं आयु० अवत्त०-अप्प० जह० अंतो०, उक्क० वावीसं वस्ससहस्साणि सादि० वारसवस्साणि एगु-एवणएणरादिंदियाणि छम्भासं सादि० वावीसं वस्ससह० [सत्त वस्ससह०] तिण्णिण रादिंदियाणि० तिण्णिणवस्ससह० दसवस्ससह० सादि० । सव्वणियोद० जहएणुक्क० अंतो० ।

२८७. पंचिदिय-तस० तेसिं पज्जत्ता० सत्तएणं क० भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० ओघं । अवत्तव्व० जह० अंतो०, उक्क० कायट्ठिदी । आयु० ओघं । एवं चक्खु०-सण्णिण त्ति । आहारगा० एवं चैव । एवरि सत्तएणं क० अवत्तव्व० उक्क० अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखे० ओसप्पिण्णुस्सप्पिणीओ । पंचिदियअपज्जत्ता० पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो । तसअपज्जत्तगे सत्तएणं कम्माणं भुज० अप्पद० जह० एगस०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० ए०, उक्क० चत्तारि समयं । आयु० पंचिदियअपज्जत्तभंगो ।

२८८. पंचमण०-पंचवचि०-वेउव्वियका०-आहारका०-आहारमि० सत्तएणं क० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० देवोघं । आयु० अप्प०-अवत्त० एत्थि अंतरं । एवरि पंचमण०-पंचवचि० अट्ठएणं क० अवत्त० एत्थि अंतरं । कायजोगी० सत्तएणं क० भुज०-जीवोंमें आयुकर्मके पदोंका अन्तर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान हैं । शेष मार्ग-णाओंमें आयुकर्मके अवक्लव्य और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे साधिक बाईस हजार वर्ष, साधिक वारह वर्ष, साधिक उनचास दिन-रात, साधिक छह महीना, साधिक बाईस हजार वर्ष, साधिक सात हजार वर्ष, साधिक तीन दिन रात, साधिक तीन हजार वर्ष और साधिक दश हजार वर्ष है । सब निगोद जीवोंमें आयुकर्मके सब पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

२८९. पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित बन्धका अन्तर ओघके समान है । अवक्लव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण है । आयुकर्मका अन्तर ओघके समान है । इसी प्रकार चक्षुदर्शनी और संक्षी जीवोंके जानना चाहिए । आहारक जीवोंके भी इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सात कर्मोंके अवक्लव्य बन्धका उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । जो असंख्यातासख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके बराबर है । पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंमें आठों कर्मोंके सम्भव पदोंका अन्तर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है । त्रस अपर्याप्तकोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतर बन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । आयुकर्मके पदोंका अन्तर पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके समान है ।

२९०. पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, वैक्रियिक काययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिअकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार अल्पतर और अवस्थित बन्धका अन्तर सामान्य देवोंके समान है । आयुकर्मके अल्पतर और अवक्लव्य पदका अन्तर नहीं है । इतनी विशेषता है कि पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीवोंमें आठों कर्मोंके अवक्लव्य पदका अन्तर नहीं है । काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित

१. मूलप्रतौ—तिरिक्खअपज्जत्तभंगो इति पाठः । २. मूलप्रतौ अप्पद० जह० अप्प० जह० एगस० इति पाठः ।

अप्प०-अवट्टि० मूलोघं । अवत्त० एत्थि अंतरं । आयु० अप्पद०-अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० बावीसं वस्ससहस्साणि सादि० । ओरालि० सत्तएणं क० मण०-भंगो । आयु० अप्पद०-अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० सत्तवस्ससहस्साणि सादिरे० । ओरालियमि० सत्तएणं कम्मएणं भुज०-अप्पद० ओघं । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० तिणिएण सम० । आयु० अप०-भंगो । वेउव्वियमि०-सम्मामि० सत्तएणं क० णिरय-भंगो । कम्मइ०-अणाहा० सत्तएणं क० भुज०-अप्पद० एत्थि अंतरं । अवट्टि० जहएणु० एग० ।

२८६. अवगद० सत्तएणं क० भुज०-अप्प० जहएणु० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० एत्थि अंतरं ।

२८७. क्रोधादि०४ सत्तएणं क० भुज०-अप्प० ओघं । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । आयु० मणजोगिभंगो । एवरि लोभे मोह० अवत्त० एत्थि अंतरं ।

पदोंका अन्तर मूलोघके समान है । अवक्लव्य पदका अन्तर नहीं है । आयुकर्मके अल्पतर और अवक्लव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष है । औदारिक काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके पदोंका अन्तर मनोयोगियोंके समान है । आयुकर्मके अल्पतर और अवक्लव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतर पदका अन्तर ओघके समान है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है । आयुकर्मका भङ्ग अपर्याप्तकोंके समान है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके सम्भव पदोंका अन्तर नारकियोंके समान है । कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतर पदका अन्तर नहीं है । अवस्थित पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है ।

२८९. अपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतर बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्लव्य बन्धका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—अपगतवेदमें अवस्थितबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होनेसे यहां भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । किन्तु यहां भुजगार और अल्पतरबन्धका काल एक समय होनेसे अवस्थित बन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है । तथा मोहनीयके बन्धकी अपेक्षा सूक्ष्मसाम्पराय और उपशान्तमोहसे अन्तरित होकर और आयुके विना शेष लूह कर्मोंकी अपेक्षा उपशान्तमोहसे अन्तरित होकर अपगतवेदमें सात कर्मोंका अवस्थितबन्ध भी होता है, इसलिए यहां सात कर्मोंके अवस्थित-बन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है । इन कर्मोंका अवक्लव्य बन्ध उपशमश्रेणिसे उतरते समय एक बार होता है, इसलिये यहां अवक्लव्य बन्धके अन्तरका निषेध किया है ।

२९०. क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरबन्धका अन्तर ओघके समान है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । आयुकर्मका भङ्ग मनोयोगियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि लोभक-षायमें मोहनीय कर्मके अवक्लव्यबन्धका अन्तर काल नहीं है ।

२६१. आभि०-सुद०-ओधि० सत्तएणं क० भुज०-अप्पद०-अवट्टि० ओघं । अवत्तव्व० जह० अंतो०, उक्क० छावट्टिसागरो० सादिरे० । आयु० ओघं । एवं ओधिदं-सम्मादि०-खड्ग० । एवरि खड्ग० अवत्त० उक्क० तेत्तीसं सा० सादिरे० । मणपज्ज० सत्तएणं कम्मा० भुज०-अप्प०-अवट्टि० ओघं । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देसूणा । आयु० अवत्त०-अप्पद० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वको-डितिभागं देसू० । एवं संजदा० । एवं चेव सामाइ०-छेदो०-परिहार०-संजदा संजद० । एवरि सत्तएणं क० अवट्टि० बेसम० । अवत्त० एत्थि ।

२६२. सुहुमसं० छएणं कम्माणं जहएणु० भुज-अप्प० अंतो० । अवट्टि० जहएणु० एगस० ।

२६३. तेउ०-पम्म० सत्तएणं क० भुज०-अप्पद० ओघं । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० तिणिएण सम० । आयु० देवोघं । एवं वेदगे । एवरि आयु० ओधिभंगो ।

विशेषार्थ—यद्यपि लोभकषायमें मोहनीय कर्मका अवक्लव्य बन्ध होता है पर अन्तर काल उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि अन्तरकाल प्राप्त करनेके लिए दो बार उपशमश्रेणि पर आरोहण कराना पड़ता है पर प्रत्येक कषायका इतना बड़ा काल नहीं है। इसीसे यहाँ लोभ-कषायमें मोहनीयके अवक्लव्यबन्धके अन्तरका निषेध किया है। शेष कथन सुगम है।

२९१. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके भुज-गार, अल्पतर और अवस्थितबन्धका अन्तर ओघके समान है। अवक्लव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है। आयुकर्मका भङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि और ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अवक्लव्य बन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित बन्धका अन्तर ओघके समान है। अवक्लव्य बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। आयुकर्मके अवक्लव्य और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटिका त्रिभागप्रमाण है। इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना-संयत, परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें सात कर्मोंके अवस्थितबन्धका उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। तथा इनके अवक्लव्य-बन्ध नहीं है।

२९२. सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवोंमें छह कर्मोंके भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थितबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है।

२६३. पीतलेश्यावाले और पद्मलेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतर-बन्धका अन्तर ओघके समान है। अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है। आयुकर्मका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है। इसी प्रकार वेदक-सम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके आयुकर्मका भङ्ग अवधि-

सुक्कले० सत्तएणं क० भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० ओघं । अवत्तव्व० एत्थि अंतरं । आयु० देवोघं ।

२६४. उवसमस० सत्तएणं क० भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० ओघं । अवत्त० एत्थि अंतरं । सासणे सत्तएणं क० एिरयभंगो । आयु० दो वि पदा एत्थि अंतरं । एवं अंतरं समत्तं ।

णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमो

२६५. णाणाजीवेहि भंगविचयाणु० दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सत्तएणं क० भुज०-अप्पद०-अवट्ठि०-बंधगा णियमा अत्थि । सिया एदे य अवत्तव्वबंधगो य, सिया एदे य अवत्तव्वबंधगा य । आयु० अवत्त० अप्पदरबंधगा य णियमा अत्थि । एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालियका०-अचक्खुदं०-भवसि०-आहारग ति ।

२६६. आदेसेण एेरइएसु सत्तएणं क० अवट्ठि०-बंध० णियमा अत्थि । सेसपदाणि भयणिज्जाणि ।

ज्ञानियोंके समान है । शुक्लेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार अल्पतर और अवस्थित बन्धका अन्तर ओघके समान है । अवक्लव्यबन्धका अन्तर नहीं है । आयुकर्मका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है ।

२९४. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित-बन्धका अन्तर ओघके समान है । अवक्लव्य बन्धका अन्तर नहीं है । सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके सब पदोंका अन्तर नारकियोंके समान है । आयुकर्मके दोनों ही पदोंका अन्तर नहीं है ।

इस प्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ ।

नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचयानुगम

२९५. नानाजीवोंका अवलम्बन कर भङ्गविचयानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सात कर्मोंका भुजगार अल्पतर और अवस्थित बन्ध करनेवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये हैं और अवक्लव्यबन्ध करनेवाला एक जीव है । कदाचित् ये हैं और अवक्लव्य बन्ध करनेवाले अनेक जीव हैं । आयुकर्मका अवक्लव्य और अल्पतर बन्ध करनेवाले जीव नियमसे हैं । इस प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिक काययोगी, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ नाना जीवोंकी अपेक्षा भुजगारबन्ध आदिके भङ्ग लाये गये हैं । ओघसे सात कर्मोंका भुजगार, अल्पतर और अवस्थित बन्ध करनेवाले जीव नियमसे हैं । यह एक ध्रुव भङ्ग है । तथा ये और कदाचित् अवक्लव्य बन्ध करनेवाला एक जीव है अथवा ये और कदाचित् अवक्लव्य भङ्गवाले नाना जीव हैं । इस प्रकार ये दो अध्रुव भङ्ग हैं । कुल भङ्ग तीन होते हैं । आयुकर्मकी अपेक्षा अवक्लव्य और अल्पतरबन्धवाले जीव नियमसे हैं यही एक ध्रुव भङ्ग होता है । यहाँ काययोगी आदि जो मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था अविकल घटित हो जाती है इसलिए उनका कथन ओघके समान कहा है ।

२९६. आदेशसे नारकियोंमें सात कर्मोंका अवस्थित बन्ध करनेवाले जीव नियमसे हैं । तथा शेष पद भजनीय हैं ।

भयणिज्जपदा तिगुणा अणोरणगुणा हवेज्ज कादव्वा ।

धुवरहिदा रूवूणा^१ धुवसहिदा तत्तिया चेव ॥ १ ॥

२६७. आयुगस्स दो वि पदा भयणिज्जा । एवं सव्वणिरयस्स सव्वपंचिदि-
यतिरिक्ख-सव्वदेव-सव्वविगल्लिदिय-पंचिदिय-तस०अप०—वादरपुह०—आउ०—तेउ०—
वाउ०—वादरवणप्फदि०पत्तेय०पज्जत्त०—वेउव्वियका०—इत्थि०—पुरिस०—विभंग०—सामा०—
छेदो०—परिहार०—संजदासंजद०—तेउ०—पम्भ०—वेदग ति ।

२६८. तिरिक्खेसु सत्तएणां क० भुज०—अप्पद०—अवट्ठि० आयु० अवत्त०—अप्प-
दर० णियमा अत्थि । एवं तिरिक्खोघभंगो सव्वएइंदिय-पुहवि०—आउ०—तेउ०—वाउ०—
वादरपुहवि०—आउ०—तेउ०—वाउ० तेसिं चेव अप० तेसिं चेव सव्वसुहुम-सव्व-वणप्फदि-
णियोद-वादरवणप्फ०पत्तेय० तस्सेव अप०ओरालियमि०—एवुंस०—कोधादि०४—मदि०—
सुद०—असंज०—किरण०—णील०—काउ०—अभवसि०—मिच्छादि०—असणिए ति ।

भजनीय पदोंका ११ इस प्रकार विरलन करके तिगुना करे । पुनः उसी तिगुनी
विरलित राशिका परस्परमें गुणा करे । इस क्रियाके करनेसे जो लब्ध आता है उससे अधुव
भङ्ग एक कम होते हैं और ध्रुव भङ्ग सहित अध्रुवभङ्ग उक्त संख्याप्रमाण होते हैं ॥१॥

२९७. आयुकर्मके दोनों ही पद भजनीय हैं । इसीप्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय
तिर्यञ्च, सब देव, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, वादर पृथिवी-
कायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त, वादर अग्निकायिक पर्याप्त, वादर वायुकायिक
पर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, वैक्रियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी,
विभङ्गज्ञानी, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत,
पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ सात कर्मोंकी अपेक्षा अवस्थित बन्धवाले जीव नियमसे हैं । यह एक
ध्रुव भङ्ग है और भुजगार व अल्पतर ये दो पद भजनीय हैं । अतएव पूर्वोक्त गाथामें
कहे गये नियमके अनुसार इन दो का १, १ इस प्रकार विरलनकर तथा इन्हें ३, ३ इस
प्रकार तिगुना कर इनका परस्परमें $३ \times ३ = ९$ इस प्रकार गुणा करनेपर कुल ९ भङ्ग
होते हैं । इनमें से ८ अध्रुव भङ्ग और एक ध्रुव भङ्ग है । ये ९ भङ्ग ज्ञानावरण आदि एक एक
कर्मकी अपेक्षासे होते हैं । आयुकर्म के दोनों पद भजनीय हैं, इसलिए इनके एक जीव और
नाना जीवोंकी अपेक्षा एक संयोगी और द्विसंयोगी कुल आठ भङ्ग होते हैं ।

२६८. तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंका भुजगार, अल्पतर और अवस्थितका बन्ध करनेवाले
जीव तथा आयुकर्मके अवक्तव्य और अल्पतरका बन्ध करनेवाले जीव नियमसे हैं । इसी
प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंके समान सब एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक,
वायुकायिक, वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक, वादर अग्निकायिक, वादर वायु-
कायिक और इन सबके अपर्याप्त, तथा इनके ही सब सूक्ष्म, सब वनस्पतिकायिक, सब
निगोद, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और इनके ही अपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाय-
योगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, कृष्णलेश्या-
वाले, नील लेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके
जानना चाहिए ।

१. मूलप्रतौ-रहिदा रूवेण ध्रुव इति पाठः ।

२८६. मणुस०३ सत्तणं क० अवट्टिदबंधगा णियमा अत्थि । सेसपदा भय-
णिज्जा । आयु० दो वि पदा भयणिज्जा । एवं पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-
आभि०-सुद०-ओधि०-अणपज्ज०-संजद०-चक्खुदं०-ओधिदं०-सुकले०-सम्मादि०-
खइग०-सण्णि ति ।

३००. मणुसअप० अट्टणं क० सव्वपदा भयणिज्जा । एवं वेउव्वियमि०-
आहार०-आहारमि०-अवगद०-सुहुमसं०-उवसम०-सासण०-सम्माभि० ।

३०१. कम्मइग०-अणाहार० सत्तणं क० भुज०-अप्प०-अवट्टि०णियमा अत्थि ।

भागाभागानुगमो

३०२. भागाभागानु० दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सत्तणं क० भुज०-
अप्पद०बंधगा सव्वजीवेहि केवडियो ? असंखेज्जदिभागो । अवट्टि० केव० ? असं-
खेज्जा भागा । अवत्तव्वबंधगा केवडि० ? अणंतभागो । आयु० अवत्त०बंध०-
केवडि० ? असंखेज्जदिभागो । अप्पद०बंध० केवडि० ? असंखेज्जा भागा । एवं

२९९. मनुष्यत्रिकमें सात कर्मोंके अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव नियमसे
हैं । शेष पद भजनीय हैं । आयुकर्मके दोनों ही पद भजनीय हैं । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय,
पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, आभिनिबोधिक
ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्ललेश्या-
वाले, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि और संक्षी जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहां सात कर्मोंकी अपेक्षा ३ पद भजनीय होनेसे प्रत्येक कर्मका ध्रुव १
और अध्रुव २६ कुल २७ भङ्ग होते हैं । आयुकर्मके दोनों पद भजनीय होनेसे कुल ८ अध्रुव
भङ्ग होते हैं ।

३००. मनुष्य अपर्याप्त जीवोंमें आठों कर्मोंके सब पद भजनीय हैं । इसी प्रकार
वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारक काययोगी, आहारक मिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, सूक्ष्म-
साम्परायसंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके
जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—इन मार्गणाओंमेंसे जिसमें सात कर्मोंकी अपेक्षा जितने पद सम्भव हों
उनके अनुसार अध्रुव भङ्ग ले आने चाहिए । नियमका निर्देश पहले ही कर आये हैं ।

३०१. कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और
अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव नियमसे हैं ।

इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचयानुगम समाप्त हुआ ।

भागाभागानुगम

३०२. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ निर्देश और आदेश
निर्देश । ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव
सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अवस्थित पदवाले जीव
सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । अवक्लव्य पदका बन्ध
करनेवाले जीव कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । आयुकर्मके अवक्लव्य
पदका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण

आयु० याव अणाहारग त्ति एदव्वं । असंखेज्जजीविगाणं अणंतजीविगाणं वा एदेसिं सत्तएणं पि कम्माणं ओघे चेव । एवरि ये असंखेज्जा जीवा तेसिं सत्तएणं कम्माणं अवत्त० भुजगारेण सह भाणिदव्वं ।

३०३. आदेशेण एरइएसु सत्तएणं क० भुज०-अप्पद० सव्वजीवे० केवडि०^१ ? असंखेज्जदिभागो । अवट्ठि० केव० ? असंखेज्जा भागा । एवं सव्वेसिं असंखेज्जरासीणं अणंतरासीणं वि अवत्तव्वबंधवज्जाणं ।

३०४. मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु ओघं । संखेज्जं कादव्वं । अवगद० सत्तएणं क० भुज०-अप्पद०-अवत्त०बं० केव०^१ ? संखेज्जदिभा० । अवट्ठि०बं० केव० ? संखेज्जा भागा । सुहुमसंप० द्दएणं क० भुज०-अप्प० संखेज्जदिभागो । अवट्ठि० संखेज्जा भागा । सेसाणं सव्वाणं संखेज्जजीविगाणं सत्तएणं क० भुज०-अप्प० संखेज्जदिभागो । अवट्ठि० संखेज्जा भागा^१ । आयु० अवत्त० संखेज्जदिभागो । अप्पद० संखेज्जा भागा । येसिं सत्तएणं क० अवत्त० अत्थि तेसिं संखेज्जजीविगाणं मणुसिभंगो ।

हैं । अल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं । असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । इसी प्रकार आयुकर्मकी अपेक्षा अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए । असंख्यात जीववाली और अनन्त जीववाली मार्गणाओंमें सात कर्मोंका कथन ओघके समान ही है । इतनी विशेषता है कि जिनमें असंख्यात जीव हैं उनमें सात कर्मोंके अवक्लव्य पदका कथन भुजगारके साथ करना चाहिए ।

३०३. आदेशसे नारकियोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । अवक्लव्य बन्धके सिवा और पदोंका बन्ध करनेवाली और जितनी असंख्यात और अनन्त राशियाँ हैं उन सबका भागाभाग इसी प्रकार जानना चाहिए ।

३०४. मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें सब पदोंका भागाभाग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि यहाँ संख्यात कहना चाहिए । अपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार अल्पतर और अवक्लव्य पदोंका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें छह कर्मोंके भुजगार और अल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं, अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । शेष संख्यात संख्यावाली सब मार्गणाओंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । आयुकर्मके अवक्लव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । जिन मार्गणाओंमें सात कर्मोंका अवक्लव्य पद होता है उनमें संख्यात संख्यावाली राशियोंका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है । इस प्रकार भागाभागानुगम समाप्त हुआ ।

१. मूलप्रती केवडि ? असंखेज्जा भागा । अवट्ठि० इति पाठः । २. मूलप्रती केव० संखेज्जा भा० । अवट्ठि० इति पाठः । ३. मूलप्रती संखेज्जदिभागो आयु० इति पाठः ।

परिमाणाणुगमो

३०५. परिमाणाणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सत्तएणं क० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० केत्तिया ? अणंता । अवत्त० केत्तिया ? संखेज्जा । आयु० अवत्त०- [अप्पद०] अणंता । एवमोघभंगो तिरिक्खोघं सव्वएइंदिय-सव्ववणप्फदि-णियोद-कायजोगि-ओरालियका०-ओरालियमि०-एवुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-किरण०-णील०-काउ०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छादि०-असरिण०-आहारग ति । एवरि कायजोगि-ओरालियका०-अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति एदेसिं सत्तएणं क० अवत्तव्व० लोभे मोह० अवत्तव्वबंधगा च अत्थि ।

३०६. आदेसेण णेरइएसु सत्तएणं क० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० आयु० दो वि पदा असंखेज्जा । एवं सव्वणिरय-सव्वपंचिंदियतिरिक्ख-मणुसअप० देवा याव सहस्सार ति सव्वविगलिंदिय-सव्वपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-बादरवण०पत्ते०-पंचिंदिय-तसअप०-वेउव्वियका०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-संजदासंजद०-तेउ०-पम्मले०-वेदग०-सासण ति ।

३०७. मणुसेसु सत्तएणं क० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० असंखेज्जा । अवत्त०

परिमाणानुगम

३०५. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ निर्देश और आदेश निर्देश । ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । अवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । आयुकर्मके अवक्तव्य और अल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव अनन्त हैं । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, सब एकेन्द्रिय, सब वनस्पतिकायिक, सब निगोद, काय-योगी, औदारिक काययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषाय-वाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि काययोगी, औदारिक काययोगी, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक इन मार्गणाओंमें सात कर्मोंके अवक्तव्य पदका और लोभ कषायमें मोहनीयके अवक्तव्य पद-का बन्ध करनेवाले जीव हैं ।

३०६. आदेशसे नारकियोंमें सात कर्मोंके भुजगार अल्पतर और अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव तथा आयुकर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्यदेव, सहस्रार कल्पतकके देव, सब विकलेन्द्रिय, सब पृथिवीकायिक, सब जलकायिक, सब अग्निकायिक, सब वायुकायिक, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, वैक्रियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी, संयतासंयत, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, वेदकसम्यग्दृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए ।

३०७. मनुष्योंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका बन्ध करने-वाले जीव असंख्यात हैं । अवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं । आयुकर्मके

संखेज्जा । आयु० दो वि पदा असंखेज्जा । एवं पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-
आभि०-सुद०-ओधि०-चक्खुदं०-ओधिदं०-सुकले०-सम्पादि०-खइग० । [एवरि
सुकले०-खइगस०] आयु० दो पदा संखेज्जा । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सव्वे भंगा
संखेज्जा । एवं सव्वट्ठ-आहार०-आहारभि०-अवगदवे०-मणपज्ज०-संजद०-सामाइ०-
छेदो०-परिहार०-सुहुमसंपरा० ।

३०८. कम्मइ०-अणाहार० सत्तएणं क० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० अणांता ।
एवं परिमाणं समत्तं ।

खेत्ताणुगमो

३०९. खेत्तं दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सत्तएणं क० भुज०-अप्प०-
अवट्ठि० केवडि खेत्ते? सव्वलोगे । अवत्त० लोग० असंखे०भागे । आयु० अवत्त०-
अप्पद० सव्वलोगे । एवं सव्वअणांतरासीणं । एवरि तेसिं चेव सत्तएणं क०
अवत्त० एत्थि । बादरएइंदियपज्जत्तापज्जत्त० आयु० लोग० असंखे० । वणप्फदि-
बादर-णियोद-पज्जत्तापज्जत्ता० आयु० लोग० असं०भागे । पुढवि०-आउ०-तेउ०-

दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय द्विक, त्रस
द्विक, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी,
चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना
चाहिए । इतनी विशेषता है कि शुक्ललेश्यावाले और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें आयुकर्मके
दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें
सभी पदोंका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं । इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिके देव, आहारक
काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अवगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत,
छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंके जानना चाहिए ।

३०८. कार्मण काययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर
और अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव अनन्त हैं ।

इस प्रकार परिमाणानुगम समाप्त हुआ ।

क्षेत्रानुगम

३०९. क्षेत्र दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंके भुज-
गार, अल्पतर और अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक
क्षेत्र है । अवक्कव्य पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है ।
आयुकर्मके अवक्कव्य और अल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । इसी
प्रकार सब अनन्त राशियोंका जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यह उन्हींका जानना
चाहिए जिनके सात कर्मोंका अवक्कव्य पद नहीं होता । बादर एकेन्द्रिय, पर्याप्त और अप-
र्याप्त जीवोंमें आयुकर्मके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें
भाग प्रमाण है । बादर वनस्पति पर्याप्त और अपर्याप्त तथा निगोद पर्याप्त तथा अपर्याप्त
जीवोंमें आयुकर्मके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग-
प्रमाण है । पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक तथा इनके बादर

वाउ० तेसिं बादर-बादरअपज्ज० तेसिं चेव सव्वसुहुम० बादरवण्णफदि०पत्ते० तस्सेव अपज्ज० सव्वे भंगा सव्वलोगे । एवरि बादरेसु लोग० असं० । वाउ० लोगस्स सखे० । सेसाणं संखेज्ज-असंखेज्जरासीणं सव्वे भंगा लोगस्स असं० । एवरि वाउ० पज्जत्ते लोगस्स संखेज्जदिभागे । एवं खेत्तं समत्तं ।

फोसणाणुगमो

३१०. फोसणाणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सत्तएणं क० भुज०-अप्प०-अवट्ठि०-बंधगेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? सव्वलोगो । अवत्त० लोग० असं० । आयु० अवत्त०-अप्पद० सव्वलोगो । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं सव्वएइदि०-पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं अपज्जत्ता० तेसिं

और बादर अपर्याप्त तथा इन्हींके सब सूक्ष्म बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर तथा इन्हींके अपर्याप्त जीवोंमें सब पदोंका क्षेत्र सब लोक है । इतनी विशेषता है कि बादरोंमें लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है और बादर वायुकायिकोंका लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । शेष रहीं संख्यात और असंख्यात राशियोंमें सब पदोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । इतनी विशेषता है कि वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है ।

विशेषार्थ—यहां भुजगारबन्ध आदिकी अपेक्षा क्षेत्रका विचार किया गया है । लोकमें प्रायः एकेन्द्रियादि सभी जीव सात कर्मोंका भुजगार, अल्पतर और अवस्थितबन्ध करते हैं इसलिए इन पदोंका सामान्यरूपसे सब क्षेत्र कहा है । अवक्तव्यबन्ध उपशमश्रेणिसे उतरनेवाले जीवोंके या मोहनीयकी अपेक्षा सूक्ष्मसाम्परायमें और सात कर्मोंकी अपेक्षा उपशान्तमोहमें मरकर देव होनेवाले जीवोंके होता है, यतः इनका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, अतः सात कर्मोंके अवक्तव्य पदका बन्धवाले जीवोंका उक्तप्रमाण क्षेत्र कहा है । तथा आयुकर्मके दो पदोंकी प्राप्ति एकेन्द्रिय सब जीवोंके होती है, इसलिए आयुकर्मके दोनों पदवाले जीवोंका भी सब लोक क्षेत्र कहा है । यहां शेष मार्गणाओंमें सम्भव पदोंके क्षेत्रका सामान्यरूपसे संकेत किया ही है । सो उस मार्गणाके क्षेत्रको जानकर यथासम्भव उसे घटित कर लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जिन मार्गणाओंमें सात कर्मोंका बन्ध होता है उन सबमें सात कर्मोंका अवक्तव्य पद नहीं होता, किन्तु जिन मार्गणाओंमें उपशमश्रेणिका आरोहण और अवरोहण सम्भव है उन्हींमें अवक्तव्य पद होता है । सो सर्वत्र इस पदवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही है ।

इस प्रकार क्षेत्रानुगम समाप्त हुआ ।

३१०. स्पर्शनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? सब लोकका स्पर्श किया है । अवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । आयुकर्मके अवक्तव्य और अल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोकका स्पर्श किया है । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, सब एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक, बादर वायु-

चेव सव्वसुहुम० सव्ववणप्फदि-णियोद-बादरवणप्फदिपत्तेय० तस्सेव अज्जत्ता० । सव्वबादराणं आयु० दो पदा लोगस्स असं० । एवरि बादरएइंदि०-बादरवाउ० लोगस्स संखेज्ज० । कायजोगि-ओरालियका०-ओरालियमि०-एवुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-किरण०-णील०-काउ०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छादि०-असण्णि०-आहारग ति ओघं । एवरि अवत्त० केसिं चेव एत्थि । येसिमत्थि तेसिमोघं ।

३११. आदेशेण एरइएसु सत्तएणं क० भुज०-अप्प-अवट्ठि० छच्चोदसभा० । आयु० खेत्तभंगो । पढमपुढवि० खेत्तभंगो । विदियादि याव सत्तमा त्ति एवं चेव । एवरि सगफोसणं ।

३१२. सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुसअपज्ज०-सव्वविगल्लिदिय-पंचिदिय-तस०-अपज्जत्ता० बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-बादरवण०पत्ते०पज्जत्ता० सत्तएणं क०-भुज०-अप्प०-अवट्ठि० लोगस्स असं० सव्वलोगो वा । एवरि बादरवाउ० लोगस्स संखे० सव्वलो० । आयु० खेत्तभंगो । मणुस०३ सत्तएणं क० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० अपज्जत्तभंगो । अवत्त० ओघं । आयु० खेत्तभंगो ।

कायिक और इनके अपर्याप्त तथा इन्हींके सब सूक्ष्म, सब वनस्पतिकायिक, सब निगोद, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और इनके अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । किन्तु सब बादरोंके आयुकर्मके दो पदोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि बादर एकेन्द्रिय और बादर वायुकायिक जीवोंका आयुकर्मके दो पदोंका स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है । काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक मिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मृत्युज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और आहारक जीवोंके सब पदोंका स्पर्शन ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमेंसे अवक्तव्य पद किन्हींके नहीं हैं । जिनके हैं उनके उसका स्पर्शन ओघके समान है ।

३११. आदेशसे नारकियोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आयुकर्मका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । पहली पृथिवीमें क्षेत्रके समान स्पर्शन है । दूसरीसे लेकर सातवीं पृथिवीतक इसी प्रकार है । किन्तु इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी पृथिवीका स्पर्शन कहना चाहिए ।

३१२. सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्नि-कायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक है । इतनी विशेषता है कि बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें उक्त पदोंका स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक है । तथा इन सब मार्गणाओंमें आयुकर्मके दोनों पदोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । मनुष्यत्रिकमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदोंका स्पर्शन मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान है । अवक्तव्य पदका स्पर्शन ओघके समान है । तथा आयुकर्मके दोनों पदोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

३१३. देवेसु सत्तणं क० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० अट्ठ-णवचो० । आयु० दो वि पदा अट्ठचो० । भवण०-वाणवे०-जोदिसि० सत्तणं क० भुज-अप्प०-अवट्ठि० अद्दुद्द-अट्ठ-णवचो० । आयु० दो वि पदा अद्दुद्द-अट्ठचो० । सोधम्मीसाणे देवोघं । सणक्कुमार याव सहस्सार त्ति सव्वे भंगा अट्ठचो० । आणदादि अच्चुदा त्ति छच्चोद्द० । उवरि खेत्तं ।

३१४. पंचिदिय-तस० तेसिं पज्जता० पंचमण०-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-चक्खुदं०-सण्ण त्ति सत्तणं क० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० अट्ठचो० सव्वलोगो वा । अवत्त० ओघं । आयु० दो वि पदा अट्ठचो० ।

३१५. वेउव्विय० सत्तणं क० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० अट्ठ-तेरहचो० । आयु० दो वि पदा अट्ठचो० । वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि०-कम्मइ०-अवगद०-मण-पज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसं०-अणाहारग त्ति खेत्तभंगो ।

३१६. विभंगे सत्तणं क० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० अट्ठ-तेरहचोद्द० सव्वलो० । आयु० दो वि पदा अट्ठचो० । आभि०-सुद०-ओधि० सत्तणं क० तिण्णपदा०

३१३. देवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और नौ बटे चौदह राजु है। आयुकर्मके दोनों ही पदोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु है। भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदोंका स्पर्शन कुछ कम साढ़े तीन बटे चौदह राजु, आठ बटे चौदह राजु और नौ बटे चौदह राजु है। आयुकर्मके दोनों ही पदोंका स्पर्शन कुछ कम साढ़े तीन बटे चौदह राजु और आठ बटे चौदह राजु है। सौधर्म और ऐशान कल्पमें सब पदोंका स्पर्शन सामान्य देवोंके समान है। सानत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्वार कल्प तकके देवोंमें सब पदोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु है। आनत कल्पसे लेकर अच्युत कल्प तकके देवोंमें सब पदोंका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजु है। इससे आगेके देवोंमें सब पदोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

३१४. पञ्चेन्द्रिय, त्रस और इन दोनोंके पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोक है। अवक्कव्य पदका स्पर्शन ओघके समान है। आयुकर्मके दोनों ही पदोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु है।

३१५. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और तेरह बटे चौदह राजु है। आयुकर्मके दोनों ही पदोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारक काययोगी, आहारक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसाम्परायसंयत और अनाहारक जीवोंके अपने सब पदोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

३१६. विभङ्गज्ञानमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु, कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु और सब लोक है। आयु-कर्मके दोनों ही पदोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु है। आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके तीन पदोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे

अट्टचो० । अवत्त० खेत्तभंगो । आयु० दो पदा० अट्टचो० । एवं ओधिदं-
सम्मादि०-खड्ग०-वेदग० । संजदासंज० सत्तएणं क० तिण्णिण पदा० छच्चोद० ।
आयु० खेत्तं ।

३१७. तेउले० सत्तएणं क० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० अट्ट-णवचो० । आयु०
दो वि पदा अट्टचो० । पम्माए सव्वे भंगा अट्टचो० । सुक्काए सव्वे भंगा छच्चो० ।
णवरि सत्तएणं क० अवत्त० [खेत्त-] भंगो ।

३१८. सासण० सत्तएणं क० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० अट्ट-वारह० । आयु०
दो पदा० अट्टचो० । सम्माभि० सत्तएणं क० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० अट्टचोदस० ।
एवं फोसणं समत्तं ।

कालाणुगमो

३१६. कालाणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सत्तएणं क० भुज०-
अप्प०-अवट्ठि केवचिरं कालादो होदि ? सव्वद्धा । अवत्त० जह० एग०, उक्क०
संखेज्जसमयं । आयु० दो वि पदा० सव्वद्धा । एवं सव्वाणं अणंतरासीणं
सगपदाणं ।

चौदह राजु है । अवक्कव्य पदका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । आयुकर्मके दोनों ही पदोंका स्पर्शन
कुछ कम आठ बटे चौदह राजु है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि
और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । संयतासंयत जीवोंमें सात कर्मोंके तीन
पदोंका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजु है । आयुकर्मके दोनों पदोंका स्पर्शन क्षेत्रके
समान है ।

३१७. पीतलेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदोंका
स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु है । आयुकर्मके
दोनों ही पदोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु है । पद्मलेश्यामें सब पदोंका स्पर्शन
कुछ कम आठ बटे चौदह राजु है । शुक्ललेश्यामें सब पदोंका स्पर्शन कुछ कम छह बटे
चौदह राजु है । इतनी विशेषता है कि इनके सात कर्मोंके अवक्कव्य पदका स्पर्शन क्षेत्रके
समान है ।

३१८. सासादन सम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित
पदोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राजु है ।
आयुकर्मके दोनों ही पदोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु है । सम्यग्निग्थादृष्टि
जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे
चौदह राजु है । इस प्रकार स्पर्शानुगम समाप्त हुआ ।

कालानुगम

३१९. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघकी
अपेक्षा सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदोंका कितना काल है ? सब काल
है । अवक्कव्य पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल
संख्यात समय है । आयुकर्मके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है । इसी
प्रकार सब अनन्त राशियोंके अपने अपने पदोंका काल जानना चाहिए ।

३२०. आदेसेण गेरइएसु सत्तएणं क० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० आवलि० असं०। अवट्ठि० सव्वद्धा। आयु० अवत्त० जह० एग०, उक्क० आवलि० असं०। अप्प० जह० अंतो, उक्क० पलिदो० असं०। एवं सव्वेसि असंखेज्जरासीणं अवत्तवरहिदाणं सांतररासी असंखेज्जलोगरासी मोत्तूण। एवरि आणदादीणं आयु० अप्पदरबंधं जहरणु० अंतो। अवत्तव्व० जह० एग०, उक्क० संखेज्जसम०।

३२१. मणुस-पंचिदिय-तस० २ पज्जत्त० सत्तएणं क० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० आवलि० असं०। अवट्ठि० सव्वद्धा। अवत्त० ओघं। आयु० गिरयभंगो।

विशेषार्थ—यहां नाना जीवोंकी अपेक्षा भुजगार आदि पदोंके कालका विचार किया जा रहा है। सात कर्मोंका अवक्लव्य पद उपशमश्रेणि पर चढ़कर उतरनेवाले और मरकर देव होनेवाले जीवोंके होता है। यतः उपशम श्रेणिपर चढ़नेका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है, इसलिए ओघसे सात कर्मोंके अवक्लव्य पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। शेष कथन सुगम है।

३२०. आदेसे नारकियोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतर पदोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवस्थित पदका काल सर्वदा है। आयुकर्मके अवक्लव्य पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अल्पतर पदका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार अवक्लव्य पदसे रहित सब असंख्यात राशियोंका काल जानना चाहिए। किन्तु जो सान्तर राशियां हैं और असंख्यात लोकप्रमाण संख्यावाली राशियां हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। इतनी विशेषता है कि आनतादिकमें आयुकर्मके अल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। तथा अवक्लव्य पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है।

विशेषार्थ—यह हम पहले ही बतला आये हैं कि आयुकर्मका बन्ध होनेके प्रथम समयमें अवक्लव्य पद होता है। और अनन्तर अल्पतर पद होता है, इसलिए यहां यह प्रश्न होता है कि आयुकर्मके अवक्लव्य पदका उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण रहने पर अल्पतर पदका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण कैसे प्राप्त हो सकता है? समाधान यह है कि एक या नाना जीवोंने आयुकर्मका अवक्लव्यबन्ध किया और दूसरे समयसे वे अल्पतरबन्ध करने लगे। पुनः अल्पतरबन्धके कालके समाप्त होनेके अन्तिम समयमें दूसरे जीवोंने अवक्लव्यबन्ध किया और उसके दूसरे समयसे वे अल्पतरबन्ध करने लगे। इस प्रकार निरन्तर रूपसे अल्पतरबन्धका उत्कृष्ट काल लाने पर वह पल्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाण प्राप्त होता है। यही कारण है कि यहां अल्पतरपदका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। आनतसे लेकर ऊपरके देव नियमसे मनुष्यायुका बन्ध करते हैं और गर्भज मनुष्य संख्यात होते हैं, इसलिए आनतादिमें आयुकर्मके अवक्लव्य पदका उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। शेष कथन सुगम है।

३२१. मनुष्य, पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवस्थित पदका काल सर्वदा है। तथा अवक्लव्यपदका काल ओघके

एवं पंचमण०-पंचवचि०-आभि-सुद०-ओधि०-ओधिदं०-सम्मादिद्वि-चक्खुदं०-सणिए
त्ति । एवरि पंचमण०-पंचवचि० आयु० अप्प० जह० एग० । सुक्खे०-खइग०
एवं चेव । एवरि आयु० आणदभंगो ।

३२२. मणुसपज्ज०-मणुसिणीसु सत्तएणं क० भुज०-अवत्त० जह० एग०,
उक्क० संखेज्जसमयं । अवट्ठि० सव्वद्धा । आयुग० अवत्त० जह० एग०, उक्क०
संखेज्जसमयं । अप्पद० जहएणु० अंतो० । एवं 'सव्वसंखेज्जरासीणं । येसिं सत्तएणं
क० अवत्तव्वं एत्थि तेसिं पि तं चेव एणदव्वं । मणुसअपज्ज० सत्तएणं क०
भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० आवलि० असं० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क०
पलिदो० असं० । आयु० णिरयभंगो । एवं सासण० । एवं चेव वेउव्वियमि०-
सम्मामि० । आयु० एत्थि ।

३२३. पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं
चेव अपज्ज० तेसिं सुहुम० बादरवणप्फदिपत्तेय० तस्सेव अपज्ज० सव्वे भंगा
सव्वद्धा ।

समान है । आयुकर्मके दोनों पदोंका काल नारकियोंके समान है । इसी प्रकार पाँच मनो-
योगी, पाँच वचनयोगी, आभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, अवधिदर्शनी,
सम्यग्दृष्टि, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पाँचों
मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीवोंमें आयुकर्मके अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय
है । शुक्ललेश्यावाले और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें भी इसी प्रकार काल है । इतनी विशेषता
है कि इनमें आयुकर्मके दोनों पदोंका काल आनत कल्पके समान है ।

३२२. मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अवक्लव्य पदका
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अवस्थित पदका काल सर्वदा
है । आयुकर्मके अवक्लव्य पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात
समय है । अल्पतर पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार सब
संख्यात राशियोंका काल जानना चाहिए । तथा जिन संख्यात राशियोंमें अवक्लव्य पदका बन्ध
नहीं होता उनमें भी यही काल जानना चाहिए । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सात कर्मोंके भुजगार
और अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग-
प्रमाण है । अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें
भागप्रमाण है । आयुकर्मके दोनों पदोंका काल नारकियोंके समान है । मनुष्य अपर्याप्तकों के
समान सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी
और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके आयुकर्मका
बन्ध नहीं होता ।

३२३. पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, बादर पृथिवीकायिक,
बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक और बादर वायुकायिक तथा इनके अपर्याप्त और
सूक्ष्म, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर तथा इनके अपर्याप्त जीवोंमें सम्भव सब पदोंका
काल सर्वदा है ।

३२४. आहार०-आहारमि० सत्तएणं क० भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० संखेज्जसम० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । आयु० अवत्तव्व० जह० एग०, उक्क० संखेज्जसम० । अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

३२५. अवगद० सत्तएणं क० भुज०-अप्प०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेज्जसम० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं सुहुमसं० छरणं क० । एणवरि अवत्तव्वं एत्थि । कम्मइ०-अण्णाहा० सत्तएणं क० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० सव्वद्धा । एवं कालं समत्तं ।

अंतराणुगमो

३२६. अंतराणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सत्तएणं क० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० एत्थि अंतरं । अवत्तव्ववं० जह० एग०, उक्क० वासपुधत्तं । आयु० दो पदा एत्थि अंतरं । एवं कायजोगि-ओरालिका०-अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति ।

३२७. आदेसेण एणइएसु सत्तएणं क० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क०

३२४. आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अवस्थित-पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । आयुर्कर्मके अवक्लव्यपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अल्पतर पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

३२५. अपगतवेदवाले जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवक्लव्य पदोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवोंमें छह कर्मोंके पदोंका काल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्लव्य पद नहीं होता । कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदोंका काल सर्वदा है ।

इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ ।

अन्तरानुगम

३२६. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदोंका अन्तरकाल नहीं है । अवक्लव्य-पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है । आयुर्कर्मके दो पदोंका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार काययोगी, औदारिकाययोगी, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—उपशमश्रेणिका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व होने से यहाँ सात कर्मोंके अवक्लव्यपदका अन्तर काल उक्कप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

३२७. आदेशसे नारकियोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर

१. मूलप्रतौ कम्मइ० आयु० सत्तएणं इति पाठः ।

अंतो० । अवट्टि० एत्थि अंतरं । आयु० दो पदा० जह० एग०, उक्क० चउवीसं मुहुत्तं । एवं सव्वणोरइएसु । आयु० परिवादीए अडदालीसं मुहुत्तं पक्खं मासं बे मासं चत्तारिमासं छम्मासं बारसमासं । एवं चेव देवाणं पि कादव्वं । एवरि सव्वट्टे पलिदोवमस्स संखेज्ज० ।

३२८. तिरिक्खेसु सव्वे भंगा एत्थि अंतरं । एवं सव्वण्णइंदिय-पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं चेव अप०-सुहुम०-सव्ववण-प्फदि-णियोद-बादरवणप्फदिपत्तेय० तस्सेव अप० ओरालियमि०-कम्मइ०-एवुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-किरण०-णील०-काउ०-अभव०-मिच्छा०-असण्ण-अणाहारग ति । एवरि लोभे मोह० ओघं ।

३२९. सव्वपंचिंदियतिरिक्ख० सत्तरणं क० भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि० एत्थि अंतरं । आयु० दो पदा० जह० एग०, उक्क० अंतो० । पज्जत्त-जोण्णिणीसु जह० एग०, उक्क० चउवीसं मुहु० । अपज्ज० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

३३०. मणुसअप० सव्वे भंगा जह० एग०, उक्क० पलिदो० असं० । मणुस०३ काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका अन्तरकाल नहीं है । आयुकर्मके दोनों पदोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूर्त है । इसी प्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए । किन्तु आयुकर्मके दोनों पदोंका क्रमसे अड़तालीस मुहूर्त, एक पक्ष, एक माह, दो माह, चारमाह छह माह और बारह माह है । इसी प्रकार देवोंके भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें पत्यका संख्यातवां भागप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर है ।

३२८. तिर्यञ्चोंमें सम्भव सब पदोंका अन्तर काल नहीं है । इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक, बादर वायुकायिक और इन्हींके अपर्याप्त व सूक्ष्म, सब वनस्पतिकायिक, सब निगोद, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर, और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि-चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोत-लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंक्षी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि लोभकषायमें मोहकर्मके पदोंका अन्तरकाल ओघके समान है ।

३२९. सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका अन्तरकाल नहीं है । आयुकर्मके दो पदोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोंमें आयुकर्मके दो पदोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल चौबीस मुहूर्त है । तथा अपर्याप्त पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें अपने पदोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ।

३३०. मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सम्भव सब पदोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । मनुष्यत्रिकमें सात कर्मोंके

सत्तणं क० भुज०-अप्पद०-अवट्टि० आयु० दो पदा० पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तभंगो ।
सत्तणं क० अवत्त० ओघं । सव्वविगल्लिंदिय० पंचिदियतिरिक्खभंगो । पंचि-
दिय-तस० पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तभंगो । एवरि सत्तणं क० अवत्त० ओघं ।

३३१. बादरपुठवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-बादरवण०पत्तेयपज्जत्ता० विगल्लि-
दियअपज्जत्तभंगो । एवरि तेउका० आयु० दो वि पदा जह० एग०, उक्क०
चउवीसं मुहु० ।

३३२. पंचमण०-पंचवचि०-वेउव्वियका०-इत्थिवे०-पुरिस०-विभंग०-चक्खुदं०-
सण्णि ति सगपदा० मणुसिभंगो । वेउव्वियमिस्स० सव्वे भंगे जह० एग०, उक्क०
बारसमु० । आहार०-आहारमि० सव्वे भंगे जह० एग०, उक्क० वासपुधत्तं ।

३३३. अवगदवे० सत्तणं क० भुज०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० वास-
पुधत्तं । अप्प०-अवट्टि० जह० एग०, उक्क० छम्मासं । एवं सुहुमसं । सत्तणं
क० अवत्त० एत्थि अंतरं ।

भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदोंका तथा आयुकर्मके दो पदोंका अन्तरकाल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोंके समान है। सात कर्मोंके अवक्तव्य पदका अन्तरकाल ओघके समान है। सब विकलेन्द्रियोंमें सब पदोंका अन्तरकाल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है। तथा पञ्चेन्द्रिय और त्रसोंमें सब पदोंका अन्तरकाल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोंके समान है। इतनी विशेषता है कि सात कर्मोंके अवक्तव्य पदका अन्तरकाल ओघके समान है।

३३१. बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंमें सब पदोंका अन्तरकाल विकलेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके समान है। इतनी विशेषता है कि अग्नि-
कायिक पर्याप्त जीवोंमें आयुकर्मके दो पदोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल चौबीस मुहूर्त है।

३३२. पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वैक्रियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभङ्गज्ञानी, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंमें अपने अपने पदोंका अन्तरकाल मनुष्यिनियोंके समान है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सब पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त है। आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सब पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है।

३३३. अपगतवेदमें सात कर्मोंके भुजगार और अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है। अल्पतर और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके सात कर्मोंके अवक्तव्य पदका अन्तर नहीं होता।

विशेषार्थ—भुजगार और अवक्तव्य पद उपशमश्रेणियोंमें होते हैं और उपशमश्रेणिका उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व है। इसीसे यहां अपगतवेदी जीवोंके सात कर्मोंके भुजगार और अवक्तव्य पदोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व कहा है। सूक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोंके भुजगार पदका यह अन्तर मोहनीयके बिना छह कर्मोंका प्राप्त होता है। शेष कथन सुगम है।

३३४. आभि०-सुद०-ओधि० सत्तएणं क० मणुसभंगो । आयु० दो वि पदा० जह० एग०, उक्क० मासपुध० । एवं संजद-सामाइ०-छेदो०-संजदासंजद-ओधिदं०-सम्मदि०-वेदग० सगपदाणं । एवं चेव मणपज्ज० । एवरि आयु० दो वि पदा० जह० एग०, उक्क० वासपुध० । एवं परिहार०-खइग० ।

३३५. तेउ०-पम्म० देवभंगो । आयु० दो वि पदा० जह० एग०, उक्क० अडदालीसं मुहु० पक्खं । सुक्काए ओधिभंगो ।

३३६. उवसम० सत्तएणं क० भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० सत्त रादिंदियाणि । अवत्त० ओघं । सासएणं अट्टएणं क० सम्मामि० सत्तएणं क० सव्वपदा० जह० एग०, उक्क० पत्तिदो० । एवं अंतरं समत्तं ।

भावाणुगमो

३३७. भावाणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० अट्टएणं क० सव्वपदाणं बंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । एवं जाव अणाहारग त्ति णादव्वं ।

३३४. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके सब पदोंका अन्तर मनुष्योंके समान है । आयुकर्मके दोनों पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर मासपृथक्त्व है । इसी प्रकार संयत; सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना-संयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके अपने अपने पदोंका अन्तर जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके आयुकर्मके दोनों ही पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है । मनःपर्ययज्ञानियोंके समान परिहारविशुद्धिसंयत और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए ।

३३५. पीतलेश्यावाले और पद्मलेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोंके अपने सब पदोंका अन्तर देवोंके समान है । आयुकर्मके दोनों ही पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे अडदालीस मुहूर्त और एक पक्ष है । शुक्ललेश्यामें सब पदोंका अन्तर अवधिज्ञानियोंके समान है ।

३३६. उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन रात है । अवक्कव्य पदका अन्तर ओघके समान है । सासादन सम्यग्दृष्टियोंमें आठों कर्मोंके और सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें सात कर्मोंके सब पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है ।

इस प्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ ।

भावानुगम

३३७. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे आठों कर्मोंके सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका कौनसा भाव है ? औदयिक भाव है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

अप्पाबहुगाणुगमो

३३८. अप्पाबहुगाणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सत्तएणं क० सव्वत्थोवा अवत्तव्वबंधगा । अप्पद०बंध० अणंतगु० । भुज०बंधं विसे० । अवट्ठि० बंध० असं०गु० । आयु० सव्वत्थोवा अवत्त०बंधगा । अप्पद० असं०गु० । एवं तिरिक्खोघं कायजोगि-एवुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-क्किएण०-णील०-काउ०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छादि०-आहारग त्ति । एवरि एसिं अवत्त० एत्थि तेसिं सव्वत्थोवा अप्पद० । भुज० विसे० । अवट्ठि० असं०गु० ।

३३९. आदेसेण एेरइएसु सत्तएणं क० सव्वत्थोवा भुज०-अप्प० । अवट्ठि० असं०गु० । आयु० ओघं । एवं सव्वणिरय-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुसअज्ज० देवा याव अवराजिदा त्ति सव्वविगल्लिदिय-सव्वपंचकाय-ओरालियमि०-वेउ-व्विय'०-वेउव्वियमि०-इत्थि०-पुरिस०-संजदासंजद-तेउ०-पम्म०-वेदग०-सासण०-

विशेषार्थ—कर्मोंकी भुजगार आदि स्थितिका बन्ध कषायसे होता है और कषाय औदयिक भाव है, इसलिये यहाँ एक ही भाव कहा है। यहाँ किसी भी मार्गणामें आदेश प्ररूपणा सम्भव नहीं है। ओघके समान ही सर्वत्र जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

इस प्रकार भावानुगम समाप्त हुआ ।

अल्पबहुत्वानुगम

३३८. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे सात कर्मोंके अवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव अनन्तगुणें हैं। इनसे भुजगार पदका बन्ध करनेवाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणें हैं। आयुकर्मके अवक्तव्यपदके बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणें हैं। इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और आहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जिन मार्गणामें सात कर्मोंका अवक्तव्य पद नहीं है उनमें अल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे भुजगार पदका बन्ध करनेवाले जीव विशेष अधिक हैं और इनसे अवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणें हैं।

३३९. आदेशसे नारकियोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरपदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणें हैं। आयुकर्मके पदोंका अल्पबहुत्व ओघके समान है। इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, देव, अपराजित विमान तकके देव, सब विकलेन्द्रिय, सब पाँचों स्थावरकाय, औदारिक मिश्रकाययोगी, वैक्रियिक काययोगी, वैक्रियिक मिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, संयतासंयत, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, वेदकसम्यग्दृष्टि, सासादन-सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि

सम्मामि० असणित्ति । एवरि आणदादि अवराजिदा त्ति आयु० संखेज्जं कादव्वं ।

३४०. मणुसेसु सत्तएणं क० सव्वत्थोवा अवत्त० । भुज०-अप्पद० असं०गु० । अवट्ठि० असं०गु० । आयु० ओघं । एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु । एवरि संखेज्जं भाणित्ठं । एवं सव्वट्ठ०-आहार०-आहारमि०-मणपज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदोवट्ठा० । एवरि मणपज्ज०-संजद० सत्तएणं क० अवत्त० अत्थि सेसाणं एत्थि ।

३४१. पंचिंदय०-२-पंचमण०-पंचवचि०-आभि०-सुद०-ओधि०-चक्खुदं०-ओधिदं०-सुकुले०-सम्मादि०-खड्ग०-उवसम०-सणित्ति मणुसभंगो । एवरि-सुकुले०-खड्ग० आयु० मणुसिभंगो ।

३४२. तस०२ ओघं ! एवरि असंखेज्जं कादव्वं । एवं तसअप० । एवरि अवत्तव्वं एत्थि । ओरालियका० ओघं । एवरि भुज०-अप्प० तुल्लं । कम्मइ० सत्तएणं क० सव्वत्थोवा भुज०-अप्प० । अवट्ठि० असं०गु० । अवगद० सत्तएणं क० सव्वत्थोवा अवत्त० । भुज० संखे०गु० । अप्पद० सं०गु० । अवट्ठि० सं०गु० ।

अनन्त कल्पसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें आयुकर्मके अल्पबहुत्वको कहते समय संख्यातगुणा कहना चाहिए ।

३४०. मनुष्योंमें सात कर्मोंके अवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे भुजगार और अल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । इनसे अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । आयुकर्मके दोनों पदोंका अल्पबहुत्व ओघके समान है । इसी प्रकार मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनियोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यहाँ असंख्यातके स्थान पर संख्यात कहना चाहिए । इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिके देव, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंके सात कर्मोंका अवक्तव्य पद है, शेषके नहीं है ।

३४१. पञ्चेन्द्रियद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुत-ज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्लेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि और संज्ञी जीवोंमें सब पदोंका अल्पबहुत्व मनुष्योंके समान है । इतनी विशेषता है कि शुक्लेश्यावाले और ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें आयुकर्मके दोनों पदोंका अल्प-बहुत्व मनुष्यिनियोंके समान है ।

३४२. त्रसद्विकमें सब पदोंका अल्पबहुत्व ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि अनन्तके स्थानमें असंख्यात कहना चाहिए । इसी प्रकार त्रस अपर्याप्तकोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके सात कर्मोंका अवक्तव्य पद नहीं होता । औदारिक काययोगी जीवोंमें सब पदोंका अल्पबहुत्व ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव तुल्य होते हैं । कर्मणकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । अपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके अवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे भुजगारपदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणें हैं । इनसे अल्पतरपदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणें हैं । इनसे अवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणें हैं । सूक्ष्मसात्परायिक संयत

सुहुमसं० छरणं क० सव्वत्थोवा भुज० । अप्प० सं० गु० । [अवट्ठिद० संखेज्जगु०] ।
अणाहार० कम्मङ्गभंगो । एवं अप्पावहुगं समत्तं ।

पदणिकखेवो

३४३. पदणिकखेवे त्ति तत्थ इमाणि तिण्णिण अणियोगद्वाराणि—समुक्कित्तणा
सामित्तं अप्पावहुगे त्ति ।

समुक्कित्तणा

३४४. समुक्कित्तणं दुविधं—जहणणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०—
ओघे० आदे० । ओघे० सत्तएणं क० अत्थि उक्कस्सिया वड्ढी उक्क० हाणी उक्क०
अवट्ठणं । एवं याव अणाहारग त्ति ऐदव्वं ।

३४५. जहणणए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सत्तएणं क० अत्थि

जीवोंमें छह कर्मोंके भुजगारपदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अल्पतर
पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुरे हैं। इनसे अवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव
संख्यातगुरे हैं। अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके अपने पदोंका अल्पबहुत्व कार्मणकाय-
योगवालोंके समान है।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ।

पदनिक्षेप

३४३. अब पदनिक्षेपका अधिकार है। इसके ये तीन अधिकार हैं—समुत्कीर्तना,
स्वामित्व और अल्पबहुत्व।

विशेषार्थ—यहाँ 'पद' शब्दसे वृद्धि, हानि और अवस्थान इन तीन पदोंका ग्रहण
किया गया है। ये तीनों पद उत्कृष्ट भी होते हैं और जघन्य भी। आशय यह है कि इस
अनुयोगद्वारमें यह बतलाया गया है कि कोई एक जीव यदि प्रथम समयमें अपने योग्य
जघन्य स्थितिबन्ध करता है और दूसरे समयमें वह स्थितिको बढ़ाकर बन्ध करता है तो
उसके बन्धमें अधिकसे अधिक कितनी वृद्धि हो सकती है और कमसे कम कितनी वृद्धि हो
सकती है। इसी प्रकार यदि कोई जीव उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा है और अनन्तर समयमें
वह स्थितिको घटा कर बन्ध करता है तो उस जीवके बन्धमें अधिकसे अधिक कितनी
हानि हो सकती है और कमसे कम कितनी हानि हो सकती है यही सब विषय इस
प्रकरणमें विविध अनुयोगोंके द्वारा दिखलाया गया है। वृद्धि और हानि होनेके बाद जो
अवस्थित बन्ध होता है उसे यहाँ अवस्थित बन्ध कहा है। यह जिस प्रकारकी वृद्धि और
हानिके बाद होता है उसका वही नाम पड़ता है।

समुत्कीर्तना

३४४. समुत्कीर्तना दो प्रकारकी है—जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी
अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि,
उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक कथन करना
चाहिए।

३४५. जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और

३४७. आदेसेण एरइएसु सत्तएणं क० उक्कस्सिया वड्डी-अवट्टाणे ओघं । उक्कस्सिया हाणी कस्स होदि ? यो उक्कस्सयं द्विदि बंधमाणो सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओग्गजहएणए पडिदो तस्सेव उक्कस्सिया हाणी । एवं सव्वणिरय-पंचिदिय० तिरिक्ख०३-मणुस०३ देवा याव सहस्सार त्ति पंचिदिय-तस०२-पंचमएण०-पंचवचि०-ओरालि०-वेउव्वि०-इत्थि०-पुरिस०-एणुंस०-विभंग०-चक्खुदं०-पंचले०-सएण त्ति ।

३४८. पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० सत्तएणं क० उक्क० वड्डी कस्स० ? यो तप्पा-ओग्गजहएणयं द्विदि बंधमाणो तप्पाओग्गउक्कस्सयं संकिलेसं गदो तप्पाओग्ग-उक्कस्सयं द्विदिबंधो तस्स उक्कस्सिया वड्डी । उक्कस्सिया हाणी कस्स होदि ? यो तप्पा-ओग्गउक्कस्सयं द्विदि बंधमाणो सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओग्गजहएणए पडिदो तस्स उक्कस्सिया हाणी । तस्सेव सेकाले उक्कस्सयमवट्टाणं । एवं मणुसअ-गई है । किन्तु उत्कृष्ट हानि परस्थानकी अपेक्षा प्राप्त होती है । कारण कि जो संज्ञी पञ्चेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि पर्याप्त जीव उत्कृष्ट स्थितिवन्ध कर रहा है वह मरकर एकेन्द्रिय भी हो सकता है और वहां एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिवन्ध करने लगता है । इस प्रकार उत्कृष्ट वृद्धि अन्तःकोडाकोडी कम सत्तर कोडाकोडी सागर प्रमाण प्राप्त होती है और उत्कृष्ट हानि पत्यके असंख्यातवें भागसे न्यून एक सागर कम सत्तर कोडाकोडी सागरप्रमाण प्राप्त होती है । जो उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हुए साकार उपयोगके क्षय होनेसे तत्प्रायोग्य जघन्य स्थिति बाँध कर दूसरे समयमें पुनः उसी स्थितिका बन्ध करता है उसके उत्कृष्ट अवस्थान होता है । परस्थानमें यह उत्कृष्ट अवस्थान सम्भव न होनेसे स्वस्थानकी अपेक्षा ही इसका निर्देश किया है । शेष व्याख्यान स्पष्ट है ।

३४७. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट अवस्थान ओघके समान है । उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हुए साकार उपयोगका क्षय होनेसे संक्लेश परिणामोंकी हानि होकर तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करता है उसीके उत्कृष्ट हानि होती है । इसी प्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रिक मनुष्य त्रिक, देव, सहस्सार कल्पतकके देव, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, औदारिककाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, विभङ्गज्ञानी, चक्षुदर्शनी, पाँच लेझ्यावाले और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—पहले ओघकी अपेक्षा परस्थानका अवलम्बन लेकर उत्कृष्ट हानि बतलाई थी । यहाँ जो मार्गणा विवक्षित हो उसीमें उत्कृष्ट हानि लाना इष्ट है, इसलिए उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करते हुए तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिवन्ध करा कर यह उत्कृष्ट हानि लाई गई है । यहाँ जितनी मार्गणाएँ गिनाई गई हैं इन सबमें संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्यादृष्टि अवस्था सम्भव होनेसे उनकी अपेक्षा यह कथनी करनी चाहिए ।

३४८. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करते हुए तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हुए साकार उपयोग का क्षय होनेसे संक्लेश परिणामोंकी हानिवश तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करने लगता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है । तथा इसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है ।

पञ्ज० आणदादि उवरि सव्वट्ति सव्वएइंदिय-विगलिंदिय-पंचिंदिय-
तसअपञ्ज०-सव्वपंचका०-ओरालियमि०-वेउवियमि०-आहार०-आहारमि०-आभि०-
सुद०-ओधि०-मणपञ्ज०-संजद-सामाइ०-छेदोव०-परिहार०-संजदासंजद-ओधिदं०-
सुकले०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-उवसमस०-सासण०-सम्मामि० ।

३४६. कम्मइ०-अणाहार० सत्तएणं क० उक्कस्सिया वड्डी कस्स होदि ? यो
तप्पाओग्गजहएणयं द्विदि बंधमाणो तप्पाओग्गउक्कस्सयं संकिलेसं गदो तप्पा-
ओग्गउक्कस्सयं द्विदिबंधो तस्स उक्कस्सिया वड्डी । उक्कस्सिया हाणी कस्स होदि ?
यो तप्पाओग्गउक्कस्सयं द्विदि बंधमाणो सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओग्गजह-
एणए पदिदो तस्स उक्क० हाणी । उक्कस्सयमवट्ठाणं कस्स होदि ? वादरएइंदियस्स
तप्पाओग्गद्विदीदो हाणी उक्कस्सयं कादूण अवट्ठिदस्स तस्सेव से काले
उक्कस्सयमवट्ठाणं ।

३४७. [अवगदवे०] सत्तएणं क० उक्क० वड्डी कस्स होदि ? उवसामगस्स परि-
वदमाणस्स अणियद्विवादरसांपराइयस्स से काले सवेदो होहिदि त्ति तस्स उक्क०
वड्डी । तस्सेव से काले उक्कस्सयमवट्ठाणं । उक्कस्सिया हाणी कस्स होदि ? उवसामय-

इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थ सिद्धि तकके देव, सब एकेन्द्रिय,
सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, सब पाँचों स्थावरकाय, औदारिक
मिश्रकाययोगी, वैक्रियकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी,
आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत,
छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले,
सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और
सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—इन सब मार्गणाओंमें आदेश उत्कृष्ट स्थिति बन्ध होता है, दूसरे यहाँ
उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थानका जो कारण बतलाया है वह सबमें घटित
हो जाता है इसलिए इनकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान पञ्चेन्द्रिय
तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान कहा है ।

३४८. कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके
होती है ? जो तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करते हुए तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशको
प्राप्त होकर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । उत्कृष्ट
हानि किसके होती है ? जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हुए साकार उपयोगके
क्षय होनेसे संक्लेश परिणामोंकी हानिवश तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करता है उसके
उत्कृष्ट हानि होती है । उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है ? जो वादर एकेन्द्रिय तत्प्रायोग्य
उत्कृष्ट स्थितिमेंसे उत्कृष्ट हानि करके अवस्थित रहता है उसके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट
अवस्थान होता है ।

३४९. अपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो उपशा-
मक पतनको प्राप्त होता हुआ अनिवृत्तिवादर साम्परायको प्राप्त होकर अनन्तर समयमें
वेदसहित होगा उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है और उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट
अवस्थान होता है । उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो उपशामक अनिवृत्तिवादर साम्पराय

अणियद्विबादरसांपराइयस्स पढमादो द्विदिबंधादो विदिए द्विदिबंधे वट्टमाणयस्स तस्स उक्क० हाणी । एवं सुहुमसांपराइ० छरणं क० ।

३५१. असणिएण० सत्तएणं क० उक्क० वड्डी कस्स होदि ? एइंदियो असणिएण-पंचिदिएसु उववएणो तस्स उक्क० वड्डी होदि । असणिएणपंचिदियो एइंदियेसु उववएणो तस्स उक्क० हाणी । उक्कस्सयमवट्टाणं असणिएणपंचिदिय० सत्थाणं कादव्वं ।

३५२. जहणएण पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सत्तएणं क० जह-एणया वड्डी कस्स होदि ? यो समयूणउक्कस्सियं द्विदि बंधमाणो पुएणाए द्विदिबंधगद्धाए उक्कस्सयं संकिलेसं गदो उक्कस्सयं द्विदिबंधो तस्स जहणएणया वड्डी । जहणएणया हाणी कस्स होदि ? यो समयुत्तरं जहणएणं द्विदि बंधमाणो पुएणाए द्विदिबंधगद्धाए उक्कस्सयं विसोधिं गदो तस्स जहणएणं द्विदिबंधो तस्स जहणएणया हाणी । एकदरत्थ अवट्टाणं । एवं सत्थाणं याव अणाहारग ति । एवरि अवगद०-सुहुमसं० सत्तएणं क० छरणं क० जहणएणया वड्डी कस्स होदि ? उवसामयस्स परिवद-माणस्स विदिए द्विदिबंधे वट्टमाणस्स तस्स जह० वड्डी । जहणएणया हाणी कस्स० ? खवगस्स चरिमे द्विदिबंधे वट्टमाणस्स तस्स जह० हाणी । तम्हि चैव जहणए-यमवट्टाणं ।

जीव प्रथम स्थितिबन्धके बाद द्वितीय स्थितिबन्धमें विद्यमान होता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायिक जीवोंके छह कर्मोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान जानना चाहिए ।

३५१. असंज्ञी जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि किससे होती है ? जो एकेन्द्रिय असंज्ञी पञ्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । जो असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है । तथा उत्कृष्ट अवस्थान असंज्ञी पञ्चेन्द्रियके स्वस्थानकी अपेक्षा कहना चाहिए ।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ ।

३५२. अब जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सात कर्मोंकी जघन्य वृद्धि किसके होती है ? जो एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हुए स्थितिबन्धके कालके पूर्ण हो जानेपर उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है उसके जघन्य वृद्धि होती है । जघन्य हानि किसके होती है ? जो एक समय अधिक जघन्य स्थितिका बन्ध करते हुए जघन्य स्थितिबन्धके कालके पूर्ण हो जानेपर उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होकर जघन्य स्थितिबन्ध करता है उसके जघन्य हानि होती है । तथा इनमेंसे किसी एक जगह जघन्य अवस्थान होता है । इस प्रकार स्वस्थानकी अपेक्षा अनाहारक मार्गणा तक कथन करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें क्रमसे सात और छह कर्मोंकी जघन्य वृद्धि किसके होती है ? जो उपशामक उपशम श्रेणिसे उतरते हुए दूसरे स्थितिबन्धका प्रारम्भ करता है उसके जघन्य वृद्धि होती है । जघन्य हानि किससे होती है ? जो क्षपक अन्तिम स्थितिबन्ध कर रहा है उसके जघन्य हानि होती है और इसीमें जघन्य अवस्थान होता है ।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ ।

अप्पावहुगं

३५३. अप्पावहुगं दुवि०—जहणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि—
ओघे० आदे० । ओघे० सत्तएणं कम्माणं सव्वत्थोवा उक्कस्सिया वड्डी । उक्कस्सयम-
वट्ठाणं विसेसाहियं । उक्क० हाणी विसेसा० । ओघभंगो कायजोगि-कोधादि०४-मदि०-
सुद०-असंज०-अचक्खु०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छादि०-आहारग ति ।

३५४. गिरएसु सत्तएणं क० सव्वत्थोवा उक्कस्सिया वड्डी । उक्कस्सिया हाणी
उक्कस्सयमवट्ठाणं च दो वि तुल्ला विसे० । एवं सव्वाणं अणाहारग ति । एवरि
तिरणं मिस्सगाणं सत्तएणं क० सव्वत्थोवा उक्कस्सिया हाणी । उक्कस्सिया वड्डी
अवट्ठाणं च दो वि तुल्लाणि संखेज्जगु० ।

३५५. कम्मइ०-अणाहा० सत्तएणं क० सव्वत्थोवा उक्कस्सयमवट्ठाणं । उक्क०
वड्डी० सं०गु० । उक्क० हाणी विसे० । अवगद० सत्तएणं क० सव्वत्थोवा उक्क-
स्सिया हाणी । उक्क० वड्डी अवट्ठाणं असं०गु० । एवरि घादीणं संखेज्जगुणाए ।
एवं सुहुमसं० छएणं क० । एवरि सव्वेसिं घादीणं भंगो ।

३५६. आभि०-सुद०-ओधि० सत्तएणं क० सव्वत्थोवा उक्क० हाणी अवट्ठाणं ।
उक्क० वड्डी सं०गु० । एवं मणपज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-संजदासंजद-

३५३. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है ।
उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सात कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि
सबसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट अवस्थान विशेष अधिक है । इससे उत्कृष्ट हानि विशेष
अधिक है । इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी,
श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और आहारक जीवोंके जानना
चाहिए ।

३५४. नारकियोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट हानि
और उत्कृष्ट अवस्थान ये दोनों तुल्य होकर विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा
तक सबके अल्पबहुत्व जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तीनों मिश्रयोगवाले जीवोंके
सात कर्मोंकी उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान ये दोनों
तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं ।

३५५. कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंका उत्कृष्ट अवस्थान
सबसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट वृद्धि संख्यातगुणी है और इससे उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक
है । अपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट वृद्धि
और अवस्थान असंख्यातगुणे हैं । इतनी विशेषता है कि घाति कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि और
अवस्थान संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें छहः कर्मोंके उक्त पदोंका
अल्पबहुत्व है । इतनी विशेषता है कि इनके सब कर्मोंके उक्त पदोंका अल्पबहुत्व घाति-
कर्मोंके समान है ।

३५६. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट
हानि और अवस्थान सबसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट वृद्धि संख्यातगुणी है । इसी प्रकार
मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संय-

ओधिदं०-सम्मादि०-वेदगस०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० । एवरि गिरयभंगो यदि सत्थाणे सामित्तं दिज्जदि । अथ मिच्छत्ताभिमुहस्स तदो वड्डी संखे०गुणं । खइगे गिरयभंगो । असणिएण० सव्वत्थोवा उक्क० अवट्टाणं । उक्क० वड्डी सं०गु० । उक्क० हाणी विसेसाहिया । एवं उक्कस्सं समत्तं ।

३५७. जहण्णए पगदं । दुवि—ओघे० आदे० । ओघेण सत्तएणं क० जहणिएणया वड्डी जहणिएणया हाणी जहण्णयमवट्टाणं तिणिएण वि तुल्लाणि । एवं याव अणाहारग त्ति । एवरि अवगदवे० सव्वत्थोवा सत्तएणं कम्माणं जहणिएणया हाणी अवट्टाणं । जह० वड्डी सं०गु० । एवं सुहुमसंप० छएणं कम्माणं । एवं अप्पाबहुगं समत्तं ।

एवं पदशिक्षेवं समत्तं ।

तासंयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि यदि स्वस्थानकी अपेक्षा स्वामित्व प्राप्त किया जाता है तो नारकियोंके समान अल्पबहुत्व है और यदि मिथ्यात्वके अभिमुख हुए इन जीवोंका अल्पबहुत्व प्राप्त किया जाता है तो वृद्धि संख्यातगुणी है । ज्ञायिक-सम्यग्दृष्टि जीवोंमें उक्त पदोंका अल्पबहुत्व नारकियोंके समान है । असंक्षी जीवोंमें उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट वृद्धि संख्यातगुणी है । इससे उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है ।

विशेषार्थ—यहाँ अभिनिबोधिकज्ञानीसे लेकर सम्यग्मिथ्यादृष्टि तक जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं इन सब मार्गणावाले जीवोंका मिथ्यात्व गुणस्थानमें भी गमन सम्भव है । उसमें भी सासादन गुणस्थानवाले तो नियमसे मिथ्यात्वमें जाते हैं । इसलिए इन मार्गणाओंमें अल्पबहुत्व दो प्रकारका प्राप्त होता है । जबतक ये मिथ्यात्वके अभिमुख नहीं होते हैं तब तक इनमें नारकियोंके समान अल्पबहुत्व है । अर्थात् सात कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है और इससे उत्कृष्ट हानि व उत्कृष्ट अवस्थान ये दोनों तुल्य होकर विशेष अधिक हैं । और जब ये मिथ्यात्वके अभिमुख होते हैं तब अल्पबहुत्व इस प्रकार होता है—सात कर्मोंकी उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान दोनों तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं और इससे उत्कृष्ट वृद्धि संख्यातगुणी है । यहाँ ओघ और आदेशसे आयुर्कर्मका अल्पबहुत्व नहीं कहा है सो इसका कारण यह है कि आयुर्कर्मके स्थितिबन्धमें इस तरहकी वृद्धि, हानि और अवस्थान सम्भव नहीं है । उसमें केवल प्रथम समयके बन्धके बाद हानि ही होती है, इसलिए उसमें अल्पबहुत्व घटित नहीं होता ।

इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

३५७. अब जघन्य अल्पबहुत्वका प्रकरण है । इसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सात कर्मोंकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान ये तीनों ही तुल्य हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य हानि और अवस्थान सबसे स्तोक है । इनसे जघन्य वृद्धि संख्यातगुणी है । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें छह कर्मोंका अल्पबहुत्व है ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार पदनिक्षेप समाप्त हुआ ।

वड्डिबन्धो

३५८. वड्डिबन्धे त्ति तत्थ इमाणि तेरस अणियोगद्वाराणि—समुक्कित्तणा सामित्तं एवं याव अप्पावहुगे त्ति ।

समुक्कित्तणा

३५९. समुक्कित्तणादाए दुविधो णिदोसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तणं क० अत्थि चत्तारिवड्डि० चत्तारिहाणि० अवट्ठिद० अवत्तव्वबन्धगा य । आयु० अत्थि अवत्तव्वबन्धगा य असंखेज्जभागहाणिबन्धगा य । एवं आयु० याव अणाहारग त्ति । यथा ओघेण तथा मणुस० ३-पंचिदिय-तस० २-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालियका०-आभि०-सुद०-ओधि०-मणपज्ज०-संजद०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-ओधिदं०-सुकले०-भवसि०-सम्मादि०-खड्ग०-उवसम०-सण्ण-आहारग त्ति ।

वृद्धिबन्ध

३५८. अब वृद्धिबन्धका प्रकरण है । उसमें ये तेरह अनुयोगद्वार होते हैं—समुत्कीर्तना और स्वामित्वसे लेकर अल्पबहुत्व तक ।

विशेषार्थ—जिसमें छहगुणी हानि वृद्धिका विचार किया जाता है उसे वृद्धि अनुयोगद्वार कहते हैं । यहाँ वृद्धि पद उपलक्षण है, इसलिए इस पदसे हानिका भी ग्रहण हो जाता है । यहाँ स्थितिबन्धका प्रकरण होनेसे इसका नाम वृद्धिबन्ध पड़ा है । मुख्यरूपसे इसका विचार तेरह अनुयोगद्वारोंके द्वारा किया जाता है । प्रकृतमें प्रारम्भके समुत्कीर्तना और स्वामित्व ये दो तथा अन्तिम अल्पबहुत्व इन तीनका नाम निर्देश किया है । सब अनुयोगद्वारोंके नाम ये हैं—समुत्कीर्तना, स्वामित्व, एक जीवकी अपेक्षा काल, अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव, और अल्पबहुत्व ।

समुत्कीर्तना

३५९. समुत्कीर्तनाकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले जीव हैं । आयुकर्मके अवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले और असंख्यात भागहानिपदका बन्ध करनेवाले जीव हैं । इसी प्रकार आयुकर्मकी अपेक्षा अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए । तथा शेष सात कर्मोंकी अपेक्षा जिस प्रकार ओघमें कहा है उसी प्रकार मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्लेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—आठों कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध और जघन्य स्थितिबन्धका पहले निर्देश कर आये हैं । साथ ही यह भी बतला आये हैं कि आयुकर्मका अवक्तव्यबन्ध होनेके बाद अल्पतरबन्ध ही होता है । इस प्रकार इन आठों कर्मोंके स्थितिबन्धके कुल विकल्पोंको देखते हुए इनमें अनन्तभागवृद्धि अनन्तभागहानि तथा अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानि तो कथमपि सम्भव नहीं हैं, क्योंकि कुल स्थितिविकल्प असंख्यात ही हैं, इसलिये इनमें ये दो वृद्धि

३६०. आदेसेण णेरइएसु सत्तएणं क० अत्थि तिण्णवड्ढि० तिण्णहाणि०
अवट्ठिदबंधगा य । एवं णिरयभंगो१ सव्वतिरिक्ख-मणुसअपज्जत्त-सव्वदेव-
पंचिदिय-तसअपज्जत्त-ओरालियमि०--वेउव्वि०--वेउव्वियमि०--आहार०--आहारमि०-
कम्मइ०-इत्थि०-पुरिस०-एवुंस०-कोधादि०४--मदि०-सुद०--विभंग०-सामाइ०-छेदो०-
परिहार०-संजदासंजद०-असंजद०-पंचले०-अभवसि०--वेदगस०--सासएणस०--सम्मा-
मिच्छादिट्ठि-असएण-अणाहारग ति । एवरि इत्थि०-पुरिस०-एवुंस०-कोधादि०४-
सामाइ०-छेदो० सत्तएणं क० अत्थि चत्तारिवड्ढि० चत्तारिहाणि० अवट्ठिदबंधगा
य । लोभक० मोह० अवत्तव्वबंधगा य ।

और दो हानि सम्भव नहीं। यही कारण है कि यहाँ ओघसे सात कर्मोंकी चार वृद्धि और चार हानियोंका निर्देश किया है। अवस्थित और अवक्तव्यपद स्पष्ट ही हैं। अव रहा आयु-कर्म सो इसका जब बन्ध प्रारम्भ होता है तब प्रथम समयमें एक मात्र अवक्तव्य पद ही होता है और अनन्तर अल्पतर पद होता है। फिर भी उस अल्पतर पदमें कौनसी हानि होती है, यही बतलानेके लिए यहाँ वह असंख्यातभागहानि ही होती है यह स्पष्ट निर्देश किया है। इस प्रकार आठों कर्मोंमें कौन कौन पद होते हैं यह स्पष्ट हो जाता है। यह तो स्पष्ट ही है कि नरकगति मार्गणासे लेकर अनाहारक मार्गणा तक सब मार्गणाओंमेंसे जिसमें आयुकर्मका बन्ध होता है उसमें अवक्तव्य और असंख्यातभागहानि ये दो पद ही होते हैं इस-लिए इनकी प्ररूपणा ओघके समान कही है पर सात कर्मोंकी अपेक्षा भी अन्य जिन मार्गणा-ओंमें यह ओघ प्ररूपणा अविफल घटित हो जाती है उनकी प्ररूपणा भी ओघके समान कही है। ऐसी मार्गणाओंका नाम निर्देश मूलमें किया ही है।

३६०. आदेशकी अपेक्षा नारकियोंमें सात कर्मोंके तीन वृद्धि, तीन हानि और अव-स्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव हैं। इसी प्रकार नारकियोंके समान सब तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, सब देव, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, अस अपर्याप्त, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मण-काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, असं-संयत, पाँच लेश्यावाले, अभव्य, वेदकसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें सात कर्मोंके चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव हैं। तथा लोभकषायमें मोहनीय कर्मके अवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले जीव हैं।

विशेषार्थ—यहां असंख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागवृद्धि और संख्यात गुणवृद्धि ये तीन वृद्धियां हैं। तथा असंख्यात भागहानि, संख्यात भागहानि और संख्यात गुणहानि ये तीन हानियां हैं। इनमें असंख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानिके मिलानेपर चार वृद्धियां और चार हानियां होती हैं।

१. मूलप्रतौ क० अवट्ठि तिण्ण इति पाठः। २. मूलप्रतौ—भंगो सव्वमणुसतिरिक्खअपज्जत्त इति पाठः।

३६१. एइंदिय-पंचका० सत्तएणं क० अत्थि असंखेज्जभागवट्ठि-हाणि अवट्ठि-दबंधगा य । सव्वविगलिदिएसु सत्तएणं क० अत्थि असंखेज्जभागवट्ठि-हाणि०संखे-ज्जभागवट्ठि-हाणि० अवट्ठिदबंधगा य । अवगद० णाणावर०-दंसणावर०-अंतराइ०-अत्थि संखेज्जभागवट्ठि-हाणि० संखेज्जगुणवट्ठि-हाणि० अवट्ठिद० अवत्तव्वबंधगा य । वेदणीय-णामा-गोदाणं अत्थि संखेज्जभागवट्ठि-हाणि० [संखेज्जगुणवट्ठि-हाणि०] असंखेज्जगुणवट्ठि-हाणि०अवट्ठिद० अवत्तव्वबंधगा य । मोहणीय० अत्थि संखेज्ज-भागवट्ठि-हाणि० अवट्ठिद० अवत्तव्वबंधगा य । सुहुमसंप० छएणं क० अत्थि संखेज्ज-भागवट्ठि-हाणि० अवट्ठिदबंधगा य । एवं समुक्कित्तणा समत्ता ।

३६२. सामित्ताणुगमेण दुवि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण सत्तएणं क० असं-खेज्जभागवट्ठि-हाणि-अवट्ठिदबंधो कस्स होदि ? अएणदरस्स एइंदियस्स वीइंदि० तीइंदि० चदुरिंदि० पंचिंदि० सण्णि०असण्णि० पज्जत्त० अपज्जत्तगस्स वा । संखेज्जभागवट्ठि-हाणि० कस्स होदि ? अएणदरस्स वेइंदियस्स वा तेइंदि० चदुरिंदि० पंचिंदि० सण्णि० असण्णि० पज्ज० अपज्ज० । संखेज्जगुणवट्ठि-हाणिबंधो कस्स होदि ? अएणदर० पंचिंदियस्स सण्णिस्स वा पज्जत्तस्स वा अपज्जत्तस्स वा । असंखेज्ज-

३६३. एकेन्द्रिय और पांचों स्थावरकाय जीवोंमें सात कर्मोंके असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव हैं । सब विकलेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि, संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भाग-हानि और अवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव हैं । अपगतवेदी जीवोंमें ज्ञानावरण, दर्शना-वरण और अन्तराय कर्मके संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागहानि, संख्यात गुणवृद्धि, संख्यात गुणहानि और अवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव हैं । वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मके संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागहानि, संख्यात गुणवृद्धि, संख्यात गुणहानि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि, अवस्थित और अवक्कव्यपदका बन्ध करनेवाले जीव हैं । मोहनीय कर्मके संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागहानि, अवस्थित और अवक्कव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव हैं । सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें छह कर्मोंके संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागहानि और अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव हैं ।

इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई ।

३६४. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंका असंख्यात भागवृद्धि असंख्यात भागहानि और अवस्थित बन्ध किसके होता है ? अन्यतर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय संज्ञी और पञ्चेन्द्रिय असंज्ञी इन सब पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंके होता है । संख्यात भागवृद्धि और संख्यात भागहानि बन्ध किसके होता है ? अन्यतर द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय संज्ञी और पञ्चेन्द्रिय असंज्ञी इन सब पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंके होता है । संख्यात गुणवृद्धि बन्ध और संख्यात गुणहानि बन्ध किसके होता है ? अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय संज्ञी अपर्याप्त जीवके होता है । असंख्यात गुणवृद्धिबन्ध किसके

गुणवद्धिबंधो कस्स होदि ? अण्णदरस्स उवसामणादो परिवदमाणस्स अणियट्ठि-
बादरसांपराइगस्स पढमसमयदेवस्स वा । असंखेज्जगुणहाणिबंधो कस्स होदि ?
अण्णदरस्स उवसामगस्स वा खवगस्स वा अणियट्ठिबादरसांपराइगस्स । अवत्तव्व-
बंधो कस्स होदि ? अण्णदरस्स उवसामगस्स परिवदमाणस्स मणुसस्स वा मणुसि
णीए वा पढमसमयदेवस्स वा । आयुगस्स अवत्तव्वबंधो कस्स होदि ? अण्णदरस्स
पढमसमयआयुगबंधमाणस्स । तेण परं असंखेज्जभागहाणिबंधो । एवं कायजोगि-
अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति ।

३६३. आदेसेण एरइएसु सत्तएणं कम्माणं तिण्णवद्धि-हाणि-अवट्ठिदबंधो
कस्स होदि ? अण्णदरस्स । आयु० दो वि पदा ओघं । सव्वत्थं आयु० ओघभंगो ।
एवं मदि०-सुद०-असंज०-किएण०-णील०-काउ०-अभवसि०-मिच्छादिट्ठि ति ।
सव्वपंचिंदियतिरिक्ख-मणुस्सअपज्जत्त-सव्वदेव-पंचिंदिय-तसअपज्जत्ता-वेउव्विय०-
वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि०-विभंग०-परिहार०-संजदासंजद०-तेउ०-पम्मले०-
वेदग०-सासण०-सम्मामि० णिरयभंगो कादव्वो । एइदिएसु सत्तएणं क० एगवद्धि-
हाणि-अवट्ठिदबंधो कस्स होदि ? अण्णदरस्स । एवं पंचकायाणं । विगल्लिदिएसु
सत्तएणं क० दोण्णवद्धि-हाणि-अवट्ठिदबंधो कस्स होदि ? अण्णदरस्स । एवं
होता है ? अन्यतर जो उपशम श्रेणिसे गिरकर अनिवृत्तिबादरसाम्पराय हुआ है अथवा
प्रथम समयवर्ती देव हुआ है उसके होता है । असंख्यात गुणहानिबन्ध किसके होता है ?
अन्यतर उपशामक अनिवृत्तिबादरसाम्परायिक जीवके अथवा क्षपक अनिवृत्तिबादर
साम्परायिक जीवके होता है । अवक्लव्यबन्ध किसके होता है ? उपशमश्रेणिसे गिरनेवाले
अन्यतर मनुष्य, मनुष्यिनी और प्रथम समयवर्ती देवके होता है । आयुकर्मका अवक्लव्यबन्ध
किसके होता है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती आयुकर्मका बन्ध करनेवाले जीवके होता है ।
इससे आगे आयुकर्मका असंख्यात भागहानिबन्ध होता है । इसी प्रकार काययोगी, अचक्षु-
दर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

३६३. आदेशसे नारकियोंमें सात कर्मोंका तीन वृद्धिबन्ध, तीन हानिबन्ध और अव-
स्थितबन्ध किसके होता है ? अन्यतरके होता है । आयुकर्मके दोनों ही पदोंका स्वामित्व
ओघके समान है । इसी प्रकार सर्वत्र आयुकर्मके दोनों पदोंका स्वामित्व ओघके समान
जानना चाहिए । इसी प्रकार मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले,
कापोतलेश्यावाले, अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च,
मनुष्य अपर्याप्त, सब देव, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, वैक्रियिक काययोगी, वैक्रियिक
मिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, विभंगज्ञानी, परिहारविशुद्धि-
संयत, संयतासंयत, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, वेदक सम्यग्दृष्टि, सासादन
सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके नारकियोंके समान भङ्ग करना चाहिए । एकेन्द्रियों
में सात कर्मोंका एक वृद्धिबन्ध, एक हानिबन्ध और अवस्थितबन्ध किसके होता है ? अन्य-
तरके होता है । विकलेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके दो वृद्धियोंका बन्ध, दो हानियोंका बन्ध और

१. मूलप्रतौ भदसि० अणाहारग इति पाठः । २. मूलप्रतौ सव्वद्धा आयुओघ— इति पाठः ।
३. मूलप्रतौ वेदग० सम्मादि० सासण० सम्मादि० णिरय—इति पाठः

असणिएण० । एवरि संखेज्जगुणवड्डिवंधो कस्स होदि ? अएणदरस्स एइंदिय० विगल्लिदियस्स वा विगल्लिदिएसु असणिएणपंचिदिएसु उववज्जमाणस्स । संखेज्जगुणहाणि तव्विवरीदं खेदव्वं ।

३६४. मणुस०३ सत्तएणं क० ओघं । एवरि अवत्तव्वबंधो देवो त्ति ए भाणिएदव्वं । एवं ओरालियका०-मणपज्ज०-संजद० । ओरालियमि० तिरिक्खोघं कादव्वं ।

३६५. पंचिदिय-तस० तेसिं पज्जत्त० सत्तएणं क० तिणिएणवड्डि-हाणि-अवट्ठिद-बंधो कस्स होदि ? अएणदरस्स । असंखेज्जगुणवड्डि-हाणि-अवत्तव्वं ओघं । एवं आभि०-सुद०-ओधि०-चक्खुदं०-ओधिदं०-सुकुले०-सम्मादिट्ठि-खड्ग०-सणिएण त्ति । पंचमण०-पंचवचि० मणुसभंगो ।

३६६. कम्मइ० सत्तएणं क० तिणिएणवड्डि-हाणि-अवट्ठिद० कस्स ? अएणदरस्स । एवं अणाहार० । तिणिएणवेद०-चत्तारिकसाय०-सामाइ०-छेदो० पंचिदियभंगो । एवरि अवत्तव्वगं एत्थि । लोभे मोहणी० अवत्तव्वं अत्थि । अवगद० एणाणवर०-दंसणावर०-अंतराइ० संखेज्जभागवड्डि-संखेज्जगुणवड्डि-अवत्तव्वबंधो

अवस्थित बन्ध किसके होता है ? अन्यतरके होता है । इसी प्रकार असंज्ञी जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें संख्यात गुणवृद्धिवन्ध किसके होता है ? जो कोई एक एकेन्द्रिय या विकलेन्द्रिय जीव मरकर विकलेन्द्रियोंमें और असंज्ञी पञ्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है उसके होता है । इनके संख्यातगुणहानिवन्धका कथन इससे विपरीत क्रमसे जानना चाहिए ।

३६४. मनुष्य त्रिकर्मे सात कर्मोंके सब पदोंका स्वामित्व ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्लव्य बन्धका स्वामी देव होता है यह नहीं कहना चाहिए । इसी प्रकार औदारिक काययोगी, मनः पर्ययज्ञानी और संयत जीवोंके जानना चाहिए । औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सम्भव सब पदोंका स्वामित्व सामान्य तिर्यञ्चोंके समान कहना चाहिए ।

३६५. पञ्चेन्द्रिय, त्रस और इनके पर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी तीन वृद्धियोंका बन्ध, तीन हानियोंका बन्ध और अवस्थितबन्ध किसके होता है ? अन्यतरके होता है । असंख्यात गुणवृद्धिवन्ध, असंख्यातगुणहानिवन्ध और अवक्लव्यबन्धका स्वामित्व ओघके समान जानना चाहिए । इसी प्रकार आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्लेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए । पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी जीवोंके सब पदोंका स्वामित्व मनुष्योंके समान है ।

३६६. कार्मणकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंकी तीन वृद्धियोंका बन्ध, तीन हानियोंका बन्ध और अवस्थितबन्ध किसके होता है ? अन्यतरके होता है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । तीन वेदवाले, चार कषायवाले, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके सब पदोंका स्वामित्व पञ्चेन्द्रियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्लव्यपद नहीं है । किन्तु लोभकषायमें मोहनीय कर्मका अवक्लव्य पद है । अवगतवेदी जीवोंमें शानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मकी संख्यातभाग वृद्धिका बन्ध,

कस्स ? अणदरस्स उवसामगस्स परिवदमाणस्स । दोहाणि० अवट्ठि० कस्स ? अणदरस्स उवसामगस्स वा खवगस्स वा । एवं मोहणीयस्स संखेज्जभागवट्ठि-हाणि० अवट्ठिद० अवत्तव्वबंधगा य । वेदणीय-णामा-गोदाणं तिण्णिवट्ठि-अवत्तव्वबंधो कस्स ? अणदरस्स उवसामगस्स परिवदमाणस्स । तिण्णिहाणि-अवट्ठिदबंधो कस्स होदि ? अणदरस्स उवसामगस्स वा खवगस्स वा । सुहुमसंप० छणं क० संखेज्जभागवट्ठी कस्स ? अणदरस्स उवसामगस्स परिवदमाणस्स । संखेज्जभागहाणि-अवट्ठिदबंधो कस्स ? अणदरस्स उवसामगस्स वा खवगस्स वा । उवसमसम्मादिट्ठी० ओधिभंगो । एवरि खवग त्ति ण भाणिदव्वं । एवं सामित्तं समत्तं ।

कालो

३६७. कालानुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघेण सत्तणं क० चत्तारि-वट्ठि-तिण्णिहाणिबंधो केव० ? जह० एग०, उक्क० वेसम० । असं०गुणहाणि-अवत्त०' जहणुक्क० एग० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । आयुग० दो वि पदा० भुजगारभंगो । एवं ओघभंगो एसि चत्तारिवट्ठि-हाणि० अवट्ठिद० अवत्तव्व-बंधगा य अत्थि तेसिं । एवरि मणुस०३-पंचमण०-पंचवचि०-ओरालियका०-इत्थि०-
संख्यातगुणवृद्धिका बन्ध और अवक्लव्य बन्ध किसके होता है ? किसी भी उपशामक गिरने-वालेके होता है । दो हानियोंका बन्ध और अवस्थित बन्ध किसके होता है ? किसी भी उपशामक और क्षपकके होता है । इसी प्रकार मोहनीयकी संख्यात भागवृद्धि, संख्यातभाग-हानि, अवस्थित और अवक्लव्यबन्धका स्वामी जानना चाहिए । वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मकी तीन वृद्धियोंका बन्ध और अवक्लव्यबन्ध किसके होता है । किसी भी उपशामक गिरनेवालेके होता है । तीन हानियोंका बन्ध और अवस्थितबन्ध किसके होता है ? किसी भी उपशामक और क्षपकके होता है । सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें छह कर्मोंकी संख्यातभाग-वृद्धिका बन्ध किसके होता है ? किसी भी उपशामक गिरनेवालेके होता है । संख्यातभाग-हानिबन्ध और अवस्थितबन्ध किसके होता है । किसी भी उपशामक और क्षपकके होता है । उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंमें सम्भव सब पदोंका स्वामित्व अवधिज्ञानियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि यहाँपर 'क्षपकके होता है' ऐसा नहीं कहना चाहिए ।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ ।

काल

३६७. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है । ओघ और आदेश । ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंके चार वृद्धिबन्ध और तीन हानिबन्धका काल कितना है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है । असंख्यातगुणहानिबन्ध और अवक्लव्य बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । आयुकर्मके दोनों ही पदोंका काल भुजगारबन्धके समान है । जिन मार्गणाओंमें चारों वृद्धियों, चारों हानियों, अवस्थित और अवक्लव्य पदका बन्ध करने-वाले जीव हैं उनमें सब पदोंका काल इसी प्रकार ओघके समान जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, औदारिक काययोगी, स्त्री-

१. मूलप्रतौ अवत्त० जह० एग० इति पाठः ।

एवुं स०-मणपज्जव-संजद-सामाइ०-छेदो० असंखेज्जगुणवड्ढिबंधो० जहएणु० एगस० ।
 ३६८. आदेसेण एरइएसु सत्तएणं क० तिण्णहाणि-अवट्ठिद० ओघं ।
 कम्मइ०-अवगदवे०-सुहुमसं०-अणाहार वज्ज सेसाणं सगपदा णिरयभंगो । एवरि
 असण्णिण० संखेज्जगुणवड्ढि-हाणि० जहएणु० एगस० ।

३६९. अवगद० तिण्णक० दोवड्ढि-हाणि० वेदणी०-णामा-गोदाणं तिण्ण-
 वड्ढि-हाणि० मोहणी० एगवड्ढि-हाणि० जहएणु० एगस० । सत्तएणं क० अवट्ठि०-
 अवत्त० ओघं । सुहुमसं० झएणं क० एगवड्ढि-हाणि० जहएणु० एग० । अवट्ठि०
 ओघं । कम्मइ०-अणाहार० सत्तएणं क० तिण्णवड्ढि-हाणि० जह० उक्क० एग० ।
 अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० तिण्ण समयं । एवं कालं समत्तं ।

अंतरं

३७०. अंतराणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघेण सत्तएणं क० असंखेज्ज-
 भागवड्ढि-हाणि-अवट्ठिदबंधंतरं जह० एग०, उक्क० अंतो० । दोवड्ढि-हाणिबंधंतरं
 वेदी, नपुंसकवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामयिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें
 असंख्यातगुणवृद्धिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

विशेषार्थ—उपशामकके अनिवृत्तिकरणमें प्रथमबार और उसी समयमें मरकर देव
 होनेपर दूसरे समयमें उस पर्यायमें दूसरी बार असंख्यातगुणवृद्धिबन्ध करनेसे असंख्यात-
 वृद्धिबन्धका दो समय उत्कृष्ट काल उपलब्ध होता है । शेष कथन स्पष्ट है ।

३६८. आदेशसे नारकियोंमें सात कर्मोंकी तीन हानि और अवस्थितबन्धका काल
 ओघके समान है । कर्मणकाययोगी, अपगतवेदी, सूक्ष्मसाम्परायसंयत और अनाहारक इन
 मार्गणाओंको छोड़कर शेष मार्गणाओंमें अपने अपने पदोंका काल नारकियोंके समान है ।
 इतनी विशेषता है कि असंखी जीवोंमें संख्यातगुणवृद्धिबन्ध और संख्यातगुणहानिबन्धका
 जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

३६९. अपगतवेदी जीवोंमें तीन कर्मोंके दो वृद्धिबन्ध और दो हानिबन्धका, वेदनीय,
 नाम और गोत्र कर्मके तीन वृद्धिबन्ध और तीन हानिबन्धका तथा मोहनीयके एक वृद्धिबन्ध
 और एक हानिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा सातों कर्मोंके अवस्थित-
 बन्ध और अवक्तव्यबन्धका काल ओघके समान है । सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें छह
 कर्मोंके एक वृद्धिबन्ध और एक हानिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अव-
 स्थितबन्धका काल ओघके समान है । कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके
 तीन वृद्धिबन्ध और तीन हानिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थित
 बन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है ।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ ।

अन्तर

३७०. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघकी
 अपेक्षा सात कर्मोंके असंख्यातभागवृद्धिबन्ध, असंख्यातभागहानिबन्ध और अवस्थितबन्धका
 जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । दो वृद्धिबन्ध और दो हानिबन्ध
 का जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परि-
 वर्तनके बराबर है । असंख्यातगुणवृद्धिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर

जह० एग०, उक्क० अणंतकालमसंखेज्जगुणवड्डि० । असंखेज्जगुणवड्डि० जह० एग०, उक्क० अद्धपोग्गलप० । असंखेज्जगुणहाणि-अवत्तव्वबंधंतरं जह० अंतो०, उक्क० अद्धपोग्गल० । आयु० भुजगारभंगो१ । एवं ओघभंगो अचक्खु०-भवसि० ।

३७१. आदेसेण एेरइएसु सत्तएणं क० तिणिएणवड्डि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । एवं सव्वणिरय-मणुस-अपज्जत्त-सव्वदेव० एइंदिय-विगल्लिदियपंचकायाणं सगपदा० वेउव्विय०-विभंग०-परिहार०-संजदासंजद-तेउ०-पम्मले०-वेदगस०-सासण०-सम्मामि० ।

३७२. तिरिक्खेसु सत्तएणं क० तिणिएणवड्डि-हाणि० ओघं । अवट्ठि जह० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । एवं मदि०-सुद०-असंज०-अभवसि०-मिच्छादि० । पंचिदियतिरिक्ख०३ सत्तएणं क० दोवड्डि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । संखेज्जगुणवड्डि-हाणिबंधंतरं जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० तिणिएण सम० । पंचिदियतिरिक्ख-अपज्ज० सत्तएणं क० तिणिएण

कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन है । असंख्यातगुणहानिबन्ध और अवक्लव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन है । आयुकर्मके दोनों पदोंका अन्तर भुजगारबन्धके समान है । इसी प्रकार ओघके समान अचक्षुदर्शनी और भव्य जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—जिन जीवोंके अन्तर्मुहूर्त काल तक अवस्थितबन्ध होता है उनके असंख्यात-भागहानि और असंख्यातभागवृद्धिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त उपलब्ध होता है । जो जीव अन्तर्मुहूर्त काल तक उपशान्त मोहमें रहकर गिरते हैं उनके अवस्थितबन्धका अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होता है । संख्यातभागवृद्धिबन्ध और संख्यातगुण-वृद्धिबन्ध तथा संख्यातभागहानिबन्ध और संख्यातगुणहानिबन्ध ये एकेन्द्रियके नहीं होते इसी बातको ध्यानमें रखकर इनका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है और असंख्यातगुण-हानिबन्ध तथा असंख्यातगुणवृद्धिबन्ध यतः श्रेणिमें ही होते हैं अतः इनका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

३७१. आदेशसे नारकियोंमें सात कर्मोंके तीन वृद्धि और तीन हानि बन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । इसी प्रकार सब नारकी, मनुष्य अपर्याप्त, और सब देवोंके तथा एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकाय जीवोंके अपने अपने पदोंका तथा वैक्रियिककाययोगी, विभङ्गज्ञानी, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, पीतलेश्यावाले, पद्म-लेश्यावाले, वेदगसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए ।

३७२. तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंके तीन वृद्धि और तीन हानिबन्धका अन्तर ओघके समान है । अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । इसी प्रकार मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चिकमें सात कर्मोंके दो वृद्धि और दो हानिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय

१. भंगो । सव्वद्धा एवं इति पाठः ।

वड्डि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० तिणिएण सम० । एवं पंचिदिय'अपज्ज० ।

३७३. मणुस०३ सत्तएणं क० तिणिएणवड्डि-हाणिबंधंतरं जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं अवट्टि० । असं०गुणवड्डि-हाणि-अवत्तव्वं० जह० अंतो०, उक्क० पुव्व-कोट्टिपुधत्तं ।

३७४. पंचिदिय-तसपज्जत्ता सत्तएणं क० दोणिएणवड्डि-हाणि-अवट्टिदबंधंतरं जह० एग० उक्क० अंतो० । संखेज्जगुणवड्डि-हाणि० पंचिदियतिरिक्खभंगो । असंखेज्जगुणवड्डि-हाणि-अवत्तव्व० मूलोधं । एवरि सगट्टिदि भाणिएद्वं । तस-

और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । संख्यातगुण वृद्धि और संख्यागुणहानिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण है । अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सात कर्मोंके तीन वृद्धिबन्ध और तीन हानिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है । इसी प्रकार अर्थात् पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—पहले भुजगारबन्धका उत्कृष्ट काल चार समय बतला आये हैं, इसलिए यहाँ सामान्य तिर्यञ्चोंमें अवस्थित बन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल चार समय कहा है । परन्तु जो एकेन्द्रिय या विकलेन्द्रिय विकलत्रय या पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें उत्पन्न होगा उसके ही यह अन्तर काल सम्भव है । वैसे अवस्थितबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल तीन समयसे अधिक उपलब्ध नहीं होता । यही कारण है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीवोंमें अवस्थितबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल तीन समय कहा है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण है । इसीसे इनमें संख्यात-गुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण कहा है, क्योंकि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमेंसे किसीने कायस्थितिके प्रारम्भमें संख्यातगुणवृद्धिबन्ध या संख्यातगुणहानिबन्ध किया । पश्चात् अपनी कायस्थितिके अन्तमें यह बन्ध किया तो कुछ कम उक्त काल प्रमाण यह अन्तर आ जाता है । अन्य मार्गणाओंमें भी जहाँ कायस्थिति प्रमाण अन्तर कहा हो वहाँ इसी प्रकार यह अन्तरकाल घटित कर लेना चाहिए ।

३७३. मनुष्यत्रिकमें सात कर्मोंके तीन वृद्धिबन्ध और तीन हानिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार अवस्थितबन्धका अन्तर है । असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण है ।

३७४. पञ्चेन्द्रियपर्याप्त और त्रसपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंके दो वृद्धिबन्ध, दो हानि-बन्ध और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इनके संख्यातगुणवृद्धिबन्ध और संख्यातगुणहानिबन्धका अन्तर पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चोंके समान है । तथा असंख्यातगुणवृद्धिबन्ध, असंख्यातगुणहानिबन्ध और अवक्तव्यबन्धका अन्तर मूलोधके समान है । इतनी विशेषता है कि इनका उत्कृष्ट अन्तर कहते समय वह अपनी

१. मूलप्रतौ पंचिचिय-तिरिक्खअपज्जत्त० इति पाठः । २. मूलप्रतौ तसपज्जत्त इति पाठः ।

अपज्जत्त० सत्तएणं क० तिणिएणवड्ढि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो०^१ । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० चत्तारिसमयं ।

३७५. पंचमणं-पंचवचि० सत्तएणं क० तिणिएणवड्ढि-हाणि-अवट्ठिदंबं० णिरय-भंगो । असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणि० जहएणु० अंतो० । अवत्तव्वं एत्थि अंतरं । एवं क्रोधादि०४ । एवरि अवट्ठि० चत्तारिसम० । अवत्तव्वं एत्थि । लोभे मोह० अवत्तव्वं एत्थि अंतरं ।

३७६. कायजोगि० सत्तएणं क० असंखेज्जभागवड्ढि-हाणि-असंखेज्जगुणवड्ढि-अवट्ठिदंबं० जह० एग०, उक्क० अंतो० । दो वड्ढि-हाणि० ओघं । असंखेज्जगुण-हाणि० मण०भंगो । अवत्तव्वं एत्थि अंतरं ।

३७७. ओरालियका० मण०भंगो । ओरालियमि०-[वेउव्वियमि०] पंचिदियअप-

अपनी कायस्थिति प्रमाण कहना चाहिए । त्रस अपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंके तीन वृद्धिबन्ध तीन हानिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है ।

३७५. पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीवोंके सात कर्मोंके तीन वृद्धिबन्ध, तीन हानिबन्ध और अवस्थितबन्धका अन्तर नारकियोंके समान है । असंख्यातगुणवृद्धिबन्ध और असंख्यातगुणहानिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तथा अवक्तव्य-बन्धका अन्तर काल नहीं है । इसी प्रकार क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अवस्थितबन्धका उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । तथा इनके अवक्तव्यबन्ध नहीं होता । मात्र लोभ कषायमें मोहनीय कर्मका अवक्तव्यबन्ध होता है पर उसका अन्तर काल नहीं उपलब्ध होता ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रिय या विकलत्रयके मरकर विकलत्रय या पञ्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न होने पर भवके प्रथमादि समयोंमें मनोयोग और वचनयोग नहीं होता, इसलिए इन योगवाले जीवोंके अवस्थितबन्धका उत्कृष्ट अन्तर नारकियोंके समान दो समय कहा है किन्तु चारों कषायवाले जीवोंके उक्त प्रकारसे मरकर अन्य पर्यायमें उत्पन्न होते समय एक कषायका सद्भाव बना रहता है, इसलिए इनके अवस्थितबन्धका उत्कृष्ट अन्तर चार समय घटित हो जानेके कारण वह उक्त प्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

३७६. काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके असंख्यातभागवृद्धिबन्ध, असंख्यातभागहानिबन्ध असंख्यातगुणवृद्धिबन्ध और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । दो वृद्धिबन्ध और दो हानिबन्धका अन्तर ओघके समान है । असंख्यातगुण-हानि बन्धका अन्तर मनोयोगियोंके समान है । इनके अवक्तव्यबन्धका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—किसी एक काययोगी जीवने उपशमश्रेणिसे उतरकर अनिवृत्तिकरणमें असंख्यातगुणवृद्धिबन्ध किया और एक समयका अन्तर देकर वह मरकर देव हो गया । इस प्रकार असंख्यातगुणवृद्धिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय देखकर यह अन्तर उक्त प्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

३७७. औदारिककाययोगी जीवोंमें सब पदोंका अन्तर मनोयोगियोंके समान है ।

१. मूलप्रती अंतो० । अवट्ठि० जह० एग० उक्क० अंतो० । अट्ठि० इति पाठः ।

ज्जत्तभंगो । वेउव्वियमि० आयु० एत्थि । आहार०-आहारमि० सत्तएणं क०
णिरयभंगो । कम्मइ० सत्तएणं क० तिणिएवड्ढि-हाणिवं० एत्थि अंतरं । अवट्ठि०
जहएणु० एगस० ।

३७८. इत्थि०-पुरिस० सत्तएणं क० वेवड्ढि-हाणि० जह० एग०, उक्क०
अंतो० ।^१ संखेज्जगुण-[वड्ढि]हाणिवंधं० जह० एग०, उक्क० पुन्वकोडिपुधत्तं । अवट्ठि०
जह० एग०, उक्क० तिणिएण सम० । इत्थि०^२ असंखेज्जगुणवड्ढिहाणि० जहएणु०
अंतो० । एवं पुरिस० । एवरि असंखेज्ज०वड्ढि० जह० एग०, उक्क० सागरोवमसद-
पुधत्तं । असंखेज्जगुणहाणि० जह० अंतो० उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । एवुंस०
सत्तएणं क० तिणिएवड्ढि-हाणि० ओघं । अवट्ठिद० जह० एग०, उक्क० चत्तारि
समयं । असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणि० जहएणु० अंतो० । अवगद० एणावर०-दंसणा-
वर०-अंतराइ० संखेज्जभागवड्ढि-हाणि-संखेज्जगुणवड्ढि-हाणि० वेदणीय-णामा-
गोदाणं तिणिएवड्ढि-हाणि० मोह० संखेज्जभागवड्ढि-हाणि० जहएणु० अंतो० ।

औदारिक मिश्रकाययोगी और वैक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें अपने पदोंका अन्तर
पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके समान है । वैक्रियिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें आयुकर्मका बन्ध नहीं
होता । इनमें तथा आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके
अपने पदोंका अन्तर नारकियोंके समान है । कर्मणकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके
तीन वृद्धिबन्ध और तीन हानिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अवस्थितबन्धका जघन्य और
उत्कृष्ट अन्तर एक समय है ।

३७८. स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके दो वृद्धिबन्ध और दो हानिबन्ध-
का जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । संख्यातगुणवृद्धिबन्ध और
संख्यातगुणहानिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व
प्रमाण है । अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है ।
स्त्रीवेदमें असंख्यातगुणवृद्धिबन्ध और असंख्यातगुणहानिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट
अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । इन दोनों पदोंका अन्तरकाल इसी प्रकार पुरुषवेदमें जानना
चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणवृद्धिबन्धका जघन्य अन्तरकाल एक
समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल सौ सागरपृथक्त्व है । असंख्यातगुणहानिबन्धका जघन्य
अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । नपुंसकवेदवाले
जीवोंमें सात कर्मोंके तीन वृद्धिबन्ध और तीन हानिबन्धका अन्तर ओघके समान है । अव-
स्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । असंख्यातगुण-
वृद्धिबन्ध और असंख्यातगुणहानिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अप-
गतवेदवाले जीवोंमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मके संख्यातभागवृद्धिबन्ध,
संख्यातभागहानिबन्ध, संख्यातगुणवृद्धिबन्ध और संख्यातगुणहानिबन्धका; वेदनीय, नाम
और गोत्रकर्मके तीन वृद्धिबन्ध और तीन हानिबन्धका तथा मोहनीय कर्मके संख्यातभाग-
वृद्धिबन्ध और संख्यातभागहानिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तथा

१. मूलप्रतौ संखेज्जगुणहाणिवंधं० इति पाठः । २. मूलप्रतौ इत्थि० संखेज्जगुण—इति पाठः ।

सत्तणं क० अवट्टि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्तव्वं एत्थि अंतरं ।

३७६. आभि०-सुद०-ओधि० सत्तणं क० तिण्णवट्टि-हाणि-अवट्टिद० जह० एग०, उक्क० अंतो० । असंखेज्जगुणवट्टि-हाणि-अवत्तव्व० जह० अंतो०, उक्क० छावट्टि-सागरो० सादि० । एवरि वट्टि० एग० । एवं ओधिदं०-सम्मादि० । एवं खइग० । एवरि तेत्तीसं साग० सादिरे० । मणपज्ज० सत्तणं क० तिण्णवट्टि-हाणि-अवट्टि० ओधिभंगो । असंखेज्जगुणवट्टि-हाणि-अवत्तव्व० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । एवं संजद० ।

सात कर्मोंके अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्कव्यबन्धका अन्तर काल नहीं है ।

विशेषार्थ—यद्यपि स्त्रीवेदी और नपुंसकवेदी जीव उपशमश्रेणिपर आरोहण करते समय और उतरते समय उपशमश्रेणिमें इन वेदोंके साथ मरण करते हैं पर उनका मरणोत्तर कालमें वेद बदल जाता है इसलिए इन दोनों वेदोंमें असंख्यातगुणवृद्धिबन्ध और असंख्यातगुणहानिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं प्राप्त होता । किन्तु पुरुषवेदी जीवका मरणोत्तर कालमें वही वेद बना रहता है, इसलिए इसमें असंख्यातगुणवृद्धिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम सौ सागरपृथक्त्व प्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि जो पुरुषवेदी जीव उपशमश्रेणिपर आरोहण कर अनिवृत्तिकरण या सूक्ष्मसाम्परायमें मरकर देव होकर असंख्यातगुणवृद्धिबन्धका प्रारम्भ करता है । पश्चात् पुरुषवेदके साथ कुछ कम सौ सागरपृथक्त्व कालतक परिभ्रमण करते हुए अपनी कायस्थितिके अन्तमें पुनः उपशमश्रेणिपर चढ़कर उतरते समय पुनः असंख्यातगुणवृद्धिबन्ध करता है उसके असंख्यातगुणवृद्धिबन्धका उक्त प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होता है । तथा इसके असंख्यातगुणहानिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहनेका कारण यह है कि जो पुरुषवेदी उपशमश्रेणिपर आरोहण कर और अनिवृत्तिकरणमें असंख्यातगुणहानिबन्ध कर पश्चात् मरकर तेतीस सागर आयुके साथ देव होता है । पश्चात् वहांसे आकर और पुनः पुरुषवेदके साथ उपशमश्रेणिपर आरोहणकर अनिवृत्तिकरणमें असंख्यातगुणहानिबन्ध करता है उसके इस पदका उक्त काल प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर काल उपलब्ध होता है । शेष कथन स्पष्ट है ।

३७९. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके तीन वृद्धिबन्ध, तीन हानिबन्ध और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातगुणवृद्धिबन्ध, असंख्यातगुणहानिबन्ध और अवक्कव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ्यासठ सागर है । इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणवृद्धिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके साधिक छ्यासठ सागरके स्थानमें साधिक तेतीस सागर कहना चाहिए । मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके तीन वृद्धिबन्ध, तीन हानिबन्ध और अवस्थित बन्धका अन्तर अवधिज्ञानियोंके समान है । असंख्यातगुणवृद्धिबन्ध, असंख्यातगुणहानिबन्ध और अवक्कव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिए ।

३८०. सामाङ्ग-छेदो० सत्तएणं क० णिरयभंगो । एवरि असंखेज्जगुण-वड्डि-हाणि० जहएणु० अंतो० । परिहार०-संजदासंजद० सत्तएणं क० णिरयभंगो । सुहुमसंप० ङ्गणं कम्मणं संखेज्जभागवड्डि-हाणि० जह० उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जहएणु० एग० । चक्खुदं० तसपज्जत्तभंगो ।

३८१. तिणिले० सत्तएणं क० णिरयभंगो । एवरि अवट्ठि० जह० एग० उक्क० चत्तारि समयं । सुक्काए आणदभंगो । एवरि असंखेज्जगुणवड्डि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । असंखेज्जगुणहाणि० जहएणु० अंतो० । अवत्त० एत्थि अंतरं ।

३८२. उवसम० सत्तएणं क० चत्तारि वड्डि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त० सुक्काए भंगो । असएणीसु वड्डि-हाणि० ओघं । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० तिणिले सम० । संखेज्जगुणवड्डि-हाणि० जह० खुदा०, उक्क० अणंतकालमसं० । सएण० पंचिदिय-पज्जत्तभंगो । एवरि संखेज्जगुणवड्डि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । आहारा० ओघं । एवरि सगट्ठिदि भाणिदव्वं । अणाहारा० कम्मङ्गभंगो । एवं अंतरं समत्तं ।

३८०. सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें सात कर्मोंके अपने पदोंका अन्तर नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणवृद्धिबन्ध और असंख्यात-गुणहानिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंमें सात कर्मोंके अपने पदोंका अन्तर नारकियोंके समान है । सूक्ष्मसाम्प-रायसंयत जीवोंमें छह कर्मोंके संख्यातभागवृद्धिबन्ध और संख्यातभागहानिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । चक्षुदर्शनी जीवोंमें सात कर्मोंके अपने पदोंका अन्तर त्रसपर्याप्तकोंके समान है ।

३८१. तीन लेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोंके अपने पदोंका अन्तर नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । शुक्ललेश्यामें सात कर्मोंके अपने पदोंका अन्तर आनत कल्पके समान है । इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणवृद्धिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातगुणहानिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तथा अवक्तव्यबन्धका अन्तरकाल नहीं है ।

३८२. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके चार वृद्धिबन्ध, चार हानिबन्ध, अव-स्थितबन्ध और अवक्लव्यबन्धका अन्तर शुक्ललेश्याके समान है । असंज्ञी जीवोंमें वृद्धिबन्ध और हानिबन्धका अन्तर ओघके समान है । अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है । संख्यातगुणवृद्धिबन्ध और संख्यातगुणहानिबन्धका जघन्य अन्तर क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । सज्ञी जीवोंमें सात कर्मोंके अपने पदोंका अन्तर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त-कोंके समान है । इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणवृद्धिबन्ध और संख्यातगुणहानिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आहारक जीवोंमें सात कर्मोंके अपने पदोंका अन्तर ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि यहां असंख्यातगुणवृद्धिबन्ध और असंख्यातगुणहानिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कहते समय वह अपनी उत्कृष्ट कायस्थिति-प्रमाण कहना चाहिए । अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके अपने पदोंका अन्तर कार्मणकाय-योगी जीवोंके समान है । इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

णाणाजीवेहि भंगविचयो

३८३. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमो दुविधो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण सत्तणं कम्माणं असंखेज्जभागवद्धि० हाणि० अवद्धिदबंधगा य णियमा अत्थि । सेसाणि पदाणि भयणिज्जाणि । आयु० दो वि पदा णियमा अत्थि । एवं ओघ-भंगो तिरिक्खोधादि सव्वेसिं अणंतरासीणं सगपदाणि ।

३८४. मणुसअपज्जत्त-वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि०-अवगद०-सुहुमसं०-उवसम०-सासण०-सम्पामि० सव्वपदाणि भयणिज्जाणि ।

३८५. पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं च बादर० बादरअपज्जत्ता० तेसिं सव्व-सुहुम० बादरवण०पत्तेय० तस्सेव अपज्जत्त० अट्टणं क० सव्वपदाणि णियमा अत्थि । सेसाणि णिरयादि याव सणिण त्ति सत्तणं क० अवद्धि० णियमा अत्थि । सेसाणि पदाणि भयणिज्जाणि । आयु० दो पदाणि भयणिज्जाणि । एवं भंगविचयो समाप्तो ।

नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय

३८३. नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचयानुगम दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सात कर्मोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । आयुकर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीव नियमसे हैं । इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्चोंसे लेकर सब अनन्त राशियोंके अपने-अपने पदोंके अनुसार भङ्ग जानने चाहिए ।

विशेषार्थ—कुल पद १० हैं—चार वृद्धिबन्ध, चार हानिबन्ध अवस्थितबन्ध और अवक्लव्यबन्ध । इनमेंसे ओघसे तीन पदवाले जीव नियमसे हैं इसलिये यह एक ध्रुव भङ्ग है । तथा सात पद भजनीय होनेसे $3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^{14} - 1 = 2^{14} - 1$ अर्ध्रुव भङ्ग होते हैं । तथा इनमें १ ध्रुव भङ्ग मिलानेपर ध्रुव और अर्ध्रुव कुल भङ्ग $2^{14} + 1$ होते हैं ।

३८४. मनुष्य अपर्याप्त, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, सूक्ष्मसाम्परायसंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि इन मार्गणाओंमें सब पद भजनीय हैं ।

विशेषार्थ—मनुष्य अपर्याप्तकोंके ७ पद, वैक्रियिकमिश्रकाययोगीके ७ पद, आहारककाययोगीके ७ पद, आहारकमिश्रकाययोगीके ७ पद, अपगतवेदीके ८, सूक्ष्मसाम्परायसंयत के ३, उपशमसम्यग्दृष्टिके १०, सासादनसम्यग्दृष्टिके ७ और सम्यग्मिथ्यादृष्टिके ७ पद होते हैं । अतः सात पदवालीं जितनी मार्गणाएँ हैं उनमेंसे प्रत्येकमें $2^{14} - 1$, अपगतवेद मार्गणामें $2^{14} - 1$, सूक्ष्मसाम्परायसंयत मार्गणामें $2^3 - 1$ और उपशम सम्यग्दृष्टि मार्गणामें $2^{10} - 1$ अर्ध्रुवभङ्ग होते हैं । इन भङ्गोंके लानेकी विधि पहले कह आये हैं ।

३८५. पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक तथा इनके बादर और बादर अपर्याप्त तथा इनके सब सूक्ष्म, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर और इनके अपर्याप्त जीवोंमें आठ कर्मोंके अपने अपने सब पदवाले जीव नियमसे हैं । नारकियोंसे लेकर संश्लितक शेष सब मार्गणाओंमें सात कर्मोंके अवस्थित पदवाले जीव नियमसे हैं । तथा शेष पद भजनीय हैं । तथा आयुकर्मके दोनों ही पद भजनीय हैं ।

इस प्रकार भङ्गविचयानुगम समाप्त हुआ ।

भागाभागो

३८६. भागाभागानुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सत्तएणं क० असंखेज्जभागवट्ठि-हाणिवंधगा सव्वजीवाणं केवडियो भागो ? असंखेज्जदिभागो । अवट्ठिदबंध० केवडियो भागो ? असंखेज्जा भागा । सेसाणं पदाणं बंध० सव्व० केव० ? अणंतभागो । आयु० भुजगारभंगो सव्वत्थ । एवं अणंतरासीणं सव्वेसिं । एवरि सगपदाणि जाणिदव्वाणि । सेसाणं असंखेज्जजीवाणं अवट्ठि० असंखेज्जा भागा । सेसपदाणि असंखेज्जदिभागो । संखेज्जजीवाणं पि अवट्ठि० संखेज्जा भागा । सेसपदा० संखेज्जदिभागो । एवं भागाभागं समत्तं ।

परिमाणं

३८७. परिमाणानुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० असंखेज्जभागवट्ठि-हाणि-अवट्ठिदबंधगा केत्तिया ? अणंता । दोवट्ठि-हाणिवंध० असंखेज्जा । असंखेज्जगुणवट्ठिहाणि-अवत्तव्वबंधगा संखेज्जा । आयु० दो पदा अणंता । एवं ओघ-भंगो तिरिक्खोघं एइंदिय-वणप्फदि-णियोद-कायजोगि-ओरालियका०-ओरालियमि०-

भागाभाग

३८६. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सात कर्मोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात भागहानिका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । शेष पदोंका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । आयु-कर्मके दोनों पदोंका भागभाग सर्वत्र भुजगार बन्धके समान है । इसी प्रकार सब अनन्त राशियोंका भागाभाग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपने अपने पदोंको जानकर भागाभाग कहना चाहिए । शेष असंख्यात जीवप्रमाण मार्गणाओंमें अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव अपनी अपनी राशिके असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । तथा शेष पदोंका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । संख्यात संख्यावाली मार्गणाओंमें भी अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव अपनी अपनी राशिके संख्यात बहुभागप्रमाण हैं और शेष पदोंका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं ।

इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ ।

परिमाण

३८७. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । दो वृद्धियों और दो दानियोंका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं । असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं । आयुकर्मके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीव अनन्त हैं । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक, निगोद, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी,

कम्मइ०-एवुंस०-कोधादि०-४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-किण्ण०-णील०-काउ०-भवसि०-मिच्छादि०-असण्ण-आहारग ति । एवरि सगपदाणि जाणिदव्वाणि ।

३८८. मणुसेसु सत्तएणं क० तिण्णवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० आयु दो पदा० असंखेज्जा । [सत्तएणं कम्माणं सेसपदा० संखेज्जा ।] एवं पंचिंदिय-तस०-२-पंचमण०-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-आभि०-सुद०-ओधि०-चक्खुदं०-ओधिदं०-सुकले०-सम्मादि०-खइग०-सण्ण ति । एवरि इत्थिवे०-पुरिस० सत्तएणं क० अवत्त० एत्थि । सुक्कले०-खइग० आयु० संखेज्जा ।

३८९. मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु' [सव्वपदा] आहार०-आहारमि०-अवगद०-मणपज्ज०-संजद०-सामाइ०-खेदो०-परिहार०-सुहुमसं० सगपदा० संखेज्जा । सेसाणं णिरयादीणं अट्ठएणं क० सगपदा० असंखेज्जा । एवरि आणदादि उवरिमदेवेसु आयु० दो वि पदा०^१ संखेज्जा । उवसमस० मणुसोर्घं । एवं परिमाणं समत्तं ।

खेत्तं

३९०. खेत्ताणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सत्तएणं कम्माणं याणि पदाणि परिमाणे अणंता असंखेज्जा लोगाणि ताणि सव्वलोगे । सेसाणि पदाणि श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्ण लेश्यावाले, नील लेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य, मिथ्यादृष्टि, असंखी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपने अपने पद जानकर परिमाण कहना चाहिए ।

३९१. मनुष्योंमें सात कर्मोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका तथा आयु-कर्मके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं । तथा सात कर्मोंके शेष तीन पदोंका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, और संखी जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके अवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव नहीं हैं । तथा शुक्ललेश्यावाले और ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें आयु-कर्मके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं ।

३९२. मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियतोंमें सब पदोंका तथा आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना-संयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोंमें अपने अपने पदोंका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं । शेष नारकादि मार्गणाओंमें आठों कर्मोंके अपने अपने पदोंका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं । इतनी विशेषता है कि आनतादि ऊपरके देवोंमें आयुकर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं । उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण सामान्य मनुष्योंके समान है । इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ ।

क्षेत्र

३९३. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघकी अपेक्षा सात कर्मोंके जिन पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण अनन्त और असंख्यात

१. मूलप्रतौ मणुसिणीसु सद्ध० आहार० इति पाठः । २. मूलप्रतौ पदा० असंखेज्जा इति पाठः ।

लोगस्स असं० । आयु० दो वि पदा सव्वलोगो । एवरि बादरएइंदिय-बादरवाउ०
आयुग० दो वि पदा० लोगस्स संखेज्ज० । बादरवाउ०पज्जत्ता सव्वे भंगा लोगस्स
संखेज्ज० । सेसबादर-बादरअपज्जत्ता० लोगस्स असंखेज्जदिभागे । सेसासु सव्वेसिं
सव्वे भंगा लोग० असंखेज्जदिभागे । एवं खेत्तं समत्तं ।

फोसणं

३६१. फोसणाणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सत्तएणं क० असं-
खेज्जभागवड्ढि-हाणि-अवट्ठिदबंधगेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? सव्वलोगो । दोवड्ढि-
हाणि० अट्ठचोइस० सव्वलोगो वा । सेसपदा० खेत्तं । आयु० दो वि
पदा० सव्वलोगे ।

३६२. आदेसेण एरइएसु सत्तएणं क० तिणिएणवड्ढि-हाणि-अवट्ठिद०
अट्ठचोइस० । आयु० खेत्तं ।

लोकप्रमाण है उनका क्षेत्र सब लोक है । तथा शेष पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । आयुकर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र
सब लोक है । इतनी विशेषता है कि बादर एकेन्द्रिय और बादर वायुकायिक जीवोंमें आयु-
कर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है । बादर
वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भाग-
प्रमाण है । शेष रहे बादर और बादर अणुर्थात् जीवोंमें सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका
क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । शेष रहीं सब मार्गणाओंमें सब कर्मोंके सब पदोंका
बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

इस प्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ ।

स्पर्शन

३९१. स्पर्शनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघकी
अपेक्षा सात कर्मोंकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थित पदका बन्ध
करनेवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? सब लोकका स्पर्श किया है । दो वृद्धियों
और दो हानियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोक
क्षेत्रका स्पर्श किया है । शेष पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।
आयुकर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

विशेषार्थ—संख्यात भागवृद्धि और संख्यात भागहानिका बन्ध द्वीन्द्रिय आदि जीवोंके
होता है तथा संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका बन्ध पञ्चेन्द्रियोंके होता है यह पहले
कह आये हैं । इस दृष्टिसे इन पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ
बटे चौदह राजु और सब लोक कहा है । विशेष खुलासा खुदाबन्धको देखकर कर लेना
चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

३६२. आदेशसे नारकियोंमें सात कर्मोंकी तीन वृद्धियों, तीन हानियों और अवस्थित
पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्श किया है । आयु-
कर्मके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

१. मूलप्रतौ खेत्तं । एवं भुजगारभंगो तिरिक्खेसु इति पाठः ।

३६३. तिरिक्खेसु सत्तएणं क० बेवड्ढि-हाणि० लोग० असं० सव्वलो० । सेसं ओघं । सव्वपंचिंदियतिरिक्खेसु सत्तएणं क० तिण्णवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० लोग० असं० सव्वलो० । आयु० खेत्तं । एवं मणुसअप० । विगल्लिदि० बेवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० तं चेव । पंचिंदिय-तसअप०-मणुस०३ सत्तएणं क० तिण्णवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० पंचिंदियतिरिक्खभंगो । सेसं खेत्तं । देवेसु भुजगारभंगो ।

३६४. सव्वएइंदिय-पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वणप्फदिपत्तेय०-णियोदेसु अट्ठएणं क० सव्वपदा० सव्वलोगो । एवरि सव्वबादरएइंदिय-बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-बादरवणप्फदि-णियोद-बादरवणप्फदिपत्तेय० आयु० खेत्तं । बादर-पुढवि०-आउ०-तेउ०-पज्जत्ता० पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो । एवं बादरवाउ० पज्ज० । एवरि लोग० संखेज्ज० ।

३६५. पंचिंदिय-तस०२ सत्तएणं क० तिण्णवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० अट्ठचोइस० सव्वलोगो वा । सेसपदा० खेत्तं । आयु० दो वि पदा अट्ठचो० । एवं पंचमण०-पंच-

३९३. तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंकी दो वृद्धियों और दो हानियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका और सब लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । शेष पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन ओघके समान है । सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंकी तीन वृद्धियों तीन हानियों और अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सब लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । आयुकर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । विकलेन्द्रियोंमें अपने पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन इसी प्रकार है । पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त और मनुष्यत्रिकमें सात कर्मोंकी तीन वृद्धियों, तीन हानियों और अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । शेष पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । देवोंमें सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन भुजगारानुगम के समान है ।

३९४. सब एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वन-स्पतिकायिक प्रत्येकशरीर और निगोद जीवोंमें आठों कर्मोंके सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोकका स्पर्श किया है । इतनी विशेषता है कि सब बादर एकेन्द्रिय, सब बादर पृथिवीकायिक, सब बादर जलकायिक, सब बादर अग्निकायिक, सब बादर वायुकायिक, सब बादर वनस्पतिकायिक, सब बादर निगोद और सब बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर जीवोंमें आयु कर्मके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त और बादर अग्निकायिक पर्याप्त जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है । इसी प्रकार बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें लोकका संख्यातवाँ भागप्रमाण स्पर्शन है ।

३९५. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विकमें सात कर्मोंकी तीन वृद्धियों, तीन हानियों और अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । शेष पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

वचि०-इत्थि०-पुरिस०-चक्खु०-सणिएण० । ओघभंगो कायजोगि-कोधादि०-४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छादि०-आहारग ति । एवं चेव ओरालि०-ओरालियमि०-एवुंस०-किरण०-णील०-काउ० । एवरि तिरिक्खोघो कादव्वो ।

३९६. वेडव्वियकायजो० सत्तएणं क० तिणिएणवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० अट्टतेरह० । कम्मइ० खेत्तं । एवरि वेवड्ढि-हाणि० केव० खेत्तं फोसिदं ? लोग० असं० एका-रहचो० । विभंगे अट्टचो०भा० सव्वलोगो० ।

३९७. आभि०-सुद०-ओधि० सत्तएणं क० तिणिएणवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० आयु० दो वि पदा अट्टचो० । सेसं खेत्तं । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-खइग०-वेदगस०-उवसम० ।

३९८. तेउ० देवोघं । पम्मले० सव्वे भंगा अट्टचो० । सुकाए छच्चोदस० ।

आयु कर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्श किया है । इसी प्रकार पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, चक्षु-दर्शनी और संक्षी जीवोंके जानना चाहिए । काययोगी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और अहारक जीवोंमें स्पर्शन ओघके समान है । तथा इसी प्रकार औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, नपुंसक-वेदी, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले और कापोतलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इन मार्गशास्त्रोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान स्पर्शन जानना चाहिए ।

३९६. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंकी तीन वृद्धियों, तीन हानियों और अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । कर्मणकाययोगी जीवोंमें सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इतनी विशेषता है कि दो वृद्धियों और दो हानियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्श किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग व कुछ कम ग्यारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्श किया है । विभङ्गज्ञानी जीवोंमें अपने पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु, कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु और सब लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

३९७. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंकी तीन वृद्धियों तीन हानियों और अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने तथा आयुकर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्श किया है । शेष पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार अवधि-दर्शनी सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए ।

३९८. पीतलेश्यावाले जीवोंने अपने सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन सामान्य देवोंके समान है । पद्मलेश्यावाले जीवोंमें सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्श किया है । शुक्ल लेश्यावाले जीवोंमें अपने सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

३६६. सासणे सत्तएणं क० तिणिएणवड्ढि-हाणिए-अवट्ठि० अट्ठ-वारहचो० । आयु० दो वि पदा अट्ठवा० । सम्माभि० सत्तएणं क० तिणिएणवड्ढि-हाणिए-अवट्ठि० अट्ठचो० ।

४००. असणिएण० सत्तएणं क० एकवड्ढि-हाणिए-अवट्ठि० सव्वलो० । दोवड्ढि-हाणिए० लोण० असं० सव्वलो० । आयु० दो वि पदा सव्वलो० । अणोहार० सत्तएणं क० असंखेज्जभागवड्ढि-हाणिए-अवट्ठि० सव्वलो० । वेवड्ढि-हाणिए० लोण० असं० एकारसचो० । वेउण्वियमिस्सादि सेसं खेतं । एवं फोसणं समत्तं ।

कालो

४०१. कालाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० सत्तएणं क० असंखेज्ज-भागवड्ढि-हाणिए-अवट्ठिदबंधगा केव० ? सव्वद्धा । वेवड्ढि-हाणिएबंध० जह० एण०, उक्क० आवलि० असंखेज्जदिभागो । असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणिए-अवत्त० जह० एण०, उक्क० संखेज्जसमयं । एवं जम्हि असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणिए-अवत्त० तम्हि याव

३९९. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंकी तीन वृद्धियों, तीन हानियों और अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्श किया है । आयुकर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्श किया है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंकी तीन वृद्धियों, तीन हानियों और अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्श किया है ।

४००. असंखी जीवोंमें सात कर्मोंकी एक वृद्धि, एक हानि और अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । दो वृद्धियों और दो हानियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सब लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । आयुकर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्श किया है । दो वृद्धियों और दो हानियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और कुछ कम ग्यारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्श किया है । वैक्रियिकमिश्र आदि शेष मार्गणाओंमें अपने पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ ।

काल

४०१. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है—ओघ और आदेश । ओघसे सात कर्मोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना काल है ? सब काल है । दो वृद्धियों और दो हानियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । जिन मार्गणाओंमें असंख्यात

अणाहारग त्ति णादच्चं । आयु० दो वि पदा सव्वद्धा । एवं अणंत-असंखेज्जलौ-गरासीणं अप्पणो पदाणि ।

४०२. आदेसेण एेरइएसु सत्तएणं क० तिण्णवट्ठि-हाणि० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखेज्ज० । अवट्ठि० सव्वद्धा । आयु० भुजगारभंगो । एवं सव्वाणं असंखेज्जरासीणं । सव्वाणं संखेज्जरासीणं पि तं चेव । एवरि यम्हि आवलियाए असंखेदिभागो तम्हि संखेज्जसमयं । भयण्णज्जरासीसु अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० पगदिकालो । तिरिक्खगदीए सेसेसु ओघभंगो जाणिदूण एेदच्चं । एवं कालं समत्तं ।

अंतरं

४०३. अंतराणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० सत्तएणं क० असंखेज्ज-भागवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० एत्थि अंतरं । वेवट्ठि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं अणंतरासीणं सव्वपदाणि । असंखेज्जगुणवट्ठि-अवत्त० जह० एग०, उक्क० वासपुधत्तं । असं०गुणहाणि० जह० एग०, उक्क० छम्मासं । एवं याव अणाहारग

गुणवृद्धि असंख्यात गुणहानि और अवक्लव्य पद होते हैं उनमें अनाहारक मार्गणा तक इसी प्रकार काल जानना चाहिए । आयुकर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है । इसी प्रकार अनन्त राशियों और असंख्यात लोकप्रमाण राशियोंका अपने अपने पदोंकी अपेक्षा काल जानना चाहिए ।

४०२. आदेशसे नारकियोंमें सात कर्मोंकी तीन वृद्धियों और तीन हानियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है । अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है । आयुकर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल भुजगार बन्धके समान है । इसी प्रकार सब असंख्यात राशियोंका काल जानना चाहिए । तथा सब संख्यात राशियोंका काल भी इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि जहाँ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण काल कहा है वहाँ संख्यात समय काल कहना चाहिए । तथा जितनी भजनीय राशियाँ हैं उनमें अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपने अपने प्रकृतिबन्धके कालके समान है । तिर्यञ्च गतिमं तथा शेष मार्गणाओंमें ओघके समान काल जानकर कथन करना चाहिए ।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ ।

अन्तर

४०३. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सात कर्मोंकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका अन्तर काल नहीं है । दो वृद्धियों और दो हानियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार अनन्त राशियोंके सब पदोंका अन्तरकाल जानना चाहिए । असंख्यातगुणवृद्धि और अवक्लव्य पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्ष पृथक्त्व है । असंख्यात गुणहानिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि

त्ति । एवरि असंखेज्जगुणहाणि० जाणिदव्वं । एदेसिं आयुगं दो पदा भुजगारभंगो ।
४०४. एणएसु सत्तएणं क० तिण्णवट्टि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।
अवट्टि० एत्थि अंतरं । आयु० भुजगारभंगो । यम्हि दो वट्टि-हाणि० अत्थि तम्हि
तेसिं ओघं । सेसपदा० सव्वत्थ भुजगारभंगो । एवरि सांतररासीणं सव्वपदा० पग-
दिअंतरं । एवं अंतरं समत्तं ।

भावो

४०५. भावाणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सत्तएणं क० चत्तारिवट्टि-
हाणि-अवट्टि०-अवत्त०-बंधगा आयु० अवत्त०-असंखेज्जभागहाणिबंधगा त्ति को
भावो ? ओदइगो भावो । एवं याव अणाहारग त्ति एदेव्वं । एवं भावं समत्तं ।

अप्पाबहुगं

४०६. अप्पाबहुगं दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सत्तएणं क० सव्वत्थोवा
अवत्तव्वबंधगा । असंखेज्जगुणवट्टिबंधगा संखेज्जगुणा । असंखेज्जगुणहाणिबंधगा
इनमें असंख्यात गुणहानिका अन्तर काल जानकर कहना चाहिए । इन सब जीवोंके
आयु कर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका अन्तर काल भुजगार बन्धके
समान है ।

४०४. नारकियोंमें सात कर्मोंकी तीन वृद्धियों और तीन हानियोंका बन्ध करनेवाले
जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका बन्ध
करनेवाले जीवोंका अन्तर काल नहीं है । आयुकर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले
जीवोंका अन्तर काल भुजगारबन्धके समान है । जिन मार्गणाओंमें दो वृद्धियाँ और दो
हानियाँ हैं उनमें उनका अन्तर काल ओघके समान है । तथा शेष पदोंका अन्तर काल सर्वत्र
भुजगारबन्धके समान है । इतनी विशेषता है कि सान्तर राशियोंके सब पदोंका अन्तर
काल प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान है ।

इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

भाव

४०५. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघकी
अपेक्षा सात कर्मोंकी चार वृद्धियों, चार हानियों, अवस्थित और अवकृष्य पदका बन्ध
करनेवाले जीवोंका तथा आयुकर्मके अवकृष्य और असंख्यात भागहानिका बन्ध करने-
वाले जीवोंका कौन-सा भाव है ? औदयिक भाव है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक
जानना चाहिए ।

इस प्रकार भाव समाप्त हुआ ।

अल्पबहुत्व

४०६. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश ।
ओघसे सात कर्मोंके अवकृष्य पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे असं-
ख्यात गुणवृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यात गुणहानिका बन्ध
करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका बन्ध

संखेज्जगुणा । संखेज्जगुणवट्टि-हाणिवंधगा दो वि तुल्ला असंखेज्जगुणा । संखेज्ज-
भागवट्टि-हाणिवंधगा दो वि तुल्ला असं०गु० । असंखेज्जभागवट्टि-हाणिवंधगा
दो वि तुल्ला अणंतगुणा । अवट्टि० असं०गु० । आयु० सव्वत्थोवा अवत्त०-
बंधगा । असंखेज्जभागहाणि० असं०गु० । आयु० एवं याव अणाहारग त्ति ।
एवरि जम्हि संखेज्जा जीवा तम्हि संखेज्जगुणं कादव्वं । एवं ओघभंगो कायजोगि-
ओरालियकायजोगि-एवुंसं-कोधादि०४-अचक्खु०-भवसि०-आहारग त्ति । एवरि
एवुंसं-कोध-माण-माया० सत्तएणं क० सव्वत्थोवा असंखेज्जगुणवट्टिवंध० ।
असंखेज्जगुणहाणिवंधं० संखेज्जगु० । उवरि ओघं । एवं लोभे । एवरि मोहणी० ओघं ।

४०७. आदेसेण एरइएसु सत्तएणं क० सव्वत्थोवा संखेज्जगुणवट्टि-हाणिवंध० ।
संखेज्जभागवट्टि-हाणिवंधगा दो वि तुल्ला संखेज्जगु० । असंखेज्जभागवट्टि-हाणि-
बंधगा दो वि तुल्ला संखेज्जगु० । अवट्टिवंध० असं०गु० । एवं सव्वएरइएसु
मणुसअपज्जत्त-सव्वदेव-वेउव्विय०-वेउव्वियमि०-विभंग०-तेउ०-पम्म०-वेदगस०-
सासण०-सम्मामि० । एवरि सव्वट्टे संखे० देवा ।

करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि और
संख्यात भागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर असंख्यातगुणे हैं ।
इनसे असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही
समान होकर अनन्तगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे
हैं । आयुकर्मके अवकृत्य पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे असंख्यातभाग-
हानिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । आयुकर्मकी अपेक्षा इसी प्रकार अनाहारक
मार्गणातक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जिस मार्गणामें संख्यात जीव हैं उसमें
संख्यातगुणे कहना चाहिए । इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिक काययोगी,
नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना
चाहिए । इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदी, क्रोध कषायवाले, मान कषायवाले और माया
कषायवाले जीवोंमें सात कर्मोंकी असंख्यात गुणवृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक
हैं । इनसे असंख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं । तथा इसके आगेका
अल्पबहुत्व ओघके समान है । इसी प्रकार लोभ कषायमें जानना चाहिए । इतनी विशे-
षता है कि इसमें मोहनीय कर्मके सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका अल्पबहुत्व
ओघके समान है ।

४०७. आदेशसे नारकियोंमें सात कर्मोंकी संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका
बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यात भागहानिका
बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागवृद्धि और
असंख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे
अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार सब नारकी, मनुष्य
अपर्याप्त, सब देव, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभङ्गज्ञानी, पीतलेश्यावाले,
पद्मलेश्यावाले, वेदकसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना
चाहिए । इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें देव संख्यातगुणे हैं ।

४०८. तिरिक्खेसु सत्तएणं क० सव्वत्थोवा संखेज्जगुणवड्ढि-हाणि० । संखेज्ज-
भागवड्ढि-हाणिबंध० दो वि तुल्लाणि असं०गु० । असंखेज्जभागवड्ढि-हाणिबंध० दो
वि तुल्ला अणंतगु० । अवट्ठि० असं०गु० । एवं ओरालियमि०-मदि०-सुद०-
असंज०-किरण०-णील०-काउ०-अभवसि०-मिच्छादिद्वि त्ति । पंचिदियतिरिक्खेसु
सत्तएणं क० सव्वत्थोवा [संखेज्जगुणवड्ढि-हाणिबंधया ।] संखेज्जभागवड्ढि-हाणि-
बंध० दो वि तुल्ला असं०गु० । असंखेज्जभागवड्ढि-हाणिबंध० दो वि तुल्ला संखे-
ज्जगु० । अवट्ठिदबंध० असं०गु० । एवं पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्त-पंचिदिय-तस-
अपज्ज० । पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्त-जोणिणीसु एवं चेव । एवरि संखेज्जभागवड्ढि-
हाणिबंध० संखेज्जगुणं कादव्वं ।

४०९. मणुसेसु सत्तएणं क० सव्वत्थोवा अवत्तव्व० । असं०गुणवड्ढि०
संखेज्जगुणा । असंखेज्जगुणहाणि० संखेज्जगु० । संखेज्जगुणवड्ढि-हाणि० दो वि
तुल्ला [असंखेज्जगुणा ।] संखेज्जभागवड्ढि-हाणिबंध० दो वि तुल्ला संखेज्जगु० ।
[असंखेज्जभागवड्ढि-हाणिबंधया दो वि तुल्ला संखेज्जगुणा ।] अवट्ठि० बंधं सं०गु० ।
एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु । एवरि संखेज्जगुणं कादव्वं ।

४०८. तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंकी संख्यात गुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका बन्ध करने-
वाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले
जीव दोनों ही समान होकर असंख्यातगुणे हैं । असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभाग-
हानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर अनन्तगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदका
बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार औदारिकमिश्रकाययोगी, मत्स्यज्ञानी,
श्रुताज्ञानी, असंयत, कृष्ण लेश्यावाले, नील लेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, अभव्य, और
मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंकी संख्यातगुणवृद्धि
और संख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि और
संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे
असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर
संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए ।
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए ।
इतनी विशेषता है कि इनमें संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले
जीवोंको संख्यातगुणा करना चाहिए ।

४०९. मनुष्योंमें सात कर्मोंके अवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं ।
इनसे असंख्यातगुणवृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातगुणहानि-
का बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका
बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि
और संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे
असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर
संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार
मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनिर्योमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणे
करना चाहिए ।

४१०. एइंदिय-पंचकायाणं सत्तएणं क० सव्वत्थोवा असंखेज्जभागवड्ढि-
हाणिवं० ! अवट्ठि० असं०गु० । विगल्लिंदिएसु सत्तएणं क० सव्वत्थोवा संखेज्ज-
भागवड्ढि-हाणिवं० । असंखेज्जभागवड्ढि-हाणिवं० संखेज्जगु० । अवट्ठि० असं-
खेज्जगु० । पंचिंदिय-तस० सत्तएणं क० [सव्वत्थोवा अवत्तव्वबंधया ।
असंखेज्जगुणवड्ढिवंधया संखेज्जगुणा ।] असं०गुणहाणि० संखेज्जगु० । संखेज्ज-
गुणवड्ढि-हाणिवं० असं०गु० । संखेज्जभागवड्ढि-हाणि० दो वि तुल्ला असं०गुणा ।
असंखेज्जभागवड्ढि-हाणिवं० दो वि तुल्ला संखेज्जगु० । अवट्ठि० असं०गु० ।
पंचिंदिय-तसपज्जत्तेसु तं चेव । एवरि संखेज्जभागवड्ढि-हाणिवं० संखेज्जगुणं कादव्वं ।
एवं पंचमण०-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-चक्खुदं०-सणिए ति । एवरि इत्थि०-पुरिस०
सत्तएणं क० अवत्तव्वं एत्थि । कम्मइगा० तिरिक्खोघं । आहार०-आहारमि०सव्वट्ठभंगो ।

४११. अवगद० णाणावर०-[दंसणावरण-अंतराय० सव्वत्थोवा अवत्तव्वं० ।

४१०. एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकाय जीवोंमें सात कर्मोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । विकलेन्द्रियोंमें सात कर्मोंकी संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात भागहानिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । पञ्चेन्द्रिय और त्रसकायिक जीवोंमें अवक्लव्यपदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इससे असंख्यातगुणवृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यात गुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त और त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंमें इसी प्रकार अल्पबहुत्व है । इतनी विशेषता है कि इनमें संख्यात भागवृद्धि और संख्यात भागहानिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे करने चाहिए । इसी प्रकार पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें सात कर्मोंका अवक्लव्य पद नहीं है । कर्मणकाययोगी जीवोंमें अपने पदोंका अल्पबहुत्व सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अपने पदोंका अल्पबहुत्व सर्वार्थसिद्धिके समान है ।

४११. अपगतवेदी जीवोंमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मके अवक्लव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे संख्यात गुणवृद्धिका बन्ध करनेवाले

१. मूलप्रती अवगद० णाणावर०-अवत्तव्वं० । संखेज्जभागवड्ढि० असंखेज्जगु० । संखेज्जगुणवड्ढिवं० संखेज्जगु० । संखेज्जभागहाणिवं० संखेज्जगु० । संखेज्जगुणहाणिवं० संखेज्जगु० । अवट्ठि संखेज्जगु० । मोह० सव्वत्थोवा अवत्त० । संखेज्जभागवड्ढिवं० संखेज्जगु० । संखेज्जगुणवड्ढिवं० संखेज्जगु० । असं०गुणवड्ढिवं० संखेज्जगु० । संखेज्जभागहाणिवं० संखेज्जगु०, संखेज्जगुणहाणि वं० संखेज्जगु० । असंखेज्जगुणहाणिवं० संखेज्जगु० । अवट्ठि०वं० सं०गु० इति पाठः ।

संखेज्जगुणवद्भुवं० संखेज्जगु० । संखेज्जभागवद्भुवं० संखेज्जगु० । संखेज्जगुणहाणि-
वं० संखेज्जगु० । संखेज्जभागहाणिवं० संखेज्जगु० । अवट्टि० संखेज्जगु० । वेदणीय-
णामा-गोदाणं सव्वत्थोवा अवत्तव्ववं० । असंखेज्जगुणवद्भुवं० संखेज्जगु० । संखे-
ज्जगुणवद्भुवं० संखेज्जगु० । संखेज्जभागवद्भुवं० संखेज्जगु० । असंखेज्जगुणहाणिवं०
संखेज्जगु० । संखेज्जगुणहाणिवं० संखेज्जगु० । संखेज्जभागहाणिवं० संखेज्जगु० ।
अवट्टिदवं० संखेज्जगु० । मोह० सव्वत्थोवा अवत्त० । संखेज्जभागवद्भुवं० संखे-
ज्जगु० । संखेज्जभागहाणिवं० संखेज्जगु० । अवट्टिदवं० संखेज्जगु० ।]

४१२. आभि०-सुद०-ओधि० सत्तएणं क० सव्वत्थोवा अवत्तव्ववं० । असं-
खेज्जगुणवद्भु० सं०गु० । सेसं इत्थिभंगो । एवं ओधिदं०-सुकले०-सम्मादि०-खइग० ।
मणपज्जव-संजद० मणुसिभंगो । एवं सामाइ०-छेदो० । एवरि अवत्तव्वं एत्थि ।
परिहार० सव्वट्ठभंगो ।

४१३. [सुहुमसंपरायसंजदेसु छएणं कम्माणं संखेज्जभागवद्भुबंधगा जीवा
सव्वत्थोवा । संखेज्जभागहाणिवंधगा जीवा संखेज्जगुणा । अवट्टिदबंधगा जीवा

जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे
संख्यात गुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यात भागहानिका बन्ध
करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं ।
वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके अवक्कव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे
असंख्यात गुणवृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यात गुणवृद्धिका
बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यात भागवृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव
संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यात गुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे
संख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यात भागहानिका बन्ध
करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे
हैं । मोहनीय कर्मके अवक्कव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे संख्यात
भागवृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यात भागहानिका बन्ध करने-
वाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं ।

४१२. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके अवक्कव्य
पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे असंख्यात गुणवृद्धिका बन्ध करनेवाले
जीव संख्यातगुणे हैं । इससे आगे शेष अल्पबहुत्व स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । इसी प्रकार
अवधिदर्शनी, शुक्लेश्यावाले सम्यग्दृष्टि और ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए ।
मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंमें अपने सब पदोंका अल्पबहुत्व मनुष्यनियोंके समान है ।
इसी प्रकार सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशे-
षता है कि इनके अवक्कव्य पद नहीं है । परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके अपने पदोंका अल्प-
बहुत्व सर्वार्थसिद्धिके समान है ।

४१३. सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें छह कर्मोंकी संख्यात भागवृद्धिका बन्ध करनेवाले
जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे
अवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं । संयतासंयत जीवोंमें सातकर्मोंकी संख्यात-

संखेज्जगुणा ।] 'संजदासंजद० सत्तएणं क० सव्वत्थोवा [संखेज्जगुणवड्ढि-हाणि० । संखेज्जभागवड्ढि-हा० दो वि तुल्ला सं०गु० । असंखेज्जभागवड्ढि-हा० दो वि तुल्ला संखेज्जगु० । अवट्ठिदबं० असंखेज्जगुणा ।]

४१४. असएणीसु सत्तएणं क० सव्वत्थोवा संखेज्जगुणवड्ढि-हा० । संखेज्जभागवड्ढि-हा० दो वि तुल्ला असं०गु० । असंखेज्जभागवड्ढि-हाणिबं० दो वि तुल्ला अणंतगुणा । अवट्ठिदबं० असंखेज्जगु० । अणाहार० कम्मइगभंगो । एवं अप्पावहुगं समत्तं । एवं वड्ढिबन्धे त्ति समत्तं ।

अज्भवसाणसमुदाहारो

४१५. अज्भवसाणसमुदाहारबन्धे त्ति । तत्थ इमाणि तिण्णिण अणियोगद्वाराणि—पगदिसमुदाहारो द्विदिसमुदाहारो तिव्वमंददा त्ति ।

गुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं ।

४१६. असंखी जीवोंमें सात कर्मोंकी संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर अनन्तगुणे हैं । इनसे अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । अनाहारक जीवोंमें अपने सब पदोंका अल्पबहुत्व कर्मणकाययोगी जीवोंके समान है ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार वृद्धिबन्ध समाप्त हुआ ।

अध्यवसानसमुदाहारबन्ध

४१७. अब अध्यवसानसमुदाहारबन्धका प्रकरण है । उसमें ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं—प्रकृतिसमुदाहार, स्थितिसमुदाहार और तीव्रमन्दता ।

विशेषार्थ—यहाँ स्थितिबन्धके कारणभूत परिणामोंकी अध्यवसान संज्ञा है और जिस अनुयोगद्वारमें इनकी अपेक्षा वर्णन किया गया है उसकी अध्यवसानसमुदाहार संज्ञा है । इन परिणामोंके निमित्तसे प्रत्येक कर्मके कितने विकल्प हो जाते हैं, एक एक स्थितिके प्रति कितने कितने परिणाम कारण होते हैं तथा उनकी तीव्रता और मन्दता किस प्रकारकी है इन्हीं सब प्रश्नोंका उत्तर देनेके लिए यहाँ इस अनुयोगद्वारके तीन भेद किये गये हैं—प्रकृतिसमुदाहार, स्थितिसमुदाहार और तीव्रमन्दता । पहले अनुयोगद्वारमें परिणामोंके अनुसार प्रत्येक कर्मके प्रकृतिविकल्प और उनका अल्पबहुत्व दिखलाया गया है । दूसरे अनुयोगद्वारमें प्रत्येक स्थितिके प्रति अध्यवसानोंका परिमाण, जघन्य स्थितिसे लेकर उत्तरोत्तर वे कितने अधिक हैं इसका परिमाण और उनकी अनुकृष्टि रचनाका निर्देश किया गया

१. संजदासंजद०.....सत्तएणं क० सव्वत्थोवा अवत्तबं०, असंखेज्जगुणवड्ढिहाणि दो वि तुल्ला संखेज्जगु०, संखेज्जगुणवड्ढिहा० असं०गु० । असंखेज्जगुणवड्ढिहा० असंखेज्जगु० इति पाठः । २. मूलप्रतौ अज्भवसाण... बन्धे त्ति । तत्थ इमाणि तिण्णिण अणियोगद्वाराणि...पगदिसमुदाहारो त्ति... तत्थ इमाणि दुवे इति पाठः ।

पगदिसमुदाहारे

४१६. पगदिसमुदाहारे त्ति । तत्थ इमाणि दुवे अणियोगद्वाराणि—पमाणाणु-
गमो अप्पाबहुगे त्ति । पमाणाणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघेण णाणावर-
णीयस्स केत्तिगाओ पगदीओ ? असंखेज्जलोगपगदीओ । एवं सत्तएणं कम्माणं । एवं
याव अणाहारग त्ति णादव्वं । एवरि अवगद०-सुहुमसं० एगेगपरिणद्धाणं । एवं
पमाणाणुगमो समत्तो ।

४१७. अप्पाबहुगं दुवि०—ओघे० आदे० । ओघेण सव्वत्थोवा आयुगस्स
पगदीओ । णामा-गोदाणं पगदीओ असंखेज्जगुणाओ । णाणावरणीय-दंसणावर-
णीय-वेदणीय-अंतराइगाणं चदुएहं वि पगदीओ असंखेज्जगुणाओ । मोहणीयस्स
पगदीओ असंखेज्जगुणाओ । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं ।

द्विदिसमुदाहारे

४१८. द्विदिसमुदाहारे त्ति । तत्थ इमाणि तिणिए अणियोगद्वाराणि—पमा-
णाणुगमो सेट्ठिपरुवणा अणुकड्डिपरुवणा चेदि । णाणावरणीयस्स जहणियाए
द्विदीए द्विदिवंधजभवसाणद्वाराणि असंखेज्जा लोगा । विदियाए द्विदिवंधजभवसाण-
है । तथा तीसरे अनुयोगद्वारमें उनके तीव्र मन्द अनुभागका विचार किया गया है । इस
प्रकार इस अनुयोगद्वारका क्या अभिप्राय है और उसमें कितने विषयोंका संकलन किया गया
है इस बातका विचार किया ।

प्रकृतिसमुदाहार

४१६. प्रकृतिसमुदाहारका प्रकरण है । उसमें ये दो अनुयोगद्वार हैं—प्रमाणानुगम
और अल्पबहुत्व । प्रमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे
ज्ञानावरण कर्मकी कितनी प्रकृतियाँ हैं ? असंख्यात लोकप्रमाण प्रकृतियाँ हैं । इसी प्रकार
शेष सात कर्मोंकी प्रकृतियाँ जाननी चाहिए । तथा इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें एक
एक भेदसे सम्बद्ध प्रकृतियाँ हैं ।

इस प्रकार प्रमाणानुगम समाप्त हुआ ।

४१७. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे आयुकर्मकी प्रकृतियाँ
सबसे स्तोका हैं । इनसे नाम और गोत्रकर्मकी प्रकृतियाँ असंख्यातगुणी हैं । इनसे ज्ञाना-
वरण; दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तरायकर्म इन चारों कर्मोंकी प्रकृतियाँ असंख्यातगुणी
हैं । इनसे मोहनीयकर्मकी प्रकृतियाँ असंख्यातगुणी हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा
तक जानना चाहिए ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार प्रकृतिसमुदाहार समाप्त हुआ ।

स्थितिसमुदाहार

४१८. अब स्थिति समुदाहारका प्रकरण है । उसमें ये तीन अनुयोगद्वार हैं—
प्रमाणानुगम, श्रेणिरूपणा और अनुकृष्टि रूपणा । ज्ञानावरणकर्मकी जघन्य स्थितिके स्थिति
बन्धाध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है । दूसरी स्थितिके स्थिति बन्धाध्यवसाय

१. पञ्चसं० बन्धनक० गा० १०७ । २. मूलप्रतौ खेजा भागा विदियाए इति पाठः ।

द्विद्विबंधाहियारै असांखेज्जा लोगा । तदियाए द्विदीए द्विद्विबंधज्भवसाणद्विद्विबंधाहियारै असांखेज्जा लोगा । एवं असांखेज्जा लोगा असांखेज्जा लोगा याव उक्कस्सिया द्विदि त्ति । एवं सत्तएणं कम्मएणं । एवं याव अणाहारग त्ति । एवरि अवगद०-सुहुमसं० एगे-गपरिणद्धाणं । एवं पमाणाणुगमो समत्तो ।

४१६. सेट्ठिपरूवणा दुविधा—अणंतरोवणिधा परंपरोवणिधा चेदि । अणंत-रोवणिधाए णाणावरणीयस्स जहणियाए द्विद्विबंधज्भवसाणद्विद्विबंधाहियारै थोवाणि । विदियाए द्विदीए द्विद्विबंधज्भवसाणद्विद्विबंधाहियारै विसेसाधियाणि । तदियाए द्विदीए द्विद्विबंधज्भवसाणद्विद्विबंधाहियारै विसे० । एवं विसे० विसेसाधियाणि याव उक्कस्सियाए द्विदि त्ति । एवं ङ्गएणं कम्मएणं । आयुगस्स जहणियाए द्विदीए द्विद्विबंधज्भवसाण-द्विद्विबंधाहियारै सव्वत्थोवाणि । विदियाए द्विदीए द्विद्विबंधज्भवसाणद्विद्विबंधाहियारै असांखेज्जगुणाणि । तदियाए द्विदीए द्विद्विबंधज्भवसाणद्विद्विबंधाहियारै असांखेज्जगुणाणि । एवं असांखेज्जगुणाणि असांखेज्जगुणाणि याव उक्कस्सिया द्विदि त्ति । एवं याव अणाहारग त्ति एद्व्वं ।

४२०. परंपरोवणिधाए णाणावरणीयस्स जहणियाए द्विदीए द्विद्विबंधज्भव-

स्थान असांख्यात लोकप्रमाण हैं । तीसरी स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान असांख्यात लोकप्रमाण हैं । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान असांख्यातलोक असांख्यातलोक प्रमाण जानना चाहिए । इसी प्रकार सात कर्मोंके जानना चाहिए । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक कथन करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी और सूक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोंके एक एक परिणाम हैं ।

इस प्रकार प्रमाणानुगम समाप्त हुआ ।

श्रेणिप्ररूपणा

४१९. श्रेणिप्ररूपणा दो प्रकारकी है—अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा । अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान सबसे थोड़े हैं । इनसे दूसरी स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान विशेष अधिक हैं । इनसे तीसरी स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान विशेष अधिक हैं । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होनेतक प्रत्येक स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान विशेष अधिक विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार छह कर्मोंके जानना चाहिए । आयुकर्मकी जघन्य स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे दूसरी स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान असांख्यात गुणे हैं । इनसे तीसरी स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान असांख्यात गुणे हैं । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होनेतक प्रत्येक स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान असांख्यातगुणे असांख्यात गुणे हैं । इस प्रकार अनाहारक मार्गणातक कथन करना चाहिए ।

इस प्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई ।

४२०. परम्परोपनिधाकी अपेक्षा ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसाय

१. पञ्चसं० बन्धनक० गा० १०५ । २. मूलप्रतौ-द्विद्विबंधाहियारै असांखेज्जगुणाणि । विदियाए इति पाठः ।

साणट्टाणेहिंतो तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जभागं गंतूण दुगुणवड्ढिदा' । एवं याव बंधजभवसाणदुगुणवड्ढि-हाणि-]ट्टाणंतरं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । साणाट्टिदिबंधजभवसाणदुगुणवड्ढि-हाणिट्टाणंतराणि अंगुलवग्गमूलच्छेदणयस्स असंखेज्जदिभागो । साणाट्टिदिबंधजभवसाणदुगुणवड्ढि-हाणिट्टाणंतराणि थोवाणि । एयट्टिदिबंधजभवसाणदुगुणवड्ढि-हाणि-]ट्टाणंतरं असंखेज्जगुणं । एवं सादव्वं ।

४२१. अणुकड्डीए साणावरणीयस्स जहणियाए ट्टिदीए ट्टिदिबंधजभवसाणट्टाणाणि याणि ताणि विदियाए ट्टिदीए ट्टिदिबंधजभवसाणट्टाणाणि अपुव्वाणि । विदियाए ट्टिदीए ट्टिदिबंधजभवसाणट्टाणाणि याणि ताणि तदियाए ट्टिदीए ट्टिदिबंधजभवसाणट्टाणाणि अपुव्वाणि च । एवं अपुव्वाणि अपुव्वाणि याव उक्कस्सियाए ट्टिदि ति । एवं सत्तएणं कम्मणं ।

तिव्वमंददा

४२२. तिव्वमंददाए साणावरणीयस्स' जहणियाए ट्टिदीए जहणयं ट्टिदिबंधजभवसाणट्टाणं सव्वमंदाणुगभागं । तस्स उक्कस्सए अणंतगुणं । विदियाए ट्टिदीए जहणयं ट्टिदिबंधजभवसाणट्टाणं अणंतगुणं । तिस्से उक्कस्सयं अणंतगुणं । स्थानोंसे पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण स्थान जाकर वे दूने हो जाते हैं । इस प्रकार बन्धाध्यवसायद्विगुणवृद्धिहानिस्थानान्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं और नानास्थितिबन्धाध्यवसायद्विगुणवृद्धिहानिस्थानान्तर अंगुलके वर्गमूलके अर्धच्छेदोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । नानास्थितिबन्धाध्यवसायद्विगुणवृद्धिहानिस्थानान्तर स्तोक हैं । इनसे एकस्थितिबन्धाध्यवसायद्विगुणवृद्धिहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार शेष कर्मोंके जानना चाहिए ।

४२१. अनुकृष्टिका कथन करनेपर ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिके जो स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान हैं वे स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान दूसरी स्थितिके अपूर्व हैं । दूसरी स्थितिके जो स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान हैं वे स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान तीसरी स्थितिके अपूर्व हैं । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होनेतक प्रत्येक स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान अपूर्व अपूर्व हैं । इसी प्रकार सात कर्मोंके विषयमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—जहां आगेके परिणामोंकी पिछले परिणामोंके साथ समानता होती है वहां अनुकृष्टि रचना होती है । यहां प्रत्येक स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान अपूर्व अपूर्व हैं इसलिए अनुकृष्टि रचना सम्भव नहीं है । उदाहरणार्थ अधःकरणमें जैसी अनुकृष्टि रचना होती है वैसी यहां सम्भव नहीं है । किन्तु यहांकी रचना अपूर्वकरणके समान जाननी चाहिए ।

तीव्र-मन्दता

४२२—तीव्र मन्दताकी अपेक्षा ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका जघन्य स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान सबसे मन्द अनुभागको लिये हुए है । इसका उत्कृष्ट स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान अनन्तगुणे अनुभागको लिये हुए है । इससे दूसरी स्थितिका जघन्य स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान अनन्तगुणे अनुभागको लिये हुए हैं । इससे इसीका उत्कृष्ट स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान अनन्तगुणे अनुभागको लिये हुए है । इससे तीसरी स्थितिका जघन्य

तदियाए द्विदीए जहणणयं अणंतगुणं । तिस्से उक्कस्सयं अणंतगुणं । एवमणंतगुणम-
णंतगुणं याव उक्कस्सियाए द्विदि त्ति । एवं सत्तणं कम्मणं ।

अज्भवसाणसमुदाहारो समत्तो ।

जीवसमुदाहारो

४२३. जीवसमुदाहारो त्ति । तत्थ ए णाणावरणीयस्स बंधगा जीवा ते दुविहा—
सादबंधा चेव असादबंधा चेव । ए ते सादबंधगा जीवा ते तिविधा—चदुट्टाणबंधगा
तिट्टाणबंधगा विट्टाणबंधगा । तत्थ ये ते असादबंधगा जीवा ते तिविधा—विट्टाणबंधगा
तिट्टाणबंधगा चदुट्टाणबंधगा । सव्वविसुद्धा सादस्स चदुट्टाणबंधगा जीवा ।
तिट्टाणबंधगा जीवा संकिलिट्टतरा । विट्टाणबंधगा जीवा संकिलिट्टतरा । सव्व-
विसुद्धा असादस्स विट्टाणबंधगा जीवा । तिट्टाणबंधगा जीवा संकिलिट्टतरा ।
चदुट्टाणबंधगा जीवा संकिलिट्टतरा ।

४२४. सादस्स चदुट्टाणबंधगा जीवा णाणावरणीयस्स जहणणयं द्विदि बंधंति ।
तिट्टाणबंधगा जीवा णाणावरणीयस्स अजहणणाणुक्कस्सयं द्विदि बंधंति । विट्टाणबंधगा
जीवा सादावेदणीयस्स उक्कस्सयं द्विदि बंधंति । असाद० विट्टाणबंधगा जीवा
सट्टाणेण णाणावरणीयस्स जहणणयं द्विदि बंधंति । तिट्टाणबंधगा जीवा णाणावर-

स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान अनन्तगुणे अनुभागको लिये हुए है । इससे इसीका उत्कृष्ट
स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान अनन्तगुणे अनुभागको लिये हुए है । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके
प्राप्त होनेतक प्रत्येक स्थितिका जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान उत्तरोत्तर
अनन्तगुणे अनन्तगुणे अनुभागको लिये हुए है । इसी प्रकार सात कर्मोंका जानना चाहिए ।
इस प्रकार तीव्रमन्दताका विचार समाप्त हुआ ।

इस प्रकार अध्यवसानसमुदाहार समाप्त हुआ ।

जीव समुदाहार

४२३. अब जीव समुदाहारका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा जो ज्ञानावरणकर्मका बन्ध
करनेवाले जीव हैं वे दो प्रकारके हैं—सातबन्धक और असातबन्धक । जो सातबन्धक जीव
हैं वे तीन प्रकारके हैं—चतुःस्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक और द्विस्थानबन्धक । जो असात-
बन्धक जीव हैं वे तीन प्रकारके हैं—द्विस्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक और चतुःस्थानबन्धक ।
जो सबसे विशुद्ध होते हैं वे साताके चतुःस्थानबन्धक जीव हैं । इनसे त्रिस्थानबन्धक जीव
संकलिष्टतर होते हैं और इनसे द्विस्थानबन्धक जीव संक्लिष्टतर होते हैं । जो सबसे विशुद्ध होते
हैं वे असाताके द्विस्थानबन्धक जीव हैं इनसे त्रिस्थानबन्धक जीव संक्लिष्टतर होते हैं और
इनसे चतुःस्थानबन्धक जीव संक्लिष्टतर होते हैं ।

४२४. साताके चतुःस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरण कर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करते
हैं । त्रिस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणकर्मकी अजघन्यानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हैं । द्विस्थान-
बन्धक जीव साता वेदनीयकी ही उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हैं । असाताके द्विस्थानबन्धक
जीव स्वस्थानकी अपेक्षा ज्ञानावरण कर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करते हैं । त्रिस्थानबन्धक

णीयस्स अजहणणमणुक्कस्सयं द्विदि बंधंति । चटुट्टाणबंधगा जीवा असादस्स चैव उक्कस्सिया द्विदि बंधंति ।

४२५. एदेसिं परूवणदाए तत्थ इमाणि दुवे अणियोगद्वाराणि—अणंतरोवणिधा परंपरोवणिधा य । अणंतरोवणिधाए सादस्स चटुट्टाण० तिट्टाण० असादस्स विट्टाण० तिट्टाणबंधगा णाणावरणीयस्स जहणियाए द्विदीए जीवा थोवा । विदियाए द्विदीए जीवा विसेसाधिया । तदियाए द्विदीए जीवा विसेसाधिया । एवं विसेसाधिया२ याव सागरोवमसदपुधत्तं । तेण परं विसेसहीणा । एवं विसेसहीणा विसेसहीणा याव सागरोवमसदपुधत्तं । सादस्स विट्टाणबंधगा जीवा असादस्स चटुट्टाणबंधगा जीवा णाणावरणीयस्स जहणियाए द्विदीए जीवा थोवा । विदियाए द्विदीए जीवा विसेसाधिया । तदियाए द्विदीए जीवा विसेसाधिया । एवं विसेसाधिया विसेसाधिया याव सागरोवमसदपुधत्तं । तेण परं विसेसहीणा । एवं विसेसहीणा २ याव सादस्स असादस्स य उक्कस्सिया द्विदि त्ति ।

जीव ज्ञानावरण कर्मकी अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हैं । चतुःस्थानबन्धक जीव असाता वेदनीयकी ही उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हैं ।

४२५. इनकी प्ररूपणा करनेपर ये दो अनुयोगद्वार होते हैं—अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा । अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा साताके चतुःस्थानबन्धक और त्रिस्थानबन्धक तथा असाताके द्विस्थानबन्धक और त्रिस्थानबन्धक जितने जीव हैं उनमेंसे ज्ञानावरण कर्मकी अपने अपने योग्य जघन्य स्थितिमें स्थित अर्थात् अपने अपने योग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे दूसरी स्थितिमें स्थित जीव विशेष अधिक हैं । इनसे तीसरी स्थितिमें स्थित जीव विशेष अधिक हैं । इस प्रकार सौ सागरपृथक्त्व प्रमाण स्थितिके प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिमें विशेष अधिक विशेष अधिक जीव हैं । तथा इससे आगे प्रत्येक स्थितिमें विशेषहीन जीव हैं । इस प्रकार सौ सागरपृथक्त्व प्रमाण स्थितिके प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिमें विशेषहीन विशेषहीन जीव हैं । तथा साताके द्विस्थानबन्धक और असाताके चतुःस्थानबन्धक जितने जीव हैं उनमेंसे ज्ञानावरण कर्मकी अपने अपने योग्य जघन्य स्थितिमें स्थित जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे दूसरी स्थितिमें स्थित जीव विशेष अधिक हैं । इनसे तीसरी स्थितिमें स्थित जीव विशेष अधिक हैं । इस प्रकार सौ सागरपृथक्त्व प्रमाण स्थितिके प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिमें विशेष अधिक विशेष अधिक जीव हैं । तथा इससे आगे प्रत्येक स्थितिमें उत्तरोत्तर विशेष हीन विशेषहीन जीव हैं । इस प्रकार साता और असाताकी उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिमें विशेषहीन विशेषहीन जीव हैं ।

विशेषार्थ—यहां जीवोंके आलम्बनसे स्थितिबन्धका विचार किया गया है । साता और असाता प्रतिपन्न प्रकृतियां हैं, इसलिए जो साताका बन्ध करते हैं वे असाताका बन्ध नहीं करते और जो असाताका बन्ध करते हैं वे साताका नहीं करते । इस हिसाबसे जीव दो प्रकारके होते हैं—सातबन्धक और असातबन्धक । साता प्रशस्त प्रकृति है और असाता अप्रशस्त । इसलिए साताके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध होनेपर स्थितिबन्ध जघन्य होता है और जघन्य अनुभागबन्ध होते समय स्थितिबन्ध उत्कृष्ट होता है । तथा असाताके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके समय स्थितिबन्ध उत्कृष्ट होता है और जघन्य अनुभागबन्धके समय स्थिति-

४२६. परंपरोवणिधाए सादस्स चदुट्टाणबंधगा जीवा तिट्ठाणबंधगा जीवा असादस्स विट्ठाणबंधगा जीवा तिट्ठाणबंधगा जीवा णाणावरणीयस्स जहणियाए द्विदीए जीवेहितो तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणवड्ढिदा । एवं दुगुणवड्ढिदा दुगुणवड्ढिदा याव सागरोवमसदपुधत्तं । तेण परं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणहीणा । एवं दुगुणहीणा२ याव सागरोवमसदपुधत्तं । एयजीवदुगुणवड्ढिहाणिट्ठाणंतराणि असंखेज्जाणि पलिदोवमस्स वग्गमूलाणि । णाणाजीवदुगुणवड्ढिहाणिट्ठाणंतराणि पलिदोवमवग्गमूलस्स असंखेज्जदिभागो । णाणाजीवदुगुणवड्ढिहाणिट्ठाणंतराणि थोवाणि । एवजीवदुगुणवड्ढिहाणिट्ठाणंतरं असंखेज्जगुणं ।

४२७. सादस्स विट्ठाणबंधगा जीवा असादस्स चदुट्टाणबंधगा जीवा णाणावरणीयस्स जहणियाए द्विदीए जीवेहितो तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणवड्ढिदा । [एवं दुगुणवड्ढिदा] दुगुणवड्ढिदा याव सागरोवमसदपुधत्तं । तेण परं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणहीणा । एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा याव सादस्स असादस्स य उक्कस्सिया द्विदि त्ति । एयजीवदुगुणवड्ढिहाणिट्ठाणंतरं असंखेज्जाणि पलिदोवमवग्गमूलाणि । णाणाजीवदुगुणवड्ढिहाणिट्ठाणंतराणि पलिदोवमवग्गमूलस्स असंखेज्जदिभागो । णाणाजीवदुगुणवड्ढि[हाणि-]ट्ठाणंतराणि साताके त्रिस्थानिक और द्विस्थानिक बन्धकी अपेक्षा तथा असाताके द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक बन्धकी अपेक्षा कथन करना चाहिए ।

४२६. परंपरोपनिधाकी अपेक्षा साता वेदनीयके जितने चतुःस्थान बन्धक और त्रिस्थानबन्धक जीव हैं । तथा असातावेदनीयके जितने द्विस्थानबन्धक और त्रिस्थानबन्धक जीव हैं उनमेंसे ज्ञानावरण कर्मकी जघन्य स्थितिमें स्थित जितने जीव हैं उनसे लेकर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जाकर वे दूने हो जाते हैं । इस प्रकार सौ सागर पृथक्त्वके प्राप्त होने तक वे दूने दूने होते जाते हैं । इससे आगे पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जाकर वे आधे रह जाते हैं । इस प्रकार सौ सागर पृथक्त्वके प्राप्त होने तक वे उत्तरोत्तर आधे आधे रहते जाते हैं । यहाँ एकजीवद्विगुणवृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तर पत्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण होते हैं और नानाजीवद्विगुणवृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तर पत्यके प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं । नानाजीवद्विगुणवृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तर स्तोक हैं और इनसे एकजीव द्विगुणवृद्धिद्विगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है ।

४२७. सातावेदनीयके जितने द्विस्थानबन्धक जीव हैं और असातावेदनीयके चतुःस्थानबन्धक जीव हैं उनमेंसे ज्ञानावरणकी अपने योग्य जघन्य स्थितिके बन्धक जितने जीव हैं उनसे पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिस्थान जाकर वे दूने हो जाते हैं । इस प्रकार सौ सागर पृथक्त्वके प्राप्त होने तक वे दूने दूने होते जाते हैं । इससे आगे पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जाकर वे आधे रह जाते हैं और इस प्रकार साता और असाताकी उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक वे आधे आधे होते जाते हैं । यहाँ एकजीवद्विगुणवृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तर पत्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण होते हैं और नानाजीव द्विगुणवृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं । इस प्रकार नाना-

१. मूलप्रतौ गंतूण दुगुणवड्ढिदा हाणि दुगुण—इति पाठः ।

राणि थोवाणि । एयजीवदुगुणवट्टिहाणिट्टाणंतरं असंखेज्जगुणं ।

४२८. सादस्स असादस्स य विट्टाणिययमिह णियमा अणागारपाओग्गट्टाणाणि । सागारपाओग्गट्टाणाणि' सव्वत्थ ।

४२९. सादस्स चट्टुट्टाणिययवमज्झस्स हेट्टदो ट्टाणाणि थोवाणि । उवरिं संखेज्जगुणाणि । सादस्स तिट्टाणिययवमज्झस्स हेट्टदो ट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । उवरिं ट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । सादस्स विट्टाणिययवमज्झस्स हेट्टदो एयंतसागारपाओग्गट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । मिससगाणि ट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । सादस्स चेव विट्टाणिययवमज्झस्स उवरिं मिससगाणि ट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । असादविट्टाणिययवमज्झस्स हेट्टदो एयंतसागारपाओग्गट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । मिससगाणि ट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । असादस्स चेव विट्टाणिययवमज्झस्स उवरि मिससगाणि ट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । एयंतसागारपाओग्गट्टाणाणि जीवद्विगुणवृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तरं स्तोके हैं और इनसे एकजीव द्विगुणवृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तरं असंख्यातगुणा है ।

विशेषार्थ—यहाँ साताके चतुःस्थानबन्धक आदि एक एकके प्रति नानागुणवृद्धि यानाना गुणहानि कितनी होती हैं और एक एकके प्रति निषेक कितने होते हैं यह बतलाया गया है । यहाँ एकजीवद्विगुणवृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तरं पदसे एक गुणवृद्धि व गुणहानिके भीतर जितने निषेक होते हैं वे लिये गये हैं और नानाजीवद्विगुणवृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तरं पदसे कुल द्विगुणवृद्धि व द्विगुणहानियोंका प्रमाण लिया गया है । इनमेंसे किसका कितना प्रमाण है यह मूलमें दिया ही है ।

४२८. साता और असाताके द्विस्थानिक बन्धमें अनाकार उपयोगके योग्य स्थान नियमसे हैं । तथा साकार उपयोगके योग्य स्थान सर्वत्र हैं ।

विशेषार्थ—यहाँ इन छह स्थानोंमें अनाकार उपयोगके योग्य स्थान कौन हैं और साकार उपयोगके योग्य स्थान कौन हैं यह बतलाया गया है । वैसे तो सब स्थान साकार उपयोगके योग्य हैं पर अनाकार उपयोगके योग्य स्थान कुछ ही हैं और वे साता असाता दोनोंके द्विस्थान गत कुछ ही हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

४२९. साताके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान स्तोके हैं । इनसे उपरिम स्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे साताके त्रिस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे इसीके उपरिम स्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे साताके द्विस्थानिक यवमध्यके नीचेके सर्वथा साकार उपयोगके योग्य स्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे मिश्रस्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे साताके ही द्विस्थानिक यवमध्यके उपरिम मिश्र स्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे असाताके द्विस्थानिक यवमध्यके नीचेके सर्वथा साकार उपयोगके योग्य स्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे इसीके मिश्रस्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे असाताके ही द्विस्थानिक यवमध्यके उपरिम मिश्र स्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे इसीके सर्वथा साकार प्रायोग्य स्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे असाताके त्रिस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे उपरिम स्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे असाताके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे साताका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।

संखेज्जगुणाणि । असादस्स तिद्वाणिययवमज्भस्स हेद्वदो द्वाणाणि संखेज्जगुणाणि । उवरिं संखेज्जगुणाणि । असादस्स चदुद्वाणिययवमज्भस्स हेद्वदो द्वाणाणि संखेज्जगुणाणि । सादस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो । यद्विदिबंधो विसेसाधियो । असादस्स' जहण्णओ द्विदिबंधो विसेसाधियो । यद्विदिबंधो विसेसाधियो । एत्तो उक्कस्सयं दाहं गच्छदि त्ति सा द्विदी संखेज्जगुणा । अंतोकोडाकोडी संखेज्जगुणा । सादस्स विद्वाणिययवमज्भस्स उवरिं एयंतसागारपाओग्गद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि । सादस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो विसेसाधियो । यद्विदिबंधो विसेसाधियो । दाहद्विदी विसेसाधिया । असादस्स चदुद्वाणिययवमज्भस्स उवरिं द्वाणाणि विसेसाधियाणि । असादस्स उद्वस्सओ द्विदिबंधो विसेसाधियो । यद्विदिबंधो विसेसाधियो ।

इससे असाताका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे उत्कृष्ट दाहको प्राप्त होता है इसलिए वह स्थिति संख्यातगुणी है । इससे अन्तःकोटाकोटि संख्यातगुणी है । इससे साताके द्विस्थानिक यवमध्यके उपरिम सर्वथा साकार प्रायोग्य स्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे साताका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे दाहस्थिति विशेष अधिक है । इससे असाताके चतुःस्थानिक यवमध्यके उपरिम स्थान विशेष अधिक हैं । इनसे असाताका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यत्स्थिति बन्ध विशेष अधिक है ।

विशेषार्थ—पहले साताके चतुःस्थानिक, त्रिस्थानिक और द्विस्थानिक अनुभागका तथा असाताके द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक अनुभागका उल्लेख करके उनके आश्रयसे साकारप्रायोग्य, अनाकारप्रायोग्य और भिन्न स्थानोंका उल्लेख कर आये हैं । यहाँ इनको ध्यानमें रखकर स्थितिस्थानोंके अल्पबहुत्वका निर्देश किया गया है । इसका विचार पञ्चसंग्रह बन्धकरणमें भी किया है । वहाँ वह इस प्रकार दिया है—परावर्तमान शुभ प्रकृतियोंके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थितिस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे उपरिम स्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे इन्हींके त्रिस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे उपरिम स्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे इन्हींके सर्वथा साकार प्रायोग्य द्विस्थानिक नीचेके स्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे यहींके मिश्रस्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे उपरिम मिश्रस्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे यहींके साकार प्रायोग्य उपरिम स्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे अशुभ द्विस्थानिक यवमध्यके नीचेके मिश्रस्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे द्विस्थानिक यवमध्यके नीचेके साकार प्रायोग्य स्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे यवमध्यके ऊपरके द्विस्थानिक साकार प्रायोग्य स्थान संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार यवमध्यके नीचे और ऊपरके त्रिस्थानिक स्थान संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार यवमध्यके नीचे और ऊपरके चतुःस्थानिक स्थितिस्थान संख्यातगुणे हैं । आचार्य मलयगिरिने इस अल्पबहुत्वमें परावर्तमान शुभ प्रकृतियों, परावर्तमान अशुभ प्रकृतियोंके जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिबन्धका तथा डायस्थितिका अल्पबहुत्व भी सम्मिलित किया है । जिस स्थितिस्थानसे अपवर्तनाकरणके वशसे उत्कृष्ट स्थितिको प्राप्त होता है उतनी स्थितिका नाम डायस्थिति है । या जिस

१. मूलप्रतौ सादस्स जहणियाओ इति पाठः ।

४३०. एदेण अट्टपदेण सव्वत्थोवा सादस्स चदुट्ठाणबंधगा जीवा । सादस्स चेव तिट्ठाणबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । विट्ठाणबंध० संखेज्जगुणा । असादस्स विट्ठाणबंधगा जीवा संखेज्जगुणा । असादस्स चदुट्ठाणबंधगा० संखेज्जगुणा । असादस्स तिट्ठाणबंधगा जीवा विसेसाधिया । एवं जीवममुदाहारे त्ति समत्तमणि-योगद्वाराणि ।

एवं मूलपगदिद्विदिबंधो समत्तो ।

स्थितिस्थानसे मण्डूकप्लुति न्यायके अनुसार छलांग मारकर स्थिति बँधती है वह अधिक स्थिति डायस्थिति है । आचार्य मलयगिरिने डायस्थितिके ये दो अर्थ किये हैं । उन्होंने लिखा है कि उत्कृष्ट स्थितिमेंसे अन्तःकोड़ाकोड़ी स्थितिके कम कर देनेपर जो स्थिति शेष रहती है वह डायस्थिति है, क्योंकि संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिका बन्ध करके ही उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है, अन्य प्रकारसे नहीं ।

४३०. इस अर्थपदके अनुसार साताके चतुःस्थानिक बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे साताके ही त्रिस्थानिकबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे द्विस्थानबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे असाताके द्विस्थानबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे असाताके चतुःस्थानबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे असाताके त्रिस्थानबन्धक जीव विशेष अधिक हैं ।

इस प्रकार जीव समुदाहार अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

इस प्रकार मूल प्रकृतिस्थितिबन्ध समाप्त हुआ ।

उत्तरपयडिडिडिबंधो

१. उत्तरपगदिद्विदिबंधो

१. एतो उत्तरपगदिद्विदिबंधे पुवं गमणिज्जं । तत्थ इमाणि चत्तारि अणि-
योगद्वाराणि भवंति । तं यथा—द्विदिबंधद्वाराणपरुवणा णिसेयपरुवणा आवाधाखंडय-
परुवणा अप्पाबहुगे त्ति ।

द्विदिबंधद्वाराणपरुवणा

२. द्विदिबंधद्वाराणपरुवणादाए सव्वपगदीणं चदुआयु-वेउव्वियद्धक-आहार०-
आहारअंगोवंग-तित्थयरवज्जाणं सव्वत्थोवा सुहुमस्स अपज्जत्तयस्स द्विदिबंधद्वाराणाणि ।
बादरस्स अपज्जत्तयस्स द्विदिबंधद्वाराणाणि संखेज्जगुणाणि । सुहुमस्स पज्जत्तयस्स
द्विदिबंध० संखेज्जगु० । बादर०'पज्जत्त० द्विदिबंध० संखेज्जगु० । एवं मूलपगदि-
बंधो याव पंचिदियस्स सणिणस्स मिच्छादिद्विस्स पज्जत्तयस्स द्विदिबंधद्वाराणाणि
संखेज्जगुणाणि त्ति ।

उत्तरप्रकृतिस्थितिबन्ध

१. इससे आगे उत्तरप्रकृतिस्थितिबन्धका सर्व प्रथम विचार करते हैं । उसमें ये चार
अनुयोगद्वार होते हैं । यथा—स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा, निषेकप्ररूपणा, आवाधाकाण्डकप्ररू-
पणा और अल्पबहुत्व ।

विशेषार्थ—मूल्य प्रकृतियाँ आठ हैं और उनमेंसे प्रत्येकके उत्तर भेद अनेक हैं । उन्हें
ही यहाँ पर उत्तर प्रकृति शब्द द्वारा कहा गया है । पहले मूल प्रकृति स्थितिबन्धका विस्तार
के साथ विवेचन कर आये हैं । अब आगे उत्तरप्रकृतिस्थितिबन्धका विवेचन करनेवाले हैं
यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इसके अधिकार और क्रम वही हैं जो मूलप्रकृति स्थितिबन्धका
विवेचन करते समय कह आये हैं । मात्र यहाँ उन अधिकारों द्वारा उत्तर प्रकृतियोंके स्थिति-
बन्धका अवलम्बन लेकर विचार किया गया है ।

स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा

२. अब स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणाका विचार करते हैं । उसकी अपेक्षा सूक्ष्म अपर्याप्तके
चार आयु, वैक्रियिकषट्क, आहारक शरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग और तीर्थंकर प्रकृतिके सिवा
शेष सब प्रकृतियोंके स्थितिबन्धस्थान सबसे, स्तोक हैं । इनसे बादर अपर्याप्तके स्थिति-
बन्धस्थान संख्यातगुरो हैं । इनसे सूक्ष्म पर्याप्तके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुरो हैं । इनसे
बादर पर्याप्तके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुरो हैं । इस प्रकार पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि
पर्याप्त जीवके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुरो हैं । इस स्थानके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर मूल
प्रकृति बन्धके समान अल्पबहुत्व है ।

विशेषार्थ—कुल बन्धयोग्य प्रकृतियाँ १२० हैं । इनमेंसे नरकायु, देवायु, वैक्रियिक-

१. मूलप्रतौ बादर० अपज्जत्त० इति पाठः ।

३. णिरय-देवायूणं सव्वत्थोवा पंचिदियस्स असणिणस्स पज्जत्तयस्स द्विदि-
बं० । पंचिदियस्स सणिणस्स पज्जत्तयस्स द्विदिबन्धट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ।
तिरिक्खमणुसायूणं तेरसरणं जीवसमासाणं द्विदिबन्धट्टाणाणि तुल्लाणि थोवाणि ।
पंचिदियस्स सणिणस्स पज्जत्तयस्स द्विदिबं० असं०गु० ।

४. णिरयगदि-णिरयगदिपाओग्गाणुपुव्वीणं सव्वत्थोवा पंचिदियस्स असणिण-
यस्स पज्जत्तयस्स द्विदिबं० । पंचिदियस्स सणिणस्स पज्जत्तयस्स द्विदिबन्धट्टाणाणि
संखेज्जगु० । देवगदि-वेउव्विय०-वेउव्विय०-अंगोव०-देवाणुपुव्वि० सव्वत्थोवा
पंचिदियस्स असणिणस्स पज्जत्तयस्स द्विदिबं० । पंचिदि० सणिणस्स अपज्जत्तयस्स
द्विदिबं० संखेज्जगु० । तस्सेव पज्जत्त० द्विदिबं० संखेज्जगु० ।

षट्क, आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग और तीर्थंकर इन प्रकृतियोंका सब जीव
समासोंमें बन्ध नहीं होता तथा तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके विषयमें विशेष वक्तव्य
है, इसलिए इन तेरह प्रकृतियोंके सिवा शेष १०७ प्रकृतियोंके स्थितिबन्धस्थानोंका अल्पब-
हुत्व जिस प्रकार मूल प्रकृतिस्थितिबन्धका कथन करते समय कह आये हैं उसी प्रकार यहाँ
जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

३. पञ्चेन्द्रिय असंज्ञी पर्याप्तके नरकायु और देवायुके स्थितिबन्धस्थान सबसे स्तोक
हैं । इनसे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्तके स्थितिबन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं । तेरह जीव समा-
सोंके तिर्यञ्च आयु और मनुष्यायुके स्थितिबन्धस्थान तुल्य होकर स्तोक हैं । इनसे पञ्चेन्द्रिय
संज्ञी पर्याप्तके स्थितिबन्धस्थान असंख्यातगुणे हैं ।

विशेषार्थ—नरकायु और देवायुका स्थितिबन्ध असंज्ञी पञ्चेन्द्रियके पत्यके असंख्या-
तवें भागसे अधिक नहीं होता । तथा संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके वह तेतीस सागरतक होता
है । इसीसे असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके इन दोनों आयुओंके स्थितिबन्धस्थानोंसे संज्ञी
पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके स्थितिबन्धस्थान असंख्यातगुणे कहे हैं । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके
जघन्य स्थितिबन्धसे लेकर एक पूर्वकोटितक स्थितिबन्ध चौदहों जीवसमासोंमें सम्भव
है । मात्र संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तीन पत्यतक होता है । यही
कारण है कि तेरह जीवसमासोंमें इन दोनों आयुओंके स्थितिबन्धस्थान तुल्य और सबसे
स्तोक कहे हैं । तथा संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके वे असंख्यातगुणे कहे हैं, क्योंकि पूर्वकोटिके
प्रमाणसे तीन पत्यका प्रमाण असंख्यातगुणा होता है ।

४. पञ्चेन्द्रिय असंज्ञी पर्याप्तके नरकगति और नरकगति प्रायोग्यानुपूर्वीके स्थिति-
बन्धस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्तके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे
हैं । पञ्चेन्द्रिय असंज्ञी पर्याप्तके देवगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देव-
गति प्रायोग्यानुपूर्वीके स्थितिबन्धस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी अपर्याप्तके
स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे इसीके पर्याप्तके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ।

विशेषार्थ—असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके स्थितिबन्धस्थानोंसे संज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त
और पर्याप्तके स्थितिबन्धस्थान उत्तरोत्तर संख्यातगुणे होते हैं यह स्पष्ट ही है, क्योंकि
असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध पत्यका संख्यातवां भाग कम एक हजार

५. आहार०-आहारंगो० सव्वत्थोवा अपुव्वकरण० द्विदिवंधट्टाणाणि१ । संजदस्स द्विदिवंध० संखेज्जगु० । तित्थयरणांमस्स१ सव्वत्थोवा [अपुव्वकरणद्विदिवंधट्टाणाणि ।] संजदस्स द्विदिवंध० [संखेज्जगुणाणि ।] संजदासंजदस्स द्विदिवंध० संखेज्जगु० । असंजदस्स सम्मादिद्विअपज्जत्तयस्स द्विदिवंध० संखेज्जगु० । तस्सेव पज्जत्त० द्विदिवंध० संखेज्जगु० ।

६. तासिं चेव पगदीणं पढमदंडओ सव्वत्थोवा सुहुमस्स अपज्जत्तयस्स संकिलिट्टस्स ट्टाणाणि । वादरअपज्ज० संकिलि०ट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि । एवं याव पंचिदियस्स सण्णस्स मिच्छादिद्विस्स पज्जत्तयस्स संकिलिट्टस्स ट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि त्ति । एवं पढमदंडओ ।

सागर प्रमाण और उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पूरा एक हजार सागर प्रमाण होता है । यहां कुल स्थितिबन्ध विकल्प पल्यके संख्यातवें भागप्रमाण उपलब्ध होते हैं ।

५. अपूर्वकरणके आहारक शरीर और आहारक आङ्गोपाङ्गके स्थितिबन्धस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे संयतके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं । अपूर्वकरणके तीर्थंकर नामकर्मके स्थितिबन्धस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे संयतके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे संयतासंयतके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे असंयत सम्यग्दृष्टि अपर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे असंयत सम्यग्दृष्टि पर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ।

विशेषार्थ—आहारकशरीर, आहारकशरीर आङ्गोपाङ्ग और तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अन्तःकोटाकोटि सागरप्रमाण होता है, फिर भी जघन्य स्थितिबन्धसे इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है । यही कारण है कि यहां इन प्रकृतियोंके स्वामियोंके स्थितिबन्ध स्थानोंका अल्पबहुत्व उत्तरोत्तर संख्यातगुणा कहा है । मात्र आहारकद्विकका बन्ध संयतके ही होता है, इसलिये इनके स्थितिबन्धस्थानोंका अल्पबहुत्व दो स्थानोंमें कहा है और तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध संयत, संयतासंयत तथा पर्याप्त और निर्वृत्यपर्याप्त सम्यग्दृष्टिके होता है, इसलिये इसके स्थितिबन्धस्थानोंका अल्पबहुत्व इन स्थानोंमें कहा है ।

६. उन्हीं प्रकृतियोंका जो प्रथम दण्डक है उनको अपेक्षा सूक्ष्म अपर्याप्तकके संक्लेशरूप स्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे बादर अपर्याप्तकके संक्लेशरूप स्थान असंख्यातगुणे हैं । इस प्रकार पञ्चेन्द्रिय संज्ञी, मिथ्यादृष्टि पर्याप्तकके संक्लेशस्थान असंख्यातगुणे हैं इस स्थानके प्राप्त होनेतक संक्लेश स्थानोंका कथन करना चाहिए । इस प्रकार प्रथम दण्डक समाप्त हुआ ।

विशेषार्थ—पहले १४ जीव-समासोंमें १०७ प्रकृतियोंके स्थितिबन्धस्थानोंका अल्पबहुत्व बतला आये हैं । उन्हीं प्रकृतियोंके संक्लेशस्थानोंका यहां चौदह जीव-समासोंमें अल्पबहुत्व कहा गया है । मूलप्रकृति स्थितिबन्ध स्थानोंका कथन करते समय संक्लेश विशुद्धिस्थानोंका चौदह जीवसमासोंमें जिस क्रमसे निर्देश किया है उसी क्रमसे इस

१. मूलप्रती अपुव्वकरणद्विदिवंधट्टाणाणि असंखे गु० । संजदस्स इति पाठः ।

२. तित्थयरणांमस्स द्विदिवंध० सव्वत्थोवा संजदस्स द्विदिवंध० । संजदा- इति पाठः ।

७. विदियदंडओ देव-णिरयायु० । तदियदंडओ तिरिक्ख-मणुसायु० । चउत्थ-
दंडओ णिरयगदिदुगं । पंचमदंडओ देवगदि०४ । तदो आहारदुगं तित्थयरं । मव्व-
संकिलिट्ठस्स ट्ठाणाणि यथाकमेण असंखेज्जगुणाणि । एवं विसोधिट्ठाणाणि वि
णेदव्वाणि सव्वेसु वि दंडएसु ।

८. अप्पाबहुगं । पंचणाणा०-चदुदंसणा०-सादावेद०-चदुसंज०-पुरिस०-जस०-
उच्चागो०-पंचंतराइगाणं सव्वत्थोवा संजदस्स जहरणओ द्विदिबन्धो । बादरएइंदिय-
पज्जत्तयस्स जहरणओ द्विदिबन्धो असंखेज्जगु० । एवं याव पंचिदिय० सरिण०
मिच्छादिट्ठि० पज्जत्तस्स उक्कस्सओ द्विदिबन्धो संखेज्जगुणो त्ति ।

प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके चौदह जीवसमासोंमें संक्लेश-विशुद्धिस्थान जानने
चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

७. दूसरा दण्डक देवायु और नरकायुका है । तीसरा दण्डक तिर्यञ्च आयु और मनुष्या-
युका है । चौथा दण्डक नरकगतिद्विकका है । पाँचवाँ दण्डक देवगति चतुष्कका है । इसके
बाद आहारक द्विक और तीर्थकर प्रकृति है । इनकी अपेक्षा सर्व संक्लेश स्थान क्रमसे असं-
ख्यातगुणे हैं । तथा सभी दण्डकोंमें इसी प्रकार विशुद्धि स्थान जानने चाहिए ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें जो तेरह प्रकृतियाँ छोड़ दी गई थीं उनके स्थितिबन्ध-
स्थानोंके ही यहाँ संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंका क्रमसे निर्देश किया गया है । प्रथम दण्डकमें
कही गई १०७ प्रकृतियोंमेंसे प्रत्येकके जितने संक्लेशविशुद्धिस्थान होते हैं उनसे दूसरे दण्ड-
कमें कही गई देवायु और नरकायु इनमेंसे प्रत्येकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे होते
हैं । इनसे तीसरे दण्डकमें कही गई तिर्यञ्चायु और मनुष्यायु इन दो प्रकृतियोंमेंसे प्रत्येकके
संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे होते हैं । इनसे चौथे दण्डकमें कही गई नरकगति और
नरकगति प्रायोग्यानुपूर्वी इन दो प्रकृतियोंमेंसे प्रत्येकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे
होते हैं । इनसे पाँचवें दण्डकमें कही गई देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियिक शरीर और
वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग इन चार प्रकृतियोंमेंसे प्रत्येकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे
होते हैं । इनसे आहारकद्विकमेंसे प्रत्येकके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे होते
हैं और इनसे तीर्थकर प्रकृतिके संक्लेश-विशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे होते हैं । यहाँ मूलमें
संक्लेशस्थान किसके कितने गुणे होते हैं यह कहा है और अन्तमें यह कहा है कि इसी
प्रकार विशुद्धिस्थान भी जानने चाहिए । सो इस कथनका यह अभिप्राय है कि जिसके
जितने संक्लेश-स्थान होते हैं उसके उतने ही विशुद्धिस्थान भी होते हैं ।

८. अल्पबहुत्व, यथा—संयतके पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय,
चार सञ्ज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध
सबसे स्तोक है । इससे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है ।
इस प्रकार अन्तमें पञ्चेन्द्रिय संज्ञी, मिथ्यादृष्टि पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है
इस स्थानके प्राप्त होनेतक अल्पबहुत्व जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ जो बाईस प्रकृतियाँ गिनाई हैं उनमेंसे साता वेदनीय और चार
सञ्ज्वलन इनका जघन्य स्थितिबन्ध नवमें गुणस्थानमें होता है और शेषका दशवें गुण-
स्थानके अन्तिम समयमें होता है । इसीसे संयतके इनका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक
कहा है । इसके आगे इनके स्थितिबन्धका अल्पबहुत्व जिस प्रकार मूल प्रकृति स्थितिबन्धकी

६. थीणगिद्धितिय-मिच्छत्त-अणंताणुबंधि०४-तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो-वणीचागोद० सव्वत्थोवा बादरएइंदियपज्जत्तयस्स जहएणओ द्विदिबंधो । एवं याव मिच्छादिट्ठि त्ति रोदव्वं । एवरि सम्मादिट्ठि० बंधो एत्थि ।

१०. णिहा-पचला-छरणोकसाय-असाद-पंचिंदियजादि-तेजा०-कम्म०-समचदु०-वणण०४-अगुरुग०४-पसत्थ०-तस०४-धिराधिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज०-अजस०-णिमिणणामाणं सव्वत्थोवा बादरएइंदियपज्जत्तयस्स जहएणओ० । एवं पंचिंदिय० सणिएण० पज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो त्ति ।

११. अपचक्खाणावर०-मणुसगदि-ओरालिय०-ओरालिय०अंगो०-वज्जरि-सभ०-मणुसाणु० सव्वत्थोवा बादरएइंदियपज्जत्तयस्स जहएणओ० । एवं याव पंचिंदिय० सणिएण० मिच्छादिट्ठि० द्विदिबंधो संखेज्जगुणो त्ति । एवरि [संजदे संजदा-संजदे एत्थि ।

प्ररूपणाके समय कह आये हैं उसी प्रकार यहां जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

९. स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगति प्रायो-ग्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्र इनका बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक होता है। इसी प्रकार मिथ्यादृष्टिक अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनका सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता।

विशेषार्थ—मूल प्रकृति स्थितिबन्धका कथन करते समय बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकसे लेकर संबन्धी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकतक जिस प्रकार अल्पबहुत्व कह आये हैं उसी प्रकार यहां कहना चाहिए। इन प्रकृतियोंका बन्ध सम्यग्दृष्टिके नहीं होता यह स्पष्ट ही है।

१०. निद्रा, प्रचला, छह नोकषाय, असाता वेदनीय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माण इन प्रकृतियोंका बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक होता है। इस प्रकार आगे पञ्चेन्द्रिय संबन्धी पर्याप्तकके इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है, इस स्थानके प्राप्त होनेतक जानना चाहिए।

विशेषार्थ—यहाँपर भी बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकसे लेकर पञ्चेन्द्रिय संबन्धी पर्याप्तकतक जिस प्रकार मूल प्रकृति स्थितिबन्धका कथन करते समय अल्पबहुत्व कह आये हैं उसी प्रकार जानना चाहिए। मात्र इनका बन्ध सम्यग्दृष्टि और संयतके भी होता है इतना विशेष जानकर अल्पबहुत्व कहना चाहिए।

११. अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क, मनुष्यगति, औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन और मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी इन प्रकृतियोंका बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक होता है। इस प्रकार आगे पञ्चेन्द्रिय संबन्धी मिथ्यादृष्टिके इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है, इस स्थानके प्राप्त होनेतक अल्पबहुत्व जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनका बन्ध संयत और संयतासंयतके नहीं होता।

१. एवरि.....सव्वत्थोवा बादरएइंदिय— इति पाठः ।

१२. पञ्चक्रवाणावर० ४] सव्वत्थोवा बादरएइंदियपज्ज० जह० । एवं याव पंचिंदिय-सरिण-मिच्छादिट्ठिपज्जत्तग ति । एवरि संजदे एत्थि ।

१३. इत्थि०-एवुंस०-चदुजादि-पंचसंठाण०-पंचसंघड०-आदाव-अप्पसत्थवि०-थावर०४-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज० सव्वत्थोवा बादरएइंदियपज्जत्त० जह० । एवं याव असरिण-पंचिंदिय-पज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिबन्धो विसेसाधियो । तदो पंचिंदिय-सरिण-पज्जत्तयस्स जह० द्विदिबं० संखेज्जगु० । तस्सेव अपज्जत्त० जह० द्विदिबं० संखेज्जगु० । [तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिबन्धो संखेज्जगुणो ।] तस्सेव पज्जत्त० उक्क० द्विदिबं० संखेज्जगु० ।

१४. णिरय-देवायूणं सव्वत्थोवा पंचिंदियस्स सरिणस्स असरिणस्स पज्जत्त० जह० द्विदिबं० । पंचिदि० असरिण० पज्जत्तयस्स उक्कस्स० द्विदिबं० असंखेज्जगु० । पंचिंदिय-सरिण-पज्जत्तयस्स उक्क० द्विदिबं० असंखेज्जगु० ।

विशेषार्थ—इनका अल्पबहुत्व पूर्वोक्त प्रकारसे ही घटित कर लेना चाहिए । मात्र इनका बन्ध असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान तक ही होता है इतना विशेष जानकर अल्पबहुत्व कहना चाहिए; क्योंकि इनकी बन्धव्युच्छित्ति चौथे गुणस्थानमें हो जाती है । आगे संयतासंयत और संयत जीवोंके इनका बन्ध नहीं होता ।

१२. प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक होता है । इस प्रकार पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्त इस स्थानके प्राप्त होनेतक अल्पबहुत्व जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनका बन्ध संयतके नहीं होता है ।

विशेषार्थ—देशसंयत गुणस्थानतक इन प्रकृतियोंका बन्ध होता है इतनी विशेषताको ध्यानमें रखकर इनका अल्पबहुत्व पूर्वोक्त विधिसे कहना चाहिए ।

१३. स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, एकेन्द्रियजाति आदि चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, आतप, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर चतुष्क, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय इनका बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इस प्रकार क्रमसे आगे जाकर असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी अपर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी अपर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ।

विशेषार्थ—इन प्रकृतियोंका बन्ध सम्यग्दृष्टि और संयतके नहीं होता, इसलिए अल्पबहुत्वमेंसे इन स्थानोंके अल्पबहुत्वको कम करके उक्त प्रकारसे इनका अल्पबहुत्व कहना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

१४. नरकायु और देवायुका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय असंज्ञी पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे पञ्चेन्द्रिय असंज्ञी पर्याप्तके इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्तके इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय संज्ञी और असंज्ञी पर्याप्तके उक्त दोनों आयुओंका जघन्य स्थितिबन्ध दस हजार वर्षप्रमाण होता है । पञ्चेन्द्रिय असंज्ञी पर्याप्तके इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है और पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्तके इनका उत्कृष्ट स्थिति-

१५. तिरिक्ख-मणुसायूणं चोइसजीवसमासाणं जह० द्विदि० तुन्ला थोवा ।
तेरसएणं जीवसमासाणं उक्क० द्विदिबं० संखेज्जगु० । पंचिंदिय-सएिण-पज्जत्तयस्स
उक्क० द्विदिबं० असं० गु० ।

१६. एरियगदि-एरियाणुपु० [सव्वत्थोवा] पंचिंदिय-असएिण-पज्जत्त०
जह० द्विदि० बं० । तस्सेव उक्क० द्विदिबं० विसेसाधियो । पंचिंदिय-सएिण-पज्जत्त०
जह० द्विदिबं० संखेज्जगु० । तस्सेव उक्क० द्विदिबं० संखेज्जगु० ।

१७. देवगदि०४ सव्वत्थोवा पंचिंदियस्स असएिण० पज्जत्तयस्स जह० द्विदि-
बं० । तस्सेव उक्क० द्विदिबं० विसे० । संजदस्स जह० द्विदिबं० संखेज्जगु० । तस्सेव
उक्कस्स० द्विदिबं० संखेज्जगु० । एवं संजदासंजदा असंजदत्तारि । पंचिंदिय०
सएिण० मिच्छादिद्वि० पज्जत्त० जह० द्विदिबं० संखेज्जगु० । तस्सेव उक्क० द्विदि-
बं० संखेज्जगु० ।

बन्ध तैंतीस सागरप्रमाण होता है । यतः ये स्थितियाँ उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी हैं इससे
यहां उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा स्थितिबन्ध कहा है ।

१५. तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका चौदह जीवसमासोंमेंसे प्रत्येकके जघन्य स्थिति-
बन्ध एक समान और सबसे स्तोक होता है । इससे तेरह जीवसमासोंमेंसे प्रत्येकके उत्कृष्ट
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है । इससे संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध
असंख्यातगुणा होता है ।

विशेषार्थ—चौदह जीवसमासोंमें उक्क दोनों आयुओंका जघन्य स्थितिबन्ध ध्रुल्लक
भवग्रहणप्रमाण होता है । अन्तिम जीवसमासको छोड़कर शेष तेरहमें इनका उत्कृष्ट स्थिति-
बन्ध पूर्वकोटिवर्षप्रमाण होता है और पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्तके इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध
तीन पल्यप्रमाण होता है । यतः यहां प्रथमसे दूसरा संख्यातगुणा और दूसरेसे तीसरा असं-
ख्यातगुणा है अतः इनका उक्क प्रकारसे अल्पबहुत्व कहा है ।

१६. नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीका पञ्चेन्द्रिय असंज्ञी पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध
सबसे स्तोक होता है । इससे इसीके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक होता है । इससे
पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है । इससे इसीके उत्कृष्ट
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर पञ्चेन्द्रिय असंज्ञी पर्याप्तके स्थितिबन्धके कुल विकल्प पल्यके
संख्यातवें भागप्रमाण हैं और पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्तके अन्तःकोटाकोटि सागरसे लेकर अपने
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तक हैं । यही कारण है कि उक्त प्रकृतियोंका पूर्वोक्त जीवसमासोंमें उक्त
प्रकारसे अल्पबहुत्व घटित हो जाता है ।

१७. देवगतिचतुष्कका पञ्चेन्द्रिय असंज्ञी पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक
है । इससे उसीके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे संयतके जघन्य स्थितिबन्ध
संख्यातगुणा है । इससे उसीके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इस प्रकार इससे आगे
संयतासंयत और असंयतचतुष्कके अल्पबहुत्व कहना चाहिए । पुनः इससे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी
मिथ्यादृष्टि पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे इसीके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध
संख्यातगुणा है ।

१८. [आहारदुगस्स सव्वत्थोवा अपुव्वकरणस्स] जह० द्विदिबं० । [तस्सेव-उक्कस्स० द्विदिबन्धो] । संखेज्जगु० । अपमत्तसंज० जह० द्विदिबं० संखेज्जगु० । तस्सेव उक्कस्स० द्विदिबं० संखेज्जगु० । तित्थयरस्स सव्वत्थोवा अपुव्वकरणस्स जह० द्विदिबन्धो । तस्सेव उक्क० द्विदिबं० संखेज्जगु० । एवं याव असंजदसम्मादिद्वि त्ति ऐदव्वं । एवं द्विदिबन्धट्ठाणपरूवणा समत्ता ।

णिसेगपरूवणा

१९. णिसेगपरूवणादाए दुवे अणियोगदाराणि-अणंतरोवणिधा परंपरोवणिधा य । अणंतरोवणिधाए पंचिंदियाणं सणणीणं मिच्छादिद्वीणं सव्वपगदीणं आयु-वज्जाणं अप्पणो आबाधं मोत्तूणं यं पढमसमए [पदेसगं णिसित्तं तं बहुगं । जं विदियसमए पदेसगं णिसित्तं तं विसेसहीणं । जं तदियसमए पदेसगं णिसित्तं तं] विसेसहोणं । एवं विसेसहीणं विसे० याव उक्कस्सिया अप्पणो द्विदि त्ति । एवं पंचिंदियसणियाअपज्जत्त-असणियापंचिंदिय-चदुरिं०-[तेइंदिय-] वीइंदि०-एइंदि०-पज्जत्तापज्जत्त० सव्वपगदीणं सणियाभंगो ।

विशेषार्थ—संयतके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे संयतासंयतके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे इसीके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे असंयतसम्यग्दृष्टि पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे असंयत सम्यग्दृष्टि अपर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । इससे इसीके पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इस प्रकार सम्बन्ध मिलाकर देवचतुष्कके स्थितिबन्धका अल्पबहुत्व कहे । शेष कथन सुगम है ।

१८. आहारकद्विकका अपूर्वकरणके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे उसीके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे अप्रमत्तसंयतके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे उसीके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । तीर्थकर प्रकृतिका अपूर्वकरणके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे उसीके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इस प्रकार असंयत सम्यग्दृष्टि स्थानके प्राप्त होने तक अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिए ।

विशेषार्थ—आहारकद्विकका अप्रमत्तसंयत आदि दो और तीर्थकर प्रकृतिका असंयत-सम्यग्दृष्टि आदि पाँच गुणस्थानोंमें बन्ध होता है, इसलिए इसी विशेषताको ध्यानमें रखकर इनके जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अल्पबहुत्व कहा है ।

इस प्रकार स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा समाप्त हुई ।

निषेकप्ररूपणा

१९. अब निषेकप्ररूपणाका कथन करते हैं । उसके ये दो अनुयोगद्वार हैं—अनन्तरोपनिधा और परंपरोपनिधा । अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीवोंके आयुकर्मके सिवा सब प्रकृतियोंके अपनी अपनी आबाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्म परमाणु निक्षिप्त होते हैं वे बहुत हैं । जो दूसरे समयमें निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं । जो तीसरे समयमें निक्षिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं । इस प्रकार अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थितिमें उत्तरोत्तर विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निक्षिप्त होते हैं । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय संज्ञी अपर्याप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अप-

२०. परंपरोवणिधाए पंचिदियाणं सएणीणं असएणीणं पज्जत्तगाणं सव्वपग-
दीणं पढमसमयपदेसग्गादो तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणहीणा ।
एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा याव उक्कस्सिया द्विदि त्ति ।

२१. एयपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरं असंखेज्जाणि पलिदोवमवग्गमूलाणि । एणा-
पदेसगुणहाणिट्ठाणंतराणि पलिदोवमवग्गमूलस्स असंखेज्जदिभागो । एणापदेस-
गुणहाणिट्ठाणंतराणि थोवाणि । एयपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरमसंखेज्जगुणं । एवं
पंचिदियसएणा-असएणाअपज्जत्त-चदुरिंदि०-तीइंदि०-बीइंदि०-एइंदि०पज्जत्ता-
पज्जत्ताणं आयुगवज्जाणं सव्वपगदीणं । एवं णिसेगपरूवणा समत्ता ।

आवाधाकंडयपरूवणा

२२. आवाधाखंडयपरूवणादाए पंचिदियाणं सएणीणं चदुरिंदि०-तीइंदि०-
बीइंदि०-एइंदि० आयुगवज्जाणं सव्वपगदीणं अप्पणो उक्कस्सियादो द्विदीदो समए
समए पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तं ओसक्किदूण एयं आवाधाखंडयं करेदि ।
एस कमो याव जहएणाद्विदि त्ति ।

र्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त, त्रीन्द्रिय पर्याप्त, त्रीन्द्रिय अपर्याप्त, द्वीन्द्रिय
पर्याप्त, द्वीन्द्रिय अपर्याप्त, एकेन्द्रिय पर्याप्त और एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी
निषेकप्ररूपणा संखियोंके समान है ।

२०. परम्परोपनिधाकी अपेक्षा पञ्चेन्द्रिय संबन्धी पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय असंबन्धी पर्याप्त
जीवोंके सब प्रकृतियोंके प्रथम समयमें निश्चित हुए परमाणुओंसे लेकर पत्यके असंख्यातवें
भागप्रमाण स्थान जाने पर वे द्विगुणहीन होते हैं । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होने
तक वे द्विगुणहीन द्विगुणहीन होते जाते हैं ।

२१. एकप्रदेशद्विगुणहानिस्थानान्तर पत्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है और
नानाप्रदेशद्विगुणहानिस्थानान्तर पत्यके प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । नाना-
प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर स्तोक हैं । इनसे एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुरे हैं ।
इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय संबन्धी अपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय असंबन्धी अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, चतुरि-
न्द्रिय अपर्याप्त, त्रीन्द्रिय पर्याप्त, त्रीन्द्रिय अपर्याप्त, द्वीन्द्रिय पर्याप्त, द्वीन्द्रिय अपर्याप्त, एके-
न्द्रिय पर्याप्त और एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके आयुओंके सिवा शेष सब प्रकृतियोंकी परम्परो-
पनिधा जाननी चाहिए ।

इस प्रकार निषेकप्ररूपणा समाप्त हुई ।

आवाधाकाण्डकप्ररूपणा

२२. अब आवाधाकाण्डककी प्ररूपणा करते हैं । उसकी अपेक्षा पञ्चेन्द्रिय संबन्धी,
पञ्चेन्द्रिय असंबन्धी, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और एकेन्द्रिय जीवोंमें आयुकर्मके सिवा
सब प्रकृतियोंका अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिसे समय समय उतरते हुए पत्यके असंख्यातवें
भागप्रमाण स्थिति उतरकर एक आवाधाकाण्डक करता है और यह क्रम अपनी अपनी जघन्य
स्थितिके प्राप्त होने तक चालू रहता है ।

अप्पावहुगपरूवणा

२३. अप्पावहुगं—पंचिदियाणं सरणीणं पंचणाणा०-चदुदं०-सादावेदणी०-चदुसंज०-पुरिस०-जसगित्ति-उच्चागो०-पंचंतरा० सव्वत्थोवा जहणिया आबाधा । जहणयाओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । आबाधाट्टाणाणि आबाधाखंडयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सिया आबाधा विसेसाधिया । एवं याव उक्कस्सओ द्विदिवंधो त्ति ।

२४. सेसाणं आयुगवज्जाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जहणिया आबाधा । आबाधाट्टाणाणि आबाधाखण्डयाणि य दो वि तुल्लाणि संखेज्जगुणाणि । उक्कस्सिया आबाधा विसेसाधिया । उवरि मूलपगदिवंधो । आयुगाणमपि मूलपगदिभंगो । एवं असणिएपंचिदिय-चदुरिं०-तीईं०-वीईं०-एइंदियाणं मूलपगदिभंगो कादव्वो । एवं अप्पावहुगं समत्तं ।

चउवीसअणिओगद्वारपरूवणा

२५. एदेण अट्टपदेण तत्थ इमाणि चदुवीसमणियोद्वाराणि—अद्धाच्छेदो

अल्पबहुत्वपरूपणा

२३. अब अल्पबहुत्वका विचार करते हैं । इसकी अपेक्षा पञ्चेन्द्रिय संज्ञी जीवोंके पाँचों ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँचों अन्तराय प्रकृतियोंकी जघन्य आबाधा सबसे स्तोक है । इससे जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इससे आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक ये दोनों समान होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिवन्धके प्राप्त होने तक अल्पबहुत्व जानना चाहिए ।

२४. आयुके सिवा शेष सब प्रकृतियोंकी जघन्य आबाधा सबसे स्तोक है । इससे आवाधास्थान और आवाधाकाण्डक ये दोनों समान होकर संख्यातगुणे हैं । इससे उत्कृष्ट आवाधा विशेष अधिक है । इससे आगे मूलप्रकृति स्थितिवन्धमें कहे गये अल्पबहुत्वके समान जानना चाहिए । चारों आयुओंकी अपेक्षा भी अल्पबहुत्व मूलप्रकृति स्थितिवन्धमें कहे गये अल्पबहुत्वके समान जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, और एकेन्द्रिय जीवोंके मूल प्रकृतिस्थितिवन्धके समान अल्पबहुत्व कहना चाहिए ।

विशेषार्थ—पहले मूलप्रकृति स्थितिवन्धका कथन करते समय चौदह जीवसमासोंमें मूल प्रकृतियोंका उनकी स्थितिका आश्रय लेकर अल्पबहुत्व कह आये हैं । उसे ध्यानमें रखकर यहाँ पर भी प्रत्येक कर्मकी प्रकृतियोंका स्थितिवन्ध आवाधा और आवाधाकाण्डकके आश्रयसे अल्पबहुत्व जान लेना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

चौबीस अनुयोगद्वारपरूपणा

२५. इस अर्थ पदके अनुसार यहाँ ये चौबीस अनुयोगद्वार होते हैं—अद्धाच्छेद, सर्व-

सव्वबंधो णोसव्वबंधो याव अप्पावहुगे त्ति २४ । भुजगारबंधो पदणिकखेओ वड्ढि-
बंधो अज्भवसाणसमुदाहारो जीवसमुदाहारो त्ति ।

अद्दाच्छेदपरूवणा

२६. अद्दाच्छेदो दुविधो—जहणणओ उक्कस्सओ य । उक्कस्सए पगदं । दुविधो
णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण पंचणाणा०-एवदंसणा०-असादावे०-पंचंतरा०
उक्कस्सओ द्विदिवंधो तीसं सागरोवमकोडाकोडीओ^१ । तिण्णिण वस्ससहस्साणि
आबाधा । आबाधूणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेगो ।

२७. सादावेदो-इत्थिवे०-मणुसगदि-मणुसाणु० उक्क० द्विदिवंधं० पण्णारस
सागरोवमणि कोडाकोडीओ^२ । पण्णारस वाससदाणि आबाधा । आबाधू०
कम्मद्विदी कम्मणिसेगो ।

२८. मिच्छत्तं उक्क० द्विदिवंधं० सत्तरि सागरोवमणि कोडाकोडीओ^३ । सत्त वस्स-
सहस्साणि आबाधा । आबाधूणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेगो । सोलसकसा० उक्क०
द्विदि० चत्तालीसं सागरोवमणि कोडाकोडीओ^४ । चत्तारि वस्ससहस्साणि आबाधा ।
आबाधूणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेगो । पुरिस०-हस्स-रदि-देवगदि०-समचदु०-

बन्ध और नोसर्वबन्धसे लेकर अल्पबहुत्व तक २४ । भुजगारबन्ध, पदनिक्षेप, वृद्धिबन्ध,
अध्यवसानसमुदाहार और जीवसमुदाहार ।

विशेषार्थ—इन अधिकारोंके विषयमें हम मूलप्रकृतिस्थितिवन्धका विवेचन करते समय
लिख आये हैं, इसलिए वहाँसे जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए ।

अद्दाच्छेदपरूवणा

२६. अद्दाच्छेद दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी
अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शना-
वरण, असातावेदनीय और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध तीस कोडाकोड़ी
सागर है । तीन हजार वर्ष आबाधा है, और आबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्म-
निषेक है ।

२७. साता वेदनीय, स्त्रीवेद, मनुष्यगति और मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वीका उत्कृष्ट
स्थितिवन्ध पन्द्रह कोडाकोड़ी सागर है । पन्द्रह सौ वर्ष प्रमाण आबाधा है और आबाधासे
न्यून कर्म स्थितिप्रमाण कर्म निषेक है ।

२८. मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सत्तर कोडाकोड़ी सागर है, सात हजार वर्षप्रमाण
आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्म स्थितिप्रमाण कर्म निषेक है । सोलह कषायोंका उत्कृष्ट
स्थितिवन्ध चालीस कोडाकोड़ी सागर है, चार हजार वर्ष प्रमाण आबाधा है और आबाधासे
न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्म निषेक है । पुरुषवेद, हास्य, रति, देवगति, समचतुरस्रसंस्थान,

१. हुक्खतिघादीणोघं । गो० क० गा० १२८ । २. सादित्थीमणुदुगे तदद्धं तु । गो० क०
गा० १२८ । ३. 'सत्तरि दंसणमोहे ।'—गो० क० गा० १२८ । ४. 'चारित्तमोहे य चत्तालं ।'—गो०
क० गा० १२८ ।

वज्ररिसभ०-देवाणुपु०-पसत्थवि०-थिरादिद्वक०-उच्चागो० उक्क० द्विदि० दस साग-
रोवमकोडाकोडीओ' । दस वस्ससदाणि आबाधा । आबाधूणिया कम्मद्विदी कम्म-
णिसेगो । एवु'सगवे०-अरदि-सोग-भय-दुगुंछ-णिरयगदि-तिरिक्खगदि-एइंदिय०-
पंचिंदिय०-ओरालिय०-वेउन्विय-तेजा०-क०-हुंडसंठा'०-ओरालिय०-वेउन्विय०
अंगो०-असंमत्तसेवट्टसंघड०-वणण०४-णिरय-तिरिक्खाणु०-अगुरु०४-आदाउज्जो०-
अप्पसत्थवि०-[तस०-] थावर-बादर-पज्जत्त-पत्तेय-अथिरादिद्वक-णिमिण-णीचागोदाणं
उक्क० द्विदिबन्धो बीसं सागरोवमकोडाकोडीओ' । वे वस्ससहस्साणि आबाधा ।
आबाधूणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेगो ।

२६. णिरय-देवायूणं उक्क० द्विदि० तेत्तीसं सागरोवम० । पुव्वकोडितिभागं
आबाधा । कम्मद्विदी कम्मणिसेगो । तिरिक्ख-मणुसायूणं उक्कस्स० द्विदि० तिणिए
पलिदोवम०' । पुव्वकोडितिभागं च आबाधा० । कम्मद्विदी कम्मणिसेगो ।

३०. बीइंदि०-तेइंदि०-चदुरिंदि०-वामण०-खीलियसंघडण-सुहुम-अपज्जत्त-
साधारणाणं उक्क० द्विदि० अट्टारस सागरोवमकोडाकोडीओ' । अट्टारस वाससदाणि
आबाधा । आबाधूणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेगो । एण्णोध०-वज्जणारा० उक्क०

वज्रर्षभनाराचसंहनन, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिरादिक छह और
उच्च गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध दश कोडा-कोडी सागर है, एक हजार वर्ष प्रमाण आबाधा है
और आबाधासे न्यून कर्म स्थितिप्रमाण कर्म निषेक है । नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय,
जुगुप्सा, नरकगति, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, वैक्रियिक
शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग,
असम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन, वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु
चतुष्क, आतप, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, त्रस, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर,
अस्थिर आदिक छह, निर्माण और नीच गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बीस कोडाकोडी सागर
है । दस हजार वर्ष प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्म निषेक है ।

२९. नरकायु और देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तैत्तीस सागर है । पूर्वकोटिका
त्रिभाग प्रमाण आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्म निषेक है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका
उत्कृष्ट स्थिति तीन पत्यप्रमाण है । पूर्वकोटिका त्रिभागप्रमाण आबाधा है और कर्मस्थिति-
प्रमाण कर्म निषेक है ।

३०. द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, वामन संस्थान, कोलक
संहनन, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अट्टारह कोडाकोडी सागर
है । अट्टारह सौ वर्ष आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है ।

१. 'हस्सरदिउच्चपुरिसे थिरद्वकके सत्थगमेणदेवदुगे । तस्सद्धं-गो० क० गा० १३२ । २. संठाण-
संहदीणं षरिमस्सोचं ।'—गो० क० गा० १२९ । ३. 'अरदीसोगे संढे तिरिक्खभयणिरयतेजुरालदुगे । वेगु-
व्वादावदुगे णीचे तसवयणअगुरुत्तिचउक्के ॥१३०॥ इगिपंचिंदियथावरणिमिणा सगमणअथिरद्वककाणं । बीसं
कोडाकोडी सागरणामाणमुक्कस्सं ॥१३१॥' गो० क० । ४. सुरणिरयाऊणोघं णरतिरियाऊण तिणिए
पस्सायि गो० क० गा० १३३ । ५. 'दुहीणमादि ति ।'—गो० क० गा० १२९ ।

६. अट्टारस कोडाकोडी वियलाणं सुहुमत्तियहं च ।'—गो० क० गा० १२९ ।

द्विदि० बारस सागरोवमकोडाकोडीओ । बारस वस्ससदाणि आबाधा । आबाधुणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेगो । सादिय०-णारायसं० उक्क० द्विदि० चोदस सागरोवम-कोडाकोडीओ । चोदस वस्ससदाणि आबाधा । आबाधुणिया कम्मद्विदी कम्मणि-सेगो । खुज्जसं०-अद्धणा०, उक्क० द्विदि० सोलस सागरोवमकोडाकोडीओ । सोलस वस्ससदाणि आबाधा । आबाधुणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेगो । आहार०-आहार०-अंगो०-तित्थय० उक्क० द्विदि० अंतोकोडाकोडीओः । अंतोमुहुत्तं आबाधा । आबा-धुणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेगो ।

३१. आदेसेण गेरइएसु णाणावर०-दंसणावरण-वेदणी०^१ मोहणी० छुवीसं णामा-गोदे अंतराइ० मूलोपं । तिरिक्ख-मणुसायुगाणं उक्क० द्विदि० पुव्वकोडी । छम्मासाणि आबा० । कम्म० कम्मणिसेगो । तित्थस्स उक्क० द्विदि० अंतोकोडा-कोडीओ । अंतोमुहुत्तं आबा० । आबाधू० कम्मद्वि० कम्माणि० । एवं सत्तसु पुढवीसु । एवरि सत्तमाए पुढवीए मणुसगदि-मणुसाणुपुव्वि०-उच्चागो० उक्क० द्विदि० न्यप्रोध परिमण्डल संस्थान और वज्रनाराचसंहननका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बारह कोड़ाकोड़ी सागर है । बारह सौ वर्ष प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्म-निषेक है । स्वातिसंस्थान और नाराचसंहननका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध चौदह कोड़ाकोड़ी सागर है । चौदह सौ वर्ष प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्म-निषेक है । कुब्जक संस्थान और अर्द्धनाराचसंहननका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सोलह कोड़ा-कोड़ी सागर है । सोलह सौ वर्ष प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । आहारक शरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग और तीर्थंकर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थिति-बन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर है । अन्तर्मुहूर्त आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थिति-प्रमाण कर्मनिषेक है ।

विशेषार्थ—पहले मूल प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कितना होता है यह बतला आये हैं । यहाँ उनकी उत्तर प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कितना होता है यह बतलाया गया है । किसी एक या एकसे अधिक उत्तर प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध जितना अधिक होता है उसीको ध्यानमें रखकर पहले मूल प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कहा गया है । उदाहरणार्थ—मोहनीय कर्मका सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मिथ्यात्वके उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेक्षासे कहा गया है ।

३१. आदेशसे नारकियोंमें ज्ञानावरण,- दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीयकी छुवीस प्रकृतियाँ, नाम, गोत्र और अन्तरायकी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध आदि मूलोपके समान है । तिर्यञ्च आयु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पूर्वकोटिप्रमाण है । छह माह प्रमाण आबाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । तीर्थंकर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थिति-बन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें मनुष्यगति, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अन्तः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और

१. 'अंतोकोडाकोडी आहारतित्थये ।'—गो० क० गा० १३२ ॥ २. मूलप्रती मोहणी० चउवीसं णामा— इति पाठः ।

अंतोकोडाकोडीओ । अंतोमुहुत्तं आवाधा । आवाधू० कम्मट्टि० कम्मणिसे० ।
चदुसु हेट्टिमासु तित्थयरं च एत्थि ।

३२. तिरिक्खेसु पंचणा०-एवदंसणा०-दोवेदणी०-मोहणी०-छब्बीसं गिरय-
तिरिक्ख-मणुसायु० मूलोघं । देवायु० उक्क० ट्टिदि० बावीसं सागरोवमाणि । पुव्व-
कोडिभिभागं आवाधा । कम्मट्टि० कम्मणि० । तिरिक्खतिय-एइंदि०-वीइंदि०-
तेइंदि०-चदुरिंदि०-ओरालिय०-वामण०-ओरालि०-अंगो०-खीलिय०-असंपत्तसेवट्ट०-
तिरिक्खाणुपुव्वि-आदाउज्जोव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त०-साधार० उक्क० ट्टिदि० अट्टारस
साग०कोडाकोडीओ । अट्टारस वाससदाणि आवा० । [आवाधू० कम्मट्टि०
कम्म-] णिसेगो । सेसाणं णामपगदीणं गोद-अंतराइगाणं च मूलोघं । एवं पंचिदियति-
रिक्खपंचिदियतिरिक्खपज्जत्त-जोणिणीसु । पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तेसु सव्वपगदीणं
उक्क० ट्टिदि० अंतोकोडाकोडीओ । अंतोमु० आवा० । आवाधू० कम्मट्टि० कम्म-
णिसे० । एवरि तिरिक्ख-मणुसायु० उक्क० ट्टिदि० पुव्वकोडी । अंतोमु० आवा० ।
कम्मट्टि० कम्मणिसे० ।

३३. मणुस०३ देवायु० आहारदुगं तित्थयरं च मूलोघं । सेसं पंचिदिय-
तिरिक्खभंगो । मणुसअपज्जत्ता० पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

आवाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । तथा नीचेकी चार पृथिवियोंमें तीर्थकर प्रकृति नहीं है ।

३२. तिर्यञ्चोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, छब्बीस मोहनीय, नरकायु, तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका कथन मूलोघके समान है । देवायुका उत्कृष्ट स्थिति-बन्ध बाईस सागर प्रमाण है । पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण आवाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । तिर्यञ्च त्रिक, एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, वामन संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, कीलक संस्थान, अप-म्प्राप्तासृपाटिका संहनन, तिर्यञ्चगति प्रायोग्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अठारह कोडाकोड़ी सागर है । अठारह सौ वर्ष प्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । तथा नामकर्मकी शेष प्रकृतियाँ, गोत्र और अन्तराय कर्मकी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध आदि मूलोघके समान है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंमें जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अन्तःकोडाकोड़ी सागर प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आवाधा है और आवाधा से न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पूर्वकोटि प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आवाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है ।

३३. मनुष्यत्रिकमें देवायु, आहारकव्रिक और तीर्थकर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध आदि मूलोघके समान है । शेष भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है ।

३४. देवेषु पंचणा०-एवदंस०-दोवेदणीय०-मोहणी०-छ्वीसपगदीओ एामस्स
एइंदि०-आदाव-थावर० गोदंतराइयं च मूलोधं । दो आयु० सेसणाम०
तित्थयरस्स णिरयोधं । भवणवासि-वाणवेंतर-जोदिसिय-सोधम्मीसाण० पंचिंदिय-
जादि-वामणसंठा०-ओरालि०-अगो०-खीलिय०-असंपत्त०-अप्पसत्थवि०-तस-दुस्सर०
उक्क० द्विदि० अट्टारस सागरोवमकोडाकोडीओ । अट्टारस वस्ससदाणि आबाधा ।
आबाधु० कम्मट्ठि० कम्मणिसेगो । सेसाणं पगदीणं देवोधं । एवरि भवण०-वाण-
वेंत०-जोदिसिय० तित्थकरं एत्थि । सणक्कुमार याव सहस्सार त्ति णिरयभंगो ।
आणद याव सव्वट्ट त्ति सव्वपगदीणं उक्कस्स० द्विदि० अंतोकोडाकोडीओ ।
अंतोमुहु० आवा० । [आबाधु० कम्मट्ठि० कम्म-] णिसगो । मज्जुसायु० देवोधं ।

३५. एइंदिय-बादरएइंदिय० तस्सेव पज्जत्ता० पंचणाणा०-एवदंसणा०-
असाद०-मिच्छत्त०-सोलसक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुच्छ०-तिरिक्खगदि-
एइंदिय०-ओरालिय-तेजा-क०-हुंडसंठा०-वएण०४-तिरिक्खगदिपा०-अगुरु०-उपघा०-
थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साधारण-अथिर-असुभ-दूभग-अणादेज्ज-अजस०-णिमिण-
णीचागो०-पंचंतरा० उक्क० द्विदि० सागरोवमस्स त्तिण सत्तभागा सत्त सत्तभागा
चत्तारि सत्तभागा वे सत्तभागा । अंतोमु० आवा० । [आबाधु० कम्मट्ठि०] कम्म-

३४. देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, छ्वीस मोहनीय, नाम-
कर्मकी एकेन्द्रिय जाति, आतप और स्थावर तथा गोत्र और अन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिबन्धादि
मूलोघके समान है। दो आयु, नामकर्मकी शेष प्रकृतियाँ और तीर्थकरका उत्कृष्टस्थितिबन्ध आदि
सामान्य नारकियोंके समान हैं। भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और सौधर्म ईशान-कल्पके
देवोंमें पञ्चेन्द्रिय जाति, वामन संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, कीलक संस्थान, असम्प्राप्ता-
सृपाटिका संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस और दुस्वरका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अठारह
कोड़ाकोड़ी सागर है। अठारह सौ वर्ष प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थिति
प्रमाण कर्मनिषेक है। शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध आदि सामान्य देवोंके समान है।
इतनी विशेषता है कि भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें तीर्थकर प्रकृति नहीं है।
सानत्कुमारसे लेकर सहस्रारकल्पतकके देवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान
है। आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध
अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्म-
स्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है।

३५. एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ
दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय,
जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, हुण्ड-
संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, सुक्ष्म, अप-
र्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और
पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक सागरका तीन बटे सात भाग, सात बटे सात
भाग, चार बटे सात भाग और दो बटे सात भाग प्रमाण है। अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है
और आबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध

णिसेगो । सेसाणं पगदीणं उक्कस्स० द्विदि० सागरोवमस्स तिणिएण सत्तभागा वे सत्त-
भागा पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ऊणिया । अंतोमु० आवाधा० । [आवाधू०
कम्मट्टि०] कम्मणि० । तिरिक्ख-मणुसायुगाणं उक्क० द्विदि० पुव्वकोडी । सत्तवास-
सहस्साणि सादिरे० आवाधा । कम्मट्टिदी कम्मणिसे० । बादरएइंदियअपज्जत्ता०
सुहुम० पज्जत्तापज्जत्ता० सव्वपगदीणं उक्कस्स० द्विदि० सागरोवमस्स तिणिएण सत्तभागा
सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्तभागा वे सत्तभागा पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण
ऊणिया । अंतोमु० आवा । [आवाधू० कम्मट्टि० कम्म-] णिसेगो । तिरिक्ख-
मणुसायुगाणं उक्कस्स० द्विदि० पुव्वकोडी । अंतोमु० आवाधा० । [कम्मट्टिदी कम्म-]
णिसेगो ।

३६. बीइंदिय-तीइंदिय-चदुरिंदिय० तेसिं चेव पज्जत्ता० पंचणाणावर०-दंस-
णावर०-असादवे०-मिच्छत्त०-सोलसक० याव पंचंतरा० सागरोवमपणुवीसाए
सागरोवमपणारसाए सागरोवमसदस्स तिणिएण सत्तभागा सत्त सत्तभागा [चत्तारि
सत्तभागा] वे सत्तभागा । अंतो० आवा० । [आवाधू० कम्मट्टि० कम्म-]
णिसेगो । सेसाणं सादादीणं उच्चागोदाणं तं चेव । एवरि पल्लिदोवमस्स संखेज्जदि-
भागेण ऊणिया । अंतो० आवा० । [आवाधू०] कम्मट्टिदी कम्मणि० ।
तिरिक्ख-मणुसायु० उक्क० द्विदि० पुव्वकोडी । चत्तारि वासाणि सोलस रादिंदियाणि
सादि० वे मासं च आवाधा० । [कम्मट्टिदी] कम्मणिसे० । तेसिं चेव अपज्जत्त०

एक सागरका पल्यका असंख्यातवाँ भाग कम तीन बटे सात भाग और दो बटे सात भाग
प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्म-
निषेक है । तथा तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक पूर्वकोटि प्रमाण है,
साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण आवाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । बादर
एकेन्द्रिय अपर्याप्त तथा सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंके सब प्रकृतियोंका
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक सागरका पल्यका असंख्यातवाँ भाग कम तीन बटे सात भाग,
सात बटे सात भाग, चार बटे सात भाग और दो बटे सात भाग प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण
आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । तथा तिर्यञ्चायु और
मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आवाधा है
और कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है ।

३६. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और इनके पर्याप्त जीवोंके पाँच ज्ञानावरण,
नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व और सोलह कषायसे लेकर पाँच अन्तरायतक
की प्रकृतियोंका क्रमसे पच्चीस सागरका, पचास सागरका और सौ सागरका तीन बटे सात
भाग, सात बटे सात भाग और दो बटे सात भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबन्ध है । अन्तर्मुहूर्त
प्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । सातासे लेकर उच्च
गोत्रतक शेष प्रकृतियोंका वही उत्कृष्ट स्थितिबन्ध है । इतनी विशेषता है कि वह पल्यका
असंख्यातवाँ भाग कम है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थिति
प्रमाण कर्मनिषेक है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक पूर्वकोटि वर्ष
प्रमाण है । चार वर्ष, साधिक सोलह दिन रात और दोमाह प्रमाण आवाधा है तथा कर्मस्थिति

सव्वपगदीणं सागरोवमपणुवीसाए सागरोवमपणारसाए सागरोवमसदस्स तिण्णिण सत्तभागा सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्तभागा बे सत्तभागा पलिदोवमस्स संखेज्जदि-भागेण उणिया । अंतोमु० आबा० । [आबाधू० कम्मट्ठि०] कम्मण्णिसे० । तिरिक्ख-मणुसायू० उक्क० ट्ठिदि० पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

३७. पंचिदिय-तस० तेसिं चेव पज्जत्ता० मूलोघं । पंचिदिय-तसअपज्ज० मणुस-अपज्जत्तभंगो । पंचकायाणं एइं दियभंगो । एवरि तिरिक्ख-मणुसायुगस्स उक्क० ट्ठिदि० पुव्वकोडी । सत्त वस्ससहस्साणि सादिरेगाणि बे वस्ससहस्साणि सादिरे० [तिण्णिण वस्ससहस्साणि सादिरेगाणि आबा०] तेउ०-वाउ० तिरिक्खायु० उक्क० ट्ठिदि० पुव्वकोडी । एयरादिंदिथा० एयं वाससहस्सं च आबाधा० । [कम्मट्ठिदी कम्म-] णिसेगो ।

३८. पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि० मूलोघं । ओरालियका० मणुसपज्जत्त-भंगो । ओरालियमिस्स० मणुसअपज्जत्तभंगो । एवरि देवगदि०४ तित्थयरं उक्क० ट्ठिदि० अंतोकोडाकोडी । अंतोमु० आबा० । [आबाधू० कम्मट्ठि० कम्म-] णिसे० । वेउव्वियका० देवोघं । वेउव्वियमिस्स० सव्वपगदीओ पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्त-भंगो । एवरि विसेसो जाणिदव्वो । आहार०-आहारमिस्स० सग-सग० उक्क०

प्रमाण कर्मनिषेक है । तथा इन्हींके अपर्याप्तकोंके सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध क्रमसे पच्चीस सागरका, पचास सागरका और सौ सागरका पल्यका संख्यातवाँ भाग कम तीन बटे सात भाग, सात बटे सात भाग, चार बटे सात भाग और दो बटे सात भाग प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । तथा तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है ।

३७. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मूलोघके समान है । पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान है । तथा पाँच स्थावरकायिक जीवोंके एकेन्द्रियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्च आयु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण है । तथा पृथिवीकायिक जीवोंके साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण, जलकायिक जीवोंके साधिक दो हजार वर्ष प्रमाण और वनस्पतिकायिक जीवोंके साधिक तीन हजार वर्षप्रमाण आबाधा है । अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके तिर्यञ्चायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक पूर्वकोटि वर्षप्रमाण है । क्रमसे एक दिन रात और एक हजार वर्षप्रमाण आबाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है ।

३८. पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी और काययोगी जीवोंका भङ्ग मूलोघके समान है । औदारिक काययोगी जीवोंके मनुष्य पर्याप्तकोंके समान है । औदारिकमिश्र-काययोगी जीवोंके मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके देवगति चतुष्क और तीर्थंकर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अन्तःकोडाकोडी सागर प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । वैक्रियिककाययोगी जीवोंके सामान्य देवोंके समान है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके सब प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है । इतनी विशेषता है कि विशेषका कथन जानकर कहना चाहिए । आहारककाययोगी और आहारक मिश्रकाययोगी

द्विदि० अंतोकोडाको० । अंतोमुहुत्तं आवाधा । [आबाधू० कम्मट्टि० कम्मणि०]
णवरि देवायुगस्स तेत्तीसं सागरो० । पुव्वकोडितिभागं आवा० । [कम्मट्टिदी
कम्म-] णिसे० । कम्मइयका० सगपगदीणं ओरालियमिस्सकायजोगिभंगो ।

३६. इत्थिवेदगे वीइंदि०-तीइंदि-चदुरिंदि०-वामण०-ओरालि०अंगोवं०-खील्लि-
यसं०-असंपत्तसेवइसं०-सुहुम-अपज्जत्त-साधारण० उक्क० द्विदि० अट्टारस सागरो-
वमकोडाको० । अट्टारस वाससदाणि आवा० । [आबाधू० कम्मट्टि० कम्म-]
णिसे० । सेसाणं मूलोघं । पुरिसवेदगेसु मूलोघं । णवुंसग० आदाव०-थावर०
उक्क० द्विदि० अट्टारस सागरो० कोडाकोडी० । अट्टारस वाससदाणि आवाधा ।
(आबाधू० कम्मट्टि०) कम्मणिसे० । सेसाणं मूलोघं । अवगदवे० पंचणाणा०-
चदुदंसणा०-पंचंतराइ० उक्क० द्विदि० संखेज्जाणि वाससहस्साणि । अंतोमु०
आवाधा० । [आबाधू० कम्मट्टि० कम्म-] णिसे० । सादावेद०-जसगि०-उच्चागो०
उक्क० द्विदि० पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । अंतोमु० आवा० । [आबाधू०
कम्मट्टि०] कम्मणिसे० । चदुसंज० उक्क० द्विदि० संखेज्जाणि वासाणि । अंतो-
मु० आवाधा० । [आबाधू०] कम्म० कम्मणिसे० । कोधादि०४ मूलोघं ।

जीवोंके अपनी अपनी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अन्तःकोडाकोड़ी सागर प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । इतनी विशेषता है कि देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तैंतीस सागर प्रमाण है । पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण आबाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । कर्मण्णकाययोगी जीवोंके अपनी प्रकृतियोंका भङ्ग औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है ।

३९. स्त्रीवेदवाले जीवोंके द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, वामन संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, कीलक संस्थान, असम्प्राप्तासृष्टिकासंहनन, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अठारह कोडाकोड़ी सागर प्रमाण है । अठारह सौ वर्ष प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है । पुरुषवेदवाले जीवोंके सब प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है । नपुंसक वेदवाले जीवोंके आतप और स्थावर प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अठारह कोडाकोड़ी सागर है । अठारह सौ वर्ष प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । तथा शेष सब प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है । अपगतवेदवाले जीवोंके पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्ष प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । तथा सातावेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पत्यका असंख्यातवाँ भाग प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । चार संज्वलनोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यात वर्ष प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंके अपनी अपनी प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है ।

४०. मदि०-सुद०-विभंग० मूलोघं । एवरि देवायु० उक्क० द्विदि० एक-
त्तीसा० । पुव्वकोडितिभा० आवा० । [आवाधू० कम्मट्ठि० कम्म-] णिसे० ।
आभि०-सुद०-ओधि० सव्वपगदीणं उक्क० द्विदि० अंतोकोडाको० । अंतोमु०
आवा० । [आवाधू० कम्मट्ठि० कम्म-] णिसे० । एवरि मणुसायु० उक्क० द्विदि०
पुव्वकोडी । छम्मासं आवा० । [कम्मट्ठिदी कम्म-] णिसे० । देवायु० ओघं ।
मणपज्ज०-संजद-सामाइय-छेदो०-परिहार० सगपगदीणं ओधिभंगो ।

४१. सुहुमसं पंचणाणा०-चदुदंस०-पंचतरा० उक्क० द्विदि० सुहुत्तपुधत्तं ।
अंतोमु० आवाधा । [आवाधू० कम्मट्ठि० कम्म-] णिसे० । सादवे०-जसगि०-
उच्चागो० उक्क० द्विदि० मासपुधत्तं । अंतो० आवा० । [आवाधू० कम्मट्ठि० कम्म-]
णिसेगो । अथवा पंचणा०-चदुदंस०-पंचतरा० उक्क० द्विदि० दिवसपुधत्तं । अंतोमु०
आवा० । [आवाधू० कम्मट्ठि० कम्म-] णिसे० । सादा०-जसगि०-उच्चा० उक्क०
द्विदि० वासपुधत्तं । अंतोमु० आवा० । [आवाधू० कम्मट्ठि० कम्म] णिसे० । संजदा-
संजदा० संजदभंगो । एवरि देवायु० उक्क० द्विदि० वावीसं [सागरोवमाणि] । पुव्व-
कोडितिभागं आवा० । [कम्मट्ठिदी कम्म-] णिसे० । असंजदा० मूलोघं । एवरि

४०. मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवोंके सब प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है। इतनी विशेषता है कि देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध इकतीस सागर प्रमाण है। पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण आवाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। आभिनिबोधि-कज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंके सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अन्तः-कोडाकोडी सागर प्रमाण है, अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक पूर्वकोटि वर्षप्रमाण है। छह माह प्रमाण आवाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। तथा देवायुका भङ्ग ओघके समान है। मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके अपनी अपनी प्रकृतियोंका भङ्ग अवधिज्ञानियोंके समान है।

४१. सूक्ष्म साम्पराय संयत जीवोंके पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पांच अन्तरार्योंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मुहूर्त पृथक्त्व प्रमाण है। अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। साता वेदनीय, यशःकीर्ति और उच्च गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मासपृथक्त्व प्रमाण है। अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। अथवा पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पांच अन्तरार्योंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध दिवसपृथक्त्व प्रमाण है। अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। तथा साता वेदनीय, यशःकीर्ति और उच्च गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध वर्षपृथक्त्व प्रमाण है। अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। संयतासंयतोंके सब प्रकृतियोंका भङ्ग संयतोंके समान है। इतनी विशेषता है कि देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बाईस सागर है। पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण आवाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। असंयतोंके सब प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है। इतनी विशेषता है कि देवायुका

देवायु० उक्क० द्विदि० एकत्तीसं [सागरोवमाण] । पुव्वकोडितिभागं आवा० । [कम्मद्विदी कम्म] णिसे० ।

४२. चक्खुदं०-अचक्खुदं० मूलोघं । ओधिदं० ओधिणाणिभंगो ।

४३. लेस्साणुवादेण किरणले० देवायु० उक्क० द्विदि० सागरोवम० सादिरेग० । पुव्वकोडितिभागं आवा० । [कम्मद्विदी कम्म-] णिसे० । सेसं एवुंसगभंगो । एणील-काऊणं वेउव्वियल्लक-चत्तारिजादि-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साधार०-तित्थकरं उक्क० द्विदि० अंतोकोडाको० । अंतोमु० आवा० । [आबाधु० कम्मद्वि०] कम्मणिसे० । णिरयायु० उक्क० द्विदि० सत्तारस-सत्तसागरोव० । पुव्वकोडितिभागं आवा० । [कम्मद्विदी] कम्मणिसे० । देवायु० उक्क० द्विदि० सागरोवम० सादि० । पुव्वकोडितिभागं आवा० । [कम्मद्विदी कम्म-] णिसे० । सेसं ओघभंगो ! तेउए पंचिंदिय-ओरालिय० अंगो०-असंपत्त०-अप्पसत्थ०-तस-दुस्सर० उक्क० द्विदि० अट्टारस साग० । अट्टारस वाससदाणि आवा० । [आबाधु० कम्मद्वि०] कम्मणिसे० । सेसं मूलोघं । एवरि तिरिक्ख-मणुसायु० उक्क० द्विदि० पुव्वकोडी । लम्मासं च आवा० । [कम्मद्विदी कम्म-] णिसे० । देवायु० उक्क० द्विदि० बेसाग० सादिरे० । पुव्वकोडितिभागं आवा० । [कम्मद्विदी कम्म-] णिसे० ।

उत्कृष्ट स्थितिवन्ध इकतीस सागर है । पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण आबाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है ।

४२. चक्षुदर्शनवाले और अचक्षुदर्शनवाले जीवोंके सब प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है । अधिदर्शनवाले जीवोंके सब प्रकृतियोंका भङ्ग अधिज्ञानियोंके समान है ।

४३. लेश्या मार्गणाके अनुवादसे कृष्णलेश्यावाले जीवोंके देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध साधिक एक सागर प्रमाण है । पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण आबाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । तथा शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध आदि नपुंसकवेदी जीवोंके समान है । नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंके वैक्रियिक छह, चार जाति, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण और तीर्थकर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध अन्तःकोडाकोडी सागर प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध क्रमसे सत्रह सागर और सात सागर है । पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध साधिक एक सागर प्रमाण है । पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण आबाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । तथा शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध आदि ओघके समान है । पीत लेश्यावाले जीवोंके पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असंप्राप्तासृपाटिका संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस और दुस्वर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध अठारह सागर प्रमाण है । अठारह सौ वर्ष प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध एक पूर्वकोटिवर्ष प्रमाण है । छह माह प्रमाण आबाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध साधिक दो सागर प्रमाण है । पूर्वकोटिका त्रिभागप्रमाण आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । देव-

देवगदि-वेउव्वि०-आहार०-वेउव्वि०-आहार०-अंगोवं०-देवगदिपाओग०-तित्थयरं
उक्क० द्विदि० अंतोकोडाकोडी । अंतोमु० आबा० । [आबाधू० कम्मट्टि०]
कम्मणि० । पम्माए सहस्सारभंगो । एवरि देवगदि०४ तित्थयरं च तेउभंगो । देवा-
युग० अट्टारस साग० सादि० । पुव्वकोडितिभागं च आबा० । [कम्मट्टिदी कम्म-
णिसेगो] । सुक्कलेस्साए आणदभंगो । एवरि देवायु०-देवगदि०४ आहारकाय-
जोगिभंगो ।

४४. भवसिद्धिया० मूलोघं । अब्भवसिद्धिया० मदिभंगो । सम्मादि०-खइ-
गस०-वेदग०-उवसमसम्मा०-सम्मामि०-सगपगदीओ ओधिभंगो । सासणे सगपग-
दीओ उक्क० द्विदि० अंतोकोडाकोडी । अंतोमु० आबा० । [आबाधू० कम्मट्टि० कम्म-
णिसे० । एवरि तिरिण आयु० मदिअण्णाणिभंगो । मिच्छादि० अब्भव-
सिद्धिभंगो ।

४५. सण्णिण० मूलोघं । असण्णीसु पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त०-
सोलसक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-णिरयगदि-पंचिदि०-वेउव्विय-तेजा०-क०-
वेउव्वि०-अंगो०-हुंडसं०-वण०४-णिरयाणुपु०४-अगुरु०-अप्पसत्थवि०-तसादि०४-

गति, वैक्रियिक शरीर, आहारक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, आहारक आङ्गोपाङ्ग, देव-
गति प्रायोग्यानुपूर्वी और तीर्थंकर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अन्तःकोडाकोडी सागर
प्रमाण है, अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक
है । पद्मलेश्यावाले जीवोंके अपनी सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध आदि सहस्रार कल्पके
समान है । इतनी विशेषता है कि इनके देवगति चतुष्क और तीर्थंकर प्रकृतिका उत्कृष्ट
स्थितिबन्ध आदि पीत लेश्यावाले जीवोंके समान है । तथा देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध
साधिक अठारह सागर प्रमाण है । पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण आबाधा है और कर्म-
स्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । शुक्ल लेश्यावाले जीवोंके सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध
आदि आनत कल्पके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके देवायु और देवगतिचतुष्कका
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध आदि आहारककाययोगी जीवोंके समान हैं ।

४४. भव्य जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मूलोघके समान है । अभव्य जीवोंके मत्य-
ज्ञानियोंके समान है । सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि, वेदक सम्यग्दृष्टि, उपशम सम्यग्दृष्टि
और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके अपनी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अवधिज्ञानियोंके समान
है । सासादन सम्यग्दृष्टियोंके अपनी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अन्तःकोडाकोडी सागर
प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक
है । इतनी विशेषता है कि तीन आयुओंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मत्यज्ञानियोंके समान है ।
मिथ्यादृष्टि जीवोंके अपनी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अभव्योंके समान है ।

४५. संक्षी जीवोंके सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मूलोघके समान है । असंक्षी
जीवोंके पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक-
वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नरकगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर,
कार्मण शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, हुण्डसंस्थान, वराचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी चतुष्क,
अगुरुलघु, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसादि चतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र

अथिरादिद्वक-णिमिण-णीचागो-पंचतरा० उक्क० द्विदि० सागरोवमसहस्सस्स तिणिएण सत्तभागा सत्त सत्तभागा [चत्तारि सत्तभागा] वे सत्तभागा । अंतोमु० आवा० । [आवाधू० कम्मट्टि० कम्म-] णिसे० । सेसाणं सागरोवमसहस्सस्स तिणिएण सत्त-भागा वे सत्तभागा पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण ऊणिएगा । अंतोमु० आवा० । [आवाधू० कम्मट्टि० कम्मणि०] । णिरय-देवायुगस्स उक्क० द्विदि० पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । पुव्वकोडितिभागं च आवाधा० । [कम्मट्टिदी कम्मणिसेगो] तिरिक्ख-मणुसायुगाणं उक्क० द्विदि० पुव्वकोडी । पुव्वकोडितिभागं च आवाधा । [कम्मट्टिदी कम्मणिसेगो] । आहार० मूलोघं । अणाहार० कम्मइगभंगो । एवं उक्कस्सियं समत्तं ।

४६. जहणणए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-चटुदंसणा०-लोभसंज०-पंचतरा० जहणणओ द्विदिबंधो अंतोमुहुत्तं । अंतोमु० आवाधा । आवाधूणिया कम्मट्टिदी कम्मणिसेगो । पंचदंसणा०-असादावे० जहणण० द्विदि० सागरोवमस्स तिणिएण सत्तभागा पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ऊणिया । अंतोमु० आवा० । आवाधू० । सादावेद० जह० द्विदि० वारस मुहुत्तं । अंतोमु० आवा० । आवाधू० ।

और पांच अन्तराय प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक सागरका तीन बटे सात भाग, सात बटे सात भाग, चार बटे सात भाग और दो बटे सात भाग प्रमाण है। अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। तथा शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक हजार सागरका पत्यका संख्यातवाँ भाग कम तीन बटे सात भाग, सात बटे सात भाग चार बटे सात भाग और दो बटे सात भाग है। अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। नरकायु और देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पत्यका असंख्यातवाँ भाग प्रमाण है। पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। तथा तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक पूर्वकोटिप्रमाण है। पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। आहारक जीवोंके सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मूलोघके समान है। तथा अनाहारक जीवोंके सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कार्मणकाययोगियोंके समान है।

इस प्रकार उत्कृष्ट अद्वाच्छेद समाप्त हुआ ।

४६. अब जघन्य स्थितिबन्ध अद्वाच्छेदका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे पाँच क्षानावरण, चार दर्शनावरण, लोभसंज्वलन और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है। अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। पाँच दर्शनावरण और असाता वेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध एक सागरका पत्यका असंख्यातवाँ भाग कम तीन बटे सात भाग प्रमाण है। अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध वारह मुहूर्त है। अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है।

४७. मिच्छत्तं जह० द्विदि० सागरोवमस्स सत्त सत्तभागा पलिदोवमस्स असं-
खेज्जदिभागेण ऊणिया । अंतो० आवा० । आवाधू० । वारसक० जहण० द्विदि-
बं० सागरोवमस्स चत्तारि सत्तभागा पलिदो० असंखेज्जदिभागेण ऊणिया । अंतोमु०
आवा० । आवाधू० । कोधसंज० जह० द्विदि० बे मासं । अंतोमु० आवा० ।
[आवाधू० कम्मट्ठि० कम्मणि०] । माणसंज० जह० द्विदिबं० मासं । अंतोमु०
आवा० । आवाधू० । मायासंज० जह० द्विदिबं० अद्धमासं । अंतोमु० आवा० ।
आवाधू० । पुरिसवे० जह० द्विदिबं० अद्ध वस्साणि । अंतोमु० आवा० ।
आवाधू० ।

४८. गिरय-देवायुगस्स जह० द्विदिबं० दस वस्ससहस्साणि । अंतोमु० आवा० ।
[कम्मट्ठिदी कम्मणिसेगो] । तिरिक्ख-मणुस्सायुगस्स जह० द्विदि० खुद्धाभवग्गहणं ।
अंतो० आवा०^१ । [कम्मट्ठिदी कम्मणिसेगो] ।

४९. वेउन्वियद्धक० जह० द्विदि० सागरोवमसहस्सस्स बे सत्तभागा पलिदो०
संखेज्जदिभागेण ऊणिया । अंतोमु० आवा० । [आवाधू० कम्मट्ठि० कम्मणि०] ।
आहार०-आहार०-अंगो०-तित्थय० जह० द्विदिबं० अंतोकोडाकोडी । अंतोमु०
आवा० । [आवाधू० कम्मट्ठि० कम्मणि०] । जसगि०-उच्चागो० जह० द्विदि०

४७. मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध एक सागरका पत्यका असंख्यातवाँ भाग कम सात बटे सात भाग प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्म-स्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । बारह कषायका जघन्य स्थितिबन्ध एक सागरका पत्यका असं-ख्यातवाँ भाग कम चार बटे सात भाग प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबा-धासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । क्रोध संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध दो महीना है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । मान संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध एक महीना है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । माया संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध आधा महीना है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । पुरुष-वेदका जघन्य स्थितिबन्ध आठ वर्षप्रमाण है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है ।

४८. नरकायु और देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध दस हजार वर्ष है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थिति-बन्ध लुल्लकभवग्रहणप्रमाण हैं । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्म-निषेक है ।

४९. वैक्रियिकषट्कका जघन्य स्थितिबन्ध एक हजार सागरका पत्यका संख्यातवाँ-भाग कम दो बटे सात भाग प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । आहारकशरीर आहारक आङ्गोपाङ्ग और तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तः कोडाकोड़ी सागर प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । यशःकीर्ति और उच्च गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध

१. मूलप्रतौ द्विदिबं० अद्धवयं० अंतो-इति पाठः । २. मूलप्रतौ आवा० आवाधू० वेउ-इति पाठः ।

अद्वमु० । अंतो० आबा० । [आबाधू० कम्मट्टि० कम्मणि०] । सेसाणं जह० द्विदि० सागरोवमस्स वे सत्तभागा पलिदो० असंखेज्जदिभागेण ऊणिया । अंतोमु० आबा० [आबाधू० कम्मट्टि० कम्म०] ।

५०. आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीसु सव्वपगदीणं जह० द्विदि० सागरोवमसहस्सस्स तिणिएण सत्तभागा सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्तभागा वे सत्तभागा पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण ऊणिया । अंतोमु० आबा० । [आबाधू० कम्मट्टि० कम्मणि०] । तिरिक्ख-मणुसायुगस्स जह० द्विदिबं० अंतो० । अंतोमु० आबा० । [कम्मट्टिदी कम्मणिसेगो] । तित्थय० जह० द्विदि० उक्कस्सभंगो । एवं पढमाए । विदियाए याव सत्तमा त्ति सव्वपगदीणं तित्थयरभंगो । एवरि आयु० णिरयभंगो ।

आठ मुहूर्त है । अन्तमुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध एक सागरका पत्यका असंख्यातवाँभाग कम दो बटे सात भागप्रमाण है । अन्तमुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर अन्तमें शेष पद द्वारा जिन प्रकृतियोंका संकेत किया है वे ये हैं—स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्च गति, मनुष्य गति, एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, ब्रह्म संस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तिर्यञ्च गति प्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्तविहायोगति, अप्रशस्तविहायोगति, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुःस्वर, आदेय, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण और नीचगोत्र । इन प्रकृतियोंका स्थितिबन्ध एकेन्द्रियोंके भी होता है । इसलिए इनका जघन्य स्थितिबन्ध एक सागरका पत्यका असंख्यातवाँभाग कम दो बटे सात भागप्रमाण कहा है । यद्यपि इन प्रकृतियोंमें मोहनीय सम्बन्धी कुछ प्रकृतियाँ हैं पर उनका भी बन्ध इसी अनुपातसे होता है । इसलिए उनका यहाँ नाम निर्देश किया है । इस सब कथनका विशेष व्याख्यान जीवस्थान चूलिकामें किया है । इसलिए वहाँसे जानना चाहिए ।

५०. आदेशसे गतिमार्गणाके अनुवादसे नरकगतिमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध एक हजार सागरका पत्यका संख्यातवाँभाग कम तीन बटे सात भाग, सात बटे सात, चार बटे सात भाग और दो बटे सात भाग प्रमाण है । अन्तमुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तमुहूर्त है । अन्तमुहूर्तप्रमाण आबाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य स्थितिबन्ध उत्कृष्टके समान है । इसी प्रकार पहिली पृथ्वीमें जानना चाहिए । दूसरीसे लेकर सातवीं पृथ्वी तक सब पृथिवीयोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध तीर्थंकर प्रकृतिके समान है । इतनी विशेषता है कि आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सामान्य नारकियोंके समान है ।

विशेषार्थ—नरकमें अर्थात् प्रथम नरकमें असंखी जीव मरकर उत्पन्न हो सकता है । और ऐसे जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम और द्वितीय समयमें सब प्रकृतियोंका असंखीके योग्य

५१. तिरिक्खेसु चदुएणं आयुगाणं वेउव्वियद्धक्कं च मूलोघं । सेसाणं सव्व-
पगदीणं जह० द्विदि० सागरोवमस्स तिणिण [सत्तभागा] सत्त सत्तभभागा चत्तारि
सत्तभागा बे सत्तभागा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण उणिया । अंतोमु०
आवा० । आवाधू० । पंचिदियतिरिक्ख०३ सव्वपगदीणं णिरयभंगो । आयुगाणं
मूलोघं । एवं पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तेसु ।

५२. मणुस०३ खवगपगदीणं ओघं । सेसाणं सव्वपगदीणं जह० द्विदि० साग-
रोवमसहस्सस्स तिणिण सत्तभागा सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्तभागा बे सत्तभागा
पलिदोवम० संखेज्जदिभागेण उणिया । अंतोमु० आवाधा । [आवाधू० कम्मट्ठि०
कम्मणि०] । चदुएणं आयुगाणं मूलोघं । वेउव्वियद्धक्कं [आहार०] आहार०अंगो०
तित्थयरं जह० द्विदि० अंतोकोडाकोडीओ । अंतोमु० आवा० । [आवाधू०
कम्मट्ठि० कम्मणि०] । मणुसअपज्ज० पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

५३. देवगदीए देवा-भवण०-वाणवे० णिरयोघं । जोदिसि याव सव्वट्ठ ति
विदियपुठविभंगो । सोधम्मीसाणे आयु० जह० द्विदि० अंतो० । अंतोमु० आवा० ।

स्थितिबन्ध होता रहता है । इसी अभिप्रायको ध्यानमें रखकर यहाँ नरकगतिमें और प्रथम
नरकमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध कहा है । तीर्थकर प्रकृतिका जघन्य स्थिति-
बन्ध अन्तःकोडाकोड़ी सागर प्रमाण होता है यह पहिले ही कह आये हैं । द्वितीयादि नरकोंमें
सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध उक्त प्रमाण ही होता है । इसलिए यहाँ सब प्रकृतियोंका
जघन्य स्थितिबन्ध तीर्थकर प्रकृतिके समान कहा है ।

५१. तिर्यञ्चोंमें चार आयु और वैक्रियिक षट्कका जघन्य स्थितिबन्ध मूलोघके समान
है । शेष सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध एक सागरका पत्यका असंख्यातवाँ भाग कम
तीन बटे सात भाग, सात बटे सात भाग चार बटे सात भाग और दो बटे सात प्रमाण
है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है । और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है ।
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध नारकियोंके समान है ।
आयुओंका जघन्य स्थितिबन्ध मूलोघके समान है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्या-
प्तकोंके जानना चाहिए ।

५२. मनुष्यत्रिकमें चपक प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध ओघके समान है । शेष
सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध एक हजार सागरका पत्यका संख्यातवाँ भाग कम
तीन बटे सात भाग, सात बटे सात भाग, चार बटे सात भाग, और दो बटे सात भाग
प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक
है । चार आयुओंका जघन्य स्थितिबन्ध मूलोघके समान है । वैक्रियिकषट्क, आहारक आङ्गो-
पाङ्ग और तीर्थकर प्रकृतिका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तःकोडाकोड़ी सागर प्रमाण है, अन्त-
र्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । मनुष्य
अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है ।

५३. देवगतिमें सामान्य देव, भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य
स्थितिबन्ध सामान्य नारकियोंके समान है । तथा ज्योतिषियोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके
देवोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध दूसरी पृथिवीके समान है । सौधर्म और पेशान
कल्पमें आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और

[कम्मद्विदी कम्मणिसेगो] । सणक्कुमार-माहिंदे मुहुत्तपुधत्तं । वम्ह-वम्हुत्तर-लांतव-काविट्टे दिवसपुधत्तं । सुक्क-महासुक्क-सदर-सहस्सारे पक्खपुधत्तं । आणद-पाणद-आरण-अच्चुद० मासपुधत्तं । उवरि सव्वाणं वासपुधत्तं । सव्वत्थ अंतोसु० आवा० । [कम्मद्विदी कम्मणिसेगो] ।

५४. एइंदिएसु सगपगदीणं तिरिक्खोघं । सव्वविगलिंदिएसु सगपगदीणं [सागरोवमपणुवीसाए] सागरोवमपणारसाए सागरोवमसदस्स तिणिएण सत्तभागा सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्त भागा वे सत्तभागा पलिदो० संखेज्जदिभागेण ऊणिया । अंतो० आवा० । [आवा कम्मद्वि० कम्मणि०] । आयु० ओघं । पंचिंदिय०२ खवगपगदीणं मूलोघं । सेसाणं पंचिंदियतिरिक्खभंगो । पंचिंदिय-अपज्जत्त० मणुसअपज्जत्तभंगो ।

५५. कायाणुवादेण पंचकायाणं एइंदियभंगो । तस०२ खवगपगदीणं चटुणं आयुगाणं वेउव्वियळक्कस्स आहार०-आहार०अंगो० तित्थयरं च मूलोघं । सेसं बीइंदियभंगो । तसअपज्जत्त० बीइंदियभंगो ।

५६. पंचमण०-तिणिएवचि० खवगपगदीणं आयुगाणं च मूलोघं । सेसाणं कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । सानत्कुमार और माहेन्द्र कल्पमें आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध मुहूर्त पृथक्त्वप्रमाण है । ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लान्तव और कापिष्ठ कल्पमें दिवसपृथक्त्व प्रमाण है । शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्वार कल्पमें पक्षपृथक्त्व प्रमाण है । आनत, प्राणत, आरण और अच्युत कल्पमें मासपृथक्त्व प्रमाण है । इसके ऊपर सब देवोंके आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है ।

५४. एकेन्द्रियोंमें अपनी प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध आदि सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । सब विकलेन्द्रियोंमें अपनी-अपनी प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध पच्चीस सागरका, पचार सागरका और सौ सागरका पत्यका संख्यातवां भाग कम तीन बटे सात भाग, सात बटे सात भाग, चार बटे सात भाग और दो बटे सात भाग प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । आयुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध आदि ओघके समान है । पञ्चेन्द्रिय द्विकमें क्षपक प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध आदि मूलोघके समान है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध आदि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध आदि मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान है ।

५५. कायमार्गणाके अनुवादसे पाँच स्थावरकायिक जीवोंके अपनी-अपनी प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध आदि एकेन्द्रियोंके समान है । त्रस द्विकमें क्षपक प्रकृतियोंका चार आयुओंका, वैक्रियिकषट्क, आहारक शरीर, आहारकआङ्गोपाङ्ग और तीर्थकर प्रकृतिका जघन्य स्थितिबन्ध आदि मूलोघके समान है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध आदि द्वीन्द्रियोंके समान है । तथा त्रस अपर्याप्तकोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध आदि द्वीन्द्रियोंके समान है ।

५६. पाँचों मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें क्षपक प्रकृतियों और चार आयुओंका जघन्य स्थितिबन्ध आदि मूलोघके समान है । शेष प्रकृतियोंका जघन्यस्थितिबन्ध

जह० द्विदि० अंतोकोडाकोडी । अंतोमु० आवाधा० । [आबाधू० कम्मट्टि० कम्मणि०] । दोणिण वचि० खवगपगदीणं चदुणं आयुगाणं वेउव्वियद्धकं आहार०-आहार०अंगो० तित्थयरं च मूलोघं । सेसं वीइदियपज्जत्तभंगो । कायजोगि-ओरालियकायजोगि० मूलोघं । ओरालियमिस्स० देवगदीच०४ तित्थयरं च उक्कस्स-भंगो । सेसाणं तिरिक्खोघं । वेउव्विय० सोधम्मभंगो । वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि० उक्कस्सभंगो । देवायु० जह० द्विदि० पलिदोवमपुधत्तं । अंतो० आवा० । [कम्मट्टिदी कम्मणिसेगो] । कम्मइग० सगपगदीणं तिरिक्खोघं । एवरि देवगदि०४ तित्थयरं च उक्कस्सभंगो ।

५७. इत्थिवे० पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंतरा० जह० द्विदि० संखेज्जाणि वास-सहस्साणि । अंतो० आवा० । [आबाधू० कम्मट्टि० कम्मणि०] सादावे०-जसगि०-उच्चागो० जह० द्विदि० पलिदो० असंखे० । अंतोमु० आवा० । [आबाधू० कम्मट्टि० कम्मणिसेगो] । चदुसंज०-पुरिसवे० जह० द्विदि० संखेज्जाणि वास-सहस्साणि अंतोमु० आवा० । [आबाधू० कम्मट्टि० कम्मणि०] । सेसाणं पंचि-यभंगो । पुरिसवे० पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंतरा० जह० द्विदि० संखेज्जाणि वास-

अन्तःकोडाकोडी सागर प्रमाण है, अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधा से न्यून कर्म-स्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । दो वचनयोगी जीवोंमें क्षपक प्रकृतियों, चार आयु, वैक्रियिक-षट्क, आहारक शरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग और तीर्थकर प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध आदि मूलोघके समान है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध आदि द्वीन्द्रियोंके समान है । काययोगी और औदारिकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है । औदा-रिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिचतुष्क और तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें सब प्रकृति-योंका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अपनी अपनी प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध पत्य पृथक्त्वप्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । कर्मणकाययोगी जीवोंमें अपनी प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें देवगतिचतुष्क और तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग उत्कृष्टके समान है ।

५७. स्त्रीवेदी जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पांच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्ष प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । साता वेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अन्तर्मु-हूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । चार संज्वलन और पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्म निषेक है । तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चे-न्द्रियोंके समान है । पुरुषवेदवाले जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पांच

सदाणि । अंतोमु० आवा० । [आवाधू० कम्मट्टि० कम्मणि०] । सादावेदणीय-
जस०-उच्चागोदं जह० द्विदि० संखेज्जाणि वाससदाणि । अंतोमु० आवा० ।
[आवाधू० कम्मट्टि० कम्मणि०] । चदुसंज० जह० द्विदि० सोलस वस्साणि । अंतोमु०
आवा० । [आवाधू० कम्मट्टि० कम्मणि०] । पुरिसवेद० जह० द्विदि० अट्ट
वस्साणि । अंतोमु० आवा० । [आवाधू० कम्मट्टि० कम्मणि०] । सेसाणि पंचि-
दियभंगो । एवुंसगवेद० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादावे०-चदुसंज०-पुरिस०-जसगि०-
उच्चागो०-पंचंतरा० इत्थिवेदभंगो । सेसं मूलोघं । अवगदवे० मूलोघं ।

५८. क्रोधे पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंतरा० जह० द्विदि० संखेज्जाणि वासाणि ।
अंतो० आवा० । [आवाधू० कम्मट्टि० कम्मणि०] । सादावे०-जसगि०-उच्चागो०
जह० द्विदि० संखेज्जाणि वासस० । अंतोमु० आवा० । [आवाधू० कम्मट्टि०
कम्मणि०] चदुसंज० जह० द्विदि० वे मासं । अंतोमु० आवा० । [आवाधू०
कम्मट्टि० कम्मणि०] । माणे पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंतरा० जह० द्विदि० वास-
पुधत्तं । अंतो० आवा । [आवाधू० कम्मट्टि० कम्मणि०] । सादावे०-जसगि०-
उच्चागो० जह० द्विदि० संखेज्जाणि वासाणि । अंतो० आवा० ।
[आवाधू० कम्मट्टि० कम्मणि०] । तिणिण संज० जह० द्विदि० मासो । अंतोमु०

अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात सौ वर्ष है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और
आबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । साता वेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगो-
त्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात सौ वर्ष है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे
न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । चार संज्वलनोंका जघन्य स्थितिबन्ध सोलह वर्ष है ।
अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । पुरुषवे-
दका जघन्य स्थितिबन्ध आठ वर्ष है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है, और आबाधासे न्यून
कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान है । नपुं-
सक वेदवाले जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुष-
वेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तरायका भङ्ग खोवेदी जीवोंके समान है । तथा शेष
प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है । अपगतवेदी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग
मूलोघके समान है ।

५८. क्रोध कषायवाले जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पांच अन्तराय-
का जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातवर्ष है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून
कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । साता वेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थिति-
बन्ध संख्यात सौ वर्ष है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थिति
प्रमाण कर्मनिषेक है । चार संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध दो महीना है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण
आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । मान कषायवाले जीवोंमें
पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पांच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध वर्षपृथक्त्व-
प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक
है । साता वेदनीय, यशःकीर्ति और उच्च गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात सौ वर्ष है ।
अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । तीन

आवा० । [आवाधू० कम्मट्ठि० कम्मणि०] मायाए पंचणा०-चदुदंसणा०-
पंचंतरा० मासपुधत्तं । अंतोमु० आवा० । [आवाधू० कम्मट्ठि० कम्मणि०] सादावे०-
जसगि०-उच्चागो० जह० द्विदिबं० वासपुधत्तं । अंतोमु० आवा० । [आवाधू०
कम्मट्ठि० कम्मणि०] दो संज० जह० द्विदि० पक्खो । अंतो० आवा० । [आवाधू०
कम्मट्ठि० कम्मणि०] । सेसाणं सन्वपगदीणं कोधादीणं तिण्णकसायाणं मूलोयं ।
लोभे सन्वपगदीणं मूलोयं ।

५६. मदि०-सुद० तिरिक्खोयं । विभंगे सगपगदी० विदियपुढविभंगो । एवरि
चदुआयु० ओयं । वेउन्वियळ्ळकं एइदि०-बेइदि०-तीइदि०-चदुरिदि०-आदाव-थावर-सुहुम
अपज्जत्त-साधारणाणं च जह० द्विदिबं० अंतोकोडाकोडी । अंतो० आवा० ।
[आवाधू० कम्मट्ठि० कम्मणि०] । आभिणि०-सुद०-ओधि० खवगपगदीणं मूलोयं ।
मणुसायु० जह० द्विदि० वासपुधत्तं । अंतो० आवा । [कम्मट्ठि० कम्मणि०] ।
देवायु० जह० द्विदि० पल्लिदोवमं सादिरे० । अंतो० आवा० । [कम्मट्ठिदी
कम्मणि०] । सेसाणं आहारसरीरभंगो । मणपज्जवे देवायु० जह० द्विदिबं० पल्लि-
दोवमपुधत्तं । अंतो० आवा० । [कम्मट्ठिदी कम्मणिसेगो] । सेसाणं ओधिभंगो ।
एवं संजदा० ।

संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध एक महीना है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आवाधा है और आवाधासे
न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । माया कषायवाले जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, चार दर्शना-
वरण और पांच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध मासपृथक्त्व प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण
आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । साता वेदनीय, यशःकीर्ति
और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध वर्षपृथक्त्व प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आवाधा है
और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । दो संज्वलनोंका जघन्य स्थितिबन्ध
एक पक्षप्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण
कर्मनिषेक है । तथा शेष सब प्रकृतियोंका और क्रोधादि तीन कषायोंका भङ्ग मूलोघके समान
है । लोभ कषायवाले जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है ।

५९. मन्वज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें अपनी अपनी प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध आदि
सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । विभङ्गज्ञानी जीवोंमें अपनी प्रकृतियोंका भङ्ग दूसरी पृथिवीके
समान है । इतनी विशेषता है कि चार आयुका भङ्ग ओघके समान है । वैक्रियिकषट्क,
एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, आतप, स्थावर, सूक्ष्म,
अपर्याप्त और साधारण प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तःकोडाकोडी सागर प्रमाण है ।
अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आवाधा है, और आवाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । आभिनि-
बोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें क्षणिक प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है ।
मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आवाधा है और
कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध साधिक पत्य प्रमाण है ।
अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आवाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग
आहारकशरीरके समान है । मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध पत्य
पृथक्त्वप्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आवाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । शेष
प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिए ।

६०. सामाह०-छेदो० पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंतरा० जह० द्विदि० मुहुत्त-
पुधत्तं दिवसपुधत्तं वा । अंतो० आवा० । [आवाधू० कम्मट्टि० कम्मणि०] ।
सादा०-जसगि०-उच्चा० जह० द्विदि० मासपुधत्तं । अंतो० आवा० । [आवाधू०
कम्मट्टि० कम्मणि०] । सेसाणं मणपज्जवभंगो । परिहार-संजदासंजदा० आहारकाय-
जोगिभंगो । सुहुमसं० छरणं क० ओघं । असंजद० मदिभंगो । तित्थयर० उक्कस्सभंगो ।

६१. चक्खु० खवगपगदीणं चदुरणं आयुगाणं वेउव्वियव्वक्क०-आहार०-
आहार०अंगो० तित्थयरं मूलोघं । सेसाणं पगदीणं चदुरिंदियभंगो । अचक्खु०
ओघभंगो । ओधिदं० ओधिणाणिभंगो ।

६२. किरण०-णील०-काउ० असंजदभंगो । किरण-णील-काऊणं णिर-
यायु० जह० द्विदि० सत्तारस-सत्तसागरो० सादिरे० दसवस्ससहस्साणि ।
अंतो० आवा० । [कम्मट्टिदी कम्मणिसेगो] । तेसिं चव देवायु० जह०
द्विदि० दस वस्ससहस्साणि । अंतो० आवा० । [कम्मट्टिदी कम्मणिसेगो] ।
अथवा किरण-णील० देवायु० जह० द्विदि० पलिदो० असं० । अंतो० आवा० ।
[कम्मट्टिदी कम्मणिसेगो] । काऊणं णिरय-देवायु० जह० द्विदि० दसवस्स-

६०. सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शना-
वरण और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध मुहूर्तपृथक्त्वप्रमाण है अथवा दिवसपृथक्त्व-
प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण कर्म निषेक है । सातावेद-
नीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध मासपृथक्त्वप्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त
प्रमाण आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनःपर्यय-
ज्ञानियोंके समान है । परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंका भङ्ग आहारककाय-
योगी जीवोंके समान है । सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें छह कर्मोंका भङ्ग ओघके समान
है । असंयत जीवोंमें अपनी प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानियोंके समान है । तथा तीर्थंकर प्रकृति-
का भङ्ग उत्कृष्टके समान है ।

६१. चक्षुदर्शनी जीवोंमें क्षपक प्रकृतियोंका, चार आयुओंका और वैक्रियिकषट्क, आहा-
रक शरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग तथा तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग मूलोघके समान है । तथा शेष
प्रकृतियोंका भङ्ग चतुरिन्द्रिय जीवोंके समान है । अचक्षुदर्शनी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका
भङ्ग ओघके समान है । तथा अवधिदर्शनी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग अवधि-
ज्ञानियोंके समान है ।

६२. कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले और कापोतलेश्यावाले जीवोंमें अपनी अपनी
सब प्रकृतियोंका भङ्ग असंयत जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि कृष्ण, नील
और कापोत लेश्यामें नरकायुका जघन्य स्थितिबन्ध साधिक सत्रह सागर, साधिक
सात सागर और दश हजार वर्ष प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और
कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । तथा इन्हीं लेश्यावालोंके देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध
दश हजार वर्ष प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण
कर्मनिषेक है । अथवा कृष्ण और नील लेश्यावालोंके देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध
पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और कर्मस्थिति-
प्रमाण कर्मनिषेक है । कापोत लेश्यावाले जीवोंके नरकायु और देवायुका जघन्य

सह० । अंतो० आवा० । [कम्मट्टिदी कम्मणि०] । तेउ० तिरिक्खमणुसायु० देवोघं । देवायु० जह० ट्टिदि० पल्लिदो० सादि० । अंतो० आवा० । [कम्मट्टिदी कम्मणिसेगो] । अथवा दसवस्ससहस्साणि । अंतो० आवा० । [कम्मट्टिदी कम्मणिसेगो] । सेसाणि अंतोकोडाकोडि० । अंतो० आवा० । [आवाधू० कम्मट्टि० कम्मणि०] । पम्माए तं चेव । देवायु० जह० ट्टिदि० वे सागरो० सादि० । अंतो० आवा० । [कम्मट्टिदी कम्मणिसेगो] । तिरिक्ख-मणुसायु० जह० ट्टिदि० दिवस-पुधत्तं । अंतो आवा० । [कम्मट्टिदी कम्मणिसेगो] । एइंदिय० आदाव० थावरं च एत्थि । सुक्काए खवगपगदीणं ओघं । मणुसायु० जह० ट्टिदि० मासपुधत्तं । अंतो आवा० । [कम्मट्टिदी कम्मणिसेगो] । देवायु० जह० ट्टिदि० अट्टारससागरो० सादिरे० । अंतो० आवा० । [कम्मट्टिदी कम्मणिसेगो] । सेसं एवगेवेज्जभंगो ।

६३. भवसिद्धिया० मूलोघं । अब्भवसिद्धिया० मदिअ० भंगो । सम्मादि०-खइग० ओधिभंगो । वेदगे आयु० ओधिभंगो । सेसं विभंगभंगो । उवसमसम्मा० पंचणा०-चदुदंसणा०-लोभसंज०-पंचंतरा० जह० ट्टिदि० अंतो० । अंतो० आवा० । [आवाधू० कम्मणि०] । सादावे० जह० ट्टिदि० चदुवीसं मुहुत्तं । अंतो० आवा० ।

स्थितिबन्ध दश हजार वर्ष प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है । पीतलेश्यावाले जीवोंके तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध साधिक पत्य प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । अथवा देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध दश हजार वर्ष प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । शेष प्रकृतियों का जघन्य स्थितिबन्ध अन्तःकोडाकोडी सागर प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है । और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । पद्म लेश्यावाले जीवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध साधिक दो सागर प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध दिवसपृथक्त्वप्रमाण है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । इनके एकेन्द्रिय, आतप और स्थावर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता । शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध मासपृथक्त्व-प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध साधिक अट्टारह सागर प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नव त्रैवेयकके समान है ।

६३. भव्य जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है । अभव्य जीवोंमें अपनी प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानियोंके समान है । सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें अपनी अपनी प्रकृतियोंका भङ्ग अवधिज्ञानियोंके समान है । वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें आयुकर्मका भङ्ग अवधिज्ञानियोंके समान है । तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग विभङ्गज्ञानियोंके समान है । उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, लोभ संज्वलन और पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है । सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध चौबीस मुहूर्त है । अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आबाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है ।

वा एणोसव्वबंधो वा । सव्वाओ द्विदीओ बंधमाणस्स सव्वबंधो । तदूणं बंधमाणस्स एणोसव्वबंधो । एवं पगदीणं याव अणाहास्स त्ति एोदव्वं ।

उक्कस्सबंध-अणुक्कस्सबन्धपरूवणा

६५. यो सो उक्कस्सबंधो अणुक्कस्सबंधो । तत्थ इमो दुवि० णिद्दो—ओघे० आदे० । ओघे० सव्वपगदीणं द्विदिबंधो किं उक्कस्सबंधो अणुक्कस्सबंधो ? उक्कस्सबंधो वा अणुक्कस्सबंधो वा । सव्वुक्कस्सियं द्विदि बंधमाणस्स उक्कस्सबंधो । तदूणं बंधमाणस्स अणुक्कस्सबंधो । एवं याव अणाहारग त्ति एोदव्वं ।

जहरण-अजहरणबंधपरूवणा

६६. यो सो जहरणबंधो अजहरणबंधो एणम तस्स इमो दुवि० णिद्दो—ओघे० आदे० । ओघे० सव्वपगदीणं द्विदिबंधो किं जहरणबंधो अजहरणबंधो ? जहरणबंधो वा अजहरणबंधो वा । सव्वजहरणियं द्विदि बंधमाणस्स जहरणबंधो । तदो उवरि बंधमाणस्स अजहरणबंधो । एवं याव अणाहारग त्ति एोदव्वं ।

बन्ध होता है और नोसर्वबन्ध होता है । सब स्थितियोंका बन्ध करनेवाले जीवके सर्वबन्ध होता है और इनसे न्यून स्थितियोंका बन्ध करनेवाले जीवके नोसर्वबन्ध होता है ! इसी प्रकार सब प्रकृतियोंका अनाहारक मार्गणा तक कथन करना चाहिए ।

उत्कृष्टबन्ध-अनुत्कृष्टबन्धपरूपणा

६५. जो उत्कृष्टबन्ध और अनुत्कृष्टबन्ध है उसका यह निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंका स्थितिबन्ध क्या उत्कृष्टबन्ध होता है या अनुत्कृष्टबन्ध होता है ? उत्कृष्टबन्ध भी होता है और अनुत्कृष्टबन्ध भी होता है । सबसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके उत्कृष्टबन्ध होता है और इससे न्यून स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके अनुत्कृष्टबन्ध होता है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—उत्कृष्टबन्धमें ओघ और आदेशसे सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका ग्रहण किया गया है और अनुत्कृष्टबन्धमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धके सिवा शेष सब स्थितिबन्धोंका ग्रहण किया गया है । उदाहरणार्थ ओघसे मिथ्यात्व मोहनीयका सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थितिबन्ध होने पर वह उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कहा जाता है और इससे न्यून स्थितिबन्ध होने पर वह अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध कहा जाता है । इसी प्रकार आदेशसे जिस मार्गणामें जो उत्कृष्ट स्थितिबन्ध हो वह उत्कृष्ट स्थितिबन्ध है और शेष अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध है ।

जघन्यबन्ध-अजघन्यबन्धपरूपणा

६६. जो जघन्यबन्ध और अजघन्यबन्ध है उसका यह निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंका स्थितिबन्ध क्या जघन्यबन्ध है या अजघन्यबन्ध है ? जघन्यबन्ध भी है और अजघन्यबन्ध भी है । सबसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके जघन्यबन्ध होता है और इससे अधिक स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके अजघन्यबन्ध होता है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धके समान यहाँ ओघ और आदेशसे जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका विचार कर लेना चाहिए । ओघसे सबसे जघन्य स्थिति-

सादि-अणादि-ध्रुव-अध्रुवबन्धपरूवणा

६७. यो सो सादियबन्धो अणादियबन्धो ध्रुवबन्धो अध्रुवबन्धो णाम तस्स इमो दुवि० णिद्दोसो—ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंतरा० उक्कस्सद्विदिबन्धो अणुक्कस्सद्विदिबन्धो जहणणद्विदिबन्धो किं सादियबन्धो किं अणादिय-बन्धो किं ध्रुवबन्धो किं अध्रुवबन्धो? सादिय० अध्रुवबन्धो वा । अजहणणद्विदिबन्धो किं सादिय वा०४? सादिय० अणादिय० ध्रुव० अध्रुव० । सेसाणं सव्वपगदीणं उक्कस्स० अणुक्कस्स० जह० अजह० किं सादि०४? सादिय-अध्रुवबन्धो' । एवं ओघभंगो चक्खुदं-भवसि० । एवरि भवसिद्धिए ध्रुवबन्धो एत्थि । सेसाणं णिरयादि याव अणाहारग ति किं सादि०४? सादिय-अध्रुव बन्धो ।

बन्ध पाँच ज्ञानावरणका अन्तमुहूर्त है और सब अजघन्य स्थितिबन्ध है । इसी प्रकार सर्वत्र जान लेना चाहिए ।

सादि-अनादि-ध्रुव-अध्रुवबन्धपरूवणा

६७. जो सादिबन्ध, अनादिबन्ध, ध्रुवबन्ध और अध्रुवबन्ध है उसका यह निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध, अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध और जघन्य स्थितिबन्ध क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है या क्या अध्रुव है? सादि और अध्रुव है । अजघन्य स्थितिबन्ध क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है अथवा क्या अध्रुव है? सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव है । शेष सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध, अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध, जघन्य स्थितिबन्ध और अजघन्य स्थितिबन्ध क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है अथवा क्या अध्रुव है? सादि और अध्रुव है । इसी प्रकार ओघके समान चक्षुदर्शनी और भव्य जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि भव्य जीवोंके ध्रुव बन्ध नहीं होता । शेष नरकगतिसे लेकर अनाहारकतक सब मार्गणाओंमें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध, अनुत्कृष्ट, स्थिति-बन्ध जघन्यस्थितिबन्ध और अजघन्य स्थितिबन्ध क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है अथवा क्या अध्रुव है? सादि और अध्रुव है ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी बन्ध-व्युच्छिन्ति और जघन्य स्थितिबन्ध क्षपकश्रेणिमें उपलब्ध होता है । इसके पहले अनादिकालसे इन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है । यतः इन प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपकश्रेणिमें अपने अपने अन्तिम स्थितिबन्धके समय प्राप्त होता है, इसलिए इसके पहले अनादिकालसे होनेवाला इनका अजघन्यबन्ध ठहरता है । इसलिए तो यह अनादि है तथा जो जीव उपश्रम श्रेणिपर आरोहण कर और सूक्ष्म साम्परायके अन्तमें इनकी बन्धव्युच्छिन्ति कर उपशान्तमोह हो उपशमश्रेणीसे उतरते हुए पुनः इनके बन्धका प्रारम्भ करता है उसके यह अजघन्य स्थितिबन्ध सादि होता है । ध्रुव और अध्रुव स्पष्ट ही हैं । इस प्रकार उक्त १८ प्रकृतियोंका अजघन्य स्थितिबन्ध सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुवके भेदसे चार प्रकार का होता है । इन १८ प्रकृतियोंके शेष उत्कृष्टबन्ध आदि तीन तथा शेष सब प्रकृतियोंके उत्कृष्टबन्ध आदि चार सादि और अध्रुव दो ही प्रकारके हैं, क्योंकि उक्त १८ प्रकृतियोंके उत्कृष्टबन्ध आदि तीन और शेषके उत्कृष्टबन्ध आदि चारों कादाचित्क होनेसे अनादि और

सामित्तपरूवणा

६८. सामित्तं दुविधं—जहणणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-एवदंसणा०-असाद०-भिच्छत्त-सोलसकसाय-एवुंस०-अर-दिसोग-भय-दुगुं०-पंचिदियजादि-तेजा-क०-हुंडसं०-वण०४-अगुरु०४-अप्पसत्थवि० तस०४-अथिरादिद्वक्क-णिमिण-णीचागो०-पंचंतरा० उक्कस्सओ द्विदिबंधो कस्स होदि ? अएणदरस्स चदुगदियस्स पंचिदियस्स सणिएस्स मिच्छादिद्विस्स सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तगदस्स सागारजागार-सुदोवजोगजुत्तस्स उक्कस्सियाए द्विदीए उक्क-स्सए द्विदिसंक्किलिस्से वट्टमाणस्स अथवा ईसिमज्झिमपरिणामस्स^१ । सादावे०-इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-मणुसगदि-पंचसंठा०-पंचसंध०-मणुसाणु०-पसत्थविहाय०-थिरादिद्वक्क-उच्चागो० उक्क० द्विदि० कस्स ? तस्सेव पंचिदियस्स सागार-जागार०

ध्रुव नहीं हो सकते । पहले मूलप्रकृति स्थितिबन्ध प्रकरणमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र और अन्तराय इन सात मूल प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धको सादि आदि चार प्रकार का बतलाया है और यहाँ केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तरायके भेदोंमें ही यह घटित किया गया है सो इसका कारण यह है कि आयुके विना शेष सात मूल प्रकृतियोंका अनादिसे निरन्तर बन्ध होता आया है पर इन सबकी उत्तर प्रकृतियोंकी यह स्थिति नहीं है; इसलिए उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा जिन कर्मों की उत्तर प्रकृतियोंमें यह व्यवस्था सम्भव हुई उनमें ही उक्त प्रकारसे निर्देश किया है ।

यह ओघप्ररूपणा अचक्षुदर्शन और भव्य इन दो मार्गणाओंमें ही अविकल घटित होती है, क्योंकि ये मार्गणाएँ कादाचित्क नहीं हैं और क्रमसे क्षीणमोह व अयोगिकेवली गुणस्थानतक रहती हैं । इसलिए इनमें ओघके समान प्ररूपणा बन जाती है । केवल भव्य-मार्गणामें ध्रुव विकल्प नहीं होता । शेष कथन सुगम है ।

स्वामित्वप्ररूपणा

६८. स्वामित्वदो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, असचतुष्क, अस्थिरादि छह, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो पञ्चेन्द्रिय है, संक्षी है, मिथ्यादृष्टि है, सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकारजागृतश्रुतोपयोगसे उपयुक्त है, उत्कृष्ट स्थितिबन्ध और उत्कृष्ट सक्लेशरूप परिणाममें अवस्थित है अथवा ईषत् मध्यम परिणामवाला है ऐसा चार गतिका अन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, मनुष्यगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिरादि छह और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो पञ्चेन्द्रिय है, साकार जागृत तत्प्रायोग्यसंक्लेशपरिणामवाला है और उत्कृष्ट स्थितिबन्धके साथ तत्प्रायोग्य संक्लेशरूप परि-

१. सेसाणं । उक्कस्ससंक्किलिटा चदुगदिया ईसिमज्झिमया ।^१—गो० क० गा० १३८ ।

तप्पाओग्गसंकिलिद्वस्स उक्कस्सियाए द्विदीए तप्पाओग्गसंकिलेसे वट्टमाणस्स ।

६६. णिरयायु० उक्क० द्विदिबंधो कस्स ? अरण्णदरस्स मणुसस्स वा तिरिक्ख-जोण्णियायस्स वा सण्णिया० मिच्छादिद्विस्स सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तगदस्स सागार-जागार-सुदोवजुत्तस्स तप्पाओग्गसंकिलिद्वस्स उक्कस्सियाए आवाधाए उक्कस्सद्विदि० वट्टमाणयस्स । तिरिक्ख-मणुसायु० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अरण्ण० मणुसस्स वा पंचिंदियतिरिक्खजोण्णियायस्स वा सण्णिया० मिच्छादिद्विस्स सागारजागार० तप्पा-ओग्गविसुद्ध० उक्कस्सियाए आवाधाए उक्क० द्विदिबंधं० वट्ट० । देवायु०^१ उक्क० द्विदि-बंधं० कस्स ? अरण्णदरस्स पमत्तसंजदस्स सागार-जागारसुदोवजोगजुत्तस्स तप्पा-ओग्गविसुद्धस्स उक्कस्सियाए आवाधाए उक्क० द्विदिबंधं० वट्ट० ।

७०. ^१णिरयग०-वेउन्वि०-वेउन्वि०-अंगोवं०-णिरयगदिपाओग्गा० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अरण्ण० मणुसस्स वा पंचिंदियतिरिक्खस्स वा सण्णिया० मिच्छादिद्विस्स सागार-जागारसुदोवजोगजुत्तस्स सव्वसंकिलिद्वस्स उक्क० द्विदि० वट्टमाणस्स अथवा ईसिमज्झिमपरिणामस्स वा । ^२तिरिक्खगदि-ओरालिय०-ओरालिय०-अंगोवं०-असंपत्त-सेवट्टसंघ०-तिरिक्खाणुपु०-उज्जोव० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अरण्णदरस्स णिरयस्स णाममे अवस्थित है ऐसा पूर्वोक्त चार गतिका संज्ञी जीव ही उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका स्वामी है ।

६६. नरकायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो संज्ञी है, मिथ्यादृष्टि है, सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकारजागृतश्रुतोपयोगसे उपयुक्त है, तत्प्रायोग्यसंक्लेश परिणामवाला है और उत्कृष्ट आबाधाके साथ उत्कृष्टस्थितिबन्ध कर रहा है ऐसा अन्यतर मनुष्य या तिर्यञ्चयोनि जीव नरकायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो संज्ञी है मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है, तत्प्रायोग्यविशुद्ध परिणामवाला है और उत्कृष्ट आबाधाके साथ उत्कृष्ट स्थिति-बन्ध कर रहा है ऐसा अन्यतर मनुष्य या तिर्यञ्चयोनि जीव तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो साकार जागृत श्रुतोपयोगसे उपयुक्त है, तत्प्रायोग्यविशुद्ध परिणामवाला है और उत्कृष्ट आबाधाके साथ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा है ऐसा अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।

७०. नरकगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और नरकगति प्रायोग्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो संज्ञी है, मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत श्रुतोप-योगसे उपयुक्त है, सबसे अधिक संक्लेश परिणामवाला है, उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा है अथवा ईषत् मध्यम परिणामवाला है ऐसा अन्यतर मनुष्य या पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च उक्त चार प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चगति, औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गो-पाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन, तिर्यञ्चगति प्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योतके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका स्वामी कौन है ? जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला

१. 'देवाउगं पमत्तो'—गो० क० गा० १३६ । २. णरतिरिया'... 'वेगुन्विद्यञ्जकवियलसुहुम-तियं ।'—गो० क० गा० १३७ । ३. सुरणिरया ओरालियतिरियदुग्गज्जोवसंपत्तं ।'—गो० क० गा० १३७ ।

वा देवस्स वा मिच्छादिद्वि० सागार-जागार० उक्कस्ससंकिलिट्ठ० अथवा ईसिमज्झि-
मपरिणामस्स । देवगदि-तिरिणजादि-देवाणुपु०-सुहुम-अपज्जत्त-साधार० उक्क०
द्विदि० कस्स० ? अरण० मणुसस्स वा पंचिंदियतिरिक्खस्स वा सण्णि० मिच्छा-
दिद्विस्स सागार-जागार० तप्पाओग्ग० उक्कद्विदि० तप्पाओग्गउक्कस्सए संकिलिट्ठे
वट्टमाणस्स । एइंदिय-आदाव-थावर० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अरण० सोधम्मी-
साणंतदेवेसु मिच्छादिद्वि० सागार-जागार० उक्कस्ससंकिलिट्ठस्स अथवा ईसिम-
ज्झिम० । आहार०-आहार०अंगो० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अरणदरस्स अप्प-
मत्तसंजदस्स सागार-जागार० तप्पाओग्गसंकिलिट्ठ० पमत्ताभिमुहस्स । तित्थयरं
उक्क० द्विदि० कस्स० ? अरणद० मणुसस्स असंजदसम्मादिद्विस्स सागार-जागार०
तप्पाओग्गस्स० मिच्छादिद्विमुहस्स ।

है अथवा अल्प मध्यम परिणामवाला है ऐसा अन्यतर देव या नारकी जीव उक्त छह प्रकृति-
योंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । देवगति, तीन जाति, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, सूक्ष्म,
अपर्याप्त और साधारण प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो संज्ञी है, मिथ्या-
दृष्टि है, साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य परिणामवाला है और उत्कृष्ट स्थितिबन्धके साथ उत्कृष्ट
संक्लेशरूप परिणाममें अवस्थित है ऐसा अन्यतर मनुष्य अथवा पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च जीव उक्त
आठ प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावर प्रकृतिके
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश
परिणामवाला है अथवा अल्प मध्यम परिणामवाला है ऐसा सौधर्म और पेशान कल्प तकके
देवोंमेंसे अन्यतर देव उक्त तीन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । आहारकशरीर
और आहारक शरीर आङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो साकार जागृत है,
उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है और प्रमत्तसंयत गुणस्थानके अभिमुख है ऐसा अन्यतर अप्र-
मत्त संयत जीव उक्त दो प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट
स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है
और मिथ्यात्वके अभिमुख है ऐसा अन्यतर मनुष्य असंयतसम्यग्दृष्टि जीव तीर्थङ्कर प्रकृतिके
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।

विशेषार्थ—यहाँ १४८ उत्तर प्रकृतियोंमेंसे प्रत्येक प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका
विचार किया गया है । बन्धकी अपेक्षा पाँच बन्धन और पाँच संघातका पाँच शरीरमें अंत-
र्भाव हो जाता है तथा स्पर्शादिक २० के स्थानमें मूल चार लिये गये हैं तथा सम्यक् प्रकृति-
मिथ्यात्व और सम्यगिमिथ्यात्व ये दो अबन्ध प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इन अट्ठाईस प्रकृतियोंके
कम हो जाने पर कुल १२० प्रकृतियाँ शेष रहती हैं । अतएव यहाँ इन्हीं १२० प्रकृतियोंके
उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका विचार किया गया है । यहाँ यह बात तो स्पष्ट ही है कि
देवायु, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर इन चार प्रकृतियोंके सिवा शेष ११६ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट-
स्थितिबन्ध मिथ्यादृष्टि जीव ही करता है, क्योंकि इनके बन्धके योग्य उत्कृष्ट या अल्प मध्यम

१. 'गरतिरिया'.....'वेगुन्वियल्लक्कवियल्लसुहुमतियं ।'—गो० क० गा० १२७ । २. देवा पुण
एइंदियआदावं थावरं च । गो० क० गा० १३८ । ३. 'आहारयमप्यमत्तविरदो दु ।'—गो० क० गा० १३६ ।
४. 'तित्थयरं च मणुस्सो ।'—गो० क० गा० १३६ ।

७१. आदेसेण एरइएसु पंचणा०-एवदंसणा०-असादावे०-मिच्छत्त-सोल-
सक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-पंचिदिय०-ओरालिय०-तेजा०-
क०-हुडसं०-ओरालि०अंगो०-असंपत्तसेव०-वण०४-तिरिक्खाणुपु०-अगुरु०४-
उज्जो०-अप्पसत्थवि०-तस०४-अथिरादिळक्क-णिमिण-णीचागो०-पंचंतरा० उक्क०

परिणाम मिथ्यादृष्टिके ही होते हैं । उसमें भी किन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन गतिका जीव है यह अलग अलग बतलाया ही है फिर भी यहाँ प्रत्येक गति-का आश्रय लेकर विचार करते हैं—

नरकगति—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, २ वेदनीय और २६ मोहनीयका तथा नरक-
गतिद्विक, वैक्रियिकद्विक, देवगतिद्विक, एकेन्द्रियादि चार जाति, आहारकद्विक, आतप,
स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण और तीर्थङ्कर इन १८ प्रकृतियोंके सिवा नामकर्मकी ४९
प्रकृतियोंका तथा २ गोत्र और ५ अन्तरायका इस प्रकार नरकगतिमें कुल ९८ का ओघ उत्कृष्ट
स्थितिबन्ध होता है । तथा तिर्यञ्चायु मनुष्यायु और तीर्थङ्कार प्रकृतिका आदेश उत्कृष्ट स्थिति-
बन्ध होता है । कुल १०१ प्रकृतियोंका बन्ध होता है ।

तिर्यञ्चगति—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, २ वेदनीय, २६ मोहनीय, देवायुके सिवा
३ आयुका तथा तिर्यञ्चगतिद्विक, औदारिकद्विक, आहारकद्विक, एकेन्द्रिय जाति, असंप्राप्ता-
सृपाटिकासंहनन, आतप, उद्योत, स्थावर और तीर्थङ्कर इन १२ प्रकृतियोंके सिवा नाम-
कर्मकी शेष ५५ प्रकृतियोंका तथा २ गोत्र और ५ अन्तरायका इस प्रकार तिर्यञ्चगतिमें १०७
प्रकृतियोंका ओघ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है । तथा औदारिकद्विक, तिर्यञ्चगतिद्विक, असंप्राप्ता-
सृपाटिका संहनन, एकेन्द्रिय जाति, आतप, उद्योत और स्थावर इन नौ प्रकृतियोंका आदेश
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है । कुल ११७ प्रकृतियोंका बन्ध होता है ।

मनुष्यगति—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, २ वेदनीय, २६ मोहनीय, ४ आयुका तथा
तिर्यञ्चगतिद्विक, एकेन्द्रिय जाति, औदारिकद्विक, असंप्राप्तासृपाटिका संहनन, आतप, उद्योत
और स्थावर इन नौ प्रकृतियोंके सिवा नामकर्मकी ५८ प्रकृतियोंका तथा २ गोत्र और ५ अन्त-
रायका इस प्रकार मनुष्यगतिमें १११ प्रकृतियोंका ओघ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है । इतनी
विशेषता है कि आहारकद्विकका प्रमत्तसंयत गुणस्थानके अभिमुख हुए संक्लेश परिणामवाले
अप्रमत्तसंयतके और तीर्थंकरका मिथ्यात्वके अभिमुख हुए असंयतसम्यग्दृष्टिके उत्कृष्ट स्थिति-
बन्ध होता है । तथा तिर्यञ्चगतिमें गिनाई गई आदेश उत्कृष्ट स्थितिबन्धवाली ९ प्रकृतियोंका
यहाँ भी आदेश उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है । यहाँ सब प्रकृतियोंका बन्ध होता है ।

देवगति—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, २ वेदनीय, २६ मोहनीयका तथा नरकगति-
द्विक, देवगतिद्विक, द्वीन्द्रिय आदि तीन जाति, वैक्रियिकद्विक, आहारकद्विक, सूक्ष्म, अपर्याप्त,
साधारण और तीर्थंकर इन १५ प्रकृतियोंके सिवा नामकर्मकी ५२ प्रकृतियोंका तथा २ गोत्र
और ५ अन्तरायका इस प्रकार देवगतिमें कुल १०१ प्रकृतियोंका ओघ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता
है । तथा तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु और तीर्थंकर प्रकृतिका आदेश उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है ।
कुल १०४ प्रकृतियोंका बन्ध होता है ।

७१. आदेशसे नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व,
सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदा-
रिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असंप्राप्तासृपाटि-
कासंहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुलरुधु चतुष्क, उद्योत, अप्रशस्तविहायो-

द्विदि० कस्स० ? अण्णद० मिच्छादिद्विस्स सागार-जागार० उक्कस्ससंकिलि० अथवा ईसिमज्झिमपरिणामस्स । सेसाणं उक्कस्स० द्विदि० तस्सेव तप्पाओग्ग-संकिलि० । तिरिक्खायु० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अण्णद० मिच्छादिद्वि० तप्पाओ-ग्गविसुद्धस्स उक्कस्सियाए आबा० [उक्क०] द्विदि० वट्टमाणस्स । मणुसायु० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अण्ण० सम्मादि० मिच्छादि० तप्पाओग्गविसुद्धस्स उक्क० आबा० उक्क० द्विदि० वट्टमाण्यस्स । तित्थयर० उक्क० द्विदि० कस्स० ? असंजदसम्मादिद्विस्स तप्पाओग्गसंकिलि० ।

७२. एवं सव्वासु पुढवीसु । एववि चउत्थीआदीसु तित्थयरं एत्थि । सत्तमा-ए मणुसगइ-मणुसाणु०-उच्चागो० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अण्ण० सम्मादिद्विस्स तप्पाओग्गसंकिलिद्वि० मिच्छत्तामिमुह० ।

७३. तिरिक्खेसु पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त-सोलसकसा०-एवुंस०-अरदि-सोग०-भय-दुगुं०-एयरयग०-पंचिंदिय०-तेजा-क०-हुंडसंठा०-वेउ-

गति, त्रस चतुष्क, अस्थिरादिक ल्हह, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला अथवा अल्प मध्यम परिणामवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणाम-वाला वही जीव है । तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला और उत्कृष्ट आबाधाके सात उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि नारकी तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्यविशुद्ध परिणामवाला और उत्कृष्ट आबाधाके साथ उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि नारकी मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्यसंक्लेश परि-णामवाला अन्यतर असंयत सम्यग्दृष्टि नारकी तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।

७२. इसी प्रकार सात पृथिवियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि चौथीसे लेकर सब पृथिवियोंमें तीर्थंकर प्रकृति नहीं है । तथा सातवीं पृथिवीमें मनुष्य गति, मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी और उच्च गोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला और मिथ्यात्वके अभिमुख अन्यतर सम्यग्दृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।

विशेषार्थ—नरकगतिमें जितनी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है उनका नाम निर्देश पहिले कर आये हैं । यहाँ इतनी विशेष बात जाननी चाहिए कि तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध तीसरी पृथिवी तक होता है और सातवीं पृथिवीमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सम्यग्दृष्टि नारकीके होता है ।

७३. तिर्यञ्चोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नरकगति, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्यचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, अप्र-

न्वियत्रंगो०-वण्ण०४-णिरयाणु०-अगुरु०४-अप्पसत्थवि०-तस०४-अथिरादिच्छक्क-
णिमिण्ण-णीचागो०-पंचंतरा० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अण्णद० पंचिंदिय० सण्णि०
मिच्छा० सागार-जागार० उक्कस्ससंकिलिट्ठ० अथवा ईसिमज्झिमप० । सेसाणं
तस्सेव पंचिंदिय० सण्णि० मिच्छादि० सागार-जागार० तप्पाओग्ग-संकिलि० ।
देवायु० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अण्णदरस्स सम्मादिट्ठि० तप्पाओग्गविसु० उक्क०
आवा० । सेसाणं आयूणं ओघं । पंचिंदियतिरिक्ख'०३ [तिरिक्खोघं] ।

७४. पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्ते पंचणाणावरणी०-णवदंसणा०-असादावे०-
मिच्छत्त-सोलसक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-एइंदियजादि-
ओरालि०-तेजा-क०-हुंडसं०-वण्ण०४-तिरिक्खाणुपु०-अगुरु०-उप०-थावर-सुहुम-
अपज्जत्त-साधार०-अथिरादिपंच०-णिमिण्ण-णीचागो०-पंचंतरा० उक्क० द्विदि०
कस्स० ? अण्ण० सण्णिस्स सागार-जागार० उक्क० संकिलि० वट्टमाणस्स ।
सेसाणं तस्स चेव सण्णि० तप्पाओग्गसंकिलिट्ठ० उक्क० द्विदि० वट्टमाण० । दो
आयु० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अण्णद० सण्णिस्स वा असण्णिस्स वा तप्पाओग्ग-
विसुद्धस्स ।

शस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, अस्थिरादिक छह, निर्माण, नीचगोत्र, और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट
स्थितिबन्धका स्वामी कौन है। पञ्चेन्द्रिय, संज्ञी, मिथ्यादृष्टि, साकार जागृत और उत्कृष्ट
संक्लेश परिणामवाला अथवा अल्प मध्यम परिणामवाला अन्यतर तिर्यञ्च जीव उक्त प्रकृतियों-
के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी पञ्चेन्द्रिय,
संज्ञी, मिथ्यादृष्टि, साकार जागृत और तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला वही जीव है।
देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला और उत्कृष्ट
आबाधाके साथ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च देवायुके उत्कृष्ट
स्थितिबन्धका स्वामी है। तथा शेष आयुओंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी ओघके समान
है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रिकमें अपनी अपनी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिके बन्धका स्वामी सामान्य
तिर्यञ्चोंके समान है।

७४. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता-
वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति,
एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान वर्णचतुष्क,
तिर्यञ्चगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिरा-
दिक पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है?
साकार जागृत और उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला अन्यतर संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट
स्थितिबन्धका स्वामी है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी संज्ञी, तत्प्रायोग्य
संक्लेश परिणामवाला और उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला वही जीव है। दो आयुओंके
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? तत्प्रायोग्यविशुद्ध परिणामवाला अन्यतर संज्ञी या
असंज्ञी जीव दो आयुओंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है।

विशेषार्थ—तिर्यञ्च सामान्यके आहारकद्विक और तीर्थङ्करके विना कुल बन्धयोग्य

७५. मणुस०३ आहार०-आहार०अंगो०-तित्थयर०-आयु०चत्तारि ओघं ।
सेसाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो । मणुसअपज्जत्ता० तिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

७६. देवगदीए पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त-सोलसक०-एवुंस०-
अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-एइदि०-पंचिदि०-ओरालिय०-तेजा-क०-हुंडसं०-
ओरालि०अंगो०-असंपत्तसेवट्टसंघ०-वएण०४-तिरिक्खाणुपु०-अगुरु०४-आदाउज्जो०-
अप्पसत्थविहा०-तस-थावर-वादर-पज्जत्त-पत्तेय०-अथिरादिक्क-णीचागोद-पंचंतरा०
उक्क०-ट्टिदि० कस्स० ? अएणद० मिच्छादिट्टि० सागार-जागार० उक्कस्ससंकिलि०
अथवा इसिमज्झिमपरिणामस्स । दोआयु० तित्थयरं च णिरयभंगो । सेसाणं
तप्पाओग्ग-संकिलि० मिच्छादिट्टि० ।

प्रकृतियाँ ११७ हैं। इनमेंसे इसके १०७ प्रकृतियोंका ओघके समान उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है और शेष रही देवायु तिर्यचगतिद्विक, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक द्विक, असंप्राप्तासृपाटिका-संहनन, आतप, उद्योत और साधारण इन १० प्रकृतियों का आदेश स्थितिबन्ध होता है। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंमें भी जान लेना चाहिये। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें पूर्वोक्त ११७ प्रकृतियोंमेंसे देवायु, नरकायु और वैक्रियिक छह इन ८ प्रकृतियोंके कम कर देने पर कुल बन्धको प्राप्त होनेवाली १०६ प्रकृतियाँ शेष रहती हैं। सो इसके इन सब प्रकृतियोंका आदेश उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि इन सब मार्गणाओंमें किस अवस्थाके होने पर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है इसका मूलमें निर्देश किया ही है। इसी प्रकार अन्य मार्गणाओंमें जहाँ जिस अवस्थामें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है उसका पृथक् पृथक् निर्देश मूलमें किया है।

७५. मनुष्यत्रिकमें आहारकशरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग, तीर्थकर प्रकृति और चार आयुओंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी ओघके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चके समान है। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकमें सब अर्थात् १२० प्रकृतियोंका बन्ध होता है। इनमेंसे १११ का ओघ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है और तिर्यञ्चगतिद्विक, एकेन्द्रिय जाति, औदारिकद्विक, असंप्राप्तासृपाटिकासंहनन, आतप, उद्योत तथा स्थावर इन ९ प्रकृतियोंका आदेश उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। मनुष्य अपर्याप्तकोंका विचार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है यह स्पष्ट ही है।

७६. देवगतिमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असंप्राप्तासृपाटिका संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस, स्थावर, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, अस्थिरादिक छह नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? साकार जागृत, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला अथवा अल्प मध्यम परिणामवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। दो आयु और तीर्थकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी नारकियोंके समान है, तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला मिथ्यादृष्टि देव है।

७७. भवण०-वाणवेंत०-जोदिसि०-सोधम्मीसा० पंचणा०-णवदंसणा०-असा-
दा०-मिच्छत्त-सोलसक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-एइदि०-
ओरालि०-तेजा-क० हुंडसं०-वणण०४-तिरिक्खाणु०-अगुरु०४-आदाउज्जो०-थावर-
वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिरादिपंच-णिमिण-णीचागो०-पंचंतरा० उक्क० द्विदिबं०
कस्स० ? अणणद० मिच्छादिदि० सागार-जागार० उक्कस्ससंकिलिद्वि० अथवा
ईसिमज्झिमपरि० । सेसाणं तस्सेव सागार-जागार० तप्पाओग्गसंकिलि० उक्कस्स-
द्विदि० वट्टमा० । दोआयु० सोधम्मे तित्थयरं च देवोघं । एवं सणक्कुमार याव
सहस्सार त्ति विदियपुढविभंगो ।

७८. अणादादि याव णवगेवज्जा त्ति पंचणा०-णवदंसणा०-असादावे०-
मिच्छत्त-सोलसक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-मणुसगदि-पंचिदियजादि-ओरा-
लिय०-तेजा०-क०-हुंडसं०-ओरालिय०अंगो०-असंपत्तसेवट्ट०-वणण०४-मणुसाणु०-
अगुरु०४-अप्पसत्थवि०-तस०४-अथिरादिद्वक्क-णिमिण-णीचागो०-पंचंतरा० उक्क०
द्विदि० कस्स० ? अणणद० मिच्छादि० उक्क०संकिलि० । सेसाणं तस्स चव सागार-
जागार० तप्पाओग्गसंकिलि० । मणुसायु० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अणण० मिच्छा-
दिद्विस्स सम्मादिद्विस्स वा तप्पाओग्गविसुद्धस्स ।

७७. भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा सौधर्म और ऐशान कल्पके देवोंमें पाँच
ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति,
शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण
शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, आतप, उद्योत,
स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिरादिक पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्त-
रायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, उत्कृष्ट संकलेश परिणामवाला
अथवा अल्प मध्यम परिणामवाला, अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थिति-
बन्धका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी साकार जागृत, तत्प्रायोग्य
संकलेश परिणामवाला और उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला वही जीव है । तथा दो आयुओंके
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी और सौधर्मकल्पयुगलमें तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका
स्वामी सामान्य देवोंके समान है । इसी प्रकार सानत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्वार कल्प
तक अपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी दूसरी पृथिवीके समान है ।

७८. आनत कल्पसे लेकर नौ अवैयक तकके देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण,
असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्य-
गति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, औदा-
रिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी,
अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिरादिक छह, निर्माण, नीचगोत्र
और पाँच अन्तरायोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट संकलेश परिणामवाला
अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंके
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी साकार जागृत और तत्प्रायोग्य संकलेश परिणामवाला वही जीव
है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला,
अन्यतर मिथ्यादृष्टि अथवा सम्यग्दृष्टि उक्क देव मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।

७९. अणुदिस याव सव्वद्व त्ति पंचणा०-द्धंसणा०-असादावे०-बारसक०-पुरिस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं च्छ-मणुसगदि-पंचिंदिय०-ओरालिय०-तेजा-क०-सम-चदु०-ओरालिय०-अंगो०-वज्जरिसभसं०-वणण०-४-मणुसाणु०-अगुरु०-४-पसत्थवि०-तस०-४-अधिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज०-अजस०-णिमिण-तित्थयर०-उच्चागो०-पंचंत० उक्क० द्विदि० कस्स० ? सव्वसंकिलि० । सेसाणं तस्सेव सागार-जागार० तप्पाओगसंकिलि० । आयु० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अणण० तप्पाओगविसुद्ध० उक्क० आवा० ।

८०. एइंदिएसु पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो । एवरि अणणद० बादरस्स पज्जत्तस्स सागार-जागार० उक्कस्ससंकिलि० । एवं बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्ता० । एवरि यं उद्दिसदि तं गहणं कादव्वं । एदेण विधिणा बीइदि०-तीइदि०-चदुरिदि० पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

७९. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गो-पाङ्ग, वज्रवृषभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थंकर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? सबसे संक्लेश परिणामवाला उक्त देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी साकार जागृत और तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणाम-वाला वही जीव है । आयुर्कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला और उत्कृष्ट आवाधाके साथ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाला उक्त देव आयुर्कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।

विशेषार्थ—देवोंमें कुल १०४ प्रकृतियोंका बन्ध होता है । उसमें भी एकेन्द्रिय जाति, आतप और स्थावर प्रकृतिका बन्ध ऐशान कल्प तक ही होता है । भवनत्रिकोंमें तीर्थङ्कर प्रकृति का बन्ध नहीं होता । देवोंमें पहले जिन १०१ प्रकृतियोंका ओघ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कहा है वह सहस्रार कल्प तक ही होता है । आगे अपने अपने योग्य आदेश उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है । तिर्यञ्चायु, तिर्यञ्चद्विक और नीचगोत्रका बन्ध भी बारहवें कल्प तक ही होता है । आगे इनका बन्ध नहीं होता । इसलिए इतनी विशेषताओंको ध्यानमें रखकर देवोंमें और उनके अवान्तर भेदोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व घटित करना चाहिए । मात्र नौ अनुदिश और पाँच अनुत्तर विमानोंमें सब देव सम्यग्दृष्टि ही होते हैं, इसलिए वहाँ सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व सम्यग्दृष्टि देवोंके ही कहना चाहिए । यहाँ किस प्रकृतिका किस अवस्थामें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है यह सब विशेषता मूलमें कही ही है ।

८०. एकेन्द्रियोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि साकारजागृत और उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला अन्यतर बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंके कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहाँ जिसका उद्देश्य हो वहाँ उसका ग्रहण करना चाहिए । इसी विधिसे द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवों का भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है ।

१. मूलप्रती—असुभदूभगदुस्सरआदेज्ज— इति पाठः ।

८१. पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्तेसु सव्वपगदीणं मूलोघं । एवरि पंचिदियगहरणं कादच्चं । पंचिदियअपज्जं पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

८२. पुढविका० णाणावरणादि अंतराङ्ग ति उक्क० द्विदि० कस्स० ? अरण० वादरस्स पज्जत्तस्स सागार-जागार० उक्क० संकिलि० । सेसाणं सागार-जागार० तप्पाओग-संकिलि० । दोआयु० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अरणद० सागार-जागार० तप्पाओगविसुद्ध० । एवं पंचकायाणं एइंदियभावेण एोदच्चं । एवरि तेउ-वाउकायाणं मणुसायु०-मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चागोदं एत्थि ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंके नरकायु, देवायु, वैक्रियिक लुह, आहारकद्रिक और तीर्थ-ङ्कर इन ११ प्रकृतियोंके सिवा १०९ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। सो एकेन्द्रियोंमें इनके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव होता है यह स्पष्ट ही है। यहाँ पर अन्य जितनी मार्गणाएँ कही हैं उनमें अपनी अपनी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका विचार कर उनके स्वामित्वका कथन करना चाहिए। इन सब मार्गणाओंमें उक्क १०९ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। मात्र पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अर्प्याप्त जीवोंमें उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करते समय जिस प्रकार ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी योग्यताका निर्देश किया है उसी प्रकार यहाँ भी उसका विचार कर लेना चाहिए।

८१. पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है। इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रियका ग्रहण करना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय अर्प्याप्तकोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अर्प्याप्तकोंके समान है।

विशेषार्थ—मूलोघ प्ररूपणामें जो उत्कृष्ट स्थितिवन्धके स्वामीका निर्देश करते समय गतियोंकी मुख्यतासे कहा है वहाँ नरकगतिका या तिर्यञ्चगतिका जीव ऐसा न कहकर पञ्चेन्द्रिय ऐसा सामान्य निर्देश करना चाहिए। शेष कथन सब मूलोघके समान है यह उक्क कथनका तात्पर्य है।

८२. पृथिवी कायिक जीवोंमें ज्ञानावरणसे लेकर अन्तराय तक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है? साकार जागृत, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला वादरपृथिवी-कायिक पर्याप्त जीव उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी साकार जागृत तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला उक्क जीव है। दो आयुओंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है? साकार जागृत तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला अन्यतर वादर पर्याप्त पृथिवीकायिक जीव उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार पाँच स्थावर कायिक जीवोंका एकेन्द्रिय जीवोंके समान कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्च गोत्रका बन्ध नहीं होता।

विशेषार्थ—पहले एकेन्द्रियोंमें बन्ध योग्य १०९ प्रकृतियोंका निर्देश कर आये हैं। यतः पृथिवीकायिक आदि एकेन्द्रियोंके अवान्तर भेद हैं अतः इनमें भी उन्हीं १०९ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। मात्र अग्निकायिक और वायुकायिक जीव इस नियमके अपवाद हैं। कारण कि उनमें मनुष्यायु, मनुष्यद्रिक और उच्च गोत्रका बन्ध नहीं होता इसलिए इन दो कायिक जीवोंमें १०५ प्रकृतियोंका ही बन्ध होता है। पहले लब्धपर्याप्तक पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी योग्यताका निर्देश कर आये हैं। उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। अर्थात् ज्ञानावरणकी ५ आदि ६६ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध उत्कृष्ट

८३. तस-तसपज्जत्त० पंचिंदियभंगो । तसअपज्जत्त० पंचिंदियतिरिक्ख-अपज्जत्तभंगो ।

८४. पंचमण०-तिण्णवचि० .पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त-सोल-सक०-णवुंसग०-अरदि-सोग-भय-दुगुच्छ-पंचिंदिय०-तेजा०-कम्मइय०-हुंडसंठाण-वण०-अगुरु०-अप्पसत्थवि०-तस०-अथिरादिक्क-णिमिण-णीचागो०-पंचंतरा० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अणण० चदुगदियस्स मिच्छादिद्विस्स सागार-जागार० उक्क० संकिलि० अथवा ईसिमज्झिमपरिणामस्स । सादावे०-इत्थिवे०-पुरिस०-हस्स-रदि-मणुसगदि-पंचसंठा०--पंचसंध०--मणुसाणु०--पसत्थवि०--थिरादिक्क-उच्चागो० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अणणदर० चदुगदियस्स मिच्छादिद्विस्स सागार-जागार० तप्पाओग्गसंकिलि० ।

८५. णिरयगदि-वेउव्वि०-वेउव्वि०-अंगो०-णिरयाणु० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अणणद० तिरिक्खस्स वा मणुसस्स वा मिच्छादि० सागार-जा० उक्क० संकिलि० । तिरिक्खगदि-ओरालि०-ओरालि०-अंगो०-असंपत्तसेव०-तिरिक्खाणुपु०-उज्जोव० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अणणद० देवस्स वा गेरइगस्स वा मिच्छादि० सागार-जा०

संक्लेश परिणामोंसे होता है । साता वेदनीय आदि ४१ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य संक्लेश परिणामोंसे होता है और मनुष्यायु व तिर्यञ्चायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामोंसे होता है । यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

८३. त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान है । तथा त्रस अपर्याप्तक जीवोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है ।

८४. पाँचो मनोयोगी और तीन वचन योगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शना-वरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, अस्थिर आदिक छह, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला अथवा अल्प मध्यम परिणामवाला चार गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । साता वेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, मनुष्यगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिरादिक छह और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत और तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।

८५. नरकगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और नरकगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत और उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला अन्यतर तिर्यञ्च अथवा मनुष्य मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्च गति, औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासूपाटिका संहनन, तिर्यञ्च-गत्यानुपूर्वी और उद्योतके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत और उत्कृष्ट

उक्क० संकि० अथवा ईसिमज्झिमपरिणा० । चदुगणं आयुगाणं ओघं । एइंदिय०
आदाव-थावर० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएणद० ईसाणंतदेव० मिच्छादिट्ठि०
सागार-जा० उक्क० संकिलि० अथवा ईसिमज्झिमपरिणा० । देवगदि-तिरिणजादि-
देवाणुपु०-सुहुम-अपज्जत्त-साधार० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएणदर० मणुसस्स वा
तिरिक्खस्स वा मिच्छादिट्ठि० सागार-जा० तप्पाओग्गसंकिलि० । आहार०-आहार०
अंगो०-तित्थयरं ओघं । वचिजो० असच्चमो० सो चेव भंगो । एवरि उक्कस्स-
संकिलिट्ठाणं तप्पाओग्गसंकिलिट्ठाणं च अएणद० सएणस्स त्ति भाणिदव्वं ।

८६. कायजोगि० मूलोघं । ओरालियका० मणुसपज्जत्तभंगो । एवरि मणुसस्स
वा तिरिक्खस्स वा पंचिंदिय० सएण० त्ति भाणिदव्वं । ओरालियमि० पंचणा०-
एवदंसणा०-सादावे०-मिच्छत्त-सोलसक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्ख-
गदि-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं०-वएण०४-तिरिक्खाणु०-अगुरु०-उप०-
थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साधार०-अथिरादिपंच०-णीचागो०-णिमिण-पंचतरा० उक्क०

संक्षेप परिणामवाला अथवा अल्प मध्यम परिणामवाला अन्यतर देव और नारकी मिथ्या-
दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । चार आयुओंके उत्कृष्ट स्थिति-
बन्धका स्वामी ओघके समान है । एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावरके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध-
का स्वामी कौन है ? साकार जागृत और उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला अथवा अल्प मध्यम
परिणामवाला अन्यतर पेशान कल्प तकका मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थिति-
बन्धका स्वामी है । देवगति, तीन जाति, देवगत्यानुपूर्वी, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण
प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत और तत्प्रायोग्य संक्षेप
परिणामवाला अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी
है । तथा आहारक शरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग और तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका
स्वामी ओघके समान है । वचनयोगी और असत्यमृषावचनयोगी जीवोंके इसी प्रकारका
भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि यहाँपर उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला और तत्प्रायोग्य संक्षेप
परिणामवाला अन्यतर संज्ञी जीव पेसा कहना चाहिए ।

विशेषार्थ—पाँचों मनोयोग और सत्य, असत्य, तथा उभयवचनयोग संज्ञी पञ्चेन्द्रियके
होते हैं । तथा सामान्य और अनुभय वचनयोग द्वीन्द्रिय जीवोंसे लेकर होते हैं पर यहाँ उत्कृष्ट
स्थितिबन्धके स्वामीका विचार चल रहा है, इसलिए इन दोनों वचनयोगोंकी अपेक्षा संज्ञी
जीवके ही उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करना चाहिए । यहाँ सब योगोंमें बन्ध १२० प्रकृतियों
का ही होता है । शेष विशेषता मूलमें कही ही है ।

८६. काययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मूलोघके समान
है । औदारिककाययोगी जीवोंका भङ्ग मनुष्य पर्याप्तकोंके समान है । इतनी विशेषता है कि
यहाँपर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी, मनुष्य और तिर्यञ्च जीव स्वामी हैं पेसा कहना चाहिए । औदारि-
कमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह
कषाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर,
तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात,
स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर आदिक पाँच, नीच गोत्र, निर्माण और पाँच
अन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत और उत्कृष्ट संक्लेश परि-

ट्टिदि० कस्स० ? अण्णदर० मणुसस्स वा तिरिक्खस्स वा सागार-जा० उक्क० संकिलि० । देवगदि०४-तित्थयर० उक्क० ट्टिदि० कस्स० ? अण्णद० सम्मा० तप्पाओग्गसंकिलि० उक्क० संकिलि० वट्ठ० । सेसाणं उक्क० ट्टिदि० कस्स० ? अण्ण० मणुस० तिरिक्ख० पंचिदिय० सण्णि० सागार-जा० तप्पाओग्ग-संकिलि० । दो आयु० मणुसअपज्जत्तभंगो ।

८७. वेउव्विये पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त-सोलसक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खग०-ओरालि०-तेजा-क०-हुंडसंठा०-वण्ण०४-तिरि-क्खाणु०-अगु०४-उज्जोव०-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-अथिरादिपंच०-णिमिण-णीचा-गो०-पंचंतराइगाणं उक्क० ट्टिदि० कस्स० ? अण्णद० देवस्स वा सहस्सारंतस्स एोरइगस्स वा मिच्छादि० सागार-जा० उक्क० संकिलि० अथवा ईसिमज्झिमपरि० ।

णामवाला अन्यतर मनुष्य और तिर्यञ्च उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । देवगति चतुष्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला अन्यतर सम्यग्दृष्टि औदारिकमिश्रकाययोगी जीव उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत और तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला अन्यतर मनुष्य और तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय संज्ञी औदारिकमिश्रकाययोगी जीव उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । तथा दो आयुओंका भङ्ग मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान है ।

विशेषार्थ—काययोग चारों गतियोंमें संभव है, इसलिए काययोगमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व ओघके समान बन जाता है । औदारिककाययोग तिर्यञ्च और मनुष्योंके ही होता है, इसलिए इसमें ओघके समान सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व नहीं प्राप्त होता । अतः जिन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व ओघसे मनुष्य और तिर्यञ्चोंके या मनुष्योंके कहा है वह तो उसी प्रकार कहना चाहिए और जिन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व चार गतिके जीवोंके कहा है वह देव और नारकी के न कहकर केवल मनुष्य और तिर्यञ्चोंके ही कहना चाहिए । तथा जिन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी देव या देव और नारकी जीव कहा है उनका स्वामी मनुष्य और तिर्यञ्चको कहना चाहिए । मात्र उनका इस योगमें आदेश उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है इतना विशेष जानना चाहिए । औदारिकमिश्रकाययोग भी मनुष्य और तिर्यञ्चके ही होता है । इसमें नरकायु, देवायु, नरकद्विक और आहारकद्विकके सिवा ११४ प्रकृतियोंका बन्ध होता है । शेष विशेषता मूलमें कही ही है । यहाँ जो खास बात ध्यान देने योग्य है वह यह कि औदारिक-मिश्र काययोगमें देवचतुष्कका बन्ध मिथ्यात्व और सासादनगुणस्थानमें नहीं होता, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व सम्यग्दृष्टि जीवके घटित करके बतलाया है ।

८७. वैक्रियिककाययोगमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, उद्योत, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, अस्थिरादिक पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला अथवा अल्प मध्यम परिणामवाला अन्यतर सहस्रार कल्प तकका

सादावे०-इत्थिवे०-पुरिस०-हस्स-रदि-मणुसगदि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-मणुसाणु०-
पसत्थवि०-थिरादिळक०-उच्चागो० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अरण० एणावरण-
भंगो । एवरि तप्पाओगसंकिलि० ।

८८. तिरिक्खायु० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अरण० देवस्स वा ऐरइगस्स वा
मिच्छादि० तप्पाओगगविसुद्ध० । मणुसायु० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अरणद०
देवस्स वा ऐरइगस्स वा सम्मादिट्ठिस्स वा मिच्छादि० तप्पाओगगविसुद्ध० ।
तित्थयर० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अरणद० देवस्स वा ऐरइगस्स वा सम्मा
दिट्ठिस्स उक्क० संकिलि० । एइंदि०-आदाव-थावर० देवोवं । पंचिंदिय०-ओरालिय०-
अंगो०-असंपत्तसेव०-अपसत्थवि०-तस-दुस्सर० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अरणदर०
देवस्स सणक्कुमार याव सहस्सारंतस्स ऐरइयस्स वा मिच्छादि० सागार-जा०
उक्क० संकिलि० । एवं चेव वेउन्वियमिस्स० । एवरि आयु० एत्थि ।

देव अथवा नारकी मिथ्यादृष्टि वैक्रियिक काययोगी जीव उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध
का स्वामी है । सातावेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, मनुष्यगति, पाँच संस्थान,
पाँच संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिरादिक छह और उच्च गोत्रके उत्कृष्ट
स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर ज्ञानावरणका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाला नारकी
और देव जीव उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । इतनी विशेषता है कि
तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला वैक्रियिक काययोगी जीव इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थिति-
बन्धका स्वामी है ।

८८. तिर्यञ्च आयुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परि-
णामवाला अन्यतर देव और नारकी मिथ्यादृष्टि वैक्रियिक काययोगी जीव तिर्यञ्चायुके
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रा-
योग्य विशुद्ध परिणामवाला अन्यतर देव और नारकी सम्यग्दृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि वैक्रि-
यिक काययोगी जीव मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट
स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला अन्यतर देव और नारकी
सम्यग्दृष्टि वैक्रियिक काययोगी जीव तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । एके-
न्द्रिय आतप और स्थावर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी सामान्य देवोंके समान है ।
पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, अप्रशस्त विहायोगति,
त्रस और दुःस्वर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है । साकार जागृत और उत्कृष्ट
संक्लेश परिणामवाला अन्यतर सानत्कुमारसे लेकर सहस्वार कल्प तकका देव और नारकी
मिथ्यादृष्टि वैक्रियिक काययोगी जीव उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।
इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके आयुकर्म
का बन्ध नहीं होता ।

विशेषार्थ—वैक्रियिक काययोग देव और नारकियोंके होता है । इसमें बन्धयोग्य प्रकृ-
तियाँ १०४ हैं । इनमेंसे एकेन्द्रिय जाति, आतप और स्थावर इन तीन प्रकृतियोंका बन्ध
नरकगतिमें नहीं होता, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी देव ही होता है । शेष
सब प्रकृतियोंका बन्ध नारकी और देव दोनोंके होता है । इसलिए उनके उत्कृष्ट स्थिति-
बन्धका स्वामी देव और नारकी दोनों प्रकारके जीव कहे हैं । वैक्रियिक मिश्रकाययोगमें

८९. आहार०-आहारमि० पंचणा०-द्वंदसणा०-असादावे०-चदुसंज०-पुरिस०-
अरदि-सोग-भय-दुगुं०-देवगदि-पंचिदिय०-वेउच्चिय०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउच्चिय-
अंगो०-वण०४-[देवगइपाओग्गाणुपुच्चि]-अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-अथिर-असुभ-
सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-णिमिण-तित्थय०-उच्चागो०-पंचंतरा० उक्क० द्विदि०
कस्स० ? अण० सागार-जा० उक्क० संकिलि० । सादावे०-हस्स-रदि०-थिर-सुभ-
जस० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अण० सागार-जागार० तप्पाओग्गसंकिलि० ।
देवाउ० उक्क० द्विदि० कस्स० । अणद० पमत्तसंज० सागार-जा० तप्पाओग्ग-
विसुद्ध० ।

९०. कम्मइग० पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त-सोलसक०-एवुंस०-
अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खग०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं०-वण०४-तिरि-

आयुबन्ध नहीं होता, इसलिए पूर्वोक्त १०४ प्रकृतियोंमेंसे तिर्यञ्चायु और मनुष्यायु इन दो आयुओंको कम कर देने पर बन्ध योग्य कुल प्रकृतियाँ १०२ शेष रहती हैं। इनका वैक्रियिक मिश्रकाययोगमें बन्ध होता है। शेष सब विशेषता मूलमें कही ही है।

८९. आहारककाययोग और आहारक मिश्रकाययोगमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शना-
वरण, असातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चे-
न्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक
आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रस
चतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुखर, आदेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र
और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत और
उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला अन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी
है। सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी
कौन है ? साकार जागृत तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट
स्थितिबन्धका स्वामी है। देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत
और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट
स्थितिबन्धका स्वामी है।

विशेषार्थ—प्रमत्तसंयत जीवके ६३ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। आहारक काययोग
और आहारक मिश्रकाययोग छठें गुणस्थानमें ही होते हैं, इसलिए इनमें भी इन्हीं ६३ प्रकृ-
तियोंका बन्ध होता है। उसमें भी इन दोनों योगोंमें किन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका
स्वामी कौन है यह सब विशेषता मूलमें कही ही है। आहारक मिश्रकाययोगमें आयुबन्ध
नहीं होता यह बात गोम्मटसार कर्मकाण्ड गाथा ११८में कही है पर यह बात वहाँ किस
आधारसे कही गई है यह स्पष्ट नहीं होता। महाबन्ध मूल ग्रन्थ है। इसमें तो सर्वत्र
आहारकमिश्रकाययोगमें आयुबन्धका निर्देश किया है। यही कारण है कि यहाँ भी देवायुके
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व दोनों योगवाले जीवोंके कहा है।

९०. कर्मणकाययोगमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व,
सोलह कषाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, औदारिकशरीर, तैजस-
शरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात,

क्वाणु०-अणु०-उप०-अधिरादिपंच-णामिण-णीचागोद-पंचंतरा० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अणण० चदुगदियस्स पंचिदियस्स सणिणस्स मिच्छादि० सागार-जा० उक्क० संकिलि० । सादावे०-इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-मणुसगदि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-मणुसगदिपाओग०-पसत्थवि०-धिरादिद्धक्क-उच्चागो० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अणणद० चदुगदियस्स पंचिदियस्स सणिणस्स मिच्छादि० सागार-जा० तप्पाओ० संकिलि० ।

६१. देवगदिचदु० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अणण० दुगदियस्स सम्मादिद्विस्स सागार-जा० उक्क० संकिलि० । तित्थय० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अणणद० तिग-दियस्स सम्मादि० सागार-जा० उक्क० संकिलि० । एइंदिय०-आदाव-थावर० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अणण० ईसाणंतदेवस्स सागार-जागार० उक्क० संकिलि० । एवरि एइंदि०-थावर० तिगदियस्स ति भाणिदव्वं । बीइंदि०-तीइंदि०-चदुरिंदि० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अणणद० तिरिक्खस्स वा मणुसस्स वा सागार-जा० तप्पाओ० संकिलि० । पंचिदि०-ओरालि० अंगो०-असंपत्तसेव०-अप्पसत्थ०-तस-दुस्सर० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अणण० देवस्स वा सहस्सारगस्स एोरइगस्स वा

अस्थिर आदिक पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत और उत्कृष्ट संकलेश परिणामवाला अन्यतर चारगतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि कर्मणकाययोगी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, मनुष्यगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगति, स्थिरादिक ब्रह्म और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत और तत्प्रायोग्य संकलेश परिणामवाला अन्यतर चार गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि कर्मणकाययोगी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।

९१. देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकारजागृत और उत्कृष्ट संकलेश परिणामवाला अन्यतर दो गतिका सम्यग्दृष्टि कर्मणकाययोगी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकारजागृत और उत्कृष्ट संकलेश परिणामवाला अन्यतर तीन गतिका सम्यग्दृष्टि कर्मणकाययोगी जीव तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकारजागृत और उत्कृष्ट संकलेश परिणामवाला अन्यतर ऐशान कल्पतकका देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय और स्थावर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी तीन गतिका जीव है यहाँ कहना चाहिए । द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति और चतुरिन्द्रिय जातिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत और तत्प्रायोग्य संकलेश परिणामवाला अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य कर्मणकाययोगी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक आंगोपांग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस और दुस्वर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत और उत्कृष्ट संकलेश परिणामवाला अन्यतर सहस्रार कल्पका देव और नारकी मिथ्यादृष्टि कर्मण काययोगी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।

मिच्छादि० सागार०-जा० सउक्कस्ससंकिलि० । पर०-उस्सा०-उज्जोव-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरी० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अरण्णद० देवस्स वा गोरइयस्स वा सागार-जा० उक्क० संकिलि० । सुहुम०-अपज्ज०-साधार० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अरण्णद० मणुसस्स वा तिरिक्खस्स वा पंचिदि० सण्णि० मिच्छादि० सागार-जा० उक्क० संकिलि० ।

६२. इत्थिवे० पंचणा०-णवदंस०-असादावे०-मिच्छत्त-सोलसक०-णवुंसग०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-हुंडसं०-वण्ण०-४-अगुरु०-४-बादर-पज्जत्त-पत्तेय०-अथिरादिपंच-णमिण-णीचागो-पंचंत० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अरण्ण० तिगदियस्स सण्णस्स मिच्छादि० सागार-जा० उक्क० संकिलि० अथवा ईसिमज्झिमपरिणा-मस्स । सादावे०-इत्थि-पुरिस०-हस्स-रदि-मणुसगदि-पंचसंठा०-ओरालि०-अंगो०-इस्संघ०-मणुसाणु०-पसत्थवि०-थिरादिउक्क-उच्चा० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अरण्ण० तिगदियस्स सण्णस्स सागार-जा० तप्पाओ० उक्क० संकिलि० ।

६३. णिरयायु० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अरण्ण० मणुसस्स वा तिरिक्ख-जोण्णियस्स वा सण्णस्स मिच्छादि० सागार-जा० तप्पाओग्गसंकिलि० उक्कस्सि-

परघात, उच्छ्वास, उद्योत, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत और उत्कृष्ट संकलेश परिणामवाला अन्यतर देव और नारकी कार्मणकाययोगी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत और उत्कृष्ट संकलेश परिणामवाला अन्यतर मनुष्य और तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय संज्ञी और मिथ्यादृष्टि कार्मणकाययोगी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।

विशेषार्थ—कार्मणकाययोगमें चारों आयु, नरकद्विक और आहारकद्विक इन ८ प्रकृतियोंके सिवा ११२ प्रकृतियोंका बन्ध होता है । शेष विशेषता मूलमें कही ही है ।

९२. स्त्रीवेदमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, अस्थिरादिक पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत उत्कृष्ट संकलेश परिणामवाला अथवा अल्प मध्यम परिणामवाला अन्यतर तीन गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि स्त्रीवेदी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, मनुष्यगति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदिक छह और उच्च गोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत और तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संकलेश परिणामवाला अन्यतर तीन गतिका संज्ञी स्त्रीवेदी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।

९३. नरकायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, तत्प्रायोग्य संकलेश परिणामवाला और उत्कृष्ट आवाधाके साथ उत्कृष्ट स्थितिबन्धमें विद्यमान अन्यतर मनुष्य और तिर्यञ्चयोनि संज्ञी मिथ्यादृष्टि स्त्रीवेदी जीव नरकायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी

याए आबाधाए उक्कस्सद्विदि० वट्ट० । एवं तिरिक्ख-मणुसायूणं । एवरि तप्पाओग्ग-
विसुद्धस्स त्ति भाण्णिदव्वं । देवायुग० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएणद० पमत्त-
संजद० तप्पाओग्गविसुद्धस्स उक्कस्सियाए आबाधाए उक्क० द्विदि० वट्ट० ।

६४. णिरयगदि-पंचिदियजादि-वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो०-णिरयाणु०-अप्प-
सत्थविहा०-तस-दुस्सर० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएणद० मणुसस्स वा तिरिक्खस्स
वा सएणस्स सागार-जा० उक्क० संकिलि० अथवा ईसिमज्झिमपरि० । तिरिक्ख-
गदि-एइदि०-ओरालि०-तिरिक्खाणु०-आदाउज्जो०-थावर० उक्क० द्विदि० कस्स० ?
अएणदरीए सोधम्मीसाणंताए देवीए भिच्छादि० सागार-जा० उक्क० संकिलि० अथवा
ईसिमज्झिमपरिणा० । देवगदिदुग-तिएणजादि०-सुहुम-अपज्जत्त-साधारण० उक्क०
द्विदि० कस्स० ? अएणदरीए मणुसिणीए वा तिरिक्खणीए वा सएणीए
भिच्छादि० तप्पाओग्गसंकिलि० । आहार०-आहार०अंगो० उक्क० द्विदि० कस्स० ?
अएण० अप्पमत्तसंजदस्स सागार-जा० उक्कस्ससंकिलि० पमत्ताभिमुहस्स । तित्थयर०
उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएणद० मणुसीए असंजदसम्मादिट्ठीए सागार-जा० उक्कस्स-
संकिलि० । [एवं चेव पुरिसवेदे । एवरि सगविसेसो जाणिय भाण्णिदव्वो ।

विशेषता है कि तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला स्त्रीवेदी जीव इन दोनों आयुओंके उत्कृष्ट
स्थितिबन्धका स्वामी है ऐसा यहाँ कहना चाहिए । देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी
कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला और उत्कृष्ट आबाधाके साथ उत्कृष्ट स्थितिबन्धमें
विद्यमान अन्यतर प्रमत्तसंयत स्त्रीवेदी जीव देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।

६५. नरकगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, नरकगति
प्रायोग्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस और दुस्वर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी
कौन है ? साकार जागृत उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला अथवा अल्प मध्यम परिणामवाला
अन्यतर मनुष्य और तीर्थञ्च संज्ञी स्त्रीवेदी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी
है । तीर्थञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तीर्थञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत और
स्थावर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत उत्कृष्ट संक्लेश परि-
णामवाली अथवा अल्प मध्यम परिणामवाली अन्यतर सौधर्म और पेशान कल्पकी देवी उक्त
प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । देवगतिद्विक, तीन जाति, सूक्ष्म, अपर्याप्त और
साधारण प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाली
अन्यतर मनुष्यिनी और तीर्थञ्चिनी संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका
स्वामी है । आहारक शरीर और आहारक आङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ?
साकार जागृत उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला और प्रमत्त संयत गुणस्थानके अभिमुख हुआ
अन्यतर अप्रमत्तसंयत स्त्रीवेदी जीव उक्त दोनों प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है
तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत और उत्कृष्ट संक्लेश
परिणामवाला अन्यतर मनुष्यिनी असंयत सम्यग्दृष्टि जीव तीर्थञ्चक प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थिति-
बन्धका स्वामी है । इसी प्रकार पुरुषवेदमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी
विशेषता जानकर कथन करना चाहिए ।

विशेषार्थ—स्त्रीवेदमें ओघके समान १२० प्रकृतियोंका बन्ध होता है । मात्र नारकियोंमें

६५. एवुंसगवेदे पंचणाणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त-सोलसक०-
एवुंसगवे०-अरदि-सोग-भय-दुगुंढा-तेजा०-कम्म०-हुंड०-वणण०४-अगुरु०४-बादर-
पज्जत्त-पत्तेय०-अथिरादिपंच-णिमिण-णीचागो०-पंचंत० उक्क० द्विदि० कस्स ?
अणण० मणुस्सस्स वा तिरिक्खस्स वा] एेरइयस्स वा पंचिंदियस्स सण्णस्स
मिच्छादि० सागार-जा० उक्क० । सादादीणं एवं चेव । णिरयगदिचदुक्कस्स उक्क०
द्विदि० कस्स० ? अणणद० मणुस्सस्स वा तिरिक्खस्स वा पंचिंदि० सण्णस्स
मिच्छादि० सागार-जा० सउक्कस्ससंकिलि० । तिरिक्खगदि-ओरालि०-
ओरालि०अंगो०-असंपत्तसेवट्ट०-तिरिक्खाणु०-उज्जोव० उक्क० द्विदि० कस्स० ?
अणणद० एेरइय० मिच्छादि० सागार-जा० उक्क०संकिलि० अथवा इसिमज्झिम-
परिणा० । देवगदि-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चदुरिंदिय०-देवाणुपु०-आदाव-थावर-
सुहुम०-अपज्ज०-साधार० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अणण० मणुस० तिरिक्ख०
पंचिंदि० सण्ण० मिच्छादि० सागार-जा० तप्पाओगसंकिलि० । सेसाणं पग-
दीणं मूलोघं ।

नपुंसकवेदका उदय नहीं होता इसलिए इनके सिवा शेष तीन गतिके जीव जहाँ जिन प्रकृ-
तियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सम्भव है, यथायोग्य स्त्रीवेदमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामी कहे
गये हैं । पुरुषवेदका उदय भी नारकियोंके नहीं होता, इसलिए इनमें भी स्त्रीवेदी जीवोंके
समान शेष तीन गतिके जीव सब प्रकृतियोंके यथायोग्य उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामी हैं ।
अन्तर इतना है कि स्त्रीवेदके स्थानमें इनमें पुरुषवेद कहना चाहिए । तथा अन्य विशेषताएँ
भी विचारकर उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करना चाहिए ।

९५. नपुंसक वेदमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व,
सोलह कषाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्ड-
संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, अस्थिर आदि पाँच,
निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? कोई
एक मनुष्य, तिर्यञ्च या नारकी जो पञ्चेन्द्रिय है, संक्षी है, मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है
और उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।
साता आदिका इसी प्रकार है । नरकगति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ?
साकार जागृत और अपने योग्य उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला अन्यतर मनुष्य और तिर्यञ्च
पञ्चेन्द्रिय संक्षी मिथ्यादृष्टि नपुंसक वेदी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।
तिर्यञ्चगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन,
तिर्यञ्चगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, और उद्योत प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ?
साकार जागृत उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला अथवा अल्प मध्यम परिणामवाला अन्यतर
नारकी मिथ्यादृष्टि नपुंसकवेदी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । देवगति,
एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आतप,
स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ?
साकार जागृत और तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला अन्यतर मनुष्य और तिर्यञ्च पञ्चे-
न्द्रिय संक्षी मिथ्यादृष्टि नपुंसकवेदी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।
तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है ।

६६. अवगदवे० पंचणा०-चदुदंस०-सादावे०-चदुसंज०-जसगिति०-उच्चागो०-पंचंत० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अण्ण० उवसमादो परिवदमाणस्स अण्णियद्विवादर-सांपराइयस्स से काले सवेदो होहिदि ति एवुंसगवेदाणुवट्टिस्स ।

६७. क्रोधादि४ मूलोघं । मदि-सुद० मूलोघं । एवरि देवायु० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अण्णद० मणुसस्स वा मणुसिणीए वा सागार-जा० तप्पाओग्गविसुद्धस्स । विभंगे मूलोघं । देवायु० मदि० भंगो ।

६८. आभि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-द्वदंस०-असादा०-वारसक०-पुरिस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं-पंचिंदिय०-तेजा०-क०-समचदु०-वण्ण०४-अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-णिभिण-उच्चागो०-पंचंतरा० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अण्णद० चदुगदियस्स असंजदसम्मादिट्टिस्स सागार-जा० उक्क० संकिलि० मिच्छत्ताभिमुहस्स चरिमे वट्टमाणयस्स । सादावे०-हस्स-रदि-थिर-

विशेषार्थ— नपुंसक वेद तीन गतियोंमें होता है मात्र देव नपुंसक नहीं होते । इसलिए यहाँ तीन गतियोंकी अपेक्षा नपुंसकवेदमें जहाँ जिन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सम्भव है उसका निर्देश किया है । नपुंसकवेदमें भी १२० प्रकृतियोंका बन्ध होता है यह स्पष्ट ही है ।

९६. अपगतवेदमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर नपुंसक वेदसे उपशम श्रेणो पर चढ़कर गिरनेवाला अनिवृत्ति वादर साम्परायिक जीव जो तदनन्तर समयमें सवेदी होगा वह अपगत वेदी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।

विशेषार्थ—अपगतवेदमें उक्त २१ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है । फिर भी वह नपुंसकवेदसे उपशम श्रेणीपर चढ़कर गिरनेवाले अनिवृत्ति जीवके सवेदी होनेके पूर्व समयमें होता है, क्योंकि नपुंसकवेदका उपशम सर्वप्रथम और उदय अन्य वेदोंकी अपेक्षा बाद में होता है, इसलिए इस वेदसे अवेदी हुए जीवके सवेदी होनेके एक समय पूर्व अन्य वेदोंसे अवेदी हुए जीवकी अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट स्थितिबन्ध सम्भव है ।

९७. क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी ओघके समान है । मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका भङ्ग मूलोघके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला अन्यतर मनुष्य और मनुष्यिनी, मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीव देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । विभङ्गज्ञानमें अपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मूलोघके समान है । देवायुका भङ्ग मत्यज्ञानियोंके समान है ।

९८. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, उत्कृष्ट संकलेश परिणामवाला मिथ्यात्वके अभिमुख अन्तिम समयमें विद्यमान अन्यतर चार

१. मूलप्रतौ कोढाकोढी मूलोघं इति पाठः ।

सुभग-जसगि० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अण्णद० चदुगदियस्स असंजदसम्मादि० सागार-जागार० तप्पाओग्गसंकिलि० सत्थाणे वट्टमाणयस्स ।

६६. देवायु० आहार०-आहार०अंगो० तित्थयरं च ओघं । मणुसायु० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अण्ण० देवस्स वा णेरइयस्स वा त्ति भाण्णिदव्वं । मणुसगदि-ओरालिय०-ओरालिय०अंगो०-वज्जरिस०-मणुसाणु० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अण्णदर० देवस्स वा णेरइगस्स वा सागार-जा० उक्क०संकिलि० मिच्छताभिमुहस्स चरिमे उक्कस्सए द्विदि० वट्टमाणयस्स । देवगदि०४ उक्क० द्विदि० कस्स० ? अण्ण० असंजदसम्मादि० तिरिक्खस्स वा मणुसस्स वा सागार-जा० उक्क०संकिलि० मिच्छत्ताभिमुहस्स ।

गतिका असंयत सम्यग्दृष्टि जीव उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, सुभग और यशःकीर्तिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो चार गतिका असंयत सम्यग्दृष्टि है, साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य संकलेश परिणामवाला है और स्वस्थानमें अवस्थित है वह उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।

९९. देवायु, आहारक शरीर, अहारक आङ्गोपाङ्ग और तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी ओघके समान है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव और नारकी मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ऐसा यहाँ कहना चाहिए । मनुष्यगति, औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन और मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव और नारकी जो साकार जागृत है, उत्कृष्ट संकलेश परिणामवाला है, मिथ्यात्वके अभिमुख है और अन्तिम उत्कृष्ट स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर असंयत सम्यग्दृष्टि, तिर्यञ्च और मनुष्य जो साकार जागृत है, उत्कृष्ट संकलेश परिणामवाला है और मिथ्यात्वके अभिमुख है वह उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।

विशेषार्थ—तीन अज्ञानोंमें आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता । इनके सिवा ११७ प्रकृतियोंका बन्ध होता है पर देवायुके सिवा इन सबका ओघ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मिथ्यादृष्टिके ही होता है इसलिए इनमें देवायुके सिवा शेष ११६ प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी ओघके समान कहा है । देवायुका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें अधिकसे अधिक स्थितिबन्ध ३१ सागर होता है सो भी वह किसी भी मिथ्यादृष्टिके नहीं होता किन्तु परम विशुद्ध परिणामवाले द्रव्यलिङ्गी साधुके होता है, इसलिए देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके सम्बन्धमें इतनी विशेषता जाननी चाहिए । आभिनिबोधिक ज्ञान आदि तीन सम्यग्ज्ञानोंमें आहारकद्विकको मिलाकर अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें बन्धको प्राप्त होनेवाली ७७ प्रकृतियोंके साथ कुल ७९ प्रकृतियोंका बन्ध होता है । सो इनमेंसे आहारकद्विकके सिवा शेष सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें जानना चाहिए । मात्र आहारकद्विकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व प्रमादके सम्मुख हुए अप्रमत्त संयत जीवके उत्कृष्ट संकलेश परिणामोंके होने पर होता है । शेष विशेषताका निर्देश मूलमें किया ही है ।

१००. मणपज्जवणाणीसु पंचणा०-द्वंदसणा०-असादा०-चदुसंज०-पुरिसवे०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-देवगदि-पंचिदि०-वेउव्विय०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि०-अंगो०-वण०४-देवाणुपु०-अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-णिमिण-उच्चागो०-पंचंत० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अण० पमत्त-संजदस्स सागार-जा० उक्क० संकिलि० उक्कस्सए द्विदिबंधे वट्टमाणस्स असंजमा-भिमुहस्स चरिमे उक्कस्सए द्विदिबं० । सादावे०-हस्स-रदि-थिर-सुभ-जसगिच्छि० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अण० पमत्तसंज० सत्थाणे सागार-जा० तप्पाओग्ग-संकिलि० ।

१०१. देवासु०-आहार०-आहार०अंगो०-तित्थयरं उक्क० द्विदि० कस्स० ? पमत्तसंजदस्स सागार-जा० उक्क० संकिलि० असंजमाभिमुहस्स चरिमे उक्कस्सए द्विदि-बंधे वट्टमाणयस्स । एवं संजमाणुवादेण संजद०-सामाइ०-छेदो० । एवरि पढमदंडओ मिच्छात्ताभिमुहस्स । परिहारस्स वि तं चेव । एवरि सव्वाओ पगदीओ उक्कस्स संकिलि० सामाइय-छेदोव०-अभिमुहस्स भाणिदव्वं ।

१००. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असाता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण-चतुष्क, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है, उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा है, असंयमके अभिमुख है और अन्तिम उत्कृष्ट स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । साता वेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ और यशःकीर्ति इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो स्वस्थानमें अवस्थित है, साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।

१०१. देवासु, आहारक शरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग और तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो प्रमत्तसंयत जीव साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है, असंयमके अभिमुख है और अन्तिम उत्कृष्ट स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार संयम मार्गणाके अनुवादसे संयत, सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि प्रथम दण्डककी कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी यह जीव मिथ्यात्वके अभिमुख होने पर होता है । परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके भी इसी प्रकार कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो परिहारविशुद्धिसंयत जीव उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला हो और सामायिक छेदोपस्थापनाके अभिमुख हो वह सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी होता है ऐसा यहाँ कहना चाहिए ।

१०२. सुहुमसंपरा० पंचणा०-चदुदं०-सादावे०-जसगि०-उच्चागो०-पंचंतरा०
उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएण० उवसाभगस्स परिवदमाणस्स से काले अणियही
होहिदि त्ति ।

१०३. संजदासंजद० पंचणा०-द्धंसणा०-असादा०-अट्टक०-पुरिस०-अरदि-
सोग-भय-दुगुं०-देवगदि-पंचिदिय०-वेउव्विय०-तेजा०-क०--समचदु०-वेउव्वि०-अंगो०-
वण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-
अजस०-णिगिण-उच्चागो०-पंचंत० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएण० तिरिक्ख०
मणुस० सागार-जा० उक्क० संकिलि० मिच्छत्ताभिमुहस्स । सादावे०-हस्स-रदि-थिर-
सुभ-जसगि० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएण० सत्थाणे तप्पाओग्गसंकिलि० । देवायु०
उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएण० तिरिक्ख० मणुस० तप्पाओग्गविसुद्ध० । तित्थय०

विशेषार्थ—मनःपर्ययज्ञानमें प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें बन्धको प्राप्त होनेवाली ६३ प्रकृतियाँ और आहारकद्विक इन ६५ प्रकृतियोंका बन्ध होता है । इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामी संबंधी विशेषताका निर्देश मूलमें किया ही है । संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके कथनमें मनःपर्ययज्ञानीके कथनसे कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि ये भी छूटे गुणस्थानसे होते हैं । मात्र मनःपर्ययज्ञानमें प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका कथन करते समय असंयमके सम्मुख होने पर ऐसा कहे और उक्त संयमोंमें मिथ्यात्वके सम्मुख होने पर ऐसा कहे । कारण स्पष्ट है । परिहारविशुद्धिसे च्युत होकर जीव सामायिक या छेदोपस्थापनाको प्राप्त होता है, इसलिए इसमें प्रथम दण्डकके स्वामीका कथन करते समय इन दोनों संयमोंके सम्मुख हुए जीवके उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिए ।

१०२. सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर उपशामक जीव जो उपशम श्रेणिसे गिर रहा है और तदनन्तर समयमें अनिवृत्तिकरण गुणस्थानको प्राप्त होगा वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।

१०३. संयतासंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय, आठ-कषाय, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य जो साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है और मिथ्यात्वके अभिमुख है वह जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ, यशःकीर्ति इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर संयतासंयत जीव जो स्वस्थानमें अवस्थित है और तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । देवायुके उत्कृष्टस्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य जो तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मनुष्य जो साकार

उक्क० द्विदि० कस्स० ? अण्ण० मणुसस्स सागार-जा० उक्क० संकिलि० असंजमा-
भिमुहस्स । असंजद० मूलोघं । एवरि देवायु० मदि० भंगो ।

१०४. चक्खु०-अचक्खु० मूलोघं । ओधिदं० ओधिणाणि भंगो ।

१०५. किरणाए एवुसगभंगो । एवरि देवायु० उक्क० द्विदि० कस्स० ?
अण्ण० मिच्छादि० सागर-जा० तप्पाओग्गविसुद्धस्स । एलील-काऊणं पंचणा०-
एवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त-सोलसक० एवं तिरिक्खगदिसंजुत्ताओ सन्वाओ उक्क०
द्विदि० कस्स० ? अण्ण० एेरइय० मिच्छादि० सागार-जा० उक्क० द्विदि० संकिलि० ।
सादादीणं पि तं चेव भंगो । एवरि तप्पाओग्गसंकिलि० । आयूणि ओघं । एवरि

जागृत है, उत्कृष्ट संकलेश परिणामवाला है और असंयमके अभिमुख है वह तीर्थकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। असंयत जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका स्वामी मूलोघके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें देवायुका भङ्ग मत्तज्ञानियोंके समान है।

विशेषार्थ—सूक्ष्म साम्परायसंयत जीवोंमें जो उपशम श्रेणिसे उतरकर सूक्ष्मसाम्पराय संयत होते हैं और उसमें भी जो अनन्तर समयमें अनिवृत्तिकरणको प्राप्त होते हैं उनके ही वहाँ बँधनेवाली प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सम्भव होनेसे ऐसे जीव ही उत्कृष्ट स्थिति-बन्धके स्वामी कहे हैं। यहाँ कुल १७ प्रकृतियोंका बन्ध होता है जिनका नाम निर्देश मूलमें किया ही है। संयतासंयत मनुष्य और तिर्यच दो गतिके जीव होते हैं। यहाँ कुल ६७ प्रकृतियोंका बन्ध होता है, इसलिए इनमेंसे तीर्थङ्कर प्रकृतिको छोड़ कर ६६ प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी उक्त दोनों गतियोंका जीव कहा है। मात्र तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध तिर्यञ्चगतिमें नहीं होता, इसलिए उसके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मनुष्यगतिका जीव कहा है। उत्कृष्ट स्वामित्वसम्बन्धी शेष विशेषताएँ मूलमें कही ही हैं।

१०४. चक्षुदर्शनी और अचक्षुदर्शनी जीवोंमें आठों कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मूलोघके समान है। अवधिदर्शनी जीवोंमें अवधिज्ञानियोंके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—चक्षुदर्शन और अचक्षुदर्शन बारहवें गुणस्थान तक होते हैं, इसलिए इनमें ओघके समान सब अर्थात् १२० प्रकृतियोंका बन्ध होता है। अवधिदर्शन चौथे गुणस्थानसे बारहवें गुणस्थानतक होता है इसलिए इसमें असंयत सम्यग्दृष्टिके बन्धको प्राप्त होनेवाली ७७ और आहारकद्विक इन ७९ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१०५. कृष्णलेश्यामें नपुंसकवेदियोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इनमें देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? अन्यतर मिथ्यादृष्टि जो साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। नीललेश्या कापोत लेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व और सोलह कषाय तथा इसी प्रकार तिर्यञ्चगति संयुक्त सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? अन्यतर नारकी जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है, उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कर रहा है और संकलेश परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। साताआदिक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी यही जीव है। इतनी विशेषता है कि तत्प्रायोग्य संकलेश परिणामवाला उक्त जीव सातादिक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। आयुकर्मकी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि देवायुके

देवायु० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएण० मिच्छादि० सम्मादि० सागार०-जा० तप्पा-
ओग्गविसुद्ध० । णिरयगदि-वेउव्विय० अंगो०-णिरयाणुपु० उक्क० द्विदि० कस्स० ?
अएण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छादि० सागार-जा० उक्क० संकिलि० । देवगदि-
[एइंदि०-बीइंदि०-तेइंदि०-चदुरिंदिय]-जादि-देवाणुपु०-आदाव-थावर-सुहुम-
अपज्ज०-साधार० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छा-
दि० सागार-जा० तप्पाओग्गसंकिलि० । 'णीलाए तित्थयर० उक्क० द्विदि० कस्स० ?
अएण० मणुसस्स तप्पाओग्गसंकिलि० । काऊए णिरयोघं ।

१०६. तेऊए पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त-सोलसक०-णवुंस०-
अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-एइंदि० याव अंतराइग त्ति तिरिक्खग-

उक्कष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टिजो साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह देवायुके उक्कष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । नरक-गति वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और नरकगत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके उक्कष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य जो मिथ्यादृष्टि है साकार जागृत है और उक्कष्ट संक्लेश-परिणामवाला है वह उक्कष्ट प्रकृतियोंके उक्कष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । देवगति, एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रियजाति, देवगत्यानुपूर्वी, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण प्रकृतियोंके उक्कष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणाम-वाला है वह उक्कष्ट प्रकृतियोंके उक्कष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । नीललेश्यामें तीर्थंकर प्रकृतिके उक्कष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मनुष्य जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणाम-वाला है वह तीर्थंकर प्रकृतिके उक्कष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । कापोत लेश्यामें तीर्थंकर प्रकृतिके उक्कष्ट स्थितिबन्धका स्वामी नारकियोंके समान है ।

विशेषार्थ—कृष्ण, नील और कापोत लेश्या चतुर्थ गुणस्थान तक होती हैं, इसलिए इनमें आहारकद्विकका बन्ध नहीं होता । शेष ११८ प्रकृतियोंका बन्ध होता है । कृष्ण लेश्यामें सब प्रकृतियोंके उक्कष्ट स्थितिबन्धका स्वामी नपुंसकवेदके समान बतलाया है सो इसका कारण यह है कि नपुंसकवेदमें भी देवगतिके सिवा तीन गतिके जीव यथायोग्य उक्कष्ट स्थितिबन्ध करते हैं और वही बात यहाँ भी है । मात्र देवायु इसका अपवाद है । कारण कि नपुंसकवेद नौवें गुणस्थान तक होता है, इसलिए उसमें देवायुका ओघ उक्कष्ट स्थितिबन्ध बन जाता है पर कृष्ण लेश्यामें देवायुका ओघ उक्कष्ट स्थितिबन्ध सम्भव नहीं है । कारण कि यह लेश्या चौथे गुणस्थानतक होती है । उसमें भी अचिरत सम्यग्दृष्टिकी अपेक्षा द्रव्यलिङ्गी साधु मिथ्यादृष्टिके देवायुका उक्कष्ट स्थितिबन्ध अधिक होता है, इसलिए कृष्ण लेश्यामें विशुद्ध परिणामवाला मिथ्यादृष्टिजीव देवायुके उक्कष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कहा है । नील और कापोत लेश्यामें सब प्रकृतियोंके उक्कष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका निर्देश मूलमें किया ही है । एक बात यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य है और वह यह कि नरकगतिमें कृष्ण लेश्याके समान नील लेश्यामें भी तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता । इसलिए इस लेश्यामें तीर्थंकर प्रकृतिके उक्कष्ट स्थितिबन्धका स्वामी सम्यग्दृष्टि मनुष्य कहा है ।

१०६. पीत लेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, आसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति और एकेन्द्रिय जातिसे

१. मूलप्रतौ णीला च तित्थ— इति पाठः ।

दिसंजुत्ताओ उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएण० सोधम्मीसाणंतदेवस्स मिच्छादि० सागार-जा० उक्क० संकिलि० अथवा ईसिमज्झिमपरिणा० । सादावे०-इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-मणुसगदि-पंचिंदिय०-पंचसंठाण-ओरालि०-अंगो०-अस्सघंड०-मणुस०-दोविहा०-तस०-थिरादिअक्क-दोसर-उच्चागोदा० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएण० देवस्स मिच्छादिदि० तप्पाओग्गसंकिलि० । तिरिक्खायु० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएण० देवस्स मिच्छादिदि० तप्पाओग्गविसुद्धस्स । मणुसायु० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएण० देव० मिच्छादि० सम्मादिदिस्स वा तप्पाओग्गविसुद्ध० । देवायु० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएण० पमत्तसंजदस्स तप्पाओग्गविसुद्ध० । देव-गदि० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएण० तिरिक्ख० मणुस०' मिच्छादि० सागार-जा० उक्क० संकिलि० । आहार०-आहार०-अंगोवंग० ओघं । तित्थक० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएण० देवस्स असंज० सागार-जा० उक्क० संकिलि० सात्थाणे वट्टमा० । पम्माए एवं चैव । एवरि याओ देवस्स ताओ सहस्सारभंगो ।

लेकर अन्तराय तक तिर्यञ्चगतिसे संयुक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर सौधर्म और पेशान कल्प तकका देव जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है, उत्कृष्ट संकलेश परिणामवाला है अथवा अल्प मध्यम परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । साता वेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, त्रसकाय, स्थिर आदिक छह, दो स्वर और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव जो मिथ्यादृष्टि है और तत्प्रायोग्य संकलेश परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्च आयुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव जो मिथ्यादृष्टि है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव जो मिथ्यादृष्टि है अथवा सम्यग्दृष्टि है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । देव-गति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मनुष्य अथवा तिर्यञ्च जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है और उत्कृष्ट संकलेश परिणामवाला है वह देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । आहारकशरीर और आहारक आङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी ओघके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका कौन है ? अन्यतर देव जो असंयत सम्यग्दृष्टि है, साकार जागृत है, उत्कृष्ट संकलेश परिणामवाला है और स्वस्थान-वर्ती है वह तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । पद्मलेश्यामें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिका स्वामी इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जिन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी देव है उनका सहस्रार कल्पके समान भङ्ग जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—पीतलेश्यामें नरकायु, नरकगतिद्विक, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इन नौ प्रकृतियोंके सिवा शेष १११ प्रकृतियोंका बन्ध होता है । इस लेश्यामें जिन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी जो जीव है उसका अलग अलग निर्देश किया ही है । मात्र तिर्यञ्चगति संयुक्त कहकर जिन प्रकृतियोंका नाम निर्देश

१०७. सुक्काए पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०--मिच्छत्त-सोलसक०-एवुंस०--
अरदि-सोग-भय-दुगुं०-मणुसग०-पंचिदियजादि-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं०-ओरा-
लि०-अंगो०-असंपत्तसेवट्ट०-वणण०४-मणुसाणु०-अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४--अथि--
रादिद्धक-णिमिण-णीचा०-पंचंत० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अणण० आणददेवस्स
मिच्छादि० सागार-जा० तप्पा०उक्क०संकिलि० । सादावे०-इत्थि०-पुरिस०-हस्स-
रदि-पंचसंठा०-पंचसंध०-पसत्थवि०-थिरादिद्धक-उच्चागो० उक्क० द्विदि कस्स० ?
अणण० तस्सेव आणददेवस्स तप्पाओग्गसंकिलि० । मणुसायु० उक्क० द्विदि०
कस्स० ? अणण० देवस्स मिच्छादि० सम्माभि० तप्पाओग्गविसुद्ध० । देवायु०
ओघं । देवगदि०४ उक्क० द्विदि० कस्स० ? अणण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छादि०
सागार-जा० उक्क० संकिलि० । आहार०-आहार०-अंगो० ओघं । तित्थयरं तेउभंगो ।

नहीं किया है वे ये हैं—तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण
शरीर, हुंडसंस्थान, छह संहनन, वर्णादि चार, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात,
उच्छ्वास, आतप, उद्योत, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भंग, अना-
देय, अयशःकीर्ति और नीचगोत्र । यहाँ मूलमें दोनों स्वर्गोंका अलगसे निर्देश किया है, इसलिये
स्थिर आदि छहमें निर्माण प्रकृतिकी परिगणना कर लेनी चाहिए । तात्पर्य यह है कि पीत-
लेश्यामें कुल १११ प्रकृतियोंका बन्ध होता है, इसलिये दूसरे आदि दण्डकोंमें जिन प्रकृतियों
का नामोल्लेख किया है उनके सिवा शेष सब प्रकृतियाँ प्रथम दण्डकमें ले लेनी चाहिए । पद्म-
लेश्यामें पूर्वोक्त १११ प्रकृतियोंमें से एकेन्द्रिजाति, आतप और स्थावर इन तीन प्रकृतियोंके
कम कर देने पर कुल १०८ प्रकृतियोंका बन्ध होता है । शेष विशेषता मूलमें कही ही है ।

१०७, शुक्ल लेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व,
सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदा-
रिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुंडसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपा-
टिका संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस-
चतुष्क, अस्थिरादिक छह निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थिति-
बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर आनतकल्पका देव जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है और
तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संकलेश परिणामवाला है वह उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी
है । सातावेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, प्रशस्त विहा-
योगति, स्थिर आदिक छह और उच्चगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ?
अन्यतर वही आनत कल्पका देव जो तत्प्रायोग्य संकलेश परिणामवाला है वह उक्क प्रकृतियों-
के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्य-
तर देव जो मिथ्यादृष्टि है या सम्यग्दृष्टि और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह मनुष्यायुके
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी ओघके समान है । देव-
गतिचतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तिर्यञ्च या मनुष्य जो मिथ्यादृष्टि
है, साकार जागृत है और उत्कृष्ट संकलेश परिणामवाला है वह देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट स्थिति-
बन्धका स्वामी है । आहारक शरीर अ र आहारक आङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी
ओघके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी पीतलेश्याके समान है ।

विशेषार्थ—शुक्ल लेश्यामें नरकायु, तिर्यञ्चायु, नरकगतिद्विक, तिर्यञ्चगतिद्विक, एके-

१०८. भवसिद्धिया० मूलोद्यं । अबभवसिद्धि० मदिय०भंगो ।

१०९. सम्मादि०-खड्ग० ओधिभंगो । एवरि खड्गो याओ मिच्छताभिमुहाओ पगदीओ असंज० सत्थाणे सागार-जा० तप्पाओग्गसंकिलि० । एवं तप्पाओग्ग-संकिलि० वेदगे ओधिभंगो । एवं उवसम० ।

११०. सासणे पंचणा०-एवदंसणा०-असादावे०-सोलसक०-इत्थिवे०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-पंचिदि०-ओरालिय०-तेजा०-क०-मणुसग०-ओरालि०-अंगो०-खीलियसंघ०-वणण०४-तिरिक्खाणु०-अगुरु०४-उज्जोव-अप्पसत्थ०-तस०४-
न्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रिन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण और नीचगोत्र इन सोलह प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता । कुल १०४ प्रकृतियोंका बन्ध होता है । शेष विशेषता मूलमें कही ही है ।

१०८. भव्य जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मूलोद्यके समान है । तथा अभव्य जीवोंमें मत्यज्ञानियोंके समान है ।

विशेषार्थ—भव्यजीवोंमें ओघप्ररूपणा और अभव्यजीवोंमें मत्यज्ञानियोंकी प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है, इसलिए इन मार्गणाओंमें अपनी अपनी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका स्वामी क्रमसे ओघ और मत्यज्ञानियोंके समान कहा है ।

१०९. सम्यग्दृष्टि और ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी अबधिज्ञानियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि जो अबधिज्ञानी जिन प्रकृतियोंके मिथ्यात्वके अभिमुख होनेपर उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी होता है ज्ञायिकसम्यक्त्वमें उन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी साकारजागृत और तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला स्वस्थानवर्ती असंयत सम्यग्दृष्टि जीव होता है । इसी प्रकार वेदकसम्यक्त्वमें अबधिज्ञानियोंके समान तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला जीव अपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थिति बन्धका स्वामी होता है । तथा इसी प्रकार उपशम सम्यक्त्वमें अपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—पहले अबधिज्ञानी जीवोंके ७९ प्रकृतियोंका बन्ध होता है यह बतला आये हैं । उन्हींका बन्ध सम्यग्दृष्टि और ज्ञायिकसम्यग्दृष्टिके होता है । तथा और सब विशेषताएँ भी एक समान हैं, इसलिए इन दोनों मार्गणाओंमें उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी अबधिज्ञानी जीवोंके समान कहा है । मात्र ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि मिथ्यात्वको प्राप्त नहीं होता, इसलिए अबधिज्ञानमें जिन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व मिथ्यात्वके सन्मुख हुए जीवको प्राप्त होता है उनका स्वामित्व ज्ञायिकसम्यक्त्वमें स्वस्थानवर्ती जीवके कहा है । वेदकसम्यग्दृष्टि और अबधिज्ञानीके कथनमें भी कोई अन्तर नहीं है, इसलिए वेदक-सम्यग्दृष्टि जीवोंमें भी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व अबधिज्ञानी जीवोंके समान कहा है । उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंका और सब कथन तो इसी प्रकार है । मात्र इसके मनुष्यायु और देवायुका बन्ध नहीं होता, इसलिए इसके बन्धयोग्य प्रकृतियाँ ७९ के स्थानमें ७७ कहनी चाहिए ।

११०. सासादन सम्यक्त्वमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, सोलह कषाय, स्त्रीवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, मनुष्यगति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, कीलितसंहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चानुपूर्वी, अगुरुलक्षचतुष्क, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, असचतुष्क, अस्थिर आदिक

अथिरादिउक्क-णिमिण-णीचागो०-पंचंत० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएण० चदुग-
दियस्स सागार-जा० उक्क० संकिलि० मिच्छत्ताभिमुहस्स । सादावे०-पुरिस०-हस्स-
रदि-मणुसगदि-चदुसंठा०-चदुसंघ०-मणुसाणु०-पसत्थवि०-थिरादिउक्क-उच्चागो०
उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएण० चदुगदियस्स तप्पाओग्गसंकिलि० । तिरिक्ख-मणु-
सायुग० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएण० तिरिक्ख० मणुसस्स० तप्पाओग्ग-
विसुद्ध० । देवायु० उक्क० द्विदि० कस्स ? मणुसस्स तप्पाओग्गविसुद्ध० । देवगदि०४
उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएण० मणुस० तिरिक्ख० सागार-जा० तप्पा-
ओग्गसंकिलि० ।

१११. सम्मामिच्छादि० पंचणा०-व्वदंसणा०-असादावे०-बारसक०-पुरिस०-
अरदि-सोग-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वएण०४-अगुरु०-४-पसत्थवि०-
तस०४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज०-अजस०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० उक्क०
द्विदि० कस्स० ? अएण० चदुगदियस्स सागार-जा० उक्कस्ससंकिलि० मिच्छत्ताभि-
मुहस्स । सादावे०-हस्स-रदि-थिर-सुभ-जसगि० उक्क० द्विदि० कस्स ? अएण० चदु-

छह, निर्माण, नीच गोत्र और पांच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर चारगतिका जीव जो साकारजागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है और मिथ्यात्वके अभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, मनुष्यगति, चार संस्थान, चार संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहा-योगति, स्थिर आदिक छह और उच्चगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर चार गतिका जीव जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य जो तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त दो आयुओंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मनुष्य जो तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । देव-गति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मनुष्य और तिर्यञ्च जो साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका स्वामी है ।

विशेषार्थ—सासादनगुणस्थानमें जिन १६ प्रकृतियोंकी मिथ्यात्वमें बन्धन्युच्छित्ति होती है उनका तथा तीर्थंकर और आहारकद्विकका कुल १९ प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता । शेष १०१ प्रकृतियोंका बन्ध होता है । इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामी सम्बन्धी विशेषता मूलमें कही ही है ।

१११. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर चार गतिका जीव जो साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है और मिथ्यात्वके अभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ और

गदिय० सत्थाणे वट्टमाणयस्स सागार-जा० तप्पाओग्गसंकिलि० । देवगदि०४ उक्क०
द्विदि० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सागार-जा० उक्क० संकिलि० मिच्छात्ताभि-
मुह० । मणुसगदिपंच० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अण्ण० देवस्स वा एेरइगस्स वा
सागार-जा० उक्क० संकिलि० मिच्छत्ताभिमुह० । मिच्छादिट्ठी० मदिय० भंगो ।
सण्ण० मणजोगिभंगो ।

११२. असण्णीसु पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त-सोलसक०-
एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-एिरयगदि-पंचिदि०-वेउव्विय०-तेजा०-क०-हुंड-
संठा०-वेउव्विय०-अंगो०-वण्ण०४-एिरयाणु०-अगुरु०४-पसत्थ०-तस०४-अथिरादि-
उक्क-एिमि०-एीचा०-पंचंत० उक्क० द्विदि० कस्स ? अण्ण० पंचिदि० सागार-जा०
उक्क० संकिलि० । सेसाणं तप्पाओग्गसंकिलि० । एवरि तिण्ण आयु० तप्पा०

यशःकीर्ति इन प्राकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर चार गतिका
जीव जो स्वस्थानमें अवस्थित है, साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला
है वह उक्त प्राकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थिति-
बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य जो साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश
परिणामवाला है और मिथ्यात्वके अभिमुख है वह देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका
स्वामी है । मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव और
नारकी जो साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है और मिथ्यात्वके अभिमुख
है वह मनुष्यगति आदि पांचके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । मिथ्यादृष्टि जीवोंमें अपनी
सब प्राकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मत्यञ्चानियोंके समान है ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्वमें १६ और सासादनमें २५ की बन्धव्युच्छित्ति होती है । ये ४१
प्राकृतियाँ होती हैं । इनमें मनुष्यायु, देवायु, आहारकद्विक और तीर्थकर प्राकृतिके मिलानेपर
कुल ४६ प्राकृतियाँ होती हैं । सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें इनका बन्ध नहीं होता । शेष
७४ प्राकृतियोंका होता है । इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान
में किस विशेषताके होनेपर होता है यह मूलमें कहा ही है । देवगति चतुष्कका बन्ध देव
और नारकी नहीं करते, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी तिर्यञ्च और मनुष्य
कहा है । तथा मनुष्यगति पञ्चकका बन्ध मिश्रमें तिर्यञ्च और मनुष्य नहीं करते, इसलिए
इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी नारकी और देव कहा है । शेष प्राकृतियोंका बन्ध सब
गतियोंमें होता है, इसलिए उनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामी चारों गतिके जीव कहे हैं ।

११२. असंज्ञी जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व,
सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नरकगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रि-
यिक शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुंड संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, नरक-
गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, प्रस चतुष्क, अस्थिर आदि लूह, निर्माण,
नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इन प्राकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्य-
तर पञ्चेन्द्रिय जीव जो साकार जागृत है और उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है वह उक्त
प्राकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । तथा शेष प्राकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका
स्वामी तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला असंज्ञी जीव है । इतनी विशेषता है कि तीन
आयुओंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला जीव है । आहारक

विसुद्धस्स । आहार० मूलोघं । अणाहार० कम्मङ्गभंगो । एवं उक्कस्ससामित्तं समत्तं ।

११३. जहणएणं पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादावे०-जसगि०-उच्चागो०-पंचंत० जहणओ ढिदिबंधो कस्स होदि ? अणएणदरस्स खवगस्स सुहुमसांपराङ्गस्स चरिमे जहणए ढिदिबंधे वट्टमाणयस्स । पंचदंसणा०-मिच्छत्त-वारसक०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०-पंचिदि०-ओरालिय०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरिसभ०-वण०४-अगुह०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिपंच-णिमि० जह० ढिदि० कस्स० ? अण० बादरएइंदियस्स सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तगदस्स सागार-जा० सुदोवजोगजुत्तस्स सव्वविसुद्धस्स जहण० ढिदिबंधं० वट्ट० । असादा०-इत्थिवे०-एवुंस०-अरदि-सोग-चदुजादि-पंचसंठा०-पंचसंध०-आदाव-अप्पसत्थवि०-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साधार०-अथिरादिक्क० जह० ढिदि० कस्स० ? अण०

जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मूलोघके समान है और अनाहारक जीवोंमें अपनी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कर्मण काययोगियोंके समान है ।

विशेषार्थ—असंखी जीवोंके आहारिक द्विक और तीर्थङ्करके बिना ११७ प्रकृतियोंका बन्ध होता है । आहारक मार्गणामें सब अर्थात् १२० प्रकृतियोंका बन्ध होता है और अनाहारक मार्गणामें कर्मणकाययोगके समान ११२ प्रकृतियोंका बन्ध होता है । शेष कथन स्पष्ट ही है । यहां असंखियोंमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेक्षा पंचेन्द्रियोंकी मुख्यता होनेसे उन्हें उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कहा है । तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु और देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशुद्ध परिणामोंसे होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी विशुद्ध परिणामवाला जीव कहा है । यहां इतना विशेष जानना चाहिए कि तिर्यञ्चायु और मनुष्यायु का एक पूर्वकोटि प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एकेन्द्रियादि जीवोंके भी होता है, इसलिए असंखियोंमें इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कहते समय पञ्चेन्द्रिय यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ ।

११३. जघन्य स्वामित्वका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघकी अपेक्षा पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेदनोय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर क्षपक जो सूक्ष्मसाम्परायसंयत है और अन्तिम जघन्य स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि पाँच और निर्माण इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर बादर एकेन्द्रिय जो सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत श्रुतोपयोगसे उपयुक्त है और सर्व विशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । असाता वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, आतप, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण और

बादरएइंदिय० सव्वाहि पज्जत्तीहि सागार-जा० तप्पाओग्गविसुद्ध० जह० द्विदि०
 वट्टमा० । चदुसंज०-पुरिस० जह० द्विदि० कस्स ? अरण० खवगस्स अणियट्ठि-
 बादरसंप० अप्पणो चरिमे जह० द्विदि० वट्ट० । गिरयायु० जह० द्विदि०
 कस्स ? अरण० पंचिंदिय० सण्ण० असण्ण० सागार-जा० तप्पाओग्गविसुद्ध०
 जहणियाए आबाधाए जहण० द्विदि० वट्टमा० । तिरिक्खायु० जह० द्विदि०
 कस्स ? अरण० एइंदि० बीइंदि० तीइंदि० चदुरिंदि० पंचिदि० सण्ण० असण्ण०
 बादर० सुहुम० पज्जत्तापज्जत्त० सागार-जा० तप्पाओग्गसंकिलि० जह० आबाधाए
 जह० द्विदि० वट्टमा० । एवं मणुसायु० । देवायु० जह० द्विदि० कस्स ? अरण०
 पंचिदि० सण्ण० असण्ण० सागार-जा० तप्पाओग्गसंकिलि० जह० आबा०
 जह० द्विदि० वट्टमा० ।

११४. गिरयग०-गिरयाणु० जह० द्विदि० कस्स ? अरण० असण्णस्स
 सागार-जा० तप्पाओग्गविसुद्ध० । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-णीचा० जह०
 द्विदि० कस्स ? अरण० बादर० तेउ० वाउ० पज्जत्तस्स सागार-जा० सव्वविसु० ।
 मणुसग०-मणुसाणु० जह० द्विदि० कस्स ? अरण० बादरपुढवि० आउ० बादर-

अस्थिर आदि ल्ह प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर बादर एके-
 न्द्रिय जो सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणाम-
 वाला है वह उरु प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । चार संज्वलन और पुरुषवेद-
 के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर अन्निवृत्ति क्षपक जो अपने-अपने
 अन्तिम जघन्य स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह उरु प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है ।
 नरकायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी और
 असंज्ञी जो साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है और जघन्य आबाधाके
 साथ जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह नरकायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है ।
 तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय,
 चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय संज्ञी या असंज्ञी, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त या अपर्याप्त जो साकार
 जागृत है, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है और जघन्य आबाधाके साथ जघन्य स्थिति-
 बन्ध कर रहा है वह तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार उरु जीव
 मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ?
 अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी या असंज्ञी जो साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला
 है और जघन्य आबाधाके साथ जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह देवायुके जघन्य स्थिति-
 बन्धका स्वामी है ।

११४. नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर
 असंज्ञी जो साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उरु दो प्रकृतियों
 के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीच गोत्र
 प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर बादर अग्निकायिक पर्याप्त और
 बादर वायुकायिक पर्याप्त जो साकार जागृत है और सर्वविशुद्ध है वह उरु प्रकृतियोंके
 जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके जघन्य

वण्णदि० पज्जत्त० सागार-जा० सव्वविसुद्ध० जह० द्विदि० वट्टमा० । देवगदि०४
जह० द्विदि० कस्स० ? अण्ण० असण्णि० सागार-जा० सव्वविसुद्ध० जह०
द्विदि० वट्टमा० । आहार०-आहर०अंगो०-तित्थय० जह० द्विदि० कस्स० ?
अण्णद० अपुव्वकरणखवगस्स परभवियणामाणं चरिमे जह०द्विदिबंधे वट्टमाण्यस्स ।

स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त और बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त जो साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है और जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह मनुष्यद्विकके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । देवगति चतुष्क के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर असंक्षी जो साकार जागृत है, सर्व-विशुद्ध है और जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । आहारक शरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग और तीर्थकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर अपूर्वकरण क्षपक जो परभवसम्बन्धी नामकर्मकी प्रकृतियोंके अन्तिम जघन्य स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है ।

विशेषार्थ—यहाँ ओघसे किन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है यह बतलाया गया है । बन्ध योग्य कुल प्रकृतियाँ १२० हैं । उनमेंसे पांच ज्ञानावरण आदि १७ ऐसी प्रकृतियाँ हैं जिनका बन्ध क्षपक सूक्ष्मसाम्परायतक होता है इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी अन्तिम स्थितिबन्धमें अवस्थित उक्त जीवको कहा है । चार संज्वलन और पुरुषवेदका स्थितिबन्ध क्षपक अनिवृत्तिकरणके अपने अपने विवक्षित भाग तक होता है इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी उक्त जीवको कहा है । आहारकद्विक और तीर्थकर प्रकृतिका स्थितिबन्ध क्षपक अपूर्वकरणके अमुक भागतक होता है इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी उक्त जीवको कहा है । इस प्रकार ये सब मिलाकर २५ प्रकृतियाँ हुईं । अब शेष रहीं चार आयुके बिना ९१ प्रकृतियाँ सो इनमेंसे देवगति और नरकगति सम्बन्धी जो प्रकृतियाँ हैं उनका बन्ध एकेन्द्रिय और विकलत्रयके नहीं होता इसलिए उनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी असंक्षी जीवको कहा है । ऐसी प्रकृतियाँ कुल ६ हैं । वे ये हैं—नरकद्विक, देवद्विक और बैक्रियिकद्विक । अब शेष रहीं ८५ प्रकृतियाँ सो यद्यपि इनका जघन्य स्थितिबन्ध बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवके होता है पर एकेन्द्रियके अनेक भेद होनेसे एकेन्द्रियोंमें भी कौन-सा बादर पर्याप्त जीव किन प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध करता है इसका स्वतन्त्र रूपसे विचार किया है । उदाहरणार्थ—अग्निकायिक और वायुकायिक जीव मरकर नियमसे तिर्यञ्च ही होते हैं, इसलिए तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत और आतपका जघन्य स्थितिबन्ध बादर अग्निकायिक पर्याप्त और बादर वायुकायिक पर्याप्त जीव ही करते हैं । तथा मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका बन्ध अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके न होनेके कारण इनका जघन्य स्थितिबन्ध बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त और बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीव करते हैं । यही कारण है कि इन तिर्यञ्चगति आदि चार और मनुष्यगति आदि दो प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी पृथक्-पृथक् उक्त जीवोंको कहा है । यद्यपि अग्निकायिक और वायुकायिक जीव उच्चगोत्रका भी बन्ध नहीं करते पर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध एकेन्द्रियके न होकर क्षपक श्रेणिमें होता है इसलिए उसे यहाँ नहीं गिनकर जिन प्रकृतियोंका क्षपक सूक्ष्म साम्परायमें जघन्य स्थितिबन्ध होता है

११५. आदेसेण णेरइणसु पंचणा०-णवदंसणा०-सादावे०-मिच्छत्त-सोलसक०-
पुरिसवे०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०-मणुसग०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-
ओरालि०-अंगो०-वज्जरिसभ०-वण०-४-मणुसाणु०-अगुरु०-४-पसत्थ०-तस०-४-थिरा-
दिक्क-णिमि०-णीचागो०-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स ? अणण० असणिणपच्छागदस्स^१
पढम-विदियसमये णेरइगस्स सागार-जा० सव्वविसुद्ध० जह० द्विदि० वट्ट० ।
दोआयु० जह० द्विदि० कस्स० ? अणण० मिच्छादि० तप्पाओग्गसंकिलि० जह०
आबा० जह० द्विदि० वट्ट० । तित्थय० जह० द्विदि० कस्स० ? अणण०
असंजदसम्मादि० सागार-जा० सव्वविसु० । सेसाणं असणिणपच्छागदस्स पढम-
विदियसमए णेरइगस्स सागार-जा० तप्पाओग्गविसु० । एवं पढमाए ।

वहाँ गिन आये हैं । अब रही शेष ७९ प्रकृतियाँ सो इनका बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त किसी भी जीवके उनके जघन्य स्थितिबन्धके योग्य परिणाम होनेपर जघन्य स्थितिबन्ध हो सकता है इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवको कहा है । चार आयुओंमें मनुष्यायु और तिर्यञ्चायुका जघन्य स्थितिबन्ध सब प्रकारके तिर्यञ्च और मनुष्योंके हो सकता है । यही कारण है कि इन दो आयुओंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी उक्त दो गतिका अन्यतर जीव कहा गया है । मात्र देवायु और नरकायुका जघन्य स्थितिबन्ध पञ्चेन्द्रियसे नीचे किसी भी जीवके नहीं होता । इसलिए इन दो आयुओंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी संक्षी या असंक्षी अन्यतर जीव कहा है । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि मूलमें जो योग्यताएँ कहीं हैं उनके साथ ही ये सब जीव उक्त सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धके स्वामी होते हैं ।

११५. आदेशसे नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, वर्ण चतुष्क, मनुष्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर असंक्षी पर्यायसे आया हुआ नारकी जो प्रथम और द्वितीय समयमें स्थित है, साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है और जघन्य स्थितिका बन्ध कर रहा है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । दो आयुओंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि नारकी जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है और जघन्य आबाधाके साथ जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह दो आयुओंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर असंयत सम्यग्दृष्टि नारकी जो साकार जागृत है और सबसे विशुद्ध परिणामवाला है वह तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । तथा शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी असंक्षीचर, प्रथम और द्वितीय समयमें स्थित, साकार जागृत और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला नारकी जीव है । इसी प्रकार पहली पृथिवीमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—प्रथम नरकमें असंक्षी जीव मरकर उत्पन्न होता है और इसके उत्पन्न

१. मूलप्रतौ-पञ्चागदस्स इति पाठः ।

११६. विदियाए पंचणा०-द्वंदसणा०-सादावे०-बारसक०-पुरिस०-हस्स-रदि-
भय-दुगु०-मणुसग०-पंचिदि०-ओरालिय०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०अंगो०-
वज्जरिस०-वण०४-मणुसाणु०-अगुरु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिद्वक०-णिमि०-
उच्चागो०-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स ? अण० असंजद०सम्मा० सागार-जा०
सव्वविसुद्ध० जह० द्विदि० वट्ट० । एवं तित्थयरस्स वि । थीणगिद्धितिय-
मिच्छत्त-अणंताणुबंधि०४ जह० द्विदि० कस्स ? अण० मिच्छादि० सागार-जा०
सव्वविसु० सम्मत्ताभिमु० चरिमे जह० द्विदि० वट्ट० । असादा०-अरदि-सोग-
अथिर-असुभ-अजस० जह० द्विदि० कस्स ? अण० असंजदसम्मादिद्वि०
सागार-जा० तप्पाओग्गविसु० ! इत्थि०-एवुंस-तिरिक्खग०-पंचसंठा०-पंचसंध०-
तिरिक्खाणु०-उज्जो०-अप्पसत्थवि०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० जह० द्विदि०
कस्स ? अण० मिच्छादि० सागार-जा० तप्पाओग्गविसु० जह० द्विदि० वट्टमा० ।
दोआयु० णिरयोधं । एवं छसु पुढवीसु । एवरि सत्तमाए थीणगिद्धि०३-मिच्छत्त-
अणंताणुबंधि०४-तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-णीचा० जह० द्विदि० कस्स ?

होनेके प्रथम और द्वितीय समयमें असंज्ञीके योग्य स्थितिबन्ध होता है। इसीसे यहाँ तीर्थ-
ङ्कर और दो आयुओंको छोड़कर शेष सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी परि-
णामोंकी अपनी अपनी विशेषताके साथ उक्त जीवको कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

११६. दूसरी पृथिवीमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, बारह कषाय,
पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस-
शरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, वर्ण-
चतुष्क, मनुष्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह,
निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन
है ? अन्यतर असंयत सम्यग्दृष्टि नारकी जो साकार जागृत है और सबसे विशुद्ध है वह
उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य
स्थितिबन्धका स्वामी जानना चाहिए। स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी
चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि जो साकार जागृत है,
सर्व विशुद्ध है, सम्यक्त्वके अभिमुख है और अन्तिम जघन्य स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह
उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। असाता वेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर
अशुभ और अयशःकीर्तिप्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर असंयत-
सम्यग्दृष्टि जो साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, पाँच संस्थान, पाँच
संहनन, तिर्यञ्चानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुस्वर, अनादेय और नीच-
गोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि जो साकार
जागृत है, तत्प्रायोग्य विशुद्ध है और जघन्य स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। दो आयुओंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी सामान्य नार-
कियोंके समान है। इसी प्रकार छहों पृथिवियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि
सातवीं पृथिवीमें स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धिचतुष्क, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चा-
नुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्रके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि

११८. पंचिदियतिरिक्ख०३ पंचणा०-णवदंसणा०-सादावे०-मिच्छत्त-सोलस-
क०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगु'०-देवगदि-पंचिदि०-वेउच्चि०-तेजा०-क०-
समचदु०-वेउच्चिय०-अंगो०-वणण०४-देवाणुपु०-अगुरु०४-पसत्थवि० तस०-थिरादि-
द्वक्क-णिमिण-उच्चा०-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स० ? अणण० असणिण० सागार-जा०
सन्वविसु० जह० द्विदि० वट्टमा० । णिरय-देवायु० ओघं । तिरिक्ख-मणुसायु०
जह० द्विदि० कस्स० ? अणण० सणिण० असणिण० पज्जत्तापज्जत्त० तप्पाओग्ग-
संकिलि० जह०' [आबा०] । सेसाणं सो चेव सामीओ सागार-जा० तप्पाओग्ग-
विसु० जह० द्विदि० वट्ट० ।

११९. पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तेसु पंचणा०-णवदंस०-सादावे०-मिच्छत्त-सोल-

विशेषार्थ—पहले ओघसे सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धके स्वामीका निर्देश कर
आये हैं। वहां जिन प्रकृतियोंका क्षपक सूक्ष्मसाम्परायमें, क्षपक अनिवृत्तिकरणमें और क्षपक
अपूर्वकरणमें जघन्य स्वामित्व कहा है उनका यहां बादर एकेन्द्रियपर्याप्त जीवोंके जघन्य
स्वामित्व कहना चाहिए। मात्र उच्चगोत्रका बन्ध अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके
नहीं होता, इसलिए इसके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके न
कह कर मनुष्यगतिके जघन्य स्थितिबन्धके स्वामित्वके समान इसका स्वामी बादर पृथिवी-
कायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त और बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीव होता
है इतना विशेष कहना चाहिए। तिर्यञ्चगतिमें आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका
बन्ध नहीं होता यह स्पष्ट ही है।

११८. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चिकमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सोतावेदनीय,
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति,
वैक्रियिक शरीर, तैजसशरीर, कर्मण शरीर, समचचुरस्र संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण-
चतुष्क, देवानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसकाय, स्थिर आदि छह,
निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ?
अन्यतर असंज्ञी जो साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है और जघन्य स्थितिबन्धमें अवस्थित
है वह उरु प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। नरकायु और देवायुके जघन्य
स्थितिबन्धका स्वामी ओघके समान है। तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य स्थिति-
बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर संज्ञी या असंज्ञी पर्याप्त और अपर्याप्त जो तत्प्रायोग्य
संकलेश परिणामवाला है और जघन्य आबाधाके साथ जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह
उरु दो आयुओंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। तथा शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्ध
का साकार जागृत तत्प्रायोग्य विशुद्ध और जघन्य स्थितिबन्धमें अवस्थित वही जीव स्वामी है।

विशेषार्थ—यहां चार आयुओंके सिवा शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व
असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यञ्चोकी मुख्यतासे कहा है। कारण कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चिक
में इन्हींके सबसे जघन्य स्थितिबन्ध सम्भव है। किन्तु चार आयुओंके जघन्य स्थितिबन्धके
लिए यह नियम नहीं है। इतनी अवश्य है कि नरकायु और देवायुका बन्ध पर्याप्तके
ही होता है और शेष दो आयुओंका बन्ध सबके होता है।

११९. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता-

सक०-पुरिसवे०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०-मणुसगदि-पंचिदिय०-ओरालिय०-तेजा०-क०-
 समचदु०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरिसभ०-वएण०४-मणुसाणु०-अगुरु०४-पसत्थवि०-
 तस०४-थिरादिद्वक-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स० ? अरण०
 असणिए० सागार-जा० सव्वविसु० जह० द्विदि० वट्ट० । असादा०-इत्थिवे०-
 णवुंस०-अरदि-सोग-तिरिक्खगदि-चदुजादि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-आदा-
 उज्जो०-अप्पसत्थ०-थावरादि०४-अथिरादिद्वक-णीचा० जह० द्विदि० कस्स० ?
 [अरण०]असणिएस्स सागार-जा०तप्पाओगगविसु०जह० द्विदि० वट्ट० । दोआयु०जह०
 द्विदि० कस्स ? अरण० सणिए० असणिए० सागार-जा० तप्पाओगगसंक्लि०
 जह० आवा० जह० द्विदि० वट्ट० ।

१२०. मणुसेसु खवगपगदीणं मूलोर्घं । पंचदंस०-मिच्छत्त-बारसक०-हस्स-
 रदि-भय-दुगुं०-मणुसग०-पंचिदि०-ओरालिय०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०

वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर असंक्षी जो साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है और जघन्य स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह उरु प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । असातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसक वेद, अरति, शोक, तिर्यञ्चगति, चार जाति, पांच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि ४, अस्थिर आदि छह और नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर असंक्षी जो साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य विशुद्ध है और जघन्य स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह उरु प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । दो आयुओंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर संक्षी या असंक्षी जो साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य संक्लिष्ट है और जघन्य आबाधाके साथ जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह दो आयुओंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त दो प्रकारके होते हैं—संक्षी और असंक्षी । संक्षियोंसे असंक्षियोंके संख्यातगुणा हीन बन्ध होता है इसलिए यहां इन्हींकी मुख्यतासे यहां बँधनेवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व कहा गया है । मात्र मनुष्यायु और तिर्यञ्चायुका जघन्य स्थितिबन्ध उरु दोनोंमेंसे किसीके भी हो सकता है, इसलिए इन दोनों आयुओंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी उरु दोनोंमेंसे कोई भी जीव कहा गया है ।

१२०. मनुष्योंमें क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मूलोर्घके समान है । पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान,

अंगो०-वज्जरिसभ०-वण०४-मणुसाणु०-अगुरु०४--पसत्थ०--तस०४--थिरादिपंच०--
णिमि० जह० द्विदि० कस्स० ? अण० असणिणपच्छागदस्स पढसमय-विदिय-
समयमणुसस्स सागारं-जा० सच्चविसुद्ध० । असादा०-इत्थि०-एवुंस०-अरदि-सोग-
तिरिक्खगदि-चदुजादि० [पंससंठा०-पंचसंध०-तिरिक्खाणु०-आदाउज्जोव-अप्पसत्थ०-
थावरादि०४-अथिरादि०६-णीचा० जह० द्विदिवं० कस्स ? अण० असणिणपच्छा-
गदस्स पढसमय-विदियसमयमणुसस्स सागार-जागार०] तप्पाओग्गविसुद्ध० ।
[णिरयाउ० जह० द्विदि० कस्स ? अणदर० तप्पाओग्गविसुद्धस्स ।] तिरिक्ख-
मणुसायु० जह० द्विदि० कस्स० ? अणद० पज्जत्तापज्जत्ता० सागार-जा० तप्पा-
ओग्गसंकिलि० । देवायु० जह० द्विदि० कस्स० ? अण० तप्पाओग्ग०संकिलि० ।
णिरयगदि-णिरयाणुपु० जह० द्विदि० कस्स० ? अण० मिच्छादि० सागार-जा०
तप्पाओग्गविसुद्ध० । देवगदि-वेउच्चि०-आहार०-[वेउच्चिय०अंगो०-आहार०]-अंगो०-
देवाणुपु०-तित्थयर० जह० द्विदि० कस्स० ? अण० अपुव्व० खवग० परभविय-
णामाणं बंधचरिमे वट्टमा० । एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु । एवारि मणुसिणीसु

औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्जर्षभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यानुपूर्वी, अगुरुलक्षुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि पाँच और निर्माण इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो असंज्ञी मरकर मनुष्यगतिमें उत्पन्न हुआ है ऐसा प्रथम और द्वितीय समयवर्ती मनुष्य जो साकार जागृत है और सर्व विशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । असातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, तिर्यञ्चगति चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि छह और नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो असंज्ञी मरकर मनुष्य हुआ है ऐसा प्रथम और द्वितीय समयवर्ती मनुष्य जो साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । नरकायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला मनुष्य नरकायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर पर्याप्त और अपर्याप्त मनुष्य जो साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह उक्त दोनों आयुओंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला मनुष्य देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि जो साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । देवगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, आहारक शरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर अपूर्वकरण क्षपक जो परभव सम्बन्धी नामकर्मकी बँधनेवाली प्रकृतियोंके बन्धके अन्तिम समयमें अवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनी जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यिनियोंमें तीर्थकर प्रकृतिके जघन्य

तित्थयर० जह० द्विदि० कस्स० ? अणण० अपुण्व० उवसम० परभवियणामाणं
बन्धचरिमे वट्ट० । मणुसअपज्जत्तगे पढमपुढविभंगो ।

१२१. देवगदीए देवेसु णिरयोघं । एवरि एइंदिय-आदाव-थावर० असाद
भंगो । एवं भवण०-वाणवेत० । एवरि तित्थयरं णत्थि । जोदिसिय-सोधम्मीसाण०
विदियपुढविभंगो । एवरि एइंदिय-आदाव-थावर० इत्थिवेदभंगो । जोदिसिय० तित्थ-
यरं णत्थि । सणक्कुमार याव सहस्सार त्ति विदियपुढविभंगो । आणद० एवगेवज्जा
त्ति तं चेव । एवरि तिरिक्खायु० तिरिक्खगदितियं च णत्थि । अणुदिस याव सव्वट्टा
त्ति पंचणा०-छदंसणा०-सादावे०-बारसक०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०-मणुसगदी०
एवं चेव पसत्थादिणामपगदीओ उच्चा०-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स० ? अणण०

स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर अपूर्वकरण उपशामक जो परभवसम्बन्धी नाम-
कर्मकी प्रकृतियोंके बन्धके अन्तिम समयमें अवस्थित है वह स्वामी है । मनुष्य अपर्याप्तक
जीवोंमें अपनी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी पहिली पृथिवीके समान है ।

विशेषार्थ—जिन २२ प्रकृतियोंका नौवें और दसवें गुणस्थानमें बन्ध होता है वे यहाँ
क्षपक प्रकृतियाँ कही गई हैं । वे ये हैं—पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेदनीय,
चार संज्ञवलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय । यतः क्षपक श्रेणिकी
प्राप्ति मनुष्यगतिमें ही होती है, अतः मनुष्योंमें इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व
ओघके समान कहा है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धके स्वामीका निर्देश अलग अलग किया
ही है । यहाँ मनुष्यिनियोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी उपशामक अपूर्व-
करण जीव कहा है । इसका कारण यह है कि जो तीर्थङ्कर होता है उसके जन्मसे पुरुषवेदका
ही उदय होता है ऐसा नियम है । अतएव जो तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध कर रहा है और स्त्री-
वेदका उदय है उसका उपशम श्रेणि पर आरोहण करना बन जाता है और इसी अपेक्षासे
मनुष्यिनी अपूर्णकरण उपशामकको तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कहा है ।

१२१. देवगतिमें देवोंमें अपनी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी नारकियोंके
समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें एकेन्द्रिय आतप और स्थावर प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-
बन्धका स्वामी असाता प्रकृतिके बन्धके स्वामीके समान है । इसी प्रकार भवनवासी और व्यन्तर
देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके तीर्थङ्कर प्रकृति नहीं है । ज्योतिषी
और सौधर्म-पेशान कल्पके देवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी
दूसरी पृथिवीके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें एकेन्द्रिय, आतप और स्थावर
प्रकृतियोंके बन्धका स्वामी स्त्रीवेदके बन्धके स्वामीके समान है । तथा ज्योतिषीदेवोंमें तीर्थंकर
प्रकृति नहीं है । सानत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्वार कल्प तकके देवोंमें अपनी सब प्रकृतियों
के जघन्य स्थिति बन्धका स्वामी दूसरी पृथिवीके समान है । आनत कल्पसे लेकर नौ त्रैवेयक
तक बही जीव स्वामी है । इतनी विशेषता है कि इनके तिर्यञ्च आयु और तिर्यञ्चगतित्रिकका
बन्ध नहीं होता । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्श-
नावरण, साता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति और
इसी प्रकार नामकर्मकी प्रशस्त आदि प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनके जघन्य
स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतरदेव जो साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध
परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । असाता वेदनीय,

सागार-जा० तप्पाओग्गविसुद्ध० । असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० जह०
द्विदि० कस्स० ? अएण० सागार-जा० तप्पाओग्गविसु० । मणुसायु० जह० द्विदि०
कस्स० ? अएण० सागार-जा० तप्पाओग्गसंकिलि० ।

१२२. एइंदिएसु पंचणा०-एवदंसणा०-सादावे०-मिच्छत्त-सोलसक०-पुरिसवे०-
हस्स-रदि-भय-दुगुं०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०-अंगो०-
वज्जरिसभ०-वएण०४-अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिद्ध०-णिमिण-पंचंत०
जह० द्विदि० कस्स० ? अएण० बादर० सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदस्स सागार-

अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव जो साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव जो साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य संकलेश परिणामवाला है वह मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है ।

विशेषार्थ—देवोंमें असंखी जीव मरकर उत्पन्न होता है और इसके प्रथम व द्वितीय समयमें असंखीके योग्य जघन्य स्थितिबन्ध होता है । यही विशेषता नरकमें भी होती है, इसलिए देवोंमें अपनी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी नारकियोंके समान कहा है । मात्र तीर्थंकर और दो आयुओंका जघन्य स्थितिबन्ध पर्याप्त अवस्थामें जिस प्रकार नारकियोंके कहा है उसी प्रकार यहां कहना चाहिए । किन्तु नरकमें एकेन्द्रिय, आतप और स्थावर इन तीन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता और देवोंके होता है, इसलिए इनके जघन्यस्थितिबन्धका स्वामी जिस प्रकार असाताप्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कहा है उसी प्रकार यहां कहना चाहिए । असंखी जीव मरकर देवोंमें उत्पन्न होता हुआ भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें ही मरकर उत्पन्न होता है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी सामान्य देवोंके समान कहा है । मात्र इनके तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता ! आगे सहस्रार कल्पतक दूसरी पृथिवीसे जघन्य स्वामित्वमें कोई विशेषता नहीं है, इसलिए यहां सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी दूसरी पृथिवीके समान कहा है । विशेषता इतनी है कि ज्योतिषी देवोंके तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध नहीं होता और पेशान कल्पतक एकेन्द्रिय जाति, आतप और स्थावर प्रकृतिका बन्ध होता है । सो इन तीन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी जिस प्रकार दूसरी पृथिवीमें स्त्रीवेदके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी घटित करके बतलाया है उसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । आनतादिकमें तिर्यञ्चायु, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीच-गोत्रका बन्ध नहीं होता । शेष पूर्वोक्त प्रकृतियोंका होता है । सो इनमें भी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व दूसरी पृथिवीके समान घटित हो जाता है अतः यहां भी जघन्य स्वामी दूसरी पृथिवीके समान कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

१२२. एकेन्द्रियोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह-कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रवर्षभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और पांच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर बादर एकेन्द्रिय जो सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत है, सर्व विशुद्ध है और जघन्य स्थितिबन्धमें अव-

जा० सव्वविसु० जह० द्विदि० वट्ट० । असादा०-इत्थि०-पुरिस०-एवुंस०-अरदि-
सोग-चट्टुजादि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-आदाव-अप्पसत्थवि०-थावरादि०४-अथिरादिद्वि०
जह० द्विदि० कस्स० ? अण्ण० बादर० सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तगदस्स सागार-
जा० तप्पाओग्गविसु० । दोआयु० जह० द्विदि० कस्स० ? अण्ण० बादर० सुहुम०
पज्जत्तापज्ज० सागार-जा० तप्पाओग्गसंकिलि० । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणुपु०-
उज्जो०-णीचा० जह० द्विदि० कस्स० ? अण्ण० बादरतेउ०-वाउ०जीवस्स सव्वाहिः
पज्जत्तीहि पज्जत्त० सागार-जा० सव्वविसु० । मणुसगदि-मणुसाणु०-उच्चा० जह०
द्विदि० कस्स० ? अण्ण० बादरपुढ० बादरआउ० बादरवणप्फदि० सव्वाहि पज्ज-
त्तीहि पज्जत्त० सागार-जा० सव्वविसु० । सव्वविगल्लिंदिय-पज्जत्तापज्जत्त० पंचिदिय-
तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । पंचिदि०२ खवगपगदीणं ओघं । सेसाणं पंचिदिय-
तिरिक्खभंगो । अपज्जत्ते तिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

स्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । असातावेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, चार जाति, पांच संस्थान, पांच संहनन, आतप, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार और अस्थिर आदि छह प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर बादर एकेन्द्रिय जो सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकारजागृत है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । दो आयुओंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर बादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त जो साकारजागृत है और तत्प्रायोग्य संक्लेश-परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर बादर अग्निकायिक और बादर वायुकायिक जीव जो सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकारजागृत है और सर्व विशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर बादर पृथिवीकायिक, बादरजलकायिक और बादर वनस्पतिकायिक जीव जो सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत है और सर्व विशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । सब विकलत्रय और उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान हैं । पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें लूपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी ओघके समान है । तथा शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । इनके अपर्याप्तकोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध बादर पर्याप्त एकेन्द्रियोंके होता है । मात्र तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सब एकेन्द्रियोंके सम्भव है । विशेषता इतनी है कि तिर्यञ्चगति आदि चार प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध अग्नि-कायिक और वायुकायिक बादर पर्याप्त जीवोंके होता है, क्योंकि ये दोनों कायवाले जीव तिर्यञ्चगति सम्बन्धी प्रकृतियोंका ही सतत बन्ध करते हैं, इसलिए इनमें स्वभावतः जघन्य

१२३. पुहवि०-आउ०-वणप्फदिपत्तेय०-वणप्फदिका०-णियोदेसु पंचणा०-
णवदंस०-सादावे०-मिच्छत्त-सोलसक०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०-मणुसगदि एवं
धुवणामाए याव उच्चंगो०-पंचंतरा० जह० द्विदि० कस्स० ? अण्ण० बादर०
सव्वाहिं पज्जत्तीहि पज्जत्त० सागार-जा० सव्वविसु० । सेसाणं वि एसेव । एवरि
तप्पाओग्गविसुद्ध० । दोआयु० ओघं । बादरादीणं एइंदिय०-आदावेण एेदव्वं । एवं
चेव तेउ-वाउका० । एवरि तिरिक्खगदि० धुवं कादव्वं ।

१२४. तस-तसपज्जत्तेसु खवगपगदीणं ओघं । णिरय० देवायु० वेउव्वियद्धकं च
ओघं । दोआयु० जह० द्विदि० कस्स० ? अण्ण० बेइंदि तीइंदि० चदुरिंदि०
पंचिंदि० सण्ण० असण्ण० पज्जत्तापज्जत्त० तप्पाओग्गसंकिलि० । सेसाओ
पगदीओ मणुसगदिसंजुत्ताओ वीइंदियो करेदि सागार-जा० सव्वविसुद्धो । असा-

स्थितिबन्धके योग्य परिणाम होते रहते हैं और मनुष्यगति आदि तीन प्रकृतियोंका जघन्य
स्थितिबन्ध पृथिवीकायिक, जलकायिक और वनस्पतिकायिक बादर पर्याप्त जीव करते हैं,
क्योंकि इनका बन्ध अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके नहीं होता । शेष कथन स्पष्ट
ही है ।

१२३. पृथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पतिकायिक, प्रत्येक वनस्पतिकायिक और
निगोद जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, मिथ्यात्व सोलह कषाय,
पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा और मनुष्यगतिसे लेकर जितनी नामकर्मकी ध्रुव
प्रकृतियाँ हैं वे सब तथा उच्चगोत्र और पांच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी
कौन है ? अन्यतर बादर जो सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत है और सर्व विशुद्ध
है वह उरु प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंके भी जघन्य स्थिति-
बन्धका स्वामी वही जीव है । इतनी विशेषता है कि तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला जीव
शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । दो आयुओंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी
ओघके समान है । इनके बादरादिकमें एकेन्द्रिय जाति और आतप प्रकृतियोंके साथ कथन
करना चाहिए । इसी प्रकार अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके कथन करना चाहिए ।
इतनी विशेषता है कि इनके तिर्यञ्चगति चतुष्कको ध्रुव कहना चाहिए ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें जघन्य स्थितिबन्धके स्वामित्वका खुलासा कर आये हैं ।
उसे ध्यानमें रखकर यहाँ जघन्य स्वामित्व जान लेना चाहिए ।

१२४. त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंमें क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी
ओघके समान है । नरकायु, देवायु और वैक्रियिक छह इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका
स्वामी ओघके समान है । दो आयुओंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर
द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय संज्ञी और पञ्चेन्द्रिय असंज्ञी तथा इन सबका
पर्याप्त तथा अपर्याप्त जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह उरु दोनों आयुओंके
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । शेष मनुष्यगति सहित प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका
स्वामी साकार जागृत और सर्वविशुद्ध द्वीन्द्रिय जीव है । तथा असातादिक प्रकृतियोंके भी
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला वही द्वीन्द्रिय जीव है, तथा

१. मूलप्रतौ सव्वाहि अपज्जत्तीहि इति पाठः । २. मूलप्रतौ—गदि० दुवं कादव्वं इति पाठः ।

दादीणं पि सो चेव बीईदि० तप्पाओग्गविसुद्ध० । अपज्जत्त० पंचिंदियतिरिक्ख-
अपज्जत्तभंगो । एवरि बेईदियो ति भाणिदव्वं ।

१२५. पंचमण०-तिण्णवचि० खवगपगदीणं मूलोघं । णिदा-पचला० जह०
द्विदि० कस्स० ? अण्ण० अपुव्वकरणखवग० णिदापचलाणं बंधचरिमे वट्टमाणस्स ।
थीण्णिद्वितिय-मिच्छत्त-अणंताणुबंधि०४ जह० द्विदि० कस्स० ? अण्ण० मणुस०
मिच्छा० सागार-जा० सव्वविसुद्ध० संजमाभिमुहस्स जह० द्विदिबं० । असादा०-
अरदि०-[सोग]-अथिर-असुभ-अजस० जह० द्विदि० कस्स० ? अण्ण० पमत्तसंज-
दस्स सागार-जा० तप्पाओग्गविसु० जह० द्विदि० वट्ट० । अपच्चक्खाणा०४ जह०
द्विदि० कस्स० ? अण्ण० मणुस० असंजदसम्मादिदि० सागार-जा० सव्वविसुद्ध०
संजमाभिमुहस्स जह० द्विदि० वट्ट० । पच्चक्खाणा०४ जह० द्विदि० कस्स० ? अण्ण०
मणुसस्स संजदासंजद० सागार-जा० तप्पाओग्गसव्वविसु० संजमाभिमुह० जह०

इनके अपर्याप्तकोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी पञ्चेन्द्रिय
तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है । इतनी विशेषता है कि यहांपर भी द्वीन्द्रिय अपर्याप्तको
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कहना चाहिए ।

विशेषार्थ—त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें पांच ज्ञानावरण आदि २५ प्रकृतियोंका
जघन्य स्थितिबन्ध क्षपक श्रेणिमें होता है । वैकियिक छहका जघन्य स्थितिबन्ध पञ्चेन्द्रिय
असंज्ञी पर्याप्तके होता है । नरकायु और देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध संज्ञी या असंज्ञी
पञ्चेन्द्रियके होता है । इनके सिवा शेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध द्वीन्द्रिय पर्याप्त
जीवोंके होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । त्रस अपर्याप्तकोंमें द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकोंके
सब जघन्य स्थितिबन्ध होता है, इसलिए त्रस अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य
स्थितिबन्धका स्वामी द्वीन्द्रिय अपर्याप्तक जीव कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

१२६. पांचों मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य
स्थितिबन्धका स्वामी मूलोघके समान है । निद्रा और प्रचला प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्ध
का स्वामी कौन है ? अन्यतर अपूर्वकरण क्षपक जो निद्रा और प्रचलाके बन्धके अन्तिम
समयमें अवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । स्त्यानगृद्धि-
त्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर
मनुष्य मिथ्यादृष्टि जो साकार जागृत है, सर्व विशुद्ध है, संयमके अभिमुख है और
जघन्य स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी
है । असाता वेदनीय, अगति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकोर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थि-
तिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य
विशुद्ध परिणामवाला है और जघन्य स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य
स्थितिबन्धका स्वामी है । अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन
है ? अन्यतर जो असंयत सम्यग्दृष्टि है, साकार जागृत है, सर्व विशुद्ध है, संयमके अभिमुख
है और जघन्य स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह उक्त चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका
स्वामी है । प्रत्याख्यानावरण चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर
मनुष्य जो सयंतसंयत है, साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य सर्व विशुद्ध है, संयमके अभिमुख है
और जघन्य स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह उक्त चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका

द्विदि० वट्ट० । इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थवि०-दूभग-दुस्सर-
अण्णादे० जह० द्विदि० कस्स ? अण्ण० चटुगदियस्स मिच्छादि० सागार-जा०
तप्पाओग्गविसुद्ध० । हस्स-रदि-भय-दुगुं० जह० द्विदि० कस्स ? अण्ण०
अपुव्वकरणखवग० चरिमे जह० द्विदि० वट्ट० । णिरयायु० जह० द्विदि० कस्स ?
अण्णद० दुगदिय० सागार-जा० तप्पाओग्गविसु० । तिरिक्ख-मणुसायु० जह०
द्विदि० कस्स ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० तप्पाओग्ग-संकिलि० । देवायु० तं
चेव । णिरयगदि-तिण्णजादि-णिरयाणुपु०-सुहुम०-अपज्ज०-साधार० जह० द्विदि०
कस्स ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छादि० तप्पाओग्गविसु० । तिरिक्खगदि-
तिरिक्खाणुपु०-उज्जो०-णीचागो० जह० द्विदि० कस्स ? अण्ण० सत्तमाए पुढवि०
णेरइ० मिच्छादि० सागार-जा० सव्वविसु० सम्मत्ताभिमुद्ध० जह० द्विदि० वट्ट० ।
मणुसग०-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिसभ०-मणुसाणु० जह० द्विदि० कस्स ?
अण्ण० देव० णेरइयस्स सम्मादि० सागार-जा० सव्वविसुद्ध० । देवगदि-पंचिदि०-
वेउव्वि०-आहार०-तेजा०-क०-समचटु०-दोअंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अणु०४-पस-
त्थवि०-तस०४-थिरादिपंच-णिमि०-तित्थय० जह० द्विदि० कस्स ? अण्ण०

स्वामी है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग,
दुस्वर और अनादेयके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर चार गतिका मिथ्या-
दृष्टि जीव जो साकारजागृत है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । हास्य, रति, भय और जुगुप्साके जघन्य स्थितिबन्धका
स्वामी कौन है ? अन्यतर अपूर्वकरण क्षपक जो अन्तिम जघन्य स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह
उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । नरकायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी
कौन है ? अन्यतर दो गतिका जीव जो साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणाम-
वाला है वह नरकायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य
स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणाम-
वाला है वह उक्त दोनों आयुओंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य स्थिति-
बन्धका स्वामी वही है । नरकगति, तीन जाति, नरक गत्यानुपूर्वी, सूक्ष्म, अपर्याप्त और
साधारण इनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य जो
मिथ्यादृष्टि है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-
बन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्र प्रकृतियोंके
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर सातवीं पृथिवीका नारकी जो मिथ्यादृष्टि
है, साकारजागृत है, सर्वविशुद्ध है, सम्यक्त्वके अभिमुख है और जघन्य स्थितिबन्धमें अव-
स्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । मनुष्यगति, औदारिकशरीर,
औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रवृषभनाराचसंहनन और मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव और नारकी जो सम्यग्दृष्टि है, साकार-
जागृत है और सर्वविशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । देवगति,
पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्र
संस्थान, वैक्रियिक और आहारक दो आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरु-
लघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, असचतुष्क, स्थिर आदि पाँच, निर्माण और तीर्थङ्कर प्रकृ-

अपुण्वकरणखवग० परिभवियणामाणं बंधचरिमे जह० द्विदि० वृह० । एइंदि०-
आदाव-थावर० जह० द्विदि० कस्स० ? अणण० तिगदियस्स मिच्छादि० सागार-जा०
तप्पाओगविसुद्ध० । वचिजोगी० असच्चमोस० तसपज्जत्तभंगो ।

१२६. कायजोगि-ओरालियकायजोगि०, मूलोघं । ओरालियमि० देवगदि०४-
तित्थय० जह० द्विदि० कस्स० ? अणण० असंज० सागार-जा० सव्वविसु० ।
सेसाओ जाओ अत्थि ताओ तिरिक्खोघं ।

तियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर अपूर्वकरण लूपक जो परभव सम्बन्धी नामकर्मकी प्रकृतियोंके बन्धके अन्तमें जघन्य स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । एकेन्द्रिय, आतप और स्थावर प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तीन गतिका मिथ्यादृष्टि जीव जो साकार-जागृत है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । वचनयोगी और असत्यमृषावचनयोगी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी त्रसपर्याप्तकोंके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ पाँच मनोयोग और पाँच वचनयोगमें कौन जीव किन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है इसका विचार किया गया है । उसमें भी वचनयोग और असत्यमृषावचनयोग द्वीन्द्रियोंसे लेकर होता है इसलिए इनमें त्रसपर्याप्तकोंके समान सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व घटित हो जाता है, इसलिए उनका कथन त्रसपर्याप्तकोंके समान कहा है तथा शेषका स्वतन्त्र कथन किया है । यह तो स्पष्ट बात है कि पाँच मनोयोग और सत्य, असत्य और उभय वचनयोग एकेन्द्रियसे लेकर असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय तक नहीं होते । केवल संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके होते हैं, इसलिए इनमें एकेन्द्रियोंसे लेकर असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय तकके जीवोंके होनेवाला स्थितिबन्ध सम्भव नहीं है । अतः संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें कहाँ किन प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध सम्भव है इस दृष्टिसे इनमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धके स्वामित्वका विचार किया गया है । यहाँ साधारणतः पहले और दूसरे गुणस्थानमें जिन प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छिन्नि होती है उनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व अधिकारी भेदसे मिथ्यात्व गुणस्थानमें उपलब्ध होता है । इसी प्रकार आगे गुणस्थानोंमें जहाँ जिन प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छिन्नि कही है उस गुणस्थानमें उन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व उपलब्ध होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । मात्र चार आयुर्कर्म इसके अपवाद हैं । चारों आयुर्ओंका जघन्य स्थितिबन्ध अपने अपने जघन्य स्थितिबन्धके योग्य सामग्रीके मिलने पर मिथ्यात्व गुणस्थानमें मनुष्य और तिर्यञ्चोंके होता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मिथ्यादृष्टि मनुष्य और तिर्यञ्च कहा गया है । सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धकी योग्यताका निर्देश मूलमें किया ही है ।

१२६. काययोगी और औदारिक काययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मूलोघके समान है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिचतुष्क और तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि जो साकार जागृत है और सर्वविशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । शेष जितनी प्रकृतिर्याँ हैं उनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी सामान्य तिर्यञ्चके समान है ।

१२७. वेउन्वियका० पंचणा०-छदंसणा०-सादावे०-बारसक०-पुरिस०-हस्स-
रदि-भय-दुगुं०-मणुसग०-पंचिदि०-तिणिसरीर०-समचदु०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरि-
सभ०-वणण०-४-मणुसाणु०-अगुरु०-पसत्थवि०-तस०-४-थिरादिछ०-णिमि०-तित्थकर-
उच्चा०-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स० ? अणण० देव०^१ गेरइय० सम्मादि० सागार-
जा० सव्वविसुद्ध० । धीणगिद्धि३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४ जह० द्विदि०
कस्स० ? अणणद० देव०^२ गेरइ० मिच्छादि० सागार-जा० सम्मत्ताभिमुह० ।
असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० जह० द्विदि० कस्स ? अणण० देव०
गेरइय० सम्मादि० सागार-जा० तप्पाओग्गविसु० । इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-
पंचसंध०-अपसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० जह० द्विदि० कस्स० ? अणण०
देव० गेरइय० मिच्छादि० सागार-जा० तप्पाओग्गविसु० । दोआयु० जह० द्विदि०
कस्स० ? अणणद० देव० गेरइय० मिच्छादि० तप्पाओग्गसंकिलि० । तिरिक्खग०-
तिरिक्खाणु०-उज्जो०-णीचा० जह० द्विदि० कस्स ? अणणद० सत्तमाए पुढवीए
मिच्छादि० सागार-जा० सव्वविसु० सम्मत्ताभिमुह० । एइदि०-आदाव-थावर०

१२७. वैक्रियिक काययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय,
बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक-
तैजस-कार्मण तीन शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन,
घर्षाचतुष्क, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर
आदि छह, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-
बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव और नारकी जो सम्यग्दृष्टि है, साकार जागृत है
और सर्वविशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । स्नानगृह्णिक,
मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्क प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ?
अन्यतर देव और नारकी जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है और सम्यक्त्वके अभिमुख
है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । असातावेदनीय, अरति, शोक,
अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव और
नारकी जो सम्यग्दृष्टि है, साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध है और वह उक्त प्रकृ-
तियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन,
अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-
बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव और नारकी जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है
और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी
है । दो आयुओंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव और नारकी जो
मिथ्यादृष्टि है और तत्प्रायोग्य संक्लिष्ट है वह उक्त दो आयु प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका
स्वामी है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-
बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर सातवीं पृथिवीका नारकी जो मिथ्यादृष्टि है, साकार
जागृत है, सर्वविशुद्ध है और सम्यक्त्वके अभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-
बन्धका स्वामी है । एकेन्द्रिय जाति, आतप और स्थावर प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका

१. मूलप्रती देवगदि गेरइय० इति पाठः । २. मूलप्रती देवगदि गेरइय० इति पाठः ।

जह० द्विदि० कस्स० ? अणण० ईसाणंतदेवस्स मिच्छादि० तप्पाओग्गविसु० ।
एवं चेव वेउन्वियमि० । एवरि आयु० एत्थि ।

स्वामी कौन है? अन्यतर पेशान कल्प तकका देव जो मिथ्यादृष्टि है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्र-काययोगवाले जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके आयुर्कर्मकी दो प्रकृतियों का बन्ध नहीं होता।

विशेषार्थ—काययोग और औदारिककाययोग एकेन्द्रियसे लेकर सयोगकेवली गुणस्थान तक होते हैं, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व मूलोघके समान बन जाता है। औदारिकमिश्रकाययोगके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, अविरतसम्यग्दृष्टि और सयोगकेवली ये चार गुणस्थान हैं। यहाँ सयोगकेवली गुणस्थानसे तो प्रयोजन ही नहीं। शेष तीन गुणस्थान तिर्यञ्च और मनुष्य दोनोंकी अपर्याप्त अवस्थामें होते हैं पर मनुष्य अपर्याप्तकोंकी अपेक्षा तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन सम्भव है, क्योंकि तिर्यञ्चोंमें एकेन्द्रियोंकी भी परिगणना होती है, इसलिए यहाँ औदारिकमिश्रकाययोगमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी सामान्य तिर्यञ्चोंके समान कहा है। मात्र एकेन्द्रियोंके देवगति-चतुष्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता। तथा औदारिकमिश्रकाययोगमें इनका बन्ध अविरत सम्यग्दृष्टिके ही होता है इसलिए इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व अलगसे कहा है। औदारिकमिश्रकाययोगमें नरकायु, देवायु, नरकगति, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आहारक शरीर और आहारक आङ्गोपाङ्गका बन्ध नहीं होता, इस लिए इनके स्वामित्वका यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता। वैक्रियिक काययोग देव और नारकियोंके होता है, इसलिए इस बातको ध्यानमें रखकर इस योगमें बँधनेवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व यथायोग्य जान लेना चाहिए। समझनेकी बात इतनी है कि जिन प्रकृतियोंकी मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें बन्धव्युत्पत्ति होती है उनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व मिथ्यादृष्टि वैक्रियिककाययोगी देव और नारकीको मूलमें कहीं गई विशेषताको ध्यान रखकर देना चाहिए और जिन प्रकृतियोंका आगे भी बन्ध होता है उनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व अविरतसम्यग्दृष्टि वैक्रियिककाययोगी देव और नारकीको देना चाहिए। मात्र तिर्यञ्चगति द्विक, उद्योत और नीचगोत्रके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी सातवीं पृथिवीके सम्यक्त्वके सम्मुख हुए सर्वविशुद्ध नारकीको ही कहना चाहिए, क्योंकि सातवीं पृथिवीमें मिथ्यादृष्टि नारकीके मनुष्यगति द्विक और उच्चगोत्रका बन्ध नहीं होता, इसलिए उसके सम्यक्त्वके अभिमुख होनेपर भी उक्त चार प्रकृतियोंका बन्ध होता रहता है। अतएव सातवीं पृथिवीमें ही इनका जघन्य स्थितिबन्ध उपलब्ध होता है। इसी तरह वैक्रियिक काययोगमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका उसके योग्य जघन्य स्थितिबन्ध मिथ्यात्वमें ही उपलब्ध होता है, क्योंकि इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धके योग्य परिणाम मिथ्यादृष्टिके ही होते हैं। यही कारण है कि यहाँ वैक्रियिक काययोगमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व उक्त प्रकारसे कहा है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धके स्वामित्वके प्रति वैक्रियिककाययोगसे अन्य कोई विशेषता नहीं है। मात्र वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें सम्यक्त्वकी उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए जिन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व वैक्रियिककाययोगमें सम्यक्त्वके अभिमुख हुए

१२८. आहार०-आहारमि० पंचणा०-द्वंदसणा०-सादावे०-चदुसंज०-पुरिस०-
हस्स-रदि-भय-दुगु०-देवगदि०-पंचिदि०-तिणिसरीर०-समचदु०-वेउन्वि०-अंगो०-
वण० ४-देवाणुपु०-अंगुरु० ४-पसत्थवि०-तस० ४-थिरादिद्व०-णिमि०-तित्थय०-
ऊच्चागो०-पंचंतरा० जह० द्विदि० कस्स० ? अण० पमत्तसंजद० सागार-जा०
सव्वविसु० । असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० जह० द्विदि० कस्स० ?
अण० पमत्त० सागार-जा० तप्पाओगविसु० । देवायु० जह० द्विदि० कस्स० ?
अण० सागार-जा० तप्पाओगसंकिलि० । कम्मइग० ओरालियमिस्सभंगो ।
एवदि आयु० एत्थि । तित्थय० दुगदियस्स' ।

जीवके कहा है यहाँ उनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व जो पर्याप्त होने पर सम्यक्त्वको प्राप्त होगा ऐसे जीवके जघन्य स्वामित्व कहना चाहिए। वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें आयुका बन्ध नहीं होता यह स्पष्ट ही है।

१२८. आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देव-
गति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिक-तैजस-कर्मण तीन शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक
आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस-
चतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य
स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो साकार जागृत है और सर्व-
विशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। असाता वेदनीय, अरति,
शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ?
अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है
वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी
कौन है ? अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य संक्लिष्ट है वह
देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। कर्मणकाययोगी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है
कि इनके आयुका बन्ध नहीं होता। तथा इनके तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका
स्वामी दो गतिका जीव है।

विशेषार्थ—आहारक काययोग और आहारकमिश्रकाययोग प्रमत्तसंयत जीवके होता
है, इसलिए प्रमत्तसंयत जीवके बँधनेवाली प्रकृतियोंकी अपेक्षा यहाँ जघन्य स्वामित्व कहा
है। विशेषता मूलमें कही हो है। औदारिकमिश्रकाययोग और कर्मणकाययोगके गुणस्थान
एक समान ही हैं तथा औदारिकमिश्रकाययोगके समान यह योग भी एकेन्द्रियोंके होता
है इसलिए इसमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व औदारिकमिश्र-
काययोगके समान कहा है। मात्र यहाँ इतनी विशेषता है कि एक तो कर्मण काययोगमें
आयुकर्मका बन्ध नहीं होता और दूसरे यद्यपि कर्मणकाययोगमें नरकगति, मनुष्यगति और
देवगतिके जीवके तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध होता है पर इसके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी
देवगति और मनुष्यगतिका जीव ही है, क्योंकि इसके योग्य सर्वविशुद्ध परिणाम इन दो
गतिके कर्मणकाययोगी जीवके ही हो सकते हैं।

१. मूलप्रतौ दुगदियस्स तित्थय० इत्थि० इति पाठः ।

१२६. इत्थि०-पुरिस० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादावे०-चदुसंज०-पुरिस०-जसगि०-उच्चा०-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स० ? अरण० अणियट्टि० खवग० जह० द्विदि० वट्ट० । आहार०-आहार०अंगो०-तित्थय० मूलोघं । एवरि इत्थिवेद० तित्थय० अपुव्वकरणउवसामयस्स । सेसाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो । एवुंस० खवगपगदीणं इत्थिभंगो । सेसं मूलोघं । अवगदवेदे ओघं ।

१३०. क्रोध०-माण०-माया० एवुंसगभंगो । एवरि तित्थयरं ओघं । लोभे मूलोघं ।

१२९. स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, साता-वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर अनिवृत्तिक्षपक जो जघन्य स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । आहारक शरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग और तीर्थकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मूलोघके समान है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी अपूर्वकरण उपशामक जीव है । इनके सिवा शेष सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चके समान है । नपुंसकवेदी जीवोंमें क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । तथा शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मूलोघके समान है । अपगतवेदमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी ओघके समान है ।

विशेषार्थ—स्त्रीवेद, पुरुषवेद अपने अपने सवेद भागतक होते हैं इसलिए इनमें दशवें गुणस्थान और नौवें गुणस्थानमें बँधनेवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी क्षपक अनिवृत्तिकरण जीवको कहा है, तथा इन दोनों वेदोंका उदय असंखी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चके भी होता है, इसलिए शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चके समान कहा है । मात्र आहारकद्विक और तीर्थकर प्रकृतिका जघन्य स्थितिबन्ध अपूर्वकरण क्षपकके होता है इसीलिए इन तीनों प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी अपूर्वकरण क्षपक जीवको कहा है । यहाँ यह बात सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है कि जिसके तीर्थकर प्रकृतिकी सत्ता होती है वह पुरुषवेदके साथ ही क्षपक श्रेणीपर आरोहण करता है, क्योंकि जो जीव तीर्थकर होता है उसके जन्मसे एकमात्र पुरुषवेदका उदय होता इसलिए स्त्रीवेदमें तीर्थकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी उपशामक अपूर्वकरण है । जीवको कहा है । नपुंसकवेदमें क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी स्त्रीवेदके समान है यह तो स्पष्ट ही है । मात्र नपुंसक वेदका उदय एकेन्द्रिय जीवोंसे लेकर होता है इसलिए इसमें शेष सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी ओघके समान कहा है । अपगतवेदमें नौवें और दशवें गुणस्थानमें बँधनेवाली प्रकृतियोंका ही बन्ध होता है, क्योंकि यह संज्ञा नौवें गुणस्थानके अवेदभागसे प्रारम्भ होती है, इसलिए इसमें उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी ओघके समान कहा है ।

१३०. क्रोध कषायवाले, मान कषायवाले और माया कषायवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी नपुंसकवेदी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें तीर्थकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी ओघके समान है । तथा लोभ कषायवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मूलोघके समान है ।

१३१. मदि०-सुद० तिरिक्खोघं । विभंगे पंचणा०-णवदंसणा० सादा०-
मिच्छा०-सोलसक०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०-देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-
क०-समचदु०-वेउव्वि०-अंगो०-वण०४-देवाणु०-अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-थिरा-
दिदु०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स० ? अण० मणुस० सागार-
जा० सव्वविसु० संजमाभिमुह० । असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० जह०
द्विदि० कस्स० ? अण० चदुगदि० सत्थाणे सागार-जा० । इत्थि०-णवुंस०-पंच-
संठा०-पंचसंघ०-अणसत्थवि०-दूभग-दुस्सर-अणादे० जह० द्विदि० कस्स० ?
अण० चदुगदि० तप्पाओग्गविसुद्ध० । आयुगाणं मणजोगिभंगो । तिरिक्खवग०
तिरिक्खाणुपु०-उज्जोव०-णीचा० जह० द्विदि० कस्स० ? अण० सत्तमाए पुढवीए
मिच्छादि० सागार-जा० सव्वविसु० सम्मत्ताभिमुह० । गिरयगदि-तिरिणजादि-गिर-
याणु०-सुहुम-अपज्ज०-साधार० जह० द्विदि० कस्स० ? अण० तिरिक्ख० मणुस०
तप्पाओग्गविसु० । मणुसग०-ओरालि०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरिस०-मणुसाणु०

विशेषार्थ—किसी भी कषायके उदयसे जीव क्षपक श्रेणीपर आरोहण करता है और उसके तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध होनेमें कोई बाधा नहीं आती, इसलिए चारों कषायोंमें तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी ओघके समान कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१३२. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । विभङ्गज्ञानमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण-उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मनुष्य जो साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है और संयमके अभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । असाता वेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर चार गतिका जीव जो स्वस्थानमें अवस्थित है और साकार जागृत है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेय इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर चार गतिका जीव जो तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । आयुकर्मकी चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मनोयोगी जीवोंके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्र इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर सातवीं पृथिवीका नारकी जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है और सम्यक्त्वके अभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । नरकगति, तीन जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य जो तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । मनुष्यगति, औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन और मनुष्यगत्या-

जह० द्विदि० कस्स० ? अणण० देव० णेरइयस्स सागार-जा० सव्वविसुद्ध०
सम्मत्ताभिमुह० । एइदि०-आदाव-थावर० मणजोगिभंगो ।

१३२. आभि०-सुद०-ओधि० खवगपगदीणं मूलोघं । णिदा-पचलाणं जह०
द्विदि० कस्स० ? अणण० अपुव्वकरणखवग० चरिमे जह० द्विदि० वट्टमा० ।
असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० जह० द्विदि० कस्स० ? अणण०
पमत्तसंज० सागार-जा० तप्पाओग्गविसु० । हस्स-रदि-भय-दुगुं० जह० द्विदि०
कस्स० ? अणण० अपुव्व०खवग० चरिमे जह० द्विदि० वट्ट० । मणुसायु० जह०
द्विदि० कस्स० ? अणण० देव० णेरइ० सागार-जा० तप्पाओग्गसंकिलि० । देवायु०

नुपूर्वी इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव और नारकी जो साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है और सम्यक्त्वके अभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । एकेन्द्रिय जाति, आतप और स्थावर प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मनोयोगी जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—मत्यज्ञान और श्रुताज्ञान तिर्यञ्चोंके भी होता है और इन दोनों मार्गणाओंमें जघन्य स्थितिबन्ध तिर्यञ्चोंकी अपेक्षा ही सम्भव है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी तिर्यञ्चोंके समान कहा है । विभङ्ग ज्ञान चारों गतियोंमें सम्भव है पर इसके रहते हुए संयमके अभिमुख परिणाम मनुष्यगतिमें ही हो सकते हैं और ऐसे जीवके ही जघन्य स्थितिबन्ध होगा, इसलिए प्रथम दण्डकमें कही हुई प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी संयमके अभिमुख विभङ्गज्ञानी मनुष्य कहा है । दूसरे और तीसरे दण्डकमें जो प्रकृतियाँ गिनाईं हैं उनका जघन्य स्थितिबन्ध स्वस्थानमें ही सम्भव है, इसलिए उनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी चारों गतियोंका विभङ्गज्ञानी जीव कहा है । सातवें नरकमें मिथ्यादृष्टिके तिर्यञ्चगति आदिका ही बन्ध होता है, इसलिए सम्यक्त्वके अभिमुख होने पर भी इसके इन प्रकृतियोंका बन्ध होता रहता है । जब कि अन्यत्र ऐसी अवस्थाके प्राप्त होने पर इन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं हो सकता है । यदि विचार कर देखा जाय तो विभङ्गज्ञानमें ऐसे जीवके ही उक्त प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध सम्भव है । यही कारण है कि तिर्यञ्चगति आदि चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी सातवीं पृथिवीका विभङ्गज्ञानी जीव कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

१३२. आमिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मूलोघके समान है । निद्रा और प्रचला प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर अपूर्वकरण क्षपक जो अन्तिम जघन्य स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह उक्त दोनों प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । असाता वेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रमत्तसंयत जो साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । हास्य, रति, भय और जुगुप्सा प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर अपूर्वकरण क्षपक जो अन्तिम जघन्य स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव और नारकी जो साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य संकलेश परिणामवाला है वह मनुष्यायुके जघन्य

जह० द्विदि० कस्स० ? अएण० तिरिक्ख० मणुस० तप्पाओगसंकिलि० । मणुसग०-
ओरालि०-ओरालि० अंगो०-वज्जरिसभ०-मणुसाणु० जह० द्विदि० कस्स० ?
अएण० देव० एेरइ० सागार-जा० सव्वविसुद्ध० । देवगदि एवं पसत्थत्तीसं जह०
द्विदि० कस्स० ? अएण० अपुव्व०खवग० परभवि० बंधचरिमे वट्ट० । अप्प-
च्चक्खा०४ जह० द्विदि० कस्स० ? अएण० मणुस० असंज० सागार-जा० सव्व-
विसु० संजमाभिमुह० । पच्चक्खाणा०४ जह० द्विदि० कस्स० ? अएणद० मणुस०
संजदासंजद० सागार-जा० सव्वविसु० संजमाभिमुह० । मणपज्जव० ओधिभंगो ।
एवरि देवायु० जह० द्विदि० कस्स० ? अएण० पमत्तसंज० तप्पाओ०संकिलि० ।

१३३. संजदा० मणपज्जवभंगो । सामाइ०-छेदो० पंचणा०-चदुदंस०-सादा०-

स्थितिबन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य जो तत्प्रायोग्य संकलेश परिणामवाला है वह देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । मनुष्यगति, औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभ-नाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव और नारकी जो साकार जागृत है और सर्वविशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । देवगतिसे लेकर प्रशस्त तीस प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर अपूर्वकरण क्षपक जो परभव सम्बन्धी प्रकृतियोंके बन्धके अन्तमें अवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । अप्रत्याख्यानावरण चारके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मनुष्य असंयत सम्यग्दृष्टि जो साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है और संयमके अभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । प्रत्याख्यानावरण चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मनुष्य संयतासंयत जो साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है और संयमके अभिमुख है वह उक्त चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-बन्धका स्वामी है । मनःपर्ययज्ञानमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी अवधिज्ञानीके समान है । इतनी विशेषता है कि देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रमत्तसंयत जो तत्प्रायोग्य संकलेश परिणामवाला है वह देवायुके जघन्य स्थिति बन्धका स्वामी है ।

विशेषार्थ—आभिनिबोधक आदि तीन ज्ञान चौथेसे लेकर बारहवें गुणस्थानतक होते हैं । इनमें क्षपकश्रेणिकी प्राप्ति भी सम्भव है, इसलिए ३६ प्रकृतियोंका क्षपकश्रेणिके आठवें गुणस्थानमें, ५ का नौवेंमें और १७ का दसवेंमें जघन्य स्वामित्व कहा है । शेष प्रकृतियोंके विषयमें जहां जिनकी बन्धव्युच्छिन्नि होती है और जिनके उनका बन्ध होता है इन दो बातोंको ध्यानमें रखकर उनके जघन्य स्वामित्वका विचार किया है । शेष विशेषताएँ मूलमें कही ही हैं । मनःपर्ययज्ञान ६ छठवें गुणस्थानसे होता है । अतः जितनी प्रकृतियोंका बन्ध इसके होता है उनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व अवधिज्ञानी जीवके भी छठवें आदि गुणस्थानोंमें ही प्राप्त होता है, इसलिए मनःपर्ययज्ञानमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी अवधिज्ञानी जीवोंके समान कहा है । मात्र देवायु इसका अपवाद है । कारण कि देवायु का जघन्य स्थितिबन्ध अवधिज्ञानीके चतुर्थ गुणस्थानमें होता है और मनःपर्ययज्ञानमें प्रमत्तसंयतके होता है, इसलिए इतनी विशेषता अलगसे कही है ।

१३३. संयत जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मनःपर्यय-

लोभसंज०-जस०-उच्चा०-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स० ? अण्ण० अणियद्विख-
वगस्स चरिमे द्विदि० वट्ट० । सेसं संजदभंगो । परिहार० आहारकायजोगिभंगो ।
एवरि सामित्तदो सट्टाणेषु याओ सव्वविसुद्धाओ ताओ दंसणमोहणीयखवगस्स
से काले कदकरणिज्जो होहिदि त्ति अथवा सत्थाणे अप्पमत्तसव्वसुद्ध० । सेसाणं
आहारकायजोगिभंगो । सुहुमसंपरा० ओघं ।

१३४. संजदासंजदा० पंचणा०-दंसणा०-सादावे०-अट्टकसा०-पुरिस०-हस्स-
रदि-भय-दुगुं०-देवगदि-पसत्थट्टावीस-तित्थयर-उच्चा०-पंचंत० जह० द्विदि०

ज्ञानी जीवोंके समान है। सामायिक संयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें पाँच ज्ञाना-
वरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, लोभ संज्वलन, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच
अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? अन्यतर अनिवृत्तिक्षपक जो
अन्तिम स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है।
शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी संयत जीवोंके समान है। परिहारविशुद्धिसंयत
जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी आहारककाययोगी जीवोंके
समान है। इतनी विशेषता है कि स्वस्थानमें जो सर्वविशुद्ध परिणामोंसे बँधनेवाली प्रकृतियाँ
हैं उनको जो तदनन्तर समयमें कृतकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टि होगा ऐसा दर्शनमोहनीयका
क्षपक जीव जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है, अथवा स्थानमें जो अप्रमत्तसंयत है, सर्व विशुद्ध
परिणामवाला है वह उन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। तथा शेष प्रकृतियोंके
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी आहारककाययोगी जीवोंके समान है। सूक्ष्मसाम्परायसंयत
जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी ओघके समान है।

विशेषार्थ—बन्धकी अपेक्षा मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंकी स्थिति एक समान है,
इसलिए संयतोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मनःपर्ययज्ञानके समान
कहा है। सामायिक संयत और छेदोपस्थापनासंयत मात्र नौवें गुणस्थानतक होते हैं इस-
लिए इनमें दसवें गुणस्थानमें बन्धव्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वा-
मित्व क्षपक अनिवृत्तिकरणको दिया है। शेष स्थिति संयत जीवोंके समान है, इसलिए इन
दोनों संयतोंके शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी संयत जीवोंके समान कहा है।
परिहारविशुद्धि संयत जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धके स्वामित्वको दो
भागोंमें विभक्त कर दिया है—जो वहाँ सर्वविशुद्ध परिणामोंसे प्रकृतियोंका बन्ध होता है
उनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी अलगसे कहा है और शेष असाता आदि प्रकृतियोंके
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व आहारककाययोगी जीवोंके समान कहा है। आशय यह है
कि पाँच ज्ञानावरण आदि जिन प्रकृतियोंका सातवें गुणस्थानमें बन्ध होता है उनके जघन्य
स्थितिबन्धका स्वामी या तो जो अनन्तर समयमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि होगा ऐसा कृतकृत्य वेदक
सम्यग्दृष्टि जीव कहना चाहिए या स्वस्थानमें ही सर्वविशुद्ध परिणामवाला अप्रमत्तसंयत जीव
कहना चाहिए और असाता आदि प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी आहारककाययोगी
जीवोंके समान तत्प्रायोग्यविशुद्ध परिणामवाला प्रमत्तसंयत जीव कहना चाहिए।

१३४. संयतासंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, आठ
कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति आदि प्रशस्त अट्टाईस प्रकृतिबाँ,
तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन

कस्स० ? अणण० मणुस० सागार-जा० सव्वविसुद्ध० संजमाभिमुह० । असादा०-
अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० जह० द्विदि० कस्स० ? अणण० सत्थाणे तप्पा-
ओग्गविसुद्ध० । देवायु० जह० द्विदि० कस्स० ? अणण० तिरिक्ख० मणुस०
तप्पाओग्गसंकिलि० । असंजदा० मदि० भंगो । एवरि तित्थयरं जह० द्विदि०
कस्स० ? अणण० सम्भादि० मणुस० सागार-जा० सव्वविसुद्ध० संजमाभिमुह० ।

१३५. चक्खुदं० खवगपगदीओ वेउव्वियद्धकं मूलोघं । सेसाणं चदुरिंदिय-
पज्जत्तभंगो । अचक्खु० मूलोघं । ओधिदं० ओधिणाणिभंगो ।

है। अन्यतर मनुष्य जो साकार जागृत है, सर्व विशुद्ध है और संयमके अभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? अन्यतर स्वस्थानवर्ती तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। देवायु के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। असंयत जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मत्यज्ञानियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? अन्यतर सम्यग्दृष्टि मनुष्य जो साकारजागृत है, सर्व विशुद्ध है और संयमके अभिमुख है वह तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है।

विशेषार्थ—संयतासंयतोंका एक ही गुणस्थान है। यहां संयमके सन्मुख हुए जीवके पाँच ज्ञानावरणादिका सबसे जघन्य स्थितिबन्ध होता है इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी ऐसा मनुष्य कहा है और शेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध स्वस्थानमें ही होता है अतः उनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी स्वस्थानवर्ती तिर्यञ्च और मनुष्य कहा है। असंयतोंमें जघन्य स्थितिबन्धकी अपेक्षा एकेन्द्रिय तिर्यञ्चोंकी मुख्यता है। मत्यज्ञानियोंमें भी जघन्य स्थितिबन्धके स्वामीका विचार एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा किया है, इसलिए असंयतोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मत्यज्ञानियोंके समान कहा है। मात्र जिन प्रकृतियोंका एकेन्द्रियोंके बन्ध नहीं होता उन प्रकृतियोंका विचार जिस प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंके विचारके समय कर आये हैं उस प्रकारसे करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चोंके या मत्यज्ञानियोंके तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता इसलिए यहाँ इसके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी अलगसे कहा है।

१३५. चक्षुदर्शनवाले जीवोंमें क्षपक प्रकृतियाँ और वैक्रियिक छहके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मूलोघके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी चतुरिन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान है। अचक्षुदर्शनवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मूलोघके समान है। अवधिदर्शनवाले जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी अवधिज्ञानियोंके समान है।

विशेषार्थ—चक्षुदर्शन चतुरिन्द्रिय जीवोंसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थान तक होता है और अचक्षुदर्शन एकेन्द्रिय जीवोंसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थान तक होता है। इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व मूलमें कही गई विधिके अनुसार बन जाता है। अवधिदर्शनीमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी अवधिज्ञानियोंके समान है यह स्पष्ट ही है।

१३६. [किरण०-लील०-काउ० अप्पणो पगदीणं असंजदभंगो । एवरि]
किरण०-लील० तित्थय० जह० द्विदि० कस्स० ? अरण० मणुस० असंजदस०
सव्वविसु० । काउ० एरइ० सव्वविसु० ।

१३७. तेऊए पंचणा०-छदंसणा०-सादावे०-चदुसंज०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-
दुगुं-देवगदि-पसत्थाएक्कीस-उच्चा०-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स० ? अरण०
अपमत्तसंज० सव्वविसु० । थीणगिद्धि०-३-मिच्छत्त-अणंताणुबंधि०-४ जह० द्विदि०
कस्स० ? अरण० मणुस० सव्वविसु० संजमाभिमुह० । असादा०-अरदि-सोग-
अथिर-असुभ-अजस० जह० द्विदि० कस्स० ? अरण० पमत्तसंज० तप्पाओग्ग-
विसुद्ध० । अपच्चक्खाणा०-४ जह० द्विदि० कस्स० ? अरण० मणुस० असंजद०
सागार-जा० सव्वविसु० संजमाभिमुह० । पच्चक्खाणा०-४ जह० द्विदि० कस्स० ?
अरण० मणुस० संजदासंजद० सागारजा० सव्वविसु० संजमाभिमुह० । इत्थि०-

१३६. कृष्ण, नील और कापोत लेश्यामें अपनी अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग असंयतों
के समान है। इतनी विशेषता है कि कृष्ण लेश्या और नील लेश्यावाले जीवोंमें तीर्थंकर
प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मनुष्य जो असंयत सम्यग्दृष्टि है
और सर्वविशुद्ध है वह तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। कापोत लेश्यामें
जो नारकी सर्वविशुद्ध है वह तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है।

विशेषार्थ—कृष्ण, नील और कापोत लेश्या असंयतोंके होती है और असंयतोंमें जघन्य
स्थितिबन्धकी अपेक्षा एकेन्द्रियोंकी नरकायु व देवायुकी अपेक्षा पञ्चेन्द्रियोंकी और नरकगति
छहकी अपेक्षा असंखियोंकी मुख्यता है, इसलिए इन लेश्याओंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य
स्थितिबन्धका स्वामी असंयतोंके समान कहा है। मात्र तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध इन जीवोंके
नहीं होता, इसलिए इसके जघन्य स्थितिबन्धके स्वामीका कथन अलगसे किया है। इतना
अवश्य है कि नरकगतिमें तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जीवके कृष्ण और नील लेश्या
नहीं होती, इसलिए इन लेश्याओंमें तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी असंयत
सम्यग्दृष्टि मनुष्य कहा है और कापोत लेश्यामें नारकी जीव कहा है।

१३७. पीतलेश्यामें पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन,
पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति आदि प्रशस्त इकतीस प्रकृतियाँ, उच्च गोत्र
और पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर अप्रमत्त
संयत जीव जो सर्वविशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। स्त्यान-
गृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन
है ? अन्यतर मनुष्य जो सर्वविशुद्ध है और संयमके अभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य
स्थितिबन्धका स्वामी है। असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति
प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो तत्प्रायोग्य-
विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। अप्रत्याख्यानावरण
चारके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मनुष्य जो असंयत सम्यग्दृष्टि है
साकारजागृत है, सर्वविशुद्ध है और संयमके अभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य
स्थितिबन्धका स्वामी है। प्रत्याख्यानावरण चारके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ?
अन्यतर मनुष्य जो संयतासंयत है, साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है और संयमके अभिमुख

एणुंसं०-एइंदियजादि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थवि०-
थावर-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० जह० द्विदि० कस्स० ? अएण० देवस्स
मिच्छा० तप्पाओग्गविसुद्ध० । दोआयु० जह० द्विदि० कस्स० ? अएण० देवस्स
तप्पाओग्गसंकिलि० । देवायु० जह० द्विदि० कस्स० ? अएण० तिरिक्ख०
मणुस० मिच्छादि० तप्पाओग्गसंकिलि० । मणुसग०-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-
वज्जरिसभ०-मणुसाणु० जह० द्विदि० कस्स० ? अएण० देवस्स सम्मादि० सव्व-
विसु० । एवं पम्माए । एवरि एइंदिय-आदाव-थावरं एत्थि ।

१३८. सुक्काए मणजोगिभंगो । एवरि इत्थि०-एणुंसं०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-
अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचागो० जह० द्विदि० कस्स० ? अएण०
देवस्स मिच्छादि० तप्पाओग्गविसुद्ध० ।

१३९. भवसिद्धि० ओघं । अब्भवसिद्धि० मदिय०भंगो ।

१४०. सम्मादि०-खइग० ओधि०भंगो । वेदगे पंचणा०-छदंसणा०-सादावे०-

है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, एकेन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति स्थावर, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव जो मिथ्यादृष्टि है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। दो आयुओंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव जो तत्प्रायोग्य संकलेश परिणामवाला है वह दो आयुओंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य जो मिथ्यादृष्टि है और तत्प्रायोग्य संकलेशपरिणामवाला है वह देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। मनुष्यगति, औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव जो सम्यग्दृष्टि है और सर्वविशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार पद्म लेश्यामें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इस लेश्याबाले जीवोंके एकेन्द्रिय, आतप और स्थावर प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता।

१३८. शुक्ललेश्यामें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मनोयोगी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इसमें स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव जो मिथ्यादृष्टि है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है।

१३९. भव्य जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी ओघके समान है। अभव्य जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मत्यज्ञानियोंके समान है।

१४०. सम्यग्दृष्टि और ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी अवधिज्ञानियोंके समान है। वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह

चदुसंज०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०-देवगदि-पसत्थएकत्तीस-उच्चागो०-पंचंत०
जह० द्विदि० कस्स० ? अएण० अप्पमत्तसंजद० सव्वविसु० अथवा दंसणामोह-
खवगस्स कदकरणिज्जो होहिदि त्ति । सेसं ओधिभंगो । उवसम० ओधिभंगो ।
एवरि खवगपगदीणं उवसमगे कादव्वं ।

१४१. सासणे पंचणा०-एवदंसणा०-सादावे०-सोलसक०-पुरिस०-हस्स-रदि-
भय०-दुगुं०-पंचिंदिय०-तेजा०-क०-समचदु०-वएण०४-अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-
थिरादिद्वक्क-णिमिण-उच्चागो०-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स० ? अएण० चदुगदि०
सागार-जा० सव्वविसु० । असादा०-इत्थि०-अरदि-सोग-चदुसंठा०-चदुसंध०-अप्प-
सत्थ०-अथिरादिद्वक्क० जह० द्विदि० कस्स० ? अएण० ? चदुगदिय० सागार-जा०
तप्पाओग्गविसु० । तिरिक्खायु०-मणुसायु० जह० द्विदि० कस्स० ? अएण० देव०
एोरइ० तप्पाओग्गसंकिलि० अथवा चदुगदियस्स तप्पाओग्गसंकिलि० ।
देवायु० जह० द्विदि० कस्स० ? अएण० तिरिक्ख० मणुस० तप्पाओ०संकिलि० ।
तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणुपु०-उज्जोव-णीचा० जह० द्विदि० कस्स० ? अएण०

दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति
आदि इकतीस प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी
कौन है ? अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीव जो सर्वविशुद्ध है वह अथवा जो अनन्तर समयमें
कृतकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टि होगा ऐसा दर्शनमोहनीयका क्षपक जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य
स्थितिबन्धका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी अवधिज्ञानियोंके समान
है । उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी अवधि-
ज्ञानियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका
स्वामी उपशामकको कहना चाहिए ।

१४१. सासादनमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, सोलह कषाय,
पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतु-
रस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क; प्रशस्तविहायोगति, अस्र चतुष्क, स्थिर आदि
छह, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन
है ? अन्यतर चार गतिका जीव जो साकार जागृत है और सर्वविशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके
जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । असाता वेदनीय, स्त्रीवेद, अरति, शोक, चार संस्थान,
चार संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छह प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका
स्वामी कौन है ? अन्यतर चार गतिका जीव जो साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध
परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है ।
तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव
और नारकी जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह अथवा चार गतिका जीव जो तत्प्रा-
योग्य संक्लेश परिणामवाला है वह उक्त दोनों आयुओंके जघन्य स्थितिबन्धका
स्वामी है । देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य जो
तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्च-
गति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी

सत्तमाए पुढवीए णेरइ० सव्वविमु० । मणुसग०-ओरालि०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरिसभ०-मणुसाणु० जह० द्विदि० कस्स० ? अएण० देव० णेरइय० सव्वविमु० । देवगदि०४ जह० द्विदि० कस्स० ? अएण० तिरिक्ख० मणुस० सव्वविमु० ।

१४२. सम्मामिच्छा० पंचणा०-छदंसणा०-सादावे०-बारसक०-पुरिस०-हस्सरदि-भय-दुंगु०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वएण०४-अगुरु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिछक्क-णिमिण-उच्चा०-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स० ? अएण० चदुगदियस्स सागार-जा० सव्वविमु० सम्मत्ताभिमुह० । असादावे०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० जह० द्विदि० कस्स० ? अएण० चदुगदियस्स सत्थाणे तप्पाओग्गविमु० । मणुसग०-ओरालि०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरिसभ०-मणुसाणु० जह० द्विदि० कस्स ? अएण० देव० णेरइ० सव्वविमु० सम्मत्ताभिमुह० । देवगदि०४ जह० द्विदि० कस्स० ? अएण० तिरिक्ख० मणुस० सागार-जा० सव्वविमु० सम्मत्ताभिमुह० । मिच्छादिट्ठी० मदि० भंगो । सएण० मणुसभंगो । असएण० तिरिक्खोघं । आहार० मूलोघं । अणाहार० कम्मइगभंगो । एवं जहएणगो समत्तो । एवं सामित्तं समत्तं ।

कौन है ? अन्यतर सातवीं पृथिवीका नारकी जो सर्वविशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । मनुष्यगति, औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन और मनुष्य गत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है ? अन्यतर देव और नारकी जो सर्वविशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है देवगति चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्तर तिर्यञ्च और मनुष्य जो सर्वविशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है ।

१४२. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर चार गतिका जीव जो साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है और सम्यक्त्वके अभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । असाता वेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर चार गतिका जीव जो स्वस्थानस्थित तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । मनुष्य गति, औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव और नारकी जो सर्वविशुद्ध है और सम्यक्त्वके अभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । देवगति चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य जो साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है और सम्यक्त्वके अभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । मिथ्यादृष्टि जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मत्यज्ञानियोंके समान है । संज्ञी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मनुष्योंके समान है । असंज्ञी जीवोंमें तिर्यञ्चोंके समान है । आहारक जीवोंमें मूलोघके समान है और अनाहारक जीवोंमें कार्मण काययोगी जीवोंके समान है । इस प्रकार जघन्य स्वामित्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ ।

बंधकालपरूवणा

१४३. कालं दुविधं—जहणायं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे पंचणा०-एवदंस०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुं०-ओरालिय०-तेजा०-क०-वण०४-अगु०-उव०-णिमि०-पंचतराइगाणं उक्कस्सओ द्विदिवंधो केवचिरं कालादो होदि ? जहणोण एगसमयं, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । अणुक्कस्सद्विदिवं० केवचिरं ? जह० अंतो०, उक्क० अणंतकालं असंखेज्जपोग्गलपरियट्टं । एवरि ओरालि० जह० एगस० । सादासादा०-इत्थि०-एवुंस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-णिरयगदि-एइदि०-बीइदि०-तीइदि०-चदुरिदि०-आहारदुग-पंचसंठा०-पंचसंध०-णिर-याणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थवि०-थावरादि०४-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-दुस्सर-अणादे०-जस०-अजस० उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । पुरिस० उक्क० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणुक्क० द्विदि० जह० एग०, उक्क० बे द्वावट्ठि० सादि० । चदुरणं आयु० उक्क० द्विदि० जहणुक्क० एगस० । अणुक्क० द्विदि० जह० उक्क० अंतो० । एवं याव अणाहारग ति सरिसो कालो । एवरि जोग-कसा-एसु अणुक्क० द्विदि० जह० एग० । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-णीचा० उक्क०

बंधकाल प्ररूपणा

१४३. काल दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार है—ओघ और आदेश । ओघकी अपेक्षा पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका कितना काल है । जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । अनुकृष्ट स्थितिबन्धका कितना काल है ? जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर्काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । इतनी विशेषता है कि औदारिक शरीरके अनुकृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है । सातावेदनीय, असाता वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, नरकगति, एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, आहारक द्विक, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । पुरुष वेदके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अनुकृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर प्रमाण है । चार आयुओंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुकृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणातक चार आयुओंका समानकाल है । इतनी विशेषता है कि योगोंमें और कषायोंमें उनके अनुकृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है । तिर्यञ्जगति, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और

ट्टिदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणुक्क० जह० एग०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । मणुसग०-वज्जरिसभ०-मणुसाणु उक्क० ट्टिदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणुक्क० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० । देवगदि०४ उक्क० ट्टिदि० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । अणुक्क० ट्टिदि० जह० एगस०, उक्क० तिण्णिण पलिदो० सादि० । पंचिदि०-पर०-उस्सास-तस-वादर पज्जत्त-पत्तेय० उक्क० ट्टिदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणुक्क० ट्टिदि० जह० एग०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसदं । समचदु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उक्क० ट्टिदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणु० ट्टिदि० जह० एग०, उक्क० बेछावट्टिसाग० सादि० तिण्णिण पलिदो० देसू० । ओरालि० अंगो० उक्क० ट्टिदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणुक्क० ट्टिदि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । सत्तमादो णिग्गमंतस्स सादिरेयं । तित्थयरं उक्क० ट्टिदि० जह० अंतो०, उक्क० अंतो० । अणुक्क० ट्टिदि० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सादि० ।

उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है। मनुष्यगति, वज्रर्षभनाराच संहनन और मनुष्य-गत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल तैंतीस सागर है। देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल साधिक तीन पत्य है। पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छ्वास, त्रसकाय, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थिति-बन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल एकसौ पचासी सागर है। समचनुरस संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल साधिक दो छयासठ सागर और कुछ कम तीन पत्य है। औदारिक शरीर आज्ञोपाङ्गके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तैंतीस सागर है जो सातवीं पृथ्वीसे निकलनेवाले जीवके साधिक होता है। तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्टकाल साधिक तीन सागर है।

विशेषार्थ—यहां एक जीवकी अपेक्षा कालका विचार किया जा रहा है। साधारणतः सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य परिणाम कमसे कम एक समय तक और अधिक से अधिक अन्तर्मुहूर्त कालतक होते हैं, इसलिए सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। मात्र तीर्थंकर प्रकृति इस नियम-का अपवाद है, क्यों कि उसकी कोई प्रतिपन्न प्रकृति न होनेसे उसके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल भी अन्तर्मुहूर्त है। यहां पर मुख्यरूपसे विचार अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धके कालके सम्बन्धमें करना है। यह हम पहले ही बतला आये हैं कि कुल बन्धयोग्य १२० प्रकृतियाँ

१४४. आदेसेण णेरइएसु पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-
 दुंगु०-तिरिक्खगदि-पंचिदि०-ओरालिय०-तेजा०-क०-ओरालि०-अंगो०-वणण०४-
 हैं और उनमें ज्ञानावरण पाँच आदि सैंतालीस ध्रुवबन्धनी प्रकृतियां हैं। इनमें औदारिक
 शरीरके मिलाने पर कुल ४८ प्रकृतियां होती हैं। इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल
 अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल अनन्तकाल वतलाया है। सो इसका कारण यह है कि उत्कृष्ट
 स्थितिबन्धके बाद इनका कमसे कम अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध अन्तर्मुहूर्त कालतक नियमसे होता
 है तभी पुनः उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य परिणाम होते हैं। पर यदि कोई जीव त्रस पर्यायके
 बिना निरन्तर एकेन्द्रिय पर्यायमें परिभ्रमण करता रहे तो उसे उत्कृष्ट रूपसे अनन्तकाल लगता
 है। तब जाकर वह त्रस होता है और त्रस होनेपर भी संज्ञीपञ्चेन्द्रिय पर्याप्त होनेपर ही इनका
 उत्कृष्ट स्थितिबन्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं। यही कारण है कि इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट
 स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अनन्तकाल कहा है। औदारिकशरीर
 ध्रुवबन्धनी प्रकृति नहीं है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय
 भी बन जाता है। पर एकेन्द्रिय पर्यायमें वैक्रियिक शरीरके बन्धकी योग्यता न होनेसे निर-
 न्तर औदारिकशरीरका ही बन्ध होता रहता है, इसलिए ध्रुवबन्धनी प्रकृतियोंके समान
 इसका भी उत्कृष्टकाल अनन्तकाल कहा है। इसके बाद साता आदि ४१ प्रकृतियोंके
 अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जो जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है। सो
 इसका कारण यह है कि आहारकद्रिकके बिना ये सब प्रतिपन्न प्रकृतियां हैं, इसलिए इनके
 अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है।
 तथा गुणस्थानोंके परिवर्तनके निमित्तसे आहारकद्रिकका भी जघन्य काल एक समय बन
 जाता है। उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त स्पष्ट ही है। कोई जीव बीचमें सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त
 होकर साधिक दो छयासठ अर्थात् १३२ सागरतक सम्यक्त्वके साथ रह सकता है। इसीसे यहां
 पुरुषवेदके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर कहा है, क्योंकि
 इस जीवके न तो पुरुष वेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है और न स्त्री वेद तथा नपुंसक
 वेदका ही बन्ध होता है। आयुओंका उत्कृष्ट त्रिभागके प्रथम समयमें ही उत्कृष्ट स्थितिबन्ध
 होता है, बाकी अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध ही होता है। इसीसे चारों आयुओंके अनुत्कृष्ट स्थिति-
 बन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है। मात्र योग और कषायके परिवर्तनके
 कारण इन मार्गणाओंमें इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय भी बन
 जाता है। अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात लोक
 प्रमाण है। इनके इतने कालतक तिर्यञ्चद्रिक और नीचगोत्रका ही बन्ध होता है। इसी
 से इन तीन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है।
 देवसम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। इसके इतने कालतक मनुष्यद्रिक और
 वज्रर्षभनाराच संहननका नियमसे बन्ध होता है। इसीसे इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थिति-
 बन्धका उत्कृष्टकाल तेतीस सागर कहा है। जो मनुष्य सम्यग्दृष्टि जीव भोगभूमिमें
 जन्म लेता है उसका दोनों पर्यायोंका काल साधिक तीन पल्य होता है। इसके देवगति
 चतुष्कका नियमसे बन्ध होता है। इसीसे इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्टकाल साधिक
 तीन पल्य कहा है। इसी प्रकार शेष रहीं प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धके
 कालका विचार कर लेना चाहिए।

१४४. आदेशसे नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह
 कषाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण

तिरिक्खाणु०-अगुरु०४-तस०४-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० द्विदि० जह० एग०,
 उक्क० अंतो० । अणुक० द्विदि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० । पुरिस०-मणुसग०-
 समचदु०-वज्जरिसभ०-मणुसाणु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उक्क०
 द्विदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणुक० द्विदि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं
 साग० देसू० । तित्थयर० उक्क० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणुक०
 द्विदि० जह० एग०, उक्क०, तिणिसागरो० सादि० । सेसाणं उक्क० अणुक०
 द्विदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं सत्तमाए पुढवीए । एवरि मणुसगदि-
 मणुसाणु०-उच्चा० उक्क० द्विदि० जहणुक० अंतो० । अणु० द्विदि० जह० अंतो०,
 उक्क० तेत्तीसं साग० देसू० । तित्थयरं च वज्ज० । पढमादि छट्ठि ति तिरिक्खग०-
 तिरिक्खाणु-णीचा० सादभंगो । सेसं णिरयोधं । एवरि अप्पणो द्विदि कादव्वं ।
 तित्थयर० उक्क० द्विदि० णिरयोधं । अणु द्विदि० जह० एग०, उक्क० सागरो०
 देसू० तिणिसाग० देसू० तिणिसाग० सादि० ।

शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल तेतीस सागर है। पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभ-नाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुखर, आदेय और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँपर मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। परन्तु यहाँपर तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता। पहिली पृथिवीसे लेकर छठवीं पृथिवीतक तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीच-गोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल सात प्रकृतिके कालके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंका उक्त काल सामान्य नारकियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल सामान्य नारकियोंके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल प्रथमादि तीन पृथिवियोंमें क्रमसे कुछ कम एक सागर, कुछ कम तीन सागर और साधिक तीन सागर प्रमाण है।

विशेषार्थ—सातवें नरकमें पाँच ज्ञानावरण आदि प्रथम दण्डकमें कहीं गई ५९ प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि नारकीके निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। दूसरे दण्डकमें कही गई पुरुषवेद आदि १०

१४५. तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगु०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण०४-अगुरु०४-उप०-एमि०-पंचंत० उक्क० द्विदि० ओघं । अणु० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अणंतकाल० । पुरिस०-देवगदि-वेउविय०-समचदु०-वेउव्वि० अंगो०-देवाणु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उक्क० द्विदि० ओघं । अणु० द्विदि० जह० एग०, उक्क० तिरिणपलिदो० । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणुपु०-णीचा० उक्क० अणु० द्विदि० ओघं । पंचिंदिय-परघादुस्सा०-तस०४ उक्क० द्विदि० ओघं । अणु० द्विदि० जह० एग०, उक्क० तिरिण-पलिदो० सादिरे० । सेसाणं उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

प्रकृतियोंका सातवें नरकके सम्यग्दृष्टि नारकीके निरन्तर बन्ध होता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका तीसरे नरक तक ही बन्ध होता है। उसमें ऐसे जीवको साधिक तीन सागरसे अधिक आयु नहीं प्राप्त होती, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर कहा है। नरकमें बँधनेवाली शेष सब प्रतिपन्न प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। मात्र इनमें उद्योत प्रकृति प्रतिपन्न नहीं है। तथापि इसका निरन्तर बन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होनेसे इसके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका भी उक्क काल कहा है। यह काल सातवीं पृथिवीकी मुख्यतासे कहा गया है इसलिए सातवीं पृथिवीमें यह काल इसी प्रकार घटित होता है। मात्र सातवीं पृथिवीमें मिश्र और अविरत सम्यग्दृष्टि नारकीके केवल मनुष्यद्विक और उच्चगोत्रका बन्ध होनेके कारण इनके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त ही उपलब्ध होता है। शेष कथन सुगम है। इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध तीसरे नरकतक ही होता है।

१४५. तिर्यञ्चगतिमें तिर्यञ्चोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु-चतुष्क, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है। पुरुषवेद, देवगति, वैक्रियिक शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन पत्य है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल ओघके समान है। पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जो उत्कृष्ट काल अनन्तकाल कहा है सो इसका स्पष्टीकरण जिस प्रकार ओघ प्ररूपणाके समय कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। जो बद्ध तिर्यञ्चायु कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टि या क्षायिक सम्यग्दृष्टि मनुष्य तीन पत्यकी आयुवाले तिर्यञ्चोंमें उत्पन्न होता है उसके तिर्यञ्च

१४६. पंचिदियतिरिक्ख०३ धुविगाणं उक्क० द्विदि० आघं । अणु० द्विदि० जह० एग०, उक्क० तिणिणपलिदो० पुव्वकोडिपुधत्तेणभहियाणि । पुरिस०-देवगदि०-वेउव्वि०-समचदु०-वेउव्वि०अंगो-देवाणु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर--आदे०-उच्चा० उक्क० द्विदि० आघं । अणु० जह० एग०, उक्क० तिणिणपलिदो० । जोणिणीसु देसूणं । [पंचिदिय-]पर०-उस्सा०-तस०४ तिरिक्खोघं । सेसाणं उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्त० सव्वपगदीणं उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

१४७. मणुस०३ पंचिदियतिरिक्खभंगो । एवरि पुरिस०-देवगदि०४-पंचिदिय०-

पर्यायमें तीन पत्य कालतक निरन्तर पुरुषवेद आदि ग्यारह प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध नियमसे होता रहता है। इसीसे यहाँ इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल तीन पत्य कहा है। तिर्यञ्चगतित्रिकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघ परु-पणामें जिस प्रकार घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी घटित कर लेना चाहिए। उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है, इसलिए यहाँ उन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान कहा है। पञ्चेन्द्रियजाति आदि सात प्रकृतियोंका उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न होनेवाला तिर्यञ्च साधिक तीन पत्यतक निरन्तर बन्ध करता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१४६. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें ध्रुवबन्ध प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य है। पुरुषवेद, देवगति, वैक्रियिकशरीर, समचतुरस्र-संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन पत्य है। किन्तु योनिनी तिर्यञ्चोंमें इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है। पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्कके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य है। इनके इतने कालतक ध्रुवबन्धनी प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध हो सकता है। इसीसे यहाँ इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। पुरुषवेद आदि प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धके उत्कृष्ट कालका स्पष्टीकरण जिस प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंके कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ जानना चाहिए। मात्र सम्यग्दृष्टि मनुष्य मर कर योनिनी तिर्यञ्चोंमें नहीं उत्पन्न होता, इसलिए इनमें इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य कहा है। शेष कथन सुगम है।

१४७. मनुष्यत्रिकमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इनमें

समचतु०-परघातुस्सा०-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उक्क० ओघं ।
अणु० जह० एग०, उक्क० तिरिणपलिदो० सादि० । एवरि मणुसिणीसु
पुरिसवेद० देवगदि०४-समचतु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उक्क० ओघं ।
अणु० जह० एग०, उक्क० तिरिणपलिदो० देसू० । तित्थय० उक्क० ओघं । अणु०
जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । आहार०-आहार० अंगो० ओघं । मणुसअपज्ज०
पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

१४८. देवगदीए देवेसु पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुं०
मणुसग०-पंचिंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०--समचतु०--ओरालि० अंगो०-वज्जरिसभ०-
वण०४-मणुसाणु०-अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-गिमिण-ति-
त्थय०-उच्चा०-पंचंत० उक्क० ओघं । अणु० द्विदि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० ।
थीणगिद्धि०३-मिच्छत्त-अणंताणुबंधि०४ उक्क० द्विदि० ओघं । अणु० जह० एग०,

पुरुषवेद, देवगति चतुष्क, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोंमें पुरुषवेद, देवगति चतुष्क, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है। तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका काल ओघके समान है। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण है। तथा आहारक शरीर और आहारक आङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है।

विशेषार्थ—मनुष्योंमें जो सम्यग्दृष्टि मनुष्य होते हैं वे मरकर तीन पत्यकी आयुवाले मनुष्योंमें भी उत्पन्न होते हैं। इससे इनमें पुरुषवेद आदि ११ प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थिति-बन्धका उत्कृष्ट काल तिर्यञ्चोंके समान तीन पत्य न कहकर साधिक तीन पत्य कहा है। पर ऐसा जीव मरकर मनुष्यनियोंमें नहीं उत्पन्न होता, इसलिए इनमें इन पुरुषवेद आदि ११ प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य कहा है। यद्यपि ओघसे तीर्थंकर प्रकृतिके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है पर नरकगतिमें और यहां यह काल एक समय कहनेका कारण अन्य है। शेष कथन सुगम है।

१४८. देवगतिमें देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थंकर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कके उत्कृष्ट स्थिति-

उक्क० एकत्तीसं० । सेसाणं उक्क० द्विदि० अणु० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं सव्वदेवाणं अप्पप्पणो द्विदी णादव्वा ।

१४६. ईदियाणुवादेण एइदिएसु धुविगाणं उक्क० ओघं । अणु० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-णीचा० उक्क० अणु० ओघं । सेसाणं उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । बादरे धुविगाणं उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० अंगुलस्स असंखे० । बादरपज्जत्ते संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-णीचा० उक्क० ओघं । अणु० जह० एग० उक्क० कम्मद्विदी । बादरपज्जत्ते संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । सेसाणं एइदियोघं ।

बन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल इकतीस सागर है । तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार सब देवोंके अपनी अपनी स्थितिको ध्यानमें रखकर काल जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरण आदि ५९ प्रकृतियोंका देवोंके मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दोनों अवस्थाओंमें सतत बन्ध होता है इसलिए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्टकाल सामान्य देवोंकी अपेक्षा तेतीस सागर कहा है । तथा दूसरे दण्डकमें कही गई स्त्यानगृद्धि आदि ८ प्रकृतियोंका सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता और देवोंके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल इकतीस सागर है, इसलिए इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल इकतीस सागर कहा है । नौ अनुदिश और पाँच अनुत्तरवासी देवोंके दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका बन्ध ही नहीं होता । हां, प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका बन्ध अबश्य होता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल जिसकी जितनी स्थिति है उतना जानना चाहिए । पर भवनवासी देवोंसे लेकर नौ अव्येयक तकके शेष देवोंके प्रथम और द्वितीय दण्डकमें कही गई सब प्रकृतियोंका बन्ध होता है इसलिए इन सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल जहाँ जो उत्कृष्ट स्थिति हो उतना जानना चाहिए । अब रह गया तीसरा दण्डक सो इसमें कही गई प्रकृतियोंमेंसे जहाँ जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है उनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका सर्वत्र जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त ही है, क्योंकि ये सब प्रतिपन्न प्रकृतियाँ हैं ।

१४९. इन्द्रिय मार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । शेष सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । बादर एकेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्ध वाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवों में इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है । बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें तिर्यञ्चप्रिक प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है । तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल सामान्य एकेन्द्रियोंके समान है ।

१५० बादरअपज्जत्त० तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । सुहुमे धुविगाणं उक्क० ओघं ।
अणु० जह० अंतो०, उक्क० अंगुलस्स असंखे० । एवं तिरिक्खगदितिगं । एववि
अणु० जह० एग० । सुहुमपज्जत्ते सव्वाणं उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।
सुहुमअपज्जत्तेसु धुविगाणं उक्क० ओघं । अणु० जहएणु० अंतो० । सेसाणं उक्क०
अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

१५१. बीइंदि०-तीइंदि०-चदुरिंदि० धुविगाणं उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०,
उक्क० संखेज्जाणि वाससहस्साणि । सेसाणं उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क०

विशेषार्थ—यद्यपि एकेन्द्रियोंकी कायस्थिति अनन्त काल प्रमाण है, तथापि एकेन्द्रियोंके दो भेद हैं—बादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रिय । इनमेंसे बादरोंमें पर्याप्त होने पर एकेन्द्रियोंके योग्य उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है, सूक्ष्म जीवोंमें नहीं । किन्तु यहाँ एकेन्द्रिय सामान्यकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है और सूक्ष्म एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है इसीसे एकेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । तथा इनमें तिर्यञ्जगति, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका निरन्तर बन्ध अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके होता है और इनकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण है । ओघसे इन तीन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल इतना ही कहा है । इसीसे यहाँ इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल ओघके समान कहा है । बादर एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । तथा बादर अग्निकायिक और बादर वायुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति कर्मस्थिति प्रमाण होनेसे बादर एकेन्द्रियोंमें तिर्यञ्जगतित्रिकके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण कहा है, क्योंकि इन प्रकृतियोंका इतने काल तक निरन्तर बन्ध इन्हीं जीवोंके होता है । बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति संख्यात हजार वर्ष है इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली और तिर्यञ्जगतित्रिक के अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्षप्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

१५०. एकेन्द्रिय बादर अपर्याप्तकोंमें तिर्यञ्ज अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है । सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अङ्गुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । इसी प्रकार तिर्यञ्जगतित्रिकका काल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है । सूक्ष्म पर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । सूक्ष्म अपर्याप्तकोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । तथा अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

१५१. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका

अंतो० । एवं पज्जत्तगे वि । अपज्जत्ता० तिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

१५२. पंचिदिय०२ पंचणा०-णवदंस०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण०४-अगुह०-उप०-णिमि०-पंचंत० उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० सागरोवमसहस्साणि पुव्वकोडिपुध० । पज्जत्ते सागरोवमसदपुधत्तं । तिरिक्खगदि-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-तिरिक्खाणु०-णीचा० उक्क० ओघं । अणुक्क० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । सेसाणं मूलोघं । पंचिदियअपज्जत्ते तिरिक्ख-अपज्जत्तभंगो ।

१५३. कायाणुवादेण पुढवि०-आउ० धुविगाणं उक्क० ओघं । अणुक्क० जह० एग०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । बादर० कम्मट्ठिदी० । बादर० पज्जत्ते संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । सेसाणं पगदीणं उक्क० अणु० ट्ठिदि० जह० एग०, उक्क० अंतो ।

जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार इनके पर्याप्त जीवोंमें भी जानना चाहिए। इनके अपर्याप्त जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है।

विशेषार्थ—द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति संख्यात हजार वर्षप्रमाण है, इसीलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्टस्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्षप्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१५२. पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक एक हजार सागर और पर्याप्तकोंमें सौ सागर पृथक्त्व है। तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीच गोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल मूलोघके समान है। पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंकी कायस्थितिको ध्यानमें रखकर कहा है। सातवें नरकमें मिथ्यादृष्टिके तिर्यञ्चगति आदि पाँच प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है और वहाँसे निकलने पर संक्लेश परिणामवश अन्तर्मुहूर्त काल तक इनका बन्ध होना सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१५३. काय मार्गणाके अनुवादसे पृथिवीकायिक और जलकायिक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है। इनके बादर जीवोंमें अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है। बादर पर्याप्त जीवोंमें संख्यात हजार वर्षप्रमाण है। तथा इन सब जीवोंमें शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति-

अपज्जत्तेसु एइंदियअपज्जत्तभंगो । सुहुमाणं सुहुमेइंदियभंगो । एवरि अणु० जह० एग०, उक्क० तिरिक्खगदितिगं सादभंगो । एवं तेउ० वाउ० । एवरि तिरिक्खगदितिगं धुवं कादव्वं । वणप्फदि-णियोदेसु एइंदियभंगो । एवरि तिरिक्खगदितियं सादभंगो । बादरवणप्फदि० बादरपुढवि०भंगो ।

१५४. तस०२ पंचिंदियभंगो । एवरि कायट्टिदी कादव्वा । अपज्जत्ते पंचिंदिय-अपज्जत्तभंगो ।

१५५. पंचमण०-पंचवचि० सव्वपगदीणं उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

१५६. कायजोगीसु पंचणा०-एवदंस०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुं०-ओरा-

बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इनके अपर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके समान है । इनके सूक्ष्म जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल एक समय है । तथा तिर्यञ्चगतित्रिकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल साता प्रकृतिके समान है । इसी प्रकार अशिकायिक और वायुकायिक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके तिर्यञ्चगतित्रिकका ध्रुवबन्ध होता है । वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल एकेन्द्रियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगतित्रिकका भङ्ग साता प्रकृतिके समान है । बादर वनस्पतिकायिक जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल बादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धके उत्कृष्ट कालका खुलासा कर आये हैं उसे ध्यानमें रखकर यहाँ कालका स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए ।

१५४. त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल पञ्चेन्द्रियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि यहाँ इनकी कायस्थिति कहनी चाहिए । इनके अपर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके समान है ।

विशेषार्थ—पहले पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल कह आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए । मात्र यहाँ पाँच ज्ञानावरण आदि ४७ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल क्रमसे पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक दो हजार सागर और दो हजार सागर प्रमाण कहना चाहिए, क्योंकि इन जीवोंकी इतनी ही कायस्थिति है ।

१५५. पाँचों मनयोगी और पाँचों वचनयोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—इन योगोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसीसे इनमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

१५६. काययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय,

लिय०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अणु०-उप०-णिमि० पंचंत० उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० अणंतकालं० । तिरिक्खगदितिगं उक्क० अणु० ओघं । सेसाणं मण-जोगिभंगो । ओरालियका० धुविगाणं उक्क० ओघं । अणु० ट्टिदि० जह० एग०, उक्क० बावीसं वस्ससहस्साणि देसू० । तिरिक्खगदितिगं उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० तिणिण वस्ससहस्साणि देसू० । सेसाणं कायजोगिभंगो ।

१५७. ओरालियमि० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अणु०-उप०-णिमि०-तित्थय०-पंचंतरा० उक्क० अणु०

भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अणुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है। तिर्यञ्चगतित्रिक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल मनोयोगी जीवोंके समान है। औदारिक काययोगवाले जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है। तिर्यञ्चगतित्रिकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्ष है। तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल काययोगी जीवोंके समान है।

विशेषार्थ—काययोगका उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो एकेन्द्रियोंकी मुख्यतासे उपलब्ध होता है। यही कारण है कि काययोगमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल उक्क प्रमाण कहा है। अश्लिकायिक और वायुकायिक जीवोंके निरन्तर तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका नियमसे बन्ध होता है और इनकी कायस्थिति असंख्यातलोक प्रमाण है। इन जीवोंके एक मात्र काययोग होता है यह तो स्पष्ट ही है और ओघसे इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल इसी अपेक्षासे असंख्यात लोक प्रमाण कह आये हैं। यही कारण है कि इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल ओघके समान कहा है। औदारिक काययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है। इसीसे इस योगवाले जीवोंके ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल उक्क प्रमाण कहा है। किन्तु औदारिक काययोगका यह काल पृथिवीकायिक जीवोंके ही उपलब्ध होता है, अश्लिकायिक और वायुकायिक जीवोंके नहीं। उसमें भी अश्लिकायिक जीवकी उत्कृष्ट आयु तीन दिवसमात्र है इसलिए उसकी यहाँ विवक्षा नहीं है। हाँ वायुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट स्थिति अवश्य तीन हजार वर्षप्रमाण है। किन्तु इसमें औदारिक काययोगका काल किञ्चित् न्यून है। तिर्यञ्चत्रिकका इतने काल तक बन्ध औदारिक काययोगमें यहीं पर होता है, इसीसे औदारिक काययोगमें तिर्यञ्चत्रिक प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्षप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

१५७. औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अणुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थकर और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट

जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं देवगदि०४ । अथवा से काले पज्जत्ती गाहिदि
त्ति कीरदि तदो उक्क० जहएणु० एग० । अणु० जह० उक्क० अंतो० । सेसाणं
परियत्तमाणियाणं उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अथवा उक्क०
जहएणु० एग० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

१५८. वेउव्वियका० मणजोगिभंगो । वेउव्वियमिस्स० धुविगाणं तित्थयरस्स
च अथवा पवत्त० उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । से काले सरीरपज्जत्ती
जाहिदि त्ति कीरदि तदो उक्क० जह० एग०, अणु० जह० अंतो० । सेसाणं ओरा-
लियमिस्सभंगो ।

स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार
देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल जानना चाहिए । अथवा तद-
नन्तर समयमें पर्याप्तिको पूर्ण करेगा ऐसे समयमें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है इसलिए
इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अनुत्कृष्ट स्थिति-
बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । तथा शेष परिवर्तनशील प्रकृतियोंके उत्कृष्ट
और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।
अथवा इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है तथा
अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—औदारिकमिश्रकाययोगमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी
कौन है इस प्रश्नका उत्तर दो प्रकारसे दिया गया है । मूलप्रकृति स्थितिबन्ध प्ररूपणामें
स्वामित्वका विचार करते समय यह बतला आये हैं कि जिसके अगले समयमें शरीर पर्याप्ति
पूर्ण होगी ऐसा जीव उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है और इस उत्तरप्रकृति स्थितिबन्ध प्ररू-
पणामें स्वामित्वका विचार करते समय जो कुछ बतलाया है उसका भाव यह है कि जो
उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला या तद्योग्य संक्लेश परिणामवाला औदारिकमिश्रकाययोगी
जीव है वह अपने अपने उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कारण भूत परिणामोंके होनेपर उस प्रकृतिका
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है । इन्हीं दो विचारोंके आधारपर यहाँ उत्कृष्ट स्थितिबन्धका
उत्कृष्ट काल दो प्रकारसे कहा गया है । प्रथम विचारके अनुसार प्रथम दण्डक और दूसरे
दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल केवल एक
समय उपलब्ध होता है और दूसरे विचारके अनुसार वह कमसे कम एक समय और अधिकसे
अधिक अन्तर्मुहूर्त उपलब्ध होता है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

१५८. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध-
का काल मनोयोगी जीवोंके समान है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली और
तीर्थङ्कर प्रकृतिके अथवा प्रवर्तमान प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल
एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अथवा तदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको पूर्ण
करेगा ऐसे समयमें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है इसलिए उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और
उत्कृष्ट काल एक समय है और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त
है । तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल औदारिकमिश्रकाययोग-
वाले जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल दो

१५६. आहार० मणजोगिभंगो । आहारमिस्से धुविगाणं उक्कस्सं अणुक्कस्सं जहणुक्कस्सं० अंतो० । सेसाणं च उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अथवा वेउव्वियमिस्सभंगो ।

१६०. कम्मइग० पंचणा०-एवदंसणा०-सादा०-मिच्छत्त-सोलसक०-एवुंस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-एइदि०-ओरालिय०-तेजा०-क०-हुंडसं०-वण०४-तिरिक्खणु०-अगुरु०४-आदाउज्जो०-थावर-वादर-सुहुम-पज्जत्ता-पज्जत्त-पत्तेय-साधारण-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-दुस्सर-अणादे०--जस०--अजस०-णिमिण-णीचा०-पंचंत० उक्क० जह० एग०, उक्क० बेसम० । अणु० जह० एग०,

प्रकारका क्यों कहा है इसके कारणका निर्देश औदारिकमिश्रकाय योगमें कालका निर्देश करते समय किया ही है उसी प्रकार यहां भी जान लेना चाहिए । आशय यह है कि जब यह माना जाता है कि वैक्रियिक मिश्रकाययोगके सद्भावमें कभी भी उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य परिणाम होनेपर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है तब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है और जब यह माना जाता है कि शरीर पर्याप्तिके पूर्ण होनेके अनन्तर पूर्व समयमें ही उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है, तब इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय प्राप्त होता है । शेष कथन सुगम है ।

१५९. आहारक काययोगवाले जीवोंमें सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल मनोयोगी जीवोंके समान है । आहारकमिश्रकाययोगमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । अथवा यहां भी वैक्रियिकमिश्रकाययोगके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—आहारककाययोगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होनेसे इसमें बन्धको प्राप्त होनेवाली सब प्रकृतियोंका मनोयोगियोंके समान जघन्य और उत्कृष्ट काल क्रमसे एक समय और अन्तर्मुहूर्त कहा है । आहारकमिश्रकाययोगका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसलिए यहां ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त ही उपलब्ध होता है । किन्तु जो ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियां नहीं हैं उनका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है ।

१६०. कार्मणकाययोगवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्ड संस्थान, वर्षाचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, आतप, उद्योत, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है । तथा शेष प्रकृतियोंके त्रसकाय,

उक्क० पणवणणं पलिदो० देसू० । देवगदि०४ उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०,
उक्क० तिण्णिण पलिदो० देसू० । ओरालिय०-पर०-उस्सा०-वादर-पज्जत्त-पत्तेय उक्क०
ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० पणवणणं पलिदो० सादि० । तिथय० उक्क०
जहणुक्क० अंतो० । अणु० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० ।

१६२. पुरिसेसु मणुसग०-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिसभ०-मणुसाणु०-
उक्क० ओघं । अणु० जह० एग० उक्क० तेत्तीसं सा० । सादादीणं इत्थिभंगो ।
धुविगाणं उक्क० ओघो । अणु० जह० एग०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं । सेसं

बन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम पचपन पत्य है। देवगतिचतुष्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है। औदारिक शरीर, परघात, उक्कास, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक शरीर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक पचपन पत्य है। तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि वर्षप्रमाण है।

विशेषार्थ- स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट कायस्थिति सौ पत्य पृथक्त्व प्रमाण है, इसलिए प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरण आदि छयालीस प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल उक्क प्रमाण कहा है क्योंकि ये ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ हैं इसलिए इनका इतने काल तक बन्ध होता रहता है। दूसरे दण्डकमें कही गई साता वेदनीय आदि पैंतालीस प्रकृतियाँ परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं। इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। तीसरे दण्डकमें कही गई पुरुषवेद आदि तेरह प्रकृतियोंका सम्यग्दृष्टिके भी बन्ध होता है और स्त्रीवेदमें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचपन पत्य है इसलिए इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचपन पत्य कहा है। चौथे दण्डकमें कही गई देवगतिचतुष्कका उत्तम भोगभूमिमें सम्यग्दृष्टि अवस्थाके रहते हुए कुछ कम तीन पत्य तक सतत बन्ध होता रहता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य प्रमाण कहा है। पाँचवें दण्डकमें कही गई औदारिक शरीर आदि छह प्रकृतियोंका देवी अवस्थाके मिलने पर निरन्तर बन्ध होता रहता है और देवीकी उत्कृष्ट भवस्थिति पचपन पत्य है। इसलिए इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक पचपन पत्य कहा है। यहाँ साधिक कहनेका कारण यह है कि जो पूर्व पर्यायमें अन्तर्मुहूर्त काल तक इन प्रकृतियोंका बन्ध करता है और तदनन्तर पेशानकल्पमें जाकर देवी होता है उसके यह काल साधिक पचपन पत्य पाया जाता है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१६२. पुरुषवेदवाले जीवोंमें मनुष्यगति, औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। साता आदिक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल स्त्रीवेदी जीवोंके समान है। ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सौ सागर

मूलोघं । एवरि पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० तेवद्विसागरोवमसदं ।

१६३. एणुंसगे धुविगाणं ओरालिय० तिरिक्खगदितियं मूलोघं । सादा-दीणं इत्थिभंगो । पुरिसवेद०-मणुसभ०-समचदु०-वज्जरिसभ०-मणुसाणु०-पसत्थवि०-सुभग०-सुस्सर-आदे० उच्चागो० उक्क० द्विदि० ओघं । अणुक्कस्स० द्विदि० जहएणेण

पृथक्त्व है। तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिबन्धका काल मूलोघके समान है। इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उल्लास, और त्रसचतुष्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है, अनुकृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल एक सौ त्रैसठ सागर है।

विशेषार्थ—देव पर्यायमें तेतीस सागर कालतक मनुष्यगति आदि पाँच प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके अनुकृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्टकाल तेतीस सागर कहा है। साता आदि पैंतालीस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिबन्धके काल का स्पष्टीकरण जिस प्रकार स्त्रीवेदी जीवोंके कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी प्राप्त होता है, इसलिए इनका काल स्त्रीवेदी जीवोंके समान कहा है। पुरुषवेदकी उत्कृष्ट कायस्थिति सौ सागर पृथक्त्व है। इतने कालतक पुरुषवेदमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इनके अनुकृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्टकाल सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण कहा है। यहाँ शेष प्रकृतियाँ २३ रहती हैं जिनके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिबन्धका काल मूलोघके समान जाननेके लिए कहा है सो ओघ प्ररूपणामें इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिबन्धका काल जिस प्रकार घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय जाति आदि ७ प्रकृतियोंके अनुकृष्ट स्थितिबन्धके उत्कृष्ट कालके कथनमें कुछ विशेषता है। ओघसे इन प्रकृतियोंके अनुकृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्टकाल १८५ सागर बतला आये हैं किन्तु पुरुषवेदमें वह १६३ सागर उपलब्ध होता है। यथा—कोई एक मनुष्य द्रव्यलिङ्गी जीव ३१ सागरकी आयुके साथ अन्तिम अवैयकमें उत्पन्न हुआ है। वहाँ भवके अन्तमें उसने-उपशम सम्यक्त्वके साथ वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त किया। पुनः वह वेदक सम्यक्त्वके साथ ६६ सागर कालतक रहकर सम्यग्मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। अनन्तर पुनः वेदक सम्यग्दृष्टि होकर उसके साथ ६६ सागर कालतक रहा। और अन्तमें मिथ्यादृष्टि हो गया। इस प्रकार इस जीवके १६३ सागर कालतक पञ्चेन्द्रिय जाति आदि सात प्रकृतियोंका निरन्तर अनुकृष्ट स्थितिबन्ध होता रहता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके अनुकृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्टकाल १६३ सागर कहा है। शेष कथन सुगम है।

१६३. नपुंसकवेदमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ औदारिक शरीर और तिर्यञ्चगतित्रिक अर्थात् तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्र इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिबन्धका काल मूलोघके समान है। साता आदिक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिबन्धका काल स्त्रीवेदवाले जीवोंके समान है। पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अनुकृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल कुछ कम तेतीस सागर

एगसमयं, उक्कस्सेण तेत्तीसं सागं देसू० । देवगदि०४ उक्कं ओघं । अणु० जह० एग०, उक्कं पुव्वकोडी देसू० । पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-पर०-उस्सा०-तस०४ उक्कं ओघो । अणु० जह० एग०, उक्कं तेत्तीसं सागं सादि० । तित्थय० उक्कं ओघं । अणु० जह० एग०, उक्कं तिण्णिण सागं सादि० ।

१६४. अवगवेदे० सव्वपगदीणां उक्कं अणु० जह० एग०, उक्कं अंतो० ।

१६५. कसायाणुवादेण कोधादि०४ मणजोगिभंगो ।

है । देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटिवर्ष प्रमाण है । पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास और त्रस चतुष्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । तीर्थकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्टकाल साधिक तीन सागर है ।

विशेषार्थ—नपुंसकवेदमें सम्यक्त्वका उत्कृष्टकाल कुल कम तेतीस सागर है । इसीसे यहाँ पुरुषवेद आदि दस प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्टकाल कुछ कम तेतीस सागर कहा है; क्योंकि इन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध इतने कालतक सम्यग्दृष्टिके ही हो सकता है । नपुंसकवेदमें सम्यक्त्वका उत्कृष्टकाल मनुष्य और तिर्यञ्चके कुछ कम पूर्वकोटि वर्षप्रमाण है; इसीलिए यहाँ देवगति चतुष्कके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्टकाल उक्त प्रमाण कहा है, क्योंकि जो नपुंसकवेदी मनुष्य या तिर्यञ्च सम्यग्दृष्टि होता है उसके देवगति चतुष्कके नियमसे बन्ध होता है । पञ्चेन्द्रिय जाति आदि आठ प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहनेका कारण यह है कि जिसने पूर्वभवमें अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहनेपर इन प्रकृतियोंका बन्ध प्रारम्भ किया है और जो मरकर तेतीस सागर आयुके साथ नरकमें उत्पन्न हुआ है उसके उक्त प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर उपलब्ध होता है । तीर्थकर प्रकृतिके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट कालका स्पष्टीकरण जिस प्रकार ओघ परुपणाके समय कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ जान लेना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

१६४. अपगतवेदवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—अपगत वेदका जघन्य काल एक समय है, या जिस जीवने अपगतवेदमें बँधनेवाली प्रकृतियोंका एक समयतक उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध किया और दूसरे समयमें वह मरकर देव हो गया तो अपगतवेदमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय उपलब्ध हो जाता है । इसीसे वह एक समय कहा है । उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि यहाँ एक एक स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

१६५. कषाय मार्गणाके अनुवादसे क्रोधादि चार कषायोंमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल मनोयोगी जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—चारों कषायोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होनेसे यहाँ मनोयोगी जीवोंके समान सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है ।

१६६. मदि०-सुद० ध्रुविगाणं तिरिक्खगदितिगस्स च ओरालि० मूलोघं । सादासा०-सत्तणोक्क०-णिरयगदि-चदुजादि-पंचसंठा०-द्धस्संघ०--णिरयाणु०--आदा-उज्जो०-अपसत्थवि०--थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साधार०--थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-दुस्सर०-अणादे०-जस०-अजस० उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । मणु-सग०-मणुसाणु० उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० एकत्तीसं सा० सादिरे० । देवगदि-वेउव्वियस०-समचदु०-वेउव्वि० अंगो०-देवाणु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उक्क० ओघो । अणु० जह० एग०, उक्क० तिणिए पलि० देसू० । पंचिदि०-ओरालि० अंगो०-पर०-उस्सा०-तस० ४ उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० ।

१६६. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों, तिर्यञ्चगति त्रिक और औदारिक शरीर इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल मूलोघके समान है । साता वेदनीय, असाता वेदनीय, सात नोकषाय, नरकगति, चार जाति, पाँच संस्थान, छह संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर है । देवगति, वैक्रियिक शरीर, समचतुरस्र-संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है । पञ्चेन्द्रिय-जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास और त्रस चतुष्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—ओघसे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अनन्त काल कह आये हैं । यह काल एकेन्द्रियोंकी कायस्थितिकी मुख्यतासे कहा गया है । मत्यज्ञान और श्रुताज्ञानका भी यही काल है । यही कारण है कि इन दोनों अज्ञानोंमें उक्त प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उक्त काल कहा है । एकेन्द्रियोंके औदारिक शरीरका नियमसे बन्ध होता है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका भी यही उत्कृष्ट काल कहा है । जिस मिथ्यादृष्टि मनुष्यने मरणके पूर्व अन्तर्मुहूर्त काल तक मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका बन्ध किया है और मरकर जो अन्तिम ग्रैवेयकमें इकतीस सागरकी आयु-वाला मिथ्यादृष्टि देव होकर इनका बन्ध करता रहता है उसके इन दोनों प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका साधिक इकतीस सागर काल उपलब्ध होता है । इसीसे इन दोनों अज्ञानोंमें उक्त दोनों प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर कहा है । तीन पत्यकौ आयुवाले तिर्यञ्च या मनुष्यके पर्याप्त अवस्थामें देवगति आदि दस प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध होता रहता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य कहा है । जो मिथ्यादृष्टि मनुष्य या तिर्यञ्च मरणके पूर्व

१६७. विभंगे० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुं०-तिरि-
खग०-पंचिदि०-ओरालि०--तेजा०-क०--ओरालि० अंगो०-वण०४-तिरिक्खाणु०-
अगुरु०४-तस०४-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० ओघं । अणु जह० एग०, उक्क०
तेत्तीसं सा० देसू० । मणुसग०-मणुसाणु० उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०,
उक्क० एकत्तीसं सा० देसू० । सेसाणं उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

१६८. आभि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-द्वदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-
दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण०४-अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-
सुस्सर-आदे०-णिमिण-उच्चा०-पंचंत० उक्क० जहणु० अंतो० । अणु० जह० अंतो०,
उक्क० छावट्टिसागरो० सादि० । पच्चक्खाणा०४ उक्क० जह० उक्क० अंतो० । अणु०
जह० अंतो०, उक्क० वादालसागरो० सादि० । सादावे०-हस्स-रदि-आहार०-

अन्तर्मुहूर्त काल तक पञ्चेन्द्रिय जाति आदि आठ प्रकृतियोंका बन्ध कर रहा है और मरकर
तेतीस सागरकी आयुके साथ नरकमें उत्पन्न होनेपर वहाँ भी आयुके अन्तिम समय तक
इनका निरन्तर बन्ध करता रहता है उसकी अपेक्षा उक्त दोनों अज्ञानोंमें इन प्रकृतियोंके
अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१६७. विभङ्गज्ञानमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय,
भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मणशरीर,
औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण,
नीचगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल ओघके समान है ।
अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर
है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल ओघके समान है ।
अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम इकतीस
सागर है । तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय
है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—विभङ्गज्ञानका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । इतने काल तक
इस ज्ञानमें पाँच ज्ञानावरण आदि ५९ प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए
इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । किन्तु मनुष्यगति
और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका सातवें नरकमें मिथ्यादृष्टिके बन्ध नहीं होता, इसलिए इन प्रकृ-
तियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल नौवें प्रवेयकमें विभङ्गज्ञानके उत्कृष्ट कालकी
अपेक्षा कुछ कम इकतीस सागर कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१६८. आभिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह
दर्शनावरण, चार संज्ञलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मण
शरीर, संमचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस-
चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट
स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका
जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक छयासठ सागर है । प्रत्या-
ख्यानावरण चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है
अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक व्यालीस

आहारअंगो०-थिर-सुभ-जस० उक्क० अणु० जहणु० ओघो । असादा०-अरदि-
सोग-अथिर-असुभ-अजस० उक्क० जह० उक्क० अंतो० । अणु० जह० एग०, उक्क०
अंतो० । मणुस०-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिसभ०-मणुसाणु० उक्क० असाद-
भंगो । अणु० जह० उक्क० अंतो० तेतीसं सा० । देवगदि०४ उक्क० असादभंगो ।
अणु० जह० एग०, उक्क० तिणिए पलिदो० सादि० । अपच्चक्खाणा०-४तिथय०
उक्क० अंतो०, अणु० जह० अंतो० । उक्क० तेतीसं साग० सादि० ।

सागर है। साता वेदनीय, हास्य, रति, आहारक शरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग, स्थिर, शुभ और यशःकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल ओघके समान है। असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल असाता प्रकृतिके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल असाता प्रकृतिके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य है। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है।

विशेषार्थ—आभिनिवोधिकज्ञान आदि तीन ज्ञानोंका उत्कृष्ट काल चार पूर्वकोटि अधिक छथासठ सागर होनेसे इन तीन ज्ञानोंमें पाँच ज्ञानावरण आदि पैंतालीस प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक छथासठ सागर कहा है। सम्यग्दृष्टि जीव संयमके बिना असंयम और संयमासंयमके साथ साधिक ब्यालीस सागर तक रहता है और इस कालमें इसके प्रत्याख्यानावरण चारका निरन्तर बन्ध होता रहता है। इसीसे यहां प्रत्याख्यानावरण चारके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक ब्यालीस कहा है। यह काल साधिक दो पूर्वकोटि अधिक ब्यालीस सागर होता है। इसके बाद यह जीव नियमसे संयम को प्राप्त करता है। देवोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है और इस कालके भीतर मनुष्यगति आदि पाँच प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए यहां इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। जो सम्यग्दृष्टि मनुष्य मर कर तीन पल्य की आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होता है उसके अन्तर्मुहूर्त न्यून पूर्वकोटिका त्रिभाग अधिक तीन पल्य काल तक देवचतुष्कका निरन्तर बन्ध होता रहता है। इसीसे यहां इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य कहा है। जो सम्यग्दृष्टि जीव संयमके साथ मर कर तेतीस सागरकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न होता है और वहांसे आकर मनुष्य होता है उसके कुछ कम दो पूर्वकोटि काल अधिक तेतीस सागर काल तक तीर्थंकर प्रकृतिका निरन्तर बन्ध होता रहता है। तथा इसी जीवके देव पर्यायमें और वहांसे च्युत होनेके बाद संयमको प्राप्त होनेके पूर्व समय तक अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका निरन्तर बन्ध होता रहता है। यतः ये दोनों काल साधिक तेतीस सागर होते हैं, इसीसे यहां अप्रत्याख्यानावरण चार और तीर्थङ्कर प्रकृतिके अनुत्कृष्ट स्थिति बन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। यहां शेष कथनका विचार कर काल जान लेना चाहिए। सुगम होनेसे उसका हमने निर्देश नहीं किया।

१६६. मणपज्जव० पंचणा०-द्धदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दुगुं०-देवगदि-
पंचिंदिय०-वेउव्विय०-तेजा०-क०-समचदु०-[वेउव्वि०] अंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-
अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचंत०
उक्क० जह० उक्क० अंतो० । अणु० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । सादावे०-
हस्स-रदि-आहार०-आहार०-अंगो०-थिर-सुभ-जस० उक्क० अणु० ओघं । असादा०-
अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० उक्क० जह० उक्क० अंतो० । अणु० जह० एग०,
उक्क० अंतो० । एवं संजद०-सामाइ०-छेदो०-परिहार० । णवरि परिहारे अणु० जह०
अंतो० । सुहुमसंपरा० अवगदवेदभंगो ।

१६९. मनःपर्ययज्ञानमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद,
भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, सम-
चतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क,
प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और
पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है।
अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि है।
सातावेदनीय, हास्य, रति, आहारकशरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिके
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। असाता वेदनीय, अरति, शोक,
अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल
अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्त-
र्मुहूर्त है। इसी प्रकार संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धि-
संयत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि परिहारविशुद्धिसंयतमें अनुत्कृष्ट
स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है। सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंके अपनी सब प्रकृ-
तियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल अपगतवेदी जीवोंके समान है।

विशेषार्थ—जो मनःपर्ययज्ञानी प्रमत्तसंयत जीव उत्कृष्ट संकलेश परिणामवाला है,
असंयमके अभिमुख है, उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा है और अन्तिम उत्कृष्ट स्थितिबन्धमें
अवस्थित है उसके पाँच ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। यतः
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका यह काल अन्तर्मुहूर्त है, अतः इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका
जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। जो मनःपर्ययज्ञानी जीव उपशमश्रेणिसे
उतरते समय अपने अपने स्थानमें एक समय तक पाँच ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंका बन्ध
करता है और दूसरे समयमें मर कर देव हो जाता है उस मनःपर्ययज्ञानी जीवके उक्त
प्रकृतियोंके स्थितिबन्धका एक समय काल प्राप्त होता है। इसलिए इनके अनुत्कृष्ट स्थिति-
बन्धका जघन्य काल एक समय कहा है। तथा मनःपर्ययज्ञानका उत्कृष्ट काल कुछ कम
पूर्वकोटि होनेके कारण इसमें उक्त प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम
पूर्वकोटिप्रमाण कहा है। असाता वेदनीय आदि तीसरे दर्गकमें कही गई छह प्रकृतियोंके
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी पाँच ज्ञानावरण आदिके समान है, इसलिए इसके उत्कृष्ट
स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। तथा जिस मनःपर्ययज्ञानीने
इनकी बन्धव्युच्छिन्न कर दी और पुनः प्रमत्तसंयत होकर इनका एक समय तक बन्ध
किया और दूसरे समयमें मर कर देव हो गया उसके इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध-

१७०. संजदासंजदे धुविगाणं तित्थयरस्स च उक्क० जहएणु० अंतोमु० ।
अणु० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । सादादिवारस० ओधिभंगो ।

१७१. असंजदे धुविगाणं तिरिक्खगदि-मणुसगदि-देवगदि-ओरालिय०-वेउ-
व्विय०--दोअंगो०--तिणिणआणु०--तित्थय०--णीचागो०--सादादिपरियत्तमाणियाओ
मूलोपं । पुरिसवे०-पंचिदि०-समचटु०-पर०-उस्सा०-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-

का जघन्य काल एक समय प्राप्त होनेसे वह एक समय कहा है। तथा छुटे गुणस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होनेसे इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। संयत, सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंमें इन सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। परिहारविशुद्धि-संयम प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीवोंके ही होता है और इसका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इसमें और सब काल तो पूर्वोक्त प्रकार बन जाता है। मात्र जिन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय कहा है वह नहीं बनता, अतः वह अन्तर्मुहूर्त कहना चाहिए। शेष कथन सुगम है।

१७०. संयतासंयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली और तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण है। साता आदि बारह प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल अवधिज्ञानी जीवोंके समान है।

विशेषार्थ—संयतासंयत गुणस्थानमें ५ ज्ञानावरण, ६ दर्शनावरण, ८ कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और ५ अन्तराय ये ५३ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियां हैं। और जिसके तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध होता है उसके साथ इन ५३ प्रकृतियोंका सतत बन्ध होता है। इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके उत्कृष्ट संकलेशरूप परिणामोंके होने पर अन्तिम उत्कृष्ट स्थितिबन्धमें अवस्थित होने पर होता है और यह अन्तर्मुहूर्त काल तक होता रहता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। तथा संयमासंयमका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण होनेसे इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटि कहा है। साता आदि शेष १२ प्रकृतियां ये हैं—साता वेदनीय, असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति, सो अवधिज्ञानी जीवोंके इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जिस प्रकारसे काल घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकारसे यहां पर भी घटित कर लेना चाहिए।

१७१. असंयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियां तथा तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, देवगति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, तीन आनुपूर्वी, तीर्थङ्कर, नीचगोत्र और साता आदि परावर्तमान प्रकृतियां इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल मूलोपके समान है। तथा पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास,

आदे०-उच्चा० उक्क० द्विदि० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० ।

१७२. चक्खुदं० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खुदं० मूलोघं । ओधिदं० ओधिणाणिभंगो ।

१७३. किएणाए धुविगाणं उक्क० द्विदि० ओघं । अणु० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । सादासादा०-इत्थि०-णवुंस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-णिरय-गदि-[देवगदि]-चदुजादि-वेउच्चि०-पंचसंठा०-वेउच्चि०-अंगो०-पंचसंघ०-णिरयगदि-देवाणुपु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-थावरादि०४-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-दुस्सर-अणादे०-जस०-अजस० उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । पुरिस०-मणु-सग०-समचदु०-वज्जरिसभ०-मणुसाणु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देसू० । तिरिक्खग०-पंचिदि०-ओरालि०-ओरालि०-अंगो०-तिरिक्खाणु०-पर०-उस्सा०-तस०४-[णीचा०] उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । तित्थय० उक्क० अणु० जहणु० अंतो० । एवं णील-काऊणं । एवरि तिरिक्खगदितिगं सादभंगो ।

प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुखर, आदेय और उच्चगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है।

१७२. चक्षुदर्शनवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल त्रसपर्याप्त जीवोंके समान है। अचक्षुदर्शनवाले जीवोंमें मूलोघके समान है और अवधिदर्शनवाले जीवोंमें अवधिज्ञानियोंके समान है।

१७३. कृष्णलेश्यामें भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। साता वेदनीय, असाता वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, नरकगति, देवगति, चार जाति, वैक्रियिक शरीर, पाँच संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, पाँच संहनन, नरकगति प्रायोग्यानुपूर्वी, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुःखर, अनादेय, यशः-कीर्ति और अयशःकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराचसंहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुखर, आदेय, और उच्चगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, तिर्यञ्चगति प्रायोग्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, त्रसचतुष्क और नीचगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार नील लेश्यावाले और कापोत लेश्यावाले जीवोंके जानना

तित्थय० उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणु० जह० उक्क० अंतो० । एवरि काऊए अणु० जह० अंतो०, उक्क० तिएण सा० सादि० ।

१७४. तेऊए धुविगाणं पुरिस०-मणुस०-समचदु०-वज्जरिसभ०-मणुसाणु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क०

चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें तिर्यञ्चगतित्रिकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल साता प्रकृतिके समान है । तीर्थकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि कापोत लेश्यामें अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर है ।

विशेषार्थ—कृष्णलेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर होनेसे इसमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है । सातावेदनीय आदि ४४ प्रकृतियाँ सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ होनेसे इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है । पुरुषवेद आदि १० प्रकृतियोंका सातवें नरकमें सम्यग्दृष्टिके नियमसे बन्ध होता है और वहाँ सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, इसलिए इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है । तिर्यञ्चगति आदि १२ प्रकृतियोंका सातवें नरकमें मिथ्यादृष्टि नारकीके नियमसे बन्ध होता है और यहाँ मिथ्यात्वका उत्कृष्टकाल तेतीस सागर है । तथा जो जीव सातवें नरकमें जानेके सम्मुख होता है उस जीवके नरकमें जानेके पूर्व व निकलनेके पश्चात् एक एक अन्तमुहूर्त कालतक कृष्ण लेश्या ही होती है । इसलिए उक्त प्रकृतियोंका इस कालमें भी बन्ध होता रहता है । यही कारण है कि इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्टकाल साधिक तेतीस सागर कहा है । कृष्ण लेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध मनुष्यके ही सम्भव है और मनुष्यके इसका काल अन्तमुहूर्त है । इसीसे इस प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है । नील लेश्या और कापोत लेश्यामें इसी प्रकार जानना चाहिए । इस कथनका यह आशय है कि नील लेश्या और कापोत लेश्यामें सब प्रकृतियोंका काल अपने अपने कालको ध्यानमें रखकर इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र इन लेश्यावाले नरकोंमें मिथ्यादृष्टिके मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भी बन्ध होता है, इसलिए इन लेश्याओंमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्र इन तीन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल जिस प्रकार साता प्रकृतिका कहा है उसी प्रकार जानना चाहिए, क्योंकि इन लेश्या वाले नरकोंमें इनकी प्रतिपक्षभूत मनुष्यगतित्रिकका भी मिथ्यादृष्टिके बन्ध होता है, इसलिए इनका साता प्रकृतिके समान ही काल उपलब्ध होता है । नील लेश्यामें भी तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध मनुष्यगतिमें ही सम्भव है इसलिए नील लेश्यामें तीर्थकर प्रकृतिके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है । किन्तु कापोत लेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध नरकगतिमें भी होता है, इसलिए इस लेश्यामें इसके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

१७४. पीत लेश्यामें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ, पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्र-संस्थान, वज्रर्षभनाराच संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय

वेसाग० सादि० । तित्थय० उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणु० जह० एग०, उक्क० वेसाग० सादि० । सादादिद्व०-तिरिक्खगदि-देवगदि-एइदि०-वेउच्चि०-आहार०-पंचसंठा०-दोअंगो०-पंचसंघ०-दोआणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-थावर-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-दुस्सर-अणादे०-अजस०-णीचा० उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं पम्माए वि । एवरि अट्टारस सागरोवमाणि सादि० । एइदि० आदाव थावरं वज्ज० ।

१७५. सुक्काए पंचणा०-द्धंसणा०-वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुं०-मणुसग०-पंचिदि०-तिण्णसरीर-समचदु०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरिसभ-[वण्ण]४-मणुसाणु०-अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचंत० उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । एवरि मणुसगदिपंचगस्स अणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० । थीण्णिद्वितियं मिच्छत्तं अणंताणुबंधि०४ उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० एकक्कीसं

और उच्चगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थिति बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल साधिक दो सागर है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल साधिक दो सागर है । साता आदि छह, तिर्यञ्चगति, देवगति, एकेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, आहारक शरीर, पाँच संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयशःकीर्ति और नीचगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार पञ्चलेश्यामें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पद्म-लेश्यामें प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्टकाल साधिक अठारह सागर है । तथा इस लेश्यावाले जीवोंके एकेन्द्रिय जाति, आतप और स्थावर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता ।

विशेषार्थ—पीत और पद्मलेश्यामें अपने अपने कालको ध्यानमें रखकर प्रथम दण्डक में कही गई प्रकृतियोंके व तीर्थङ्कर प्रकृतिके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कहा है । मात्र यह काल सम्यग्दृष्टि जीवके ही प्राप्त होगा । क्योंकि सम्यग्दृष्टिके ही इन प्रकृतियोंका इतने कालतक निरन्तर बन्ध सम्भव है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

१७५. शुक्ललेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, तीनशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक, आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थंकर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति पञ्चकके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल

साग० सादि० । सेसाणं उक्क० अणु० सादभंगो ।

१७६. भवसिद्धि० ओघं । अब्भवसिद्धि० मदि०भंगो । सम्मादिटी० ओधि-
भंगो । खड्गसम्मादि० धुविगाणं उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणु० जह०
अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादिरे० । मणुसगदिपंचगस्स उक्क० ओघं ।
अणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० । देवगदिचदुणं सेसाणं च ओघं ।

१७७. वेदगस० पंचणा०-द्धदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दुगुं०-पंचिदि०-
तेजा०-क०-समचदु०-वण०४-अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-
णिमि०-उच्चागो०-पंचंत०-उक्क० जहणु० अंतो० । अणु० जह० अंतो०, उक्क०

साधिक इकतीस सागर है । तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल साता प्रकृतिके समान है ।

विशेषार्थ—शुक्लेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । इतने काल तक इस लेश्यामें पाँच ज्ञानावरण आदि उनसठ प्रकृतियोंका स्थितिबन्ध होता रहता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है । किंतु मनुष्यगतिपञ्चक अर्थात् मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वी इन पाँच प्रकृतियोंका बन्ध संयत मनुष्यके नहीं होता, इसलिए उक्त कालमें से संयत सम्बन्धी शुक्ल लेश्याके अन्तर्मुहूर्त काल कम कर देनेपर देवगति सम्बन्धी शुक्ल लेश्याका तेतीस सागर काल शेष रहता है । यही कारण है कि इन पाँच प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल केवल तेतीस सागर कहा है । मिथ्यादृष्टि शुक्ल लेश्यावाले जीवका उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर होनेसे स्त्यानगृद्धि आदि आठ प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१७६. भव्य जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । अभव्य जीवोंमें मत्स्यज्ञानी जीवोंके समान है । सम्यग्दृष्टियोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । देवगतिचतुष्क और शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है ।

विशेषार्थ—देवायुका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । इसी बातको ध्यानमें रखकर यहाँ ज्ञायिक सम्यक्त्वमें मनुष्यगतिपञ्चकके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१७७. वेदक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल

झावट्टिसाग० । सेसं ओधिभंगो । एवरि देवगदिचदुक्कं उक्क० जह० उक्क० अंतो० । [अणुक्क० जह० अंतो, उक्क०] तिणिएण पत्तिदो० देसू० ।

१७८. उवसमस० ओधिभंगो । एवरि तित्थय० उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणु० जह० उक्क० अंतो० । सेसं धुविगाणं उक्क० अणु० जह० [उक्क०] अंतो० ।

१७९. सासणे पंचणा०-एवदंस०-सोलसक०-भय-दुगुं०-तिणिएणगदि-पंचि-दिय०-चदुसरीर-समचदु०-दोअंगो०-वएण०४-तिणिएणआणुपु०-अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-णीचुच्चागो०-पंचंत० उक्क० ओधिभंगो । अणु० जह० एग०, उक्क० झावलियाओ । तिरिक्खगदितियं सत्तमाए उक्क० उक्कसं कालं होहिदि त्ति । मणुसग०-ओरालि०-ओरालि०अंगो-मणुसाणु०-अणादे० देवस्स उक्कस्सभंगं भवदि । देवगदि-वेउव्वि०-समचदु०-वेउव्वि०अंगो०-देवाणु०-

छयासठ सागर है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तमुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है ।

विशेषार्थ—उत्तम भोगभूमिमें वेदक सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है । इसी बातको ध्यानमें रखकर यहाँ देवगति चतुष्कके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१७८. उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंके तथा ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—उपशम सम्यग्दृष्टियोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है इस कथनका यह अभिप्राय है कि अवधिज्ञानमें परावर्तमान प्रकृतियोंका काल जिस प्रकार कहा है उस प्रकार उनका काल यहाँ भी कहना चाहिए । शेष यहाँ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों और तीर्थंकर प्रकृतिके विषयमें जो विशेषता है वह यहाँ अलगसे कही ही है ।

१७९. सासादनमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तीन गति, पञ्चेन्द्रिय जाति, चार शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, तीन आनुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, नीचगोत्र, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह आवलि प्रमाण है । तीर्थञ्जगति त्रिकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल सातवीं पृथिवीमें होगा ऐसा यहाँ समझना चाहिए । मनुष्यगति, औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और अनादेय प्रकृतियोंका उत्कृष्ट भंग देवके होता है । देवगति, वैक्रियिक शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त

पसत्थवि०-सुभग-सुस्वर-आदे०-उच्चा० उक्क० असंवेज्जवस्सायुगाणं तिरिक्ख-
मणुसाणुगाणं उक्कस्सभंगं भवदि । सादासादा०-इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-अरदि-
सोग-चदुसंठा०-पंचसंघ०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-दुस्सर-
अणादे०-जस०-अजस० उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

१८०. सम्मामि० पंचणा०-छदंस०-वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुं०-दोगदि-
पंचिदि०-चदुसरीर-समचदु०-दोअंगो०-वज्जरिसभ०-वणण०४-दोआखु०-अगुरु०४-
पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चागो०-णिमि०-पंचंत० उक्क० अणु०
जहणु० अंतो० । सादा०-हस्स-रदि-थिर-सुभ-जस० उक्क० अणु० ओघं ।
असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० उक्क० जहणु० अंतो० । अणु०
ओघं । मिच्छादि० मदिभंगो ।

विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट भङ्ग असंख्यातवर्षकी आयुवाले तिर्यञ्च और मनुष्योंके होता है । साता वेदनीय, असाता वेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, चार संस्थान, पाँच संहनन, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—अवधिज्ञानी जीवोंके पाँच ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण घटित करके बतला आये है उसी प्रकार यहाँ भी उन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल जानना चाहिए । यहाँ एक आवलिसे ऊपर कालकी अन्तर्मुहूर्त संज्ञा है । तथा इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह आवलि है । सो इसका कारण यह है कि सासादन गुण-स्थानका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह आवलि है । यद्यपि इन प्रकृतियोंमें कुछ परावर्तमान प्रकृतियाँ भी हैं पर उनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक अलग अलग गतिके जीव होनेसे यहाँ उनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है । इनके सिवा शेष सब परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं इसलिए उनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

१८०. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, दो गति, पञ्चेन्द्रिय जाति, चार शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, वर्जर्षभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहा-योगति, असचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, उच्चगोत्र निर्माण और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । साता वेद-नीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ और यशःकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति-बन्धका काल ओघके समान है । असाता वेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशः-कीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । तथा अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । मिथ्यादृष्टि जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल मत्यज्ञानी जीवोंके समान है ।

१८१. सण्णो पंचिदियपज्जत्तभंगो । असण्णो धुविगाणं ओरालिं । तिरिक्खगदितिगं च चत्तारि आयुं ओघो । सेसाणं उक्कं अणुं जहं एगं, उक्कं अंतो ।

१८२. आहारं धुविगाणं तिरिक्खगदि-ओरालिं-तिरिक्खाणुं-णीचां उक्कं ओघं । अणुं जहं एगं, उक्कं अंगुलस्स असं । सेसाणं पगदीणं मूलोघं । अणाहारं कम्मइगभंगो । एवं उक्कस्सकालं समत्तं ।

विशेषार्थ—सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इसमें पाँच ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त ही होता है। कारण कि जो मिथ्यात्वके अभिमुख उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला जीव होता है उसके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है और अन्यके अनुत्कृष्ट, इसलिए ये दोनों अन्तर्मुहूर्तसे न्यून नहीं होते। यद्यपि इन प्रकृतियोंमें कुछ परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं पर उनकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक अलग अलग गतिके जीव होनेसे उनका भी वही काल बन जाता है। साता वेदनीय आदि छह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध स्वस्थानमें होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है, क्योंकि एक तो इनका स्वस्थानमें बन्ध होता है और दूसरे ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इस कालके प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती। शेष असाता वेदनीय आदि छह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए उत्कृष्ट संक्लेशवाले जीवके होता है। यतः यह बन्ध अन्तर्मुहूर्त काल तक होता है इसलिए इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। पर ये प्रकृतियाँ भी परावर्तमान हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कहा है।

१८१. संज्ञी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान है। असंज्ञी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ औदारिक शरीर, तिर्यञ्चगति त्रिक और चार आयुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जो काल घटित करके बतला आये हैं उससे संज्ञी जीवोंके कालमें कोई विशेषता नहीं है, इसलिए संज्ञी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१८२. आहारक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल मूलोघके समान है अनाहारक जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल कार्मण काययोगी जीवोंके समान है।

विशेषार्थ—आहारकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी

१८३. जहएणए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे०—पंचणा०-चदुदंस०-पंचंत० जह० द्विदिबन्धो केवचिरं कालादो होदि ? जहएणु० अंतो०, अजह० चदुसंज०-द्विदि० केवचिरं ? तिभंग० । सादि० जह० अंतो०, उक्क० अद्रपोगलपरियट्टं । पंचदंस०-वारसक०-भय-दुगुं० तेजा०-क० वएण०४-अगु०-उप०-णिमि० जह० द्विदि० केवचिरं ? जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । सादा०-[आहारसरीर]-आहार०अंगो०-जस० जह० द्विदि० जहएणु० अंतो० अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । असादा०-इत्थि०-एवुंस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-णिरयग०-चदुजादि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-णिरयाणु०-आदाउज्जो०-अप्प-सत्थवि०-थावरादि०४-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-दुस्सर-अणादे०-अजस० जह० 'अजह० जह० एग०, उक्क० अंतो० । पुरिस० जह० जहएणु० अंतो० । अज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० वेळावट्टिसाग० सादि० ।

बातको ध्यानमें रखकर यहां प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ ।

जघन्य बन्धकाल

१८३. जघन्य कालका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघकी अपेक्षा पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पांच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका कितना काल है । जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका कितना काल है ? अजघन्य स्थितिबन्धके तीन भङ्ग हैं—अनादि अनन्त, अनादि सान्त और सादि सान्त । उनमेंसे सादि सान्त अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्द्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । पाँच दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरु-लघु, उपघात और निर्माण प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है । साता वेदनीय, आहारक शरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग और यशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असाता वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, नरकगति, चार जाति, पांच संस्थान, पांच संहनन, नरकगत्यानु-पूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और अयशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । पुरुषवेदके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर है ।

१८४. चदुगणं आयुगाणं जह० द्विदि० जहणणु० एग० । अज० जहणणु० अंतो । एवं सच्चत्थ योग-कसायमग्गणाओ वज्ज० । तिरिक्खग०-ओरालि०-तिरिक्खाणु०-णीचा० जह० जह० एग०, उक्क० अंतो । अज० जह० एग०, उक्क० असंजा लोगा । मणुसग०-वज्जरि०-मणुसाणु० जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अंतो । अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० । देवगदि०४ जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अंतो । अज० जह० एग०, उक्क० तिण्णिण पलिदो० सादिरे० । पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अंतो । अज० जह० एग०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसदं । समचदु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे० जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अंतो । अजह० जह० एग०, उक्क० वेद्धावट्टिसा० सादि० तिण्णिण पलिदो० देसू० । ओरालि०-अंगो० जह० जह० एग०, उक्क० अंतो । अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । तित्थय० जह० द्विदि० जह० उक्क० अंतो । अज० जह० अंतो, उक्क० तिण्णिण सा० सादि० । उच्चा० जह० द्विदि० जह० उक्क० अंतो । अज०

१८४. आयुर्कर्मकी चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । योग और कषाय मार्गणाओंको छोड़कर आयुर्कर्मके विषयमें इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए । तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है । मनुष्यगति, वज्रर्षभनाराच संहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । देवगति चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है । पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उल्लास और त्रस चतुष्क प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एकसौ पचासी सागर है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्सर और आदेय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर और कुछ कम तीन पत्योपम है । औदारिक शरीर आज्ञोपाङ्ग प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । तीर्थकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर है । उच्चगोत्रके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

१. मूलप्रतौ अंतो० अज० जह० एग० उक्क० अंतो० अज० इति पाठः । २. मूलप्रतौ उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० इति पाठः ।

द्विदि० जह० एग०, उक्क० बेछावद्विसा० सादि० तिरिण पलिदो० देसू० ।

अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर और कुछ कम तीन पत्य है ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरण आदि १८ प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपक श्रेणिमें अन्तिम स्थितिबन्धके समय होता है, इसलिए उनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । इन प्रकृतियोंका अजघन्य स्थितिबन्ध अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त तीन प्रकारका होता है । जो अन्य ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ हैं उनका भी इसी प्रकारसे तीन प्रकारका बन्ध होता है । उनमेंसे यहाँ सादि-सान्त अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल कहा गया है । जब यह अजघन्य स्थितिबन्ध अन्तर्मुहूर्तकाल रहकर पुनः श्रेणि पर आरोहण करनेसे छूट जाता है तब इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त उपलब्ध होता है और यदि कुछ कम अर्धपुद्गल काल तक यह जीव श्रेणि पर नहीं चढ़ता है तो इनके अजघन्य स्थितिबन्धका उक्त प्रमाण उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है । इसीसे इन प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण कहा है । पाँच दर्शनावरण आदि २८ प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवके होता है । यहाँ जघन्य स्थितिबन्ध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । इन प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि एक बार जघन्य स्थितिबन्धके योग्य परिणाम होनेके बाद वे पुनः कमसे कम अन्तर्मुहूर्त वाद होते हैं और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, क्योंकि बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण है । यही कारण है कि इन प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । सातावेदनीय आदि चार प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपकश्रेणिमें अपने अपने अन्तिम स्थितिबन्धके अन्तर्मुहूर्त काल तक होता रहता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । जो जीव उपशमश्रेणिसे उतरते समय आहारकद्विकका एक समयके लिए बन्ध करता है और दूसरे समयमें मरकर वह देव हो जाता है उसके आहारकद्विकके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय उपलब्ध होता है । तथा इनके अजघन्य स्थिति बन्धका उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त ही है, क्योंकि एक तो ये सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं और दूसरे सातवें और आठवें गुणस्थानका उत्कृष्ट काल ही अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए तो इन दोनों प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है और साता व यशःकीर्ति ये सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ होनेसे इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है, क्योंकि साता वेदनीय और यशःकीर्तिका एक समयके लिए अजघन्य स्थितिबन्ध हुआ और दूसरे समयमें इनके स्थानमें असातावेदनीय व अयशःकीर्तिका स्थितिबन्ध होने लगा तो इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है और यदि इनका निरन्तर स्थितिबन्ध होता रहा तो वह अन्तर्मुहूर्त काल तक ही होगा । इसके बाद इसके स्थितिबन्धका काल समाप्त हो जानेके कारण नियमसे इनका स्थान इनकी प्रतिपत्तभूत प्रकृतियाँ ले लेंगी । इसलिए साता-वेदनीय और यशःकीर्तिके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । असातावेदनीय आदि ३८ प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य

१८५. आदेसेण एरइगा० धुविगाणं जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० वेसम० ।
 अजह० द्विदि० जह० दसवस्ससहस्साणि विसमयूणाणि, उक्क० द्विदि० तेत्तीसं
 स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त इसलिए कहा है, क्योंकि
 सामान्यतः इनके बन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है ।
 पुरुषवेद क्षपक प्रकृति है और क्षपक श्रेणिमें एक एक स्थितिबन्ध अन्तमुहूर्त काल तक
 होता रहता है, इसलिए इसके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त
 कहा है । इसके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय इसके प्रतिपक्ष प्रकृति
 होनेसे है और नपुंसकवेद व स्त्रीवेदकी प्रथम व द्वितीय गुणस्थानमें बन्ध व्युच्छित्ति हो
 जानेके बाद जीव साधिक दो लुथासठ सागर काल तक आगेके गुणस्थानोंमें बना रहनेसे
 इतने काल तक सतत इसका नियमसे बन्ध करता रहता है, इसलिए इसके अजघन्य
 स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक दो लुथासठ सागर कहा
 है । आयुर्कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध एक समय तक और अजघन्य स्थितिबन्ध अन्तमुहूर्त
 तक होता है ऐसा नियम है इसलिए चारों आयुर्ओंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल
 एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है किन्तु योग और कषाय मार्गणामें इनके
 जघन्य स्थितिबन्धकी तरह अजघन्य स्थितिबन्धका भी जघन्य काल एक समय बन जाता
 है, क्योंकि किसी भी जीवके किसी एक कषाय और योगमें एक समय तक आयुका
 अजघन्य स्थितिबन्ध होकर दूसरे समयमें उसके उस योग और कषायका बदल जाना
 सम्भव है । अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात लोक-
 प्रमाण है, इसलिए तिर्यञ्चगति आदि चार प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल
 असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । इनके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक
 समय और जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त होनेका कारण इन प्रकृतियोंका
 सप्रतिपक्ष होना है । आगे भी यथासम्भव यह काल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए ।
 सर्वार्थसिद्धिके देव अपनी आयुके प्रथम समयसे लेकर अन्त तक मनुष्यगति आदि तीन
 प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करते रहते हैं, इसलिए इनके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट
 काल तेतीस सागर कहा है । जो मनुष्य सम्यग्दृष्टि देवगतिचतुष्कका नियमसे बन्ध कर
 रहा है उसके तीन पत्यकी आयुवाले जीवोंमें उत्पन्न होने पर भी उनका बन्ध होता रहता
 है, इसलिए इनके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य कहा है । पञ्चे-
 न्द्रिय जाति आदि सात प्रकृतियोंके स्थितिबन्धका स्वभावसे जघन्य काल एक समय और
 उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय
 और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त व अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय कहा है ।
 देवगति और नरकगतिमें इनका नियमसे बन्ध होता है, तिर्यञ्चगतिमें दूसरे गुणस्थानसे
 लेकर पाँचवें गुणस्थान तक नियमसे बन्ध होता है और मनुष्यगतिमें दूसरे गुणस्थानसे
 लेकर अपनी अपनी बन्ध व्युच्छित्ति होने तक इनका नियमसे बन्ध होता है । अब यदि
 इन गतियों और इन प्रकृतियोंके बन्धके योग्य अवस्थाका विचार कर इनके बन्धके
 उत्कृष्ट कालका योग किया जाय तो वह एक सौ पचासी सागरसे अधिक नहीं
 होता, इसीसे यहाँ इनके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल एक सौ पचासी
 सागर कहा है ।

१८५. आदेशसे नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य
 काल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल दो

सा० । थीणगिद्धितिय-मिच्छत्त-अणंताणुबंधि४-तिरिक्खग०--तिरिक्खाणु०--णीचा०
 जह० [जह०] एग०, उक्क० वे सम० । अज० द्विदि० जह० एग०, मिच्छत्तं
 अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० । पुरिस०-मणुसग०-समचदु०-वज्जरिसभ०-मणुसाणु०-
 पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० वे सम० ।
 अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देसू० । तित्थय० जह० द्विदि० जह०
 एग०, उक्क० अंतो० । अज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० तिण्ण साग० सादि० ।
 सेसाणं जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० वे समयं । अज० द्विदि० जह० एग०,
 उक्क० अंतो० । एवं पढमाए । एवरि तिरिक्खगदितिगं सादभंगो । पुरिस०-
 [मणुसग०-समचदु०-वज्जरिसभ०-मणुसाणु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा०]-
 तित्थय० सागरोवमं देसूणं । धुविगाणं सागरोवम० ।

समय कम दस हजार वर्ष है और उत्कृष्टकाल तेतीस सागर है। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है किन्तु मिथ्यात्वका अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्टकाल सबका तेतीस सागर है। पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्र संस्थान, वज्रर्षभनाराच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल साधिक तीन सागर है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है। इसी प्रकार पहिली पृथिवीमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगति त्रिकके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका काल साता प्रकृतिके समान है। पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय, उच्चगोत्र और तीर्थकर प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक सागर है तथा भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल एक सागर है।

विशेषार्थ—असंज्ञी जीव मरकर नरकमें उत्पन्न होता है और ऐसे जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें या प्रथम व द्वितीय समयमें जघन्य स्थिति हो सकता है। इसीसे यहाँ सामान्यकी अपेक्षा व प्रथम नरकमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके सिवा शेष सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। तथा इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल अपनी-अपनी बन्धकी योग्यतानुसार अलग-अलग है यथा—भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका सतत बन्ध होता रहता है और नरककी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष व उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर है। इसीसे इन प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल दो समय कम दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। यहाँ इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल दो समय

१८६. विदियादि याव छट्टि त्ति थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४
जह० द्विदि० जहरणु० अंतो० । अज० जह० एग०, मिच्छ० अंतो०, उक्क०
अप्पप्पणो द्विदी० । सेसाणं जह० अज० उक्क० भंगो । सत्तमाए थीणगिद्धि०३
मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-तिरिक्खगदितिगं जह० द्विदि० जह० उक्क० अंतो० ।

कम करके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल कहा गया है। जो स्त्यानगृद्धि तीन, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, तिर्यञ्जगति, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंका एक समयतक बन्ध करता है और दूसरे समयमें मरकर अन्यगतिमें चला जाता है उसके इन प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है। नरकमें मिथ्यात्व गुणस्थानका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए मिथ्यात्व प्रकृतिके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त उपलब्ध होता है। इन प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है। इसीसे इन प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। पुरुषवेद आदि १० प्रकृतियाँ सप्रतिपक्ष हैं और इनका कमसे कम एक समयतक बन्ध होता है ऐसा नियम है इसलिए इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय कहा है। तथा सम्यग्दृष्टि नारकी इनका नियमसे बन्ध करता है और नरकमें सम्यक्त्वका काल कुछ कम तेतीस सागर है, इसलिए इनके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, इसलिए इनके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। जिस नारकीने तीर्थङ्कर प्रकृतिका एक समयतक जघन्य स्थितिबन्ध किया और दूसरे समयमें वह जघन्य स्थितिबन्ध करने लगा उसके इसके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है और नरकमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका निरन्तर बन्धकाल साधिक तीन सागर है यह स्पष्ट ही है। इसीसे यहां इस प्रकृतिके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर कहा है। अब रहीं शेष प्रकृतियाँ सो उनके निरन्तर बन्धका यहां जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होनेसे यह काल उक्त प्रमाण कहा है। प्रथम नरकमें सब काल इसी प्रकार बन जाता है। किन्तु कुछ विशेषता है। यथा—प्रथम नरकमें तिर्यञ्जगति त्रिकके बन्धके समय इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका भी बन्ध सम्भव है, इसलिए साता प्रकृतिके समान इनके अजघन्य स्थितिबन्ध का जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त उपलब्ध होनेसे यह काल साता प्रकृतिके समान कहा है। प्रथम नरककी उत्कृष्ट स्थिति एक सागर है किन्तु यहां वेदक सम्यक्त्वका काल कुछ कम एक सागर है, इसलिए यहां पुरुषवेद आदि १० और तीर्थङ्कर प्रकृतिके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक सागर कहा है। किन्तु ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका मिथ्यात्व गुणस्थानमें निरन्तर बन्ध होता है इस लिए इनके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल एक सागर कहा है।

१८६. दूसरी पृथिवीसे लेकर छठवीं पृथिवी तकके नारकियोंमें सत्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है किन्तु मिथ्यात्वका अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। तथा शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका काल उत्कृष्टके समान है। सातवीं पृथिवीमें स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और तिर्यञ्जगति त्रिकके जघन्य स्थितिबन्धका

अज० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० । मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा०
जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं
सा० देसू० । सेसं उक्क० भंगो । एवरि धुविगाणं अज० जह० अंतो० ।

१८७. तिरिक्खेसु पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुं०-तिरि-
क्खग०-ओरालि०-तेजा०-क०-वणण०४-तिरिक्खाणु०-अगुरु०-उप०-णिमि०-णीचा०-
पंचंत० जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० जह० एग०, उक्क०
असंखेज्जा लोगा । सेसाणं जह० अज० द्विदि० उक्कस्सभंगो । पंचिदियतिरिक्ख०३
सव्वपगदीणं जह० अज० उक्कस्सभंगो । पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्ता० सव्वपगदीणं
जह० अज० उक्कस्सभंगो ।

जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त
है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्र प्रकृतियोंके
जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य
स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । तथा
शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका काल उत्कृष्टके समान है । इतनी विशे-
षता है कि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—सम्यक्त्वके अभिमुख हुए द्वितीयादि पृथिवीके नारकीके अन्तिम स्थिति-
बन्धमें अवस्थित होने पर स्त्यानगृद्धि आदि आठ प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध होता है ।
इसका काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए यहां इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और
उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । सातवीं पृथिवीमें इन प्रकृतियोंके व तिर्यञ्चगति त्रिकके
जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त इसी प्रकार घटित कर लेना
चाहिए । सातवीं पृथिवीमें जो असंयत सम्यग्दृष्टि स्वस्थानमें मनुष्यगति आदि तीनका कमसे
कम एक समयतक और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त काल तक जघन्य स्थितिबन्ध करता
है उसके इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल
अन्तर्मुहूर्त उपलब्ध होता है, इसलिए इन प्रकृतियोंका यह काल उक्त प्रमाण कहा है । तथा
इन प्रकृतियोंका अजघन्य स्थितिबन्ध कमसे कम अन्तर्मुहूर्त काल तक और अधिकसे
अधिक यहां तीसरे व चौथे गुणस्थानका काल मिलाकर अधिकसे अधिक जितना होता है
उतने काल तक होता है, इसलिए अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और
उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१८७. तिर्यञ्चोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय,
जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्या-
नुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य
स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थिति-
बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल असंख्यात लोक प्रमाण है । शेष प्रकृ-
तियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यच-
त्रिकमें सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । तथा
पञ्चेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका काल
उत्कृष्टके समान है ।

१८८. मणुस०३ खवगपगदीणं धुविगाणं जह० द्विदि० ओघं । अज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० तिणिण पलि० पुव्वकोडिपुधत्तं । पंचदंस०-वारसक०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगुरु०-उप०-णिमि० जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । अज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० उक्कस्सभंगो । सादावे०-आहार०-आहार०अंगो०-जस० जह० अज० ओघं । असादा०-इत्थि०-णवुंस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-तिरिक्खवग०-मणुसग०-चदुजादि-ओरालि०अंगो०-इस्संध०-दोआणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थवि०-थावरादि०४-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-दुस्सर-अणादे०-अजस०-णीचागो० जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० बेसमयं । अज० द्विदि० उक्कस्सभंगो । मिच्छ० जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । अज० द्विदि० जह० सुद्धाभ० विसमयूणं अंतो०, उक्क० उक्कस्सभंगो । समचदु०-पसत्थ०-सुभग०-सुस्सर-आदे० जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० बे समयं । अज० जह० एग०, उक्क० तिणिण पलिदो० सादि० । मणुसिणीसु देसू० ।

विशेषार्थ—यह हम अनेक बार बतला आये हैं कि तिर्यञ्चोंमें सूक्ष्म जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात लोक प्रमाण है । इसके बाद जीव नियमसे बादर और पर्याप्त होकर जघन्य स्थितिबन्ध करता है । इसीसे यहां पाँच ज्ञानावरण आदिकी अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१८८. मनुष्यत्रिकमें क्षपक ध्रुव प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य है । पाँच दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मण-शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माण प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट कालका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । सातावेदनीय, आहारकशरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग और यशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । असातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, तिर्यञ्च-गति, मनुष्यगति, चार जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीर्ति और नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । तथा अजघन्य स्थितिबन्धका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । मिथ्यात्वके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल सामान्य मनुष्योंमें दो समय कम क्षुल्लक भवग्रहण प्रमाण और शेष दो में अन्तर्मुहूर्त है । तथा उत्कृष्ट कालका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है । पर मनुष्यनिर्योमें उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है । पुरुषवेद, देवगति चतुष्क और उच्च-

पुरिस०-देवगदि४-उच्चा० जह० द्विदि० जह० उक्क० अंतो० । अज० जह० एग०,
 उक्क० तिणिण पलिदो० सादि० । मणुसिणीसु देसू० । णिरयगदि-णिरयाणुपु०
 जह० अज० उक्कस्सभंगो । पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ जह० द्विदि० जह०
 एग०, उक्क० बेसम० । अज० जह० एग०, उक्क० तिणिण पलिदो० सादि० ।
 तित्थय० जह० द्विदि० ओघं । मणुसिणीसु तित्थय० जह० द्विदि० जह० एग०,
 उक्क० अंतो० । अज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० पुन्वकोडी देसू० ।

१८६. मणुसअपज्ज० धुविगाणं जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० बे सम० ।
 अज० जह० खुद्धाभव० विसमयूणं, उक्क० अंतो० । सेसाणं जह० एग०, उक्क०
 बे समयं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

गोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है पर मनुष्यनियोंमें कुछ कम तीन पत्य है । नरकगति और नरकगत्यानुपूर्विके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छ्वास और त्रस चतुष्क प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । पर मनुष्यनियोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण है ।

१८६. मनुष्य अपर्याप्तकोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल दो समय कम क्षुल्लकभव ग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—यहां क्षपक प्रकृतियोंसे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, और पाँच अन्तराय इन १८ प्रकृतियोंका ग्रहण किया है । मनुष्यत्रिकके उनकी उत्कृष्ट काय-स्थिति प्रमाण काल तक इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इनके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य कहा है । समचतुरस्रसंस्थान आदि पाँच और पुरुषवेद आदि छह प्रकृतियोंका सम्यग्दृष्टि मनुष्यके निरन्तर बन्ध होता रहता है । इसीसे यहां मनुष्यसामान्य और पर्याप्त मनुष्यके इन प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य और मनुष्यनीके कुछ कम तीन पत्य कहा है । पञ्चेन्द्रिय जाति आदि सात प्रकृतियोंका सम्यग्दृष्टि मनुष्यके तो निरन्तर बन्ध होता ही है पर जो मनुष्य भोगभूमिमें उत्पन्न होते हैं उनके अन्तर्मुहूर्त काल पूर्वसे भी इनका बन्ध होनेमें कोई बाधा नहीं आती । इसीसे इन प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य कहा है । यह काल सामान्य मनुष्य और पर्याप्त मनुष्योंमें कुछ कम एक पूर्वकोटिका त्रिभाग अधिक तीन पत्य प्रमाण जानना चाहिए और मनुष्यनियोंमें अन्तर्मुहूर्त अधिक तीन पत्य जानना चाहिए । तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला मनुष्य मर कर मनुष्योंमें

१६०. देवेषु पंचणा०-छंदंसणा०-बारसक०-भय-दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-
वरण०४-अगुरु०४-बादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि०-पंचंत० जह० जह० एग०, उक्क०
बे सम० । अज० द्विदि० जह० दस वस्ससहस्साणि विसमयूणाणि, उक्क०
तेत्तीसं सा० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४ जह० द्विदि० जह० एग०,
उक्क० बे सम०, अज० जह० एग०, मिच्छ० अंतो०, उक्क० एकत्तीसं सा० ।
पुरिस०-मणुसग०-पंचिदि०--समचदु०--ओरालि०अंगो०--वज्जरिसभ०--मणुसाणु०--
पसत्थवि०-तस-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० जह० जह० एग०, उक्क० बेसम० ।
अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० । तित्थय० जह० अज० द्विदि० उक्कस्स-
भंगो । सेसाणं जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० बेसम० । अज० उक्कस्सभंगो ।

१६१. एवं भवण०-वाणवे० । एवरि सगट्टिदी भाणिदव्वा । जोदिसि याव
एवगेवज्जा त्ति जह० अज० द्विदि० उक्कस्सभंगो । एवरि थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-
अणंताणुबंधि०४ जह० जह० उक्क० अंतो० । अज० जह० एग०, मिच्छ० अंतो०,
उक्क० अप्पणो द्विदि त्ति । एवं एदेव्वं सव्वट्ट त्ति ।

नहीं उत्पन्न होता । इसीसे यहाँ तीर्थङ्कर प्रकृतिके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ
कम एक पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण कहा है । शेष काल विचार कर जान लेना चाहिए ।

१९०. देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक
शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण
और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट
काल दो समय है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल दो समय कम दस हजार वर्ष है
और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके
जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य
स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है, मिथ्यात्वका अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल सबका
इकतीस सागर है । पुरुषवेद, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक
आङ्गोपाङ्ग, वज्रभनोराच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, सुभग,
सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है
और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और
उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका
भङ्ग उत्कृष्टके समान है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक
समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । तथा अजघन्य स्थितिबन्धका भङ्ग उत्कृष्टके
समान है ।

१९१. इसी प्रकार भवनवासी और व्यन्तर देवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता
है कि इनमें अपनी स्थिति कहनी चाहिए । ज्योतिषियोंसे लेकर नौ ग्रैवेयक तकके देवोंमें
जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि स्त्यान-
गृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य
और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है,
मिथ्यात्वका अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । इसी प्रकार
सर्वार्थसिद्धि तक जानना चाहिए ।

१६२. एइंदिएसु धुविगाणं तिरिक्खगदितिगं च तिरिक्खोघं । सेसाणं तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । बादरे धुविगाणं अंगुलस्स असंखे० । तिरिक्खगदितिगं जह० ओघं । अज० जह० एग०, उक्क० कम्मट्टिदी० । बादरपज्ज० अज० ट्टिदि० जह० एग०, उक्क० संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । एवं तिरिक्खगदितिगं पि । सेसाणं जह० अज० ट्टिदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । बादरअपज्ज० तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । सुहुमे धुविगाणं जह० ट्टिदि० तिरिक्खोघं । अज० जह० एग०, उक्क० अंगुलस्स असंखे० । एवं तिरिक्खगदितिगं । सेसाणं जह० अज० ट्टिदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । पज्जत्तापज्जत्तेसु सव्वपगदीणं तिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरण आदि ४५ प्रकृतियोंका देवोंके निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए यहाँ इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल दो समय कम दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। मिथ्यात्वके साथ देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति इकतीस सागर है। इसीसे यहाँ स्त्यानगृद्धि तीन आदि आठ प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल इकतीस सागर कहा है। देव सम्यग्दृष्टिके पुरुषवेद आदि तेरह प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है। इसीसे यहाँ इनके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। असंज्ञी जीव भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें ही मरकर उत्पन्न होता है, इसलिए देव सामान्यकी अपेक्षा यहाँ जो काल कहा है वह उनमें भी घटित हो जाता है। मात्र अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कहते समय वह उनकी भवस्थिति-प्रमाण ही कहना चाहिए, क्योंकि देव सामान्यमें यह काल देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिको ध्यानमें रखकर कहा है। शेष कालका स्पष्टीकरण जिस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कालके कथनके समय किया है उसी प्रकार यहाँ पर भी कर लेना चाहिए।

१९२. एकेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ और तिर्यञ्चगति त्रिकका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है। बादर एकेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तिर्यञ्चगति त्रिकके जघन्य स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कर्मस्थिति प्रमाण है। बादर पर्याप्तकोंमें अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। इसी प्रकार तिर्यञ्चगतित्रिकका काल भी जानना चाहिए। शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। बादर अपर्याप्तकोंमें तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान जानना चाहिए। सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका काल सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। इसी प्रकार तिर्यञ्चगतित्रिकका काल जानना चाहिए। शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है।

१६३. बेइं०-तेइं०-चदुरिं० तस्सेव पज्जत्तापज्ज० उक्कस्सभंगो । पंचिदिय०२ खवगपगदीणं ओघं । सेसाणं उक्कस्सभंगो । एवरि धुविगाणं अज० जह० अंतो०, उक्क० कायट्टिदी० । पंचिदियअपज्जत्ता उक्कस्सभंगो ।

१६४. पंचकायाणं सव्वपगदीणं उक्कस्सभंगो । एवरि यम्हि अंतो० तम्हि जह० एग० कादव्वं ।

१६५. तस०२ खवगपगदीणं जह० ओघं । अज० अणु० भंगो । एवरि जह० अंतो० । सेसाणं धुविगाणं जह० ट्टिदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज०

विशेषार्थ—तिर्यञ्च सामान्यके ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों और तिर्यञ्चगतित्रिकके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त तथा अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण बतला आये हैं। यह काल यहाँ एकेन्द्रियोंमें इसी प्रकार उपलब्ध होता है इसलिए यह कथन सामान्य तिर्यञ्चोंके समान कहा है। बादर एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अङ्गुलके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है। इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। यह तो स्पष्ट ही है पर इनमें तिर्यञ्चगतित्रिकके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण कहनेका कारण यह है कि इन तीन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके होता है और बादर अग्निकायिक व बादर वायुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति कर्मस्थितिप्रमाण है। इससे यहाँ यह काल इतना ही उपलब्ध होता है। इसी प्रकार शेष कालका भी विचार कर उसका कथन कर लेना चाहिए।

१६३. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और उनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कायस्थिति प्रमाण है। पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है।

विशेषार्थ—विकलत्रय और उनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें अपनी-अपनी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जो काल कहा है वही यहाँ जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका काल जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१६४. पाँच स्थावर कायिक जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि जहाँपर जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है वहाँपर जघन्य काल एक समय कहना चाहिए।

विशेषार्थ—पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें अपनी-अपनी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जो काल कहा है उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। मात्र जघन्य काल अन्तर्मुहूर्तके स्थानमें एक समय कहना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

१६५. त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंमें क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका काल ओघके समान है। अजघन्य स्थितिबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है। शेष ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अजघन्य स्थितिबन्धका काल ज्ञाना-

णाणावरणभंगो । सेसाणं उक्कस्सभंगो । तसअपज्ज० उक्कस्सभंगो ।

१९६. पंचमण०-पंचवचि० सव्वपगदीणं जह० अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । चटुआयु० जह० द्विदि० जहएणु० एग० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

१९७. कायजोगि० खवगपगदीणं जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अणंतकालमसंखे० । एवरि सादा०-पुरिस०-जस०-उच्चा० अंतो० । सेसाणं धुविगाणं तिरिक्खगदितिगस्स य जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । सेसाणं मणजोगिभंगो ।

वरणके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । तस अपर्याप्तिकोमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है ।

१९६. पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । चार आयुओंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—पाँचों मनोयोग और पाँचों वचनयोगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होनेसे यहां सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । चारों आयुओंके अजघन्य स्थितिबन्धका साधारणतः जघन्य और उत्कृष्ट काल यद्यपि अन्तर्मुहूर्त है पर उरु योगोंका जघन्य काल एक समय होनेसे यहां आयुओंके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय बन जाता है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

१९७. काययोगी जीवोंमें क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण है । इतनी विशेषता है कि सातावेदनीय, पुरुषवेद, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । शेष ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों और तिर्यञ्चगति त्रिकके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—एक तो क्षपक प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपक श्रेणिमें होता है और दूसरे काययोगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्त काल है । इसी बातको ध्यानमें रखकर यहाँ क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त और अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अनन्त काल कहा है । मात्र साता वेदनीय आदि चार क्षपक प्रकृतियोंका काययोगमें निरन्तर बन्ध अन्तर्मुहूर्त काल तक ही होता है, क्योंकि जिन गुणस्थानोंमें इनका निरन्तर बन्ध होता है उनमें काययोगका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त ही उपलब्ध होता है इसलिए इन चार प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । यहाँ

१६८. ओरालिए धुविगाणं जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० बावीसं वस्ससहस्साणि देसू० । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-णीचागो० जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० तिणिण वाससहस्साणि देसू० । सेसाणं कायजोगिभंगो ।

१६९. ओरालियमिस्से पंचणा०-एवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-ओरालिय-तेजा०-क०-वएण४-अगु०-उप०-णिमि०-यंचंत०-देवगदि०४-तित्थय० जह० अज० जह० उक्क० अंतो० । से काले सरिरपज्जत्तीहि जाहिदि ति यदि अधाप-

शेष ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण कहनेका कारण यह है कि इनका काययोगकी अपेक्षा निरन्तर अजघन्य स्थितिबन्ध सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें होता रहता है और उनकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण है । इसके बाद ये बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त होकर इनका जघन्य स्थितिबन्ध करते हैं । यही कारण है कि यहाँ शेष ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । तथा तिर्यञ्चगतित्रिकका निरन्तर बन्ध अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके होता है और उनकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण है, इसलिए इन तीन प्रकृतियोंके भी अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

१६८. औदारिक काययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्ष है तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग काययोगी जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त जीवोंकी उत्कृष्ट स्थिति बाईस हजार वर्ष है । इनके अन्तर्मुहूर्त कम बाईस हजार वर्ष तक औदारिक काययोग होता है । इसीसे औदारिक काययोगमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष कहा है, तथा बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति तीन हजार वर्ष है । इनके अन्तर्मुहूर्त कम तीन हजार वर्षतक औदारिक काययोग होता है । इसीसे औदारिक काययोगमें तिर्यञ्चगति त्रिकके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्ष कहा है, क्योंकि इन तीन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध औदारिक काययोगके रहते हुए यहीं पर सम्भव है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

१९९. औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, पाँच अन्तराय, देवगतिचतुष्क और तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । तदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको पूर्ण करेगा, इसलिए यदि अधःप्रवृत्तका यह काल लेते हैं तो जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । तथा

वचस्स जह० अजह० जह० एय०, उक्क० अंतो० । सेसाणं जह० अज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

२००. वेउन्वियका०-वेउन्वियमि०-आहार०-आहारमि० उक्कस्सभंगो । कम्म-इगका० पंचणा०-णवदंसणा०-सादासादा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय०-दुगुं-च्छ-तिरिक्ख०-एइंदिय०-तेजा०-कम्म०-हुंडसं०-वएण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-आदाउज्जो०-थावर-बादर-सुहुम०-पज्जत्तापज्ज०-पत्तेग-साधारण०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादे०-जस०-अजस०-णिमिण-णीचा०-पंचंत० जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० के सम० । [अज० जह० एग०, उक्क० तिणिएण सम० । सेसाणं जह० अजह० जह० एग०, उक्क० तिणिएण सम० ।]

२०१. इत्थि० खवगपगदीणं जह० जहएणु० अंतो० । अज० जह० एग०, उक्क० पलिदोवमसदपुधत्तं । पंचदंसणा०-मिच्छत्त-बारसक०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वएण०४-अगु०-उप०-णिमि० जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० जह० एग०, उक्क० पलिदोवमसदपुधत्तं । सादा०-आहार०-आहार०अंगो०-जस० जह० अज० ओघो । असादा०-इत्थि०-णवुंस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-दोगदि-चदु-

शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

२००. वैक्रियिक काययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अपनी अपनी प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका काल उत्कृष्टके समान है । कर्मणकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है ।

२०१. स्त्रीवेदमें ज्ञापक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सौ पल्य पृथक्त्व है । पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माण प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सौ पल्य पृथक्त्व है । साता वेदनीय, आहारक शरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग और यशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । असाता वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, दो गति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति,

जादि-पंचसंठाण-पंचसंघडण-दोआणुपुव्वि-आदाउज्जो-अप्पसत्थ-थावर-०४-थिरा-
थिर-सुभासुभ-[दूभग-दुस्सर-अणादेय]-अज-०-णीचागो-० जह-० अज-० जह-० एग-०,
उक्क-० अंतो । पुरिस-०-उच्चागो-० ओघं । एवरि अज-० अणुक्कस्सभंगो । आयु-०
ओघं । मणुसग-०-पंचिदि-०-समचदु-०-ओरालि-०अंगो-०-वज्ज-०-मणुसाणु-०-पसत्थवि-०-
तस-सुभग-सुस्सर-आदे-० जह-० ट्टिदि-० जह-० एग-०, उक्क-० अंतो-० । अज-० जह-०
एग-०, उक्क-० पणवणं पलिदो देसू-० । देवगदि-०४ उक्कस्सभंगो । ओरालि-०-
पर-०-उस्सा-०-बादर-पज्जत्त-पत्ते-० जह-० ट्टिदि-० जह-० एग-०, उक्क-० अंतो-० । अज-०
जह-० एग-०, उक्क-० पणवणं पलि-० सादि-० । तित्थयरं जह-० जह-० एग-०, उक्क-०
अंतो-० । अज-० अणुक्कस्सभंगो ।

स्थावर चतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीर्ति और
नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और
उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । पुरुषवेद और उच्चगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थिति-
बन्धका काल ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि इन प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्ध-
का काल अनुत्कृष्टके समान है । आयुर्कर्मकी चारों प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थिति-
बन्धका काल ओघके समान है । मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचतुरस्रसंस्थान, औदा-
रिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगति, त्रस,
सुभग, सुस्वर और आदेय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है
और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और
उत्कृष्ट काल कुछ कम पचपन पत्य है । देवगति चतुष्कका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । औदा-
रिक शरीर, परघात, उल्लास, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक पचपन पत्य है । तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य
स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थिति-
बन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है ।

विशेषार्थ—स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट कायस्थिति सौ पत्य पृथक्त्व प्रमाण है, इसलिए इसमें
१८ क्षपक प्रकृतियों और पाँच दर्शनावरण आदि २९ प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका
उत्कृष्ट काल सौ पत्यपृथक्त्व प्रमाण कहा है । स्त्रीवेदमें पुरुषवेद और उच्चगोत्रके अनुत्कृष्ट
स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचपन पत्य कह आये हैं । वही अजघन्य स्थिति-
बन्धका उत्कृष्ट काल है, इसलिए यहां यह काल अनुत्कृष्टके समान कहा है । स्त्रीवेदमें
सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचपन पत्य है, इसलिए यहां मनुष्यगति आदि ११
प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचपन पत्य कहा है, क्योंकि देवी
सम्यग्दृष्टिके इन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है । स्त्रीवेदी देवीके औदारिकशरीर
आदि छह प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है । तथा देवी पर्याय छूटनेके बाद भी
अन्तर्मुहूर्त काल तक इनका बन्ध होता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका
उत्कृष्ट काल साधिक पचपन पत्य कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२०२. पुरिसेसु खवगपगदीणं जह० द्विदि० जह० उक्क० अंतो० । अज० जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं । पुणो धुविगाणं जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० जह० अंतो०, उक्क० कायद्विदि० । सेसाणं उक्कस्सभंगो ।

२०३. एवुंसगे खवगपगदीणं जह० द्विदि० जहणुक्कस्सेण अंतो० । अज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अणंतकालमसंखे० । पुणो धुविगाणं तिरिक्खगदि-
तिगस्स ओरालि० तिरिक्खोघं । सेसाणं उक्कस्सभंगो । एवरि तित्थकरं इत्थिवेदभंगो ।

२०४. अवगदवे० सगपगदीणं जह० ओघं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । कोधादि० उक्कस्सभंगो । एवरि खवगपगदीणं जह० ओघो ।

२०५. मदि०-सुद० धुविगाणं तिरिक्खोघं । एवरि अज० जह० अंतो० । सेसाणं उक्कस्सभंगो । विभंगे उक्कस्सभंगो । एवरि पंचणाणादि सम्मत्ता० संजमामि-

२०२. पुरुषवेदवाले जीवोंमें क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल सौ सागर पृथक्त्व है । पुनः ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अपनी कायस्थिति प्रमाण है । तथा शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका काल उत्कृष्टके समान है ।

२०३. नपुंसकवेदवाले जीवोंमें क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । पुनः ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ तिर्यञ्चगतित्रिक और औदारिक शरीर प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका काल सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है ।

२०४. अवगतवेदवाले जीवोंमें अपनी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । क्रोधादिक चार कषायवाले जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका काल ओघके समान है ।

विशेषार्थ—अपगतवेदमें बन्धको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपक श्रेणीमें अन्तर्मुहूर्त काल तक उपलब्ध होता है । ओघसे भी यह काल इसी प्रकार प्राप्त होता है । इसीसे यहाँ सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका काल ओघके समान कहा है । अपगतवेदमें उपशामकका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसीसे यहाँ अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । चार कषायोंमें क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धके कालका स्पष्टीकरण अपगतवेदके समान ही है । शेष कथन सुगम है ।

२०५. मत्स्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । विभङ्गज्ञानी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि पाँच ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंमें से सभ्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके और संयमके अभिमुख हुए जीवके उद्योतके

मुहस्स याओ पगदीओ उज्जोववज्जाओ ताओ पग० जह० ट्टिदि० उक्क० अंतो० ।
 २०६. आभि०-सुद०-ओधि० सादादिद्वरणं ओघसादभंगो । असादादिद्वर्क
 ओघं । मणुसग०-ओरालि०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरिसभ०-मणुसाणु० जह० ट्टिदि०
 जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० ट्टिदि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० ।
 सेसाणं उक्कस्सभंगो । मणपज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो० उक्कस्सभंगो । एवरि
 सादादि-असादादि० आभिणि०भंगो ।

२०७. परिहार० धुविगाणं अधापवत्त० जह० ट्टिदि० जह० एग०, उक्क०
 अंतो० । अज० ट्टिदि० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । सेसाणं जह०
 अज० ट्टिदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अथवा दंसणमोहक्खवगस्स कदकरणि-
 ज्जस्स दिज्जदि तदो जह० ट्टिदि० जह० उक्क० अंतो० । अज० ट्टिदि० जह० अंतो०,
 उक्क० पुव्वकोडी देसूणं । सादा०-हस्स-रदि-आहारदुग-थिर-सुभ-जस० जह० [जह०]
 उक्क० अंतो० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । असादा०-अरदि-सोग-
 अथिर-असुभ-अजस० जह० अज० ट्टिदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । सुहुमसं०
 सव्वपगदीणं जह० ट्टिदि० ओघं । अज० ट्टिदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

सिवा जिन प्रकृतियोंका बन्ध होता है उनके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है ।

२०६. आभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें साता आदिक छह प्रकृतियोंका भङ्ग ओघमें कहे गये साताप्रकृतिके समान है । असाता आदि छह प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । मनुष्यगति, औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक संयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें अपनी प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि साता आदि और असाता आदि प्रकृतियोंका भङ्ग आभिनिबोधिक ज्ञानी जीवोंके समान है ।

२०७. परिहारविशुद्धि संयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । अथवा मोहनीयकी क्षण करनेवाले कृतकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टि जीवके इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व प्राप्त होता है इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है । साता वेदनीय, हास्य, रति, आहारकट्टिक, स्थिर, शुभ और यशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । असाता वेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । सूक्ष्मसाम्परायिक संयतोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है ।

२०८. संजदासंजदे उक्कस्सभंगो । एवरि सादादि-असादादि० आभिणि०-भंगो । असंजदे धुविगाणं तिक्खिगदितिगं च मदिभंगो । सेसं उक्कस्सभंगो ।

२०९. चक्खुदंसणी० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खुदं० ओघं । ओधिदं० ओधि-णाणिभंगो ।

२१०. क्खिण०-णील०-काउ० उक्कस्सभंगो । । एवरि तित्थयरं णीलभंगो ।

२११. तेउले० परिहारभंगो । एवरि अप्पणो पगदीओ जाणिदव्वा । धुवि-बंधियाणं अज० उक्क० सोधम्मभंगो । एवं पम्माए । एवरि सगट्टिदी ।

२१२. सुक्काए खवगपगदीणं जह० जह० उक्क० अंतो० । अज० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादिरे० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु-बंधि०४ जह० द्विदि० जह० उक्क० अंतो० । अज० जह० एग०, मिक्खत्तं अंतो०, उक्क० एकत्तीसं साग० सादिरे० । पुरिस० जह० द्विदि०^१ ओघं । अज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । एवं अट्ठकसायाणं परियत्तमाणियाणं । मणुसग०-ओरालि०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरिसभ०-मणुसाणु० ओधिभंगो । सादा०-

२०८. संयतासंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि साता आदि और असाता आदिकका भङ्ग आभिनिवोधिकज्ञानके समान है । असंयत जीवोंमें ध्रुव प्रकृतियाँ और तिर्यञ्चगतत्रिकका भङ्ग मत्त्यज्ञानियोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है ।

२०९. चक्षुदर्शनी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग त्रस पर्याप्तकोंके समान है, अचक्षुदर्शनी जीवोंमें ओघके समान है । अवधिदर्शनी जीवोंमें अवधिज्ञानियोंके समान है ।

२१०. कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंमें उत्कृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग नील लेश्याके समान है ।

२११. पीत लेश्यामें परिहारविशुद्धिसंयतके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी प्रकृतियाँ जाननी चाहिए । तथा ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल सौधर्मकल्पके समान है । इसी प्रकार पद्म लेश्यामें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी स्थिति कहनी चाहिए ।

२१२. शुक्लेश्यामें क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है, मिथ्यात्वका अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर है । पुरुषवेदके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल ओघके समान है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । इसी प्रकार परिवर्तमान आठ कषायोंका काल जानना चाहिए । मनुष्यगति, औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन और मनुष्य गत्यानुपूर्वीका भङ्ग अवधिज्ञानियोंके

१. मूलग्रन्थे द्विदि० जह० ओघं इति पाठः ।

हस्स-रदि-आहार०-आहार०अंगो०-थिर-सुभ-जस० ओधिभंगो । तप्पडिवक्खाणं
इत्थिवेदादि यं परियत्तमाणियाणि ओघं ।

२१३. भवसिद्धिया० मूलोघं । अब्भवसिद्धिया० मदिभंगो ।

२१४. सम्मादिट्ठि० आभिणिभंगो । खड्गसम्मादिट्ठी० ओधिभंगो । एवरि
सगट्ठिदिं कादन्वं । एवं वेदगे० । उवसम० पंचणा०-द्धंसणा०-वारसक०-पुरिस०-
भय-दुगुं०-देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि०अंगो०-वण०४-

समान है। साता वेदनीय, हास्य, रति, आहारक शरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग, स्थिर, शुभ
और यशःकीर्तिका भङ्ग अवधिज्ञानियोंके समान है। तथा इनके प्रतिपन्नभूत स्त्रीवेद आदि परि-
वर्तमान प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है।

विशेषार्थ—क्षपकश्रेणिमें एक स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त
होता है, इसलिए शुक्ललेश्यामें क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट
काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। तथा शुक्ल लेश्यामें इनका कमसे कम अन्तर्मुहूर्त काल तक और
अधिकसे अधिक साधिक तेतीस सागर काल तक निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए
इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस
सागर कहा है। जो मिथ्यादृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होता है उसके स्त्यानगुद्धि
तीन आदि आठ प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध होता है और वहाँ एक स्थितिबन्धका काल
अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल
अन्तर्मुहूर्त कहा है। इन प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और
उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर है यह स्पष्ट ही है। मात्र मिथ्यात्व सप्रतिपन्न प्रकृति
न होनेसे उसके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है। पुरुषवेद भी क्षपक
प्रकृति है, इसलिए उसके जघन्य स्थितिबन्धका काल ओघके समान कहा है। तथा एक तो
यह सप्रतिपन्न प्रकृति है और दूसरे सम्यग्दृष्टिके एक मात्र तीन वेदोंमेंसे इसीका बन्ध होता
है, इसलिए इसके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक
तेतीस सागर कहा है। तथा इसी प्रकार आठ कषायोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका
जघन्य और उत्कृष्ट काल घटित कर लेना चाहिए। मात्र एक तो अप्रत्याख्यानावरण
चारका अविरतसम्यग्दृष्टिके और प्रत्याख्यानावरण चारका संयतासंयतके
जघन्य स्थितिबन्ध कहना चाहिए और दूसरे अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट
काल साधिक तेतीस सागर कहते समय उसे देवोंकी तेतीस सागर आयुके
प्रथम समयसे प्रारम्भ कर साधिक तेतीस सागर घटित कर लेना चाहिए।
शेष कथन स्पष्ट ही है।

२१३. भव्यजीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है। अभव्य जीवोंमें अपनी
प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानियोंके समान है।

२१४. सम्यग्दृष्टि जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानियोंके समान है। ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि
जीवोंमें अवधिज्ञानियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि अपनी स्थिति कहनी चाहिए।
इसी प्रकार वेदक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंमें पांच
ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति,
वैक्रियिक शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण-

देवाणु०-अणु०४-सुभग-सुस्वर-आदे०-णिमिण-तिथय०-उच्चा०-पंचंतरा० जह० द्विदि०
जह० एग, उक्क० अंतो० । अज० द्विदि० जहएणु० अंतो० । एवरि देवगदि०४
अज० द्विदि० जह० एग० । सेसाणं जह० अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।
एवरि अट्टकसा०-मणुसगदिपंचगस्स जह० अज० जहएणु० अंतो० । एवरि मणु-
सगदिपंचगस्स जह० सादभंगो ।

२१५. सासणे सम्मामिच्छे उक्कस्सभंगो । मिच्छादिट्ठी० मदिभंगो । सएणी-
सु सव्वपगदीणं जह० मणुसोघं । अज० अणुक्क०भंगो । एवरि केसिं वज्ज०
अंतो० । असएणीसु उक्कस्सभंगो । एवरि धुविगाणं असंखेज्जा लोगा ।

चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्च-
गोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और
उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।
इतनी विशेषता है कि देवगतिचतुष्कके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है ।
शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट
काल अन्तर्मुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि आठ कषायोंके और मनुष्य गतिपञ्चकके जघन्य
और अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि
मनुष्यगति पञ्चकके जघन्य स्थितिबन्धका काल सातके समान है ।

विशेषार्थ—सम्यग्दृष्टियोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति चार पूर्वकोटि अधिक छयासठ सागर,
ज्ञायिक सम्यग्दृष्टियोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति कुछ कम दो पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागर और
वेदकसम्यग्दृष्टियोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति छयासठ सागर है । इसे ध्यानमें रखकर इन सम्य-
क्त्वोंमें अपनी अपनी प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका जहां जो सम्भव हो काल कहना
चाहिए । शेष विशेषताका निर्देश मूलमें किया ही है । यहां उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच
ज्ञानावरण आदिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय कहा है सो इसका कारण
यह है कि जो उपशम सम्यग्दृष्टि उपशम श्रेणिमें इनका एक समय तक जघन्य स्थितिबन्ध
करता है और दूसरे समयमें मर कर वह देव होकर अजघन्य स्थितिबन्ध करने लगता है
उसके इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है ।
इसीसे वह एक समय कहा है । इसी प्रकार देवगति चतुष्कके अजघन्य स्थितिबन्धका
जघन्य काल एक समय घटित कर लेना चाहिए । कारण कि उपशम श्रेणिसे उतरते
समय जो एक समयके लिए देवगतिचतुष्कका अजघन्य स्थितिबन्ध करता है और दूसरे
समयमें मर कर उसके देव हो जाने पर वह इन प्रकृतियोंका अबन्धक हो जाता है, इसलिए
यह काल भी एक समय उपलब्ध होता है । शेष कथन सुगम ही है ।

२१५. सासादन सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग
उत्कृष्टके समान है । मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मत्यज्ञानियोंके समान है । संज्ञी जीवोंमें सब प्रकृ-
तियोंके जघन्य स्थितिबन्धका काल सामान्य मनुष्योंके समान है । अजघन्य स्थितिबन्धका
काल अनुत्कृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि किन्हीं प्रकृतियोंका अन्तर्मुहूर्त काल नहीं
है । असंज्ञी जीवोंमें उत्कृष्टके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके
अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है ।

२१६. आहारे धुविगाणं थीणगिद्धितियाणं च जह० द्विदि० जह० एग०,
उक्क० अंतो । अज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अंगुलस्स असंखे० । एवरि खवग-
पगदीणं जह० द्विदि० ओघं । सेसाणं पगदीणं ओघं । अणाहार० कम्मइगभंगो ।
एवं कालं समत्तं ।

अंतरकालपरूवणा

२१७. अंतरं दुविधं—जहणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०—ओघे०
आदे० । ओघे० पंचणा०—अदंसणा०—सादासा०—चदुसंज०—पुरिस०—हस्स-रदि-
अरदि-सोग-भय-दुंगुं०—पंचिदि०—तेजा०—क०—समचदु०—वण०४—अणु०४—पसत्थवि०—
तस०४—थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०—जस०—अजस०—णिमि०—पंचंत० उक्क-
स्सट्ठिदिवंधंतरं केवचिरं कालादो होति ? जह० अंतो०, उक्क० अणंतकालमसंखे० ।
अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०—अणंताणुबंधि०४-
इत्थिवे० उक्क०द्विदि० केवचिरं ? जह० अंतो०, उक्क० अणंतकालमसं० । अणु०
जह० एग०, उक्क० बेखावट्टिसा० देसू । इत्थिवे० सादि० । अट्टक० उक्क० द्विदि०

२१६. आहारक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली और स्त्यानगृद्धिन्निक प्रकृतियोंके जघन्य
स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थिति-
बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।
इतनी विशेषता है कि क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । शेष
प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका काल ओघके समान है । अनाहारक जीवोंमें
अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग कार्मणकाययोगी जीवोंके समान है ।

इस प्रकार जघन्य काल समाप्त हुआ ।

इस प्रकार काल प्ररूपणा समाप्त हुई ।

अन्तर काल प्ररूपणा

२१७. अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है, निर्देश दो
प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पांच क्षानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय,
असातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चे-
न्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क,
प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशः
कीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर
काल कितना है ? जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात
पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और
उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और स्त्री-
वेदके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल कितना है ? जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट
अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर है । उसमें भी स्त्रीवेदके
अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक दो छयासठ सागर है । आठ कषायके उत्कृष्ट

अंतो०, उक्० अणंतकालं० । अणु० जह० एग०, उक्० तेवट्टिसागरोवमसदं । मणुसगदि-मणुसाणु०-उच्चा० उक्० जह० अंतो०, उक्० अणंतकालं० । अणु० जह० एग०, उक्० असंखेज्जलोग० । एइं०-बेइं०-तेइं०-चदुरिंदि०-आदाव-थावर०४ उक्० जह० अंतो०, उक्० अणंतकालं० । अणु० जह० एग०, उक्० पंचासीदि-सागरोवमसदं । आहार०-आहार०अंगो० उक्० अणु० जह० अंतो०, उक्० अद्द-पोगल० । ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिसभ० उक्० जह० अंतो०, उक्० अणंतकालं० । अणु० जह० एग०, उक्० तिणिएण पलि० सादि० । तित्थयरं [उक्०] एत्थि । अणु० जह० एग०, उक्० अंतो० ।

परिवर्तन प्रमाण है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रैसठ सागर है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। एकेन्द्रिय जाति, द्वोन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, आतप और स्थावर चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्टअन्तर अनन्त काल है जो असंख्यातपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर है। आहारक शरीर और आहारक आङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वज्रुर्ध्वनाराच संहननके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—एक बार उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य परिणाम होनेके बाद पुनः वे कमसे कम अन्तर्मुहूर्त कालके बाद ही होते हैं। यही कारण है कि यहाँ चार आयु और तीर्थंकर प्रकृतिके सिवा शेष सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। तीर्थंकर प्रकृतिका ओघ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नरकगतिके अभिमुख हुए संकेश परिणामवाले मनुष्यके होता है। यतः यह अवस्था दो बार नहीं उपलब्ध होती, अतः तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। चार आयुयोंके सम्बन्धमें आगे विचार करनेवाले हैं ही। तथा संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त अवस्थाका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। इसीसे यहाँ देवायु, आहारकद्विक और तीर्थंकर प्रकृतिके सिवा शेष सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है, क्योंकि सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवके ही होता है, अन्यके नहीं। देवायु और आहारकद्विकका बन्ध संयतके होता है और इसका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। इसीसे इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त कालन कहकर कुछ कम

अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण कहा है। तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल क्यों नहीं होता यह कथन पहले कर ही आये हैं। अब रहा अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर कालका विचार सो सब प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध कमसे कम एक समयके अन्तरसे होता है, इसलिए उक्त सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर काल एक समय कहा है। मात्र चार आयु आहारकद्विकमें कुछ विशेषता है जिसका खुलासा आगे यथास्थान करेंगे ही। अब रहा सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धके उत्कृष्ट अन्तर कालका विचार सो वह अलग अलग कहा ही है। खुलासा इस प्रकार है—

पाँच ज्ञानावरण आदि जिन ५६ प्रकृतियोंका प्रथम दण्डकमें उल्लेख किया है उनमेंसे कुछ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ हैं और कुछ सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं। उनमें भी जो सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं उनकी बन्धव्युच्छित्ति इनकी प्रतिपत्त प्रकृतियोंके पहले होती है और कुछ ऐसी प्रकृतियाँ हैं जिनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है इसलिए इन सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। स्नानगृद्धि तीन आदि नौ प्रकृतियोंका बन्ध सम्यग्मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें नहीं होता और मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम दो छयासठ सागर है, इसलिए इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम दो छयासठ सागर कहा है। परन्तु स्त्रीवेद सप्रतिपत्त प्रकृति होनेसे उसका यह अन्तरकाल साधिक दो छयासठ सागर उपलब्ध होता है। कारण कि जो जीव मिथ्यात्वमें आकर भी स्त्रीवेदका बन्ध न कर नपुंसकवेद और पुरुषवेदका बन्ध करता है उसके यह अन्तरकाल उक्त प्रमाण प्राप्त होता है। संयम और संयमासंयमका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, इसलिए आठ कषायके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। कारण कि संयत जीवके प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका और संयतासंयत जीवके अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका बन्ध नहीं होता। इसके बाद इस जीवके असंयमको प्राप्त होनेपर उनका नियमसे बन्ध होने लगता है। नपुंसकवेद आदि सोलह प्रकृतियोंका बन्ध सासादन गुणस्थानतक होता है। यतः मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम दो छयासठ सागर है, साथ ही ये सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं और इनका बन्ध भोगभूमिमें नहीं होता इसलिए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल साधिक दो छयासठ सागर और कुछ कम तीन पल्य कहा है। आयुओंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल स्पष्ट ही है। एकेन्द्रियका उत्कृष्टकाल अनन्तकाल है और इनके वैक्रियिकषट्कका बन्ध नहीं होता या पञ्चेन्द्रियोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्तकाल है। इसीसे यहां वैक्रियिकषट्कके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्त काल कहा है। तीर्थञ्जगति आदि तीन प्रकृतियोंका बन्ध सम्यग्दृष्टिके नहीं होता और सहस्रार कल्पसे आगे नहीं होता। यदि निरन्तररूपसे इस कालका विचार करते हैं तो वह एक सौ त्रेसठ सागर होता है। इसीसे यहां इन तीन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल एक सौ त्रेसठ सागर कहा है। अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके मनुष्यगति आदि तीन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता और इनकी कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण है। इसीसे यहां इन तीन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। संयमका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। इसीसे आहारकद्विकके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२२०. आदेसेण गेरइएसु पंचणा०-छदंस०-सादासा०-बारसक०-पुरिस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगु०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरिसभ०-वण०४-अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-णिमि०-पंचंत० उक्क० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० देसू० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु-बंधि०४-इत्थि०-एवुंस०-तिरिक्खगदि-पंचसंठा०-पंचसंध०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचागो० उक्क० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० देसू० । अणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देसू० । दो आयु० उक्क० एत्थि अंतरं । अणु० जह० अंतो०, उक्क० छम्मासं देसू० । एवं सव्वणोरइयाणं आयु० । मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० उक्क० जह० अंतो०, उक्क० बावीसं साग० देसू० । अणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं देसू० । तिथ्य० उक्क० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णिण साग० सादिरे० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

२२१. एवं छसु पुढवीसु । एवरि मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० सादभंगो ।

२२०. आदेशसे नारकियोंमें पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आज्ञोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, पांच संस्थान, पांच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । दो आयुओंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है । इसी प्रकार सब नारकियोंके आयुर्कर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिए । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम बाईस सागर है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन सागर है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

२२१. इसी प्रकार छह पृथिवियोंमें जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भङ्ग साता प्रकृतिके समान है ।

सेसाणां अप्पणो द्विदी देसणा । सत्तमाए णिरयोधं । एवरि मणुसगदि-मणु-
साणु०-उच्चा० उक्क० अणु० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० देसू० ।

२२२. तिरिक्खेसु पंचणा०-द्धंस०-सादासा०-अट्टकसा०-सत्तणोक०-पंचिंदिय-
तेजा०-क०-समचदु०-वणणु०४-अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-
सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-णिमि०-पंचंत० उक्क० अणु० ओघं । थीणगिद्धि०३-

शेष प्रकृतियोंका भङ्ग कुछ कम अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । सातवीं पृथिवीमें सामान्य नारकियोंके समान अन्तरकाल है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्र के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—जो नारकी उत्पन्न होनेके बाद पर्याप्त होनेपर प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है और अनन्तर मरणके पूर्व उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है उसके उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर उपलब्ध होता है, इसलिए यह अन्तरकाल उक्त प्रमाण कहा है । नरकमें सम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है और सम्यग्दृष्टिके स्त्यानगृद्धि तीन आदि दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता । तथा मिथ्यादृष्टि रहनेपर भी जन्मके प्रारम्भमें और अन्तमें पर्याप्त अवस्थामें यदि उक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है तो इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका भी वही कुछ कम तेतीस सागर उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त होता है । इससे यह भी उक्त प्रमाण कहा है । और सम्यग्दृष्टिके इनका बन्ध नहीं होता इसलिए अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल भी कुछ कम तेतीस सागर कहा है । नरकमें मनुष्यगति आदि तीन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मिथ्यादृष्टि नारकीके छठे नरकतक ही होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम बाईस सागर कहा है । पर सातवें नरकमें इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर बन जाता है । कारण कि सातवें नरकमें जो भवके प्रारम्भमें और अन्तमें सम्यग्दृष्टि होकर इनका बन्ध करता है और मध्यमें कुछ कम तेतीस सागर कालतक मिथ्यादृष्टि रहकर इनका बन्ध नहीं करता उसके इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका कुछ कम तेतीस सागर उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होता है । इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है । तोर्थङ्कर प्रकृतिका तीसरे नरकतक साधिक तीन सागरकी आयुवाले नारकी होनेतक ही बन्ध होता है, इसलिए इसके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तीन सागर कहा है । यह नरकमें सामान्यसे अन्तरकाल कहा है । प्रत्येक नरकमें अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिको जानकर अन्तरकाल ले आना चाहिए । मात्र छठे नरकतक मनुष्यगति आदि तीन प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टिके भी होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल साताप्रकृतिके समान कहनेकी सूचना की है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२२२. तिर्यञ्चोमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, आठ कषाय, सात नोकषाय, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल ओघके समान है । स्त्यानगृद्धि तीन,

मिच्छत्त-अणंताणुबंधि०४-इत्थि० उक्क० ट्टिदि० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क०
तिणिएण पलिदो० देसू० । अपच्चक्खाणा०४-णवुंस०-तिरिक्खगदि-चदुजादि-ओरालि०-
पंचसंठा०--ओरालि०अंगो०--छस्संघ०--तिरिक्खाणुपु०--आदाउज्जो०--अप्पसत्थवि०-
थावरादि०४-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०,
उक्क० पुव्वकोडी देसू० । णिरय-मणुस-देवायु० उक्क० ट्टिदि० एत्थि अंतरं ।
अणुक्क० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देसूणं । तिरिक्खायु० उक्क०
ओघं । अणु० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी सादिरे० । वेउव्वियळक्क-मणुसग०-
मणुसाणु०-उच्चा० ओघं ।

२२३. पंचिदियतिरिक्ख'०३ पढमदंडगेण सह देवगदि०४-उच्चा० कादव्वं ।
मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और स्त्रीवेदके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल ओघके
समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ
कम तीन पल्य है । अप्रत्याख्यानावरण चार, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, चार जाति, औदारिक
शरीर, पांच संस्थान, औदारिक आज्ञोपाङ्ग, छह संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत,
अप्रशस्तविहायोगति, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट
स्थितिबन्धका अन्तर काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक
समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । नरकायु, मनुष्यायु और देवायुके
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्त-
मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटिका त्रिभागप्रमाण है । तिर्यञ्च आयुके उत्कृष्ट
स्थितिबन्धका अन्तर काल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्त-
मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है । वैक्रियिक छह, मनुष्यगति, मनुष्य-
गत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल ओघके
समान है ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोंमें उसी पर्यायमें उत्पन्न हुए सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम
तीन पल्य है । इसीसे यहां स्त्यानगृद्धि तीन आदि प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट
अन्तर काल कुछ कम तीन पल्य कहा है । यहां भवके आदि और अन्तमें इन प्रकृतियोंका
बन्ध कराकर यह अन्तर काल ले आना चाहिए । अप्रत्याख्यानावरण चार आदि प्रकृतियोंके
अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम पूर्वकोटि कहनेका कारण यह है कि
संयतासंयत तिर्यञ्चके अप्रत्याख्यानावरण चारका बन्ध नहीं होता और असंयत सम्यग्दृष्टि
तिर्यञ्चके शेषका बन्ध नहीं होता । इसलिए प्रारम्भमें और अन्तमें इनका बन्ध करावे और
मध्यमें कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक संयमासंयम और सम्यक्त्व गुणके साथ रख कर
उक्त अन्तर काल ले आवे । यद्यपि तिर्यञ्चकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्यकी भी होती है पर वहां
संयमासंयम गुणके न प्राप्त होनेसे अप्रत्याख्यानावरण चारका अन्तरकाल उपलब्ध नहीं होता
और भोगभूमिमें नपुंसकवेद आदिका बन्ध नहीं होता, इसलिए वहाँ तिर्यञ्चोंमें अन्तरका
प्रश्न ही नहीं उठता, अतः इन सबके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम
एक पूर्वकोटि कहा है । शेष कथन सुगम है ।

२२३. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च तीनमें प्रथम दण्डके साथ देवगतिचतुष्क और उच्चगोत्रका
कथन करना चाहिए । इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट

उक्क० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । अणु० जह० एगस०, उक्क० अंतो० । सेसाणं सव्वपगदीणं उक्क० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । अणु० द्विदि० पगदिअंतरं । एवरि तिण्णियायु० तिरिक्खोयं । तिरिक्खायु० उक्क० जह० पुव्वकोडी समयूणं, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । पंचिदियतिरिक्खायु० सव्वपगदीणं उक्क० जह० [उक्क०] अंतो० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवरि तिरिक्खायु० उक्क० अणु० जहणु० अंतो० । मणुसायु० उक्क० एत्थि अंतरं । अणुक्क० जहणु० अंतो० ।

२२४. मणुस०३ पंचिदियतिरिक्खभंगो । एवरि पच्चक्खाणा०४ अपच्चक्खाणावरणभंगो । मणुसायु० उक्क० जह० पुव्वकोडी समयू०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । अणु० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी सादि० । आहार०२ उक्क० अणु० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । तित्थय० उक्क० एत्थि अंतरं । अणु० जहणु० अंतो० । मणुसअपज्ज० तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । एवरि तिरिक्खायु० उक्क० एत्थि

अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्वप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । शेष सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । इतनी विशेषता है कि तीन आयुओंका अन्तर सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । तिर्यञ्च आयुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम एक पूर्वकोटि है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है । तथापि उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कर्मभूमिमें ही उपलब्ध होता है, इसलिये यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल पूर्व कोटि पृथक्त्व कहा है । यहाँ पूर्वकोटिपृथक्त्वके प्रारम्भ और अन्तमें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कराकर अन्तरकाल ले आवे । चार आयुओंके सिवा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल भी इसी प्रकार ले आवे । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२२४. मनुष्य चतुष्कमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि प्रत्याख्यानावरण चारका भङ्ग अप्रत्याख्यानावरण चारके समान है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम एक पूर्वकोटि है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है । आहारकद्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है, इतनी विशेषता है कि तिर्य-

अंतरं । अणु० जह० उक्क० अंतो० । मणुसायु० उक्क० जह० अंतो० समयू०, उक्क० अंतो० । अणु० जह० उक्क० अंतो० ।

२२५. देवेषु पंचणा०-छदंसणा०-सादासा०-वारसक०-पुरिस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगु०-मणुसग०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरा-लि०-अंगो०-वज्जरिसभ०-वण०४-मणुसाणु०-अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-थिरा-थिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचंत० उक्क० जह० अंतो०, उक्क० अटारस साग० सादि० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंच-संघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उक्क० जह० अंतो०, उक्क० अटार-स साग० सादि० । अणु० जह० एग०, उक्क० एकत्तीसं साग० देसू० । दोआयु० णिरयभंगो । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो० उक्क० जह० अंतो०, उक्क० अटार-

आयुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है यह स्पष्ट ही है । मात्र प्रत्याख्यानावरण चारके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल मनुष्य त्रिकमें कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण उपलब्ध होता है और अप्रत्याख्यानावरण चारके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका भी इतना ही उपलब्ध होता है । इसीसे यहां प्रत्याख्यानावरण चारका भङ्ग अप्रत्याख्यानावरण चारके समान है ऐसा कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२२५. देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त-विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुखर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थंकर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । अनु-त्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । स्त्यान-गृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । दो आयुओंका भङ्ग नारकियोंके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योत प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है ।

रस साग० सादि० । अणु० जह० एग०, उक्क० अठारस साग० सादि० । एइंदिय-अदाव-थावर० उक्क० अणु० जह० अंतो० एग०, [उक्क०] वे साग० सादि० । एवं सन्वदेवाणं अप्पणो अंतरं गादूणं गेदव्वं ।

२२६. एइंदिएसु तिरिक्खायु० उक्क० जह० वावीसं० वस्ससहस्साणि समयू०, उक्क० अणंतकालं० । अणुक्क० पगदिअंतरं । मणुसायु० उक्क० एत्थि अंतरं । अणु० पगदिअंतरं । मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० उक्क० अणु० जह० अंतो० एग०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । सेसाणं [उक्क०] जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । एकेन्द्रिय जाति, आतप और स्थावर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर क्रमसे अन्तर्मुहूर्त और एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । इसी प्रकार सब देवोंके अपना अपना अन्तर जानकर कथन करना चाहिए ।

विशेषार्थ—देवोंमें ओघ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सहस्रार कल्प तक होता है और सहस्रार कल्पमें उत्कृष्ट आयु साधिक अठारह सागर है, इसलिए यहाँ प्रथम व द्वितीय दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक अठारह सागर कहा है । यहाँ भबके प्रारम्भ व अन्तमें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करानेसे यह अन्तरकाल उपलब्ध होता है । मिथ्यादृष्टि जीव नौ त्रैवेयक तक उत्पन्न होता है और अन्तिम त्रैवेयकके देवकी उत्कृष्ट आयु इकतीस सागर है । इसीसे यहाँ दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर कहा है । यहाँ प्रारम्भ और अन्तमें मिथ्यादृष्टि रखकर इन प्रकृतियोंका बन्ध करावे और मध्यमें कुछ कम इकतीस सागर तक सम्यग्दृष्टि रखकर इन प्रकृतियोंका बन्ध न होनेसे अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल ले आवे । तिर्यञ्चगति आदि तीन प्रकृतियोंका बन्ध सहस्रार कल्प तक होता है इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर कहा है । मात्र अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काललाते समय मध्यमें जीवको साधिक अठारह सागर कालतक सम्यग्दृष्टि रखे । एकेन्द्रिय जाति आदि तीन प्रकृतियोंका बन्धपेशान कल्पतक होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक दो सागर कहा है । शेष कथन सुगम है ।

२२६. एकेन्द्रियोंमें तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम बाईस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर क्रमसे अन्तर्मुहूर्त और एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

२२७. बादरे तिरिक्ख-मणुसायु०-मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा०वज्जाणं उक्क० जह० अंतो०, उक्क० अंगुल० असं० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तिरिक्खायु० उक्क० जह० वावीसं वासहस्साणि समयू०, उक्क० सगट्टिदी० । अणु० पगदिअंतरं । मणुसायु० एइंदियोधं । मणुसग०-मणुसाणुपु०-उच्चा० उक्क० जह० अंतो०, उक्क० अंगुल० असंखे० । अणु० जह० एग०, उक्क० कम्मट्टिदी० ।

२२८. बादरपज्जत्तेसु सन्वाणं उक्क० [जह०] अंतो०, उक्क० संखेज्जाणि वाससहस्साणि । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवरि तिरिक्खायु० उक्क० जह०, वावीसं वाससहस्साणि समयू०, उक्क० सगट्टिदी० । अणु० पगदिअंतरं । मणुसायु० एइदि०ओधं । मणुसग०-मणुसाणुपु०-उच्चा० उक्क० जह० अंतो० । अणु० जह० एग०, उक्क० दो वि संखेज्जाणि वाससहस्साणि । बादरअपज्ज० तिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

२२९. सुहुमेइंदिएसु तिरिक्खायु० उक्क० जह० अंतो० समयू०, उक्क० कायट्टिदी० । अणु० पगदिअंतरं । मणुसायु० उक्क० एत्थि अंतरं । अणु० पगदिअंतरं ।

२२७. बादर एकेन्द्रियोंमें तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रको छोड़कर शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम बाईस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य एकेन्द्रियोंके समान है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कर्मस्थितिप्रमाण है ।

२२८. बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार वर्ष है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम बाईस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य एकेन्द्रियोंके समान है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है तथा इन दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार वर्ष है । बादरअपर्याप्तकोंका भङ्ग तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है ।

२२९. सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंमें तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । मनुष्यगति,

मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० उक्क० जह० अंतो० । अणु० जह० एग०, दोएणं पि असंखेज्जा लोगा । सेसाणं उक्क० जह० अंतो०, उक्क० अंगुलस्स असं० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । सुहुमाए पज्जत्तापज्जत्त० पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

२३०. बेइं०-तेइं०-चदुरिं० तेसिं पज्जत्ता'० तिरिक्खायु० उक्क० जह० बारस-वरिसाणि एगुणवण्णरादिंदियाणि ब्रम्मासाणि समयू०, उक्क० तिएणं पि संखेज्जाणि वाससहस्साणि । अणु० पगदिअंतरं । मणुसायु० उक्क० एत्थि अंतरं । अणु० पगदिअंतरं । सेसाणं उक्क० जह० अंतो०, उक्क० संखेज्जाणि वाससह

मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यातलोक प्रमाण है । शेष सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । सूक्ष्म पर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट आयु बाईस हजार वर्ष प्रमाण है । इसीसे एकेन्द्रियोंमें तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम बाईस हजार वर्ष कहा है । तथा एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्त काल प्रमाण है, इसलिए इनमें तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है । एकेन्द्रिय जीव मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करके मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होता है, फिर तिर्यञ्च नहीं रहता इसलिए यहां मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तर कालका निषेध किया है । मनुष्यायुके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एकेन्द्रियोंमें मनुष्यायु प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है यह स्पष्ट ही है । जो एकेन्द्रिय असंख्यात लोक प्रमाण काल तक अग्निकायिक और वायुकायिक होकर परिभ्रमण करता रहता है, उसके इतने काल तक मनुष्यगति आदि तीन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इस लिए इनमें इन तीन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोक प्रमाण कहा है । मात्र इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध का उत्कृष्ट अन्तर काल लाते समय वह पृथिवीकायिक आदिकी कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करा कर ले आवे । एकेन्द्रियोंमें सूक्ष्म एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति भी असंख्यात लोकप्रमाण है और इनमें एकेन्द्रियोंकी दृष्टिसे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नहीं होता, इसलिए एकेन्द्रियोंमें शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण कहा है । इस प्रकार यह सामान्य एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा अन्तरकालका विचार किया । इसी प्रकार बादर आदि एकेन्द्रियोंकी कायस्थिति आदि जान कर अन्तरकालका निर्णय करना चाहिए ।

२३०. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और उनके पर्याप्त जीवोंमें तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम बारह वर्ष, एक समय कम उनचास दिन रात और एक समय कम छह महिना है और उत्कृष्ट अन्तर तीनोंका संख्यात हजार वर्ष है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर

स्साणि । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अपज्जत्त० पंचिंदियतिरिक्ख-
अपज्जत्तभंगो ।

२३१. पंचिंदिय०२ एणादि० ओघं । पढमदंडओ ओघं । एवरि उक्क० जह०
अंतो०, उक्क० सागरोवमसहस्सं पुव्वकोडिपुधत्तेण० । पज्जत्ते सागरोवमसदपुध० ।
थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-इत्थि० उक्क० ट्टिदि० पंचणाणा०भंगो ।
अणु० ओघं । अट्ठकसा० [उक्क०] एणावरणभंगो । अणु० ओघं । णिरय-देवायु०
उक्क० ट्टिदि० जह० दसवस्ससहस्साणि पुव्वकोडी समयू० । उक्क० एणावा०भंगो ।
अणु० जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं । तिरिक्खायु० उक्क० जह० पुव्व-
कोडी समयू०, उक्क० एणावरणभंगो । अणु० जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसद-
पुधत्तं । मणुसायु० उक्क० तिरिक्खायुभंगो । अणु० जह० अंतो०, उक्क० काय-
ट्टिदी० । णिरयगदि-एइं०-वेइं०-तेइं०-चदुरिं०-णिरयाणुपु०-आदाव-थावरादि०४-

संख्यात हजार वर्ष है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट
अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इनके अपर्याप्तकोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च
अपर्याप्तकोंके समान है ।

विशेषार्थ—द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंकी भवस्थिति और कायस्थितिको
ध्यानमें रखकर अन्तरकालका विचार कर लेना चाहिए । जो द्वीन्द्रिय मरकर द्वीन्द्रिय होता
है, त्रीन्द्रिय मरकर त्रीन्द्रिय होता है और चतुरिन्द्रिय मरकर चतुरिन्द्रिय होता है उसीके
तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे एक समय कम बारह वर्ष, एक
समय कम उनचास दिन रात और एक समय कम छह महीना उपलब्ध होता है । इसी
प्रकार अन्यत्र भी जहाँ एक मार्गणामें अपनी आयुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक
समय कम अपनी उत्कृष्ट आयुप्रमाण कहा है वहाँ इसी प्रकार स्पर्शीकरण कर लेना चाहिए ।

२३१. पञ्चेन्द्रियद्विकमें ज्ञानावरणादिकका भङ्ग ओघके समान है । प्रथम दण्डक ओघके
समान है । इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट
अन्तर पञ्चेन्द्रियोंमें पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक एक हजार सागर है और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें
सौ सागर पृथक्त्व है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और स्त्रीवेदके उत्कृष्ट
स्थितिबन्धका भङ्ग पाँच ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका भङ्ग ओघके समान
है । आठ कषायोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट स्थिति-
बन्धका भङ्ग ओघके समान है । नरकायु और देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर
दस हजार वर्ष और एक समय कम एक पूर्वकोटि है । उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान
है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्व
है । तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम एक पूर्वकोटि है और
उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है
और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्व है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका भङ्ग तिर्यञ्चायु
के समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर
कायस्थितिप्रमाण है । नरकगति, एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रिय-
जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप, स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके

उक्क० णाणावरणभंगो । अणु० जह० एग०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसदं० ।
तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणुपु०-उच्चा० उक्क० णाणावरणभंगो । अणु ओघं । मणु-
सग०-देवगदि-वेउव्वि०-वेउव्वि०-अंगो०-मणुस०-देवाणुपु० णाणावरणभंगो । अणु०
जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । ओरालि०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरि-
सभ० उक्क० णाणावरणभंगो । अणु० ओघं । आहार०२ उक्क० अणु० जह०
अंतो०, उक्क० कायट्टिदी० । तित्थय० ओघं । अपज्जत्ता० तिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।
णवरि दो आयु० उक्क० जह० अंतो० समयू०, उक्क० अंतो० । अणु० जह० अंतो०,
उक्क० अंतो० ।

समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ पचासी सागर है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका भङ्ग ओघके समान है। मनुष्यगति, देवगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और देवगत्यानुपूर्वीका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वज्रर्ष-भनाराचसंहननके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका भङ्ग ओघके समान है। आहारक द्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। तथा तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि दो आयुओंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक एक हजार सागर और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति सौ सागर पृथक्त्व है इसलिए इनमें ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। यहाँ कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करा कर यह अन्तरकाल ले आवे। नरकायु और देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके जघन्य अन्तरका स्पष्टीकरण मूल प्रकृति स्थितिबन्धके समय जिस प्रकार किया है उसी प्रकार यहाँ कर लेना चाहिए। तथा इन दोनों आयुओंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त स्पष्ट ही है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्व कहनेका कारण यह है कि कोई भी पञ्चेन्द्रिय इतने कालके बाद नरकायु और देवायुका नियमसे बन्ध करता है। तिर्यञ्चायुके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धके उत्कृष्ट अन्तरकालका स्पष्टीकरण भी इसी प्रकार करना चाहिए। मात्र मनुष्यायुके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कायस्थिति प्रमाण कहा है सो इसका अभिप्राय यह है कि पञ्चेन्द्रिय रहते हुए अधिकसे अधिक इतने कालतक मनुष्यायुका बन्ध नहीं होता है। बीचमें बन्ध हो या न हो नियम नहीं है। पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीव अधिकसे अधिक एक सौ पचासी सागर कालतक नरकगति आदि ग्यारह प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करते, इसलिए इनमें इन प्रकृतियोंके

२३२. पुढविका० तिरिक्खायु० उक्क० [जह०] बावीसं वाससहस्सा० समयू०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । अणु० पगदिअंतरं । मणुसायु० उक्क० एत्थि अंतरं । अणु० पगदिअंतरं ! सेसाणं उक्क० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । बादरपुढवि० तं चेव । एवरि उक्क० जह० अंतो०, उक्क० कम्मट्टिदी० । बादरपज्जत्ते संखेज्जाणि वाससहस्साणि । अपज्जत्ते तिरिक्खअपज्जत्त-भंगो । एवं आउ०-तेउ०-वाउ० । एवरि तिरिक्खायु० उक्क० ट्टिदि० जह० सत्त-वस्ससहस्साणि तिण्णिण रादिदियाणि तिण्णिण वस्ससहस्साणि समयू०, उक्क० कायट्टिदी० । अणु० अप्पणो पगदिअंतरं ।

अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर एक सो पचासी सागर कहा है । इसी प्रकार शेष अन्तरकालका विचार कर लेना चाहिए ।

२३२. पृथिवीकायिक जीवोंमें तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम बाईस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । बादर पृथिवीकायिक जीवोंमें यही अन्तर काल है । इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कर्मस्थिति प्रमाण है । बादर पर्याप्तक जीवोंमें संख्यात हजार वर्ष प्रमाण है । अपर्याप्त जीवोंमें तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है । इसी प्रकार जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम सात हजार वर्ष एक समय कम तीन दिन रात और एक समय कम तीन हजार वर्ष है तथा उत्कृष्ट अन्तर काल कायस्थितिप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर अपने अपने प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है ।

विशेषार्थ—पृथिवीकायिककी भवस्थिति बाईस हजार वर्षप्रमाण और कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण होनेसे यहाँ तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम बाईस हजार वर्ष और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । इनमें शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहनेका यही कारण है । बादर पृथिवीकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति कर्मस्थितिप्रमाण है, इसलिए इनमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके बिना शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कर्मस्थितिप्रमाण कहा है । बादर पर्याप्तकोंकी कायस्थिति संख्यात हजार वर्ष है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार वर्ष कहा है । जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके कथनमें पृथिवीकायिक जीवोंके कथनसे कोई अन्तर नहीं है, इसलिए इनका कथन पृथिवीकायिक जीवोंके समान जाननेको कहा है । मात्र इनकी भवस्थितिमें अन्तर है, इसलिए इनमें तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर कहते समय वह एक समय कम अपनी अपनी उत्कृष्ट भवस्थितिप्रमाण कहा है ।

२३३. वणप्फदि० एइंदियभंगो । एवरि तिरिक्खायु० उक्क० द्विदि० जह० दसवस्ससहस्साणि समयू०, उक्क० अणंतकालं अंगुल० असं० संखेज्जाणि वस्स सहस्साणि । अणु० पगदिअंतरं । मणुसायु० उक्क० एत्थि अंतरं । अणुक्क० पगदि अंतरं । एवरि मणुसगदितिगस्स अणु० पगदिअंतरं । बादरवणप्फदिपत्ते० बादरपुढविभंगो । एवरि तिरिक्खायु० उक्क० द्विदि० जह० दसवस्ससहस्साणि समयू० । णिगोदे० वणप्फदिभंगो । एवरि बादरणियोदेसु सन्वेसु उक्क० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० कम्मद्विदी० । अणु० जह० एगस०, उक्क० अंतो० । एवरि तिरिक्खायु० उक्क० द्विदि० जह० अंतो० समयू०, उक्क० पलिदो० असं० । अणु० पगदिअंतरं । णिगोदेसु पलिदो० असंखे०, बादरणिगोदपज्जत्ते संखेज्जाणि वाससहस्साणि । सन्वसुहुमाणं सुहुमएइंदियभंगो । एवरि अप्पणो कायद्विदी भाणिदन्वा ।

२३३. वनस्पतिकायिक जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान अन्तर काल है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल, अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण तथा संख्यात हजार वर्ष है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल प्रकृतिबन्धके अन्तर कालके समान है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतित्रिकके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल प्रकृतिबन्धके अन्तर कालके समान है। बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंमें बादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम दस हजार वर्ष है। निगोद जीवोंमें वनस्पतिकायिक जीवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि सब बादर निगोद जीवोंमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कर्मस्थितिप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है। निगोद जीवोंमें पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और बादर निगोद पर्याप्त जीवोंमें संख्यात हजार वर्ष है। सब सूक्ष्म जीवोंमें सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि अपना अपनी कायस्थिति कहनी चाहिए।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति बाईस हजार वर्ष है और वनस्पतिकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति दस हजार वर्ष है। तथा वनस्पतिकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्तकालप्रमाण, बादर वनस्पतिकायिकोंकी अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण और बादर पर्याप्त वनस्पतिकायिकोंकी संख्यात हजार वर्षप्रमाण है। इसीसे यहाँ इनमें तिर्यञ्चायु के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट अन्तर वनस्पतिकायिकोंमें अनन्तकाल, इनके बादरोंमें अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण और इनके बादर पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्षप्रमाण कहा है। बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर जीवोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति भी दस हजार वर्ष है। इसीसे इनमें भी तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम दस हजार वर्ष कहा है।

२३४. तस०२ पंचिदियभंगो । एवरि उक्क० ट्टिदि० जह० अंतो०, उक्क० अप्पप्पणो कायट्टिदी० । तिण्णिण आयु० उक्क० ट्टिदि० जह० पंचिदियभंगो । उक्क० कायट्टिदी० । अणु० जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं । मणुसायु० उक्क० अणु० ओघं । एवरि कायट्टिदी० । अपज्जत्ता० पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

२३५. पंचमण०-पंचवचि० चदुआयु०-आहार०२-तित्थय० उक्क० अणु० एत्थि अंतरं । सेसाणं उक्क० एत्थि अंतरं । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतोमु० ?

२३६. कायजोगीसु णिरय-देवायु०-आहार०२ उक्क० अणु० एत्थि अंतरं । तिरिक्खायु० उक्क० ट्टिदि० एत्थि अंतरं । अणु० पगदिअंतरं । मणुसायु० उक्क०

२३४. त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंमें पञ्चेन्द्रियोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण है। तीन आयुओंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर पञ्चेन्द्रिय जीवोंके समान है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध का जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है। त्रस अपर्याप्त जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंकी कायस्थितिका उल्लेख अनेक बार कर आये हैं। उसे ध्यानमें रखकर यहां जो अन्तर कायस्थिति प्रमाण कहा है वह जान लेना चाहिए। नरकायु, तिर्यञ्चायु और देवायुके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण कहा है सो इसका स्पष्टीकरण यह है कि त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त जीव सौ सागर पृथक्त्वके बाद अवश्य ही नारकी, तिर्यञ्च और देव होता है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२३५. पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंमें चार आयु, आहारक द्विक और तीर्थंकर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगीका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। तथा इनमें मध्यमें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध हो सकता है। इसीसे इनमें प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके सिवा शेष प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। पर इस प्रकार एक योगमें दो बार उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सम्भव नहीं है, इसलिए उसके अन्तरकालका निषेध किया है। अब रहीं प्रथम दण्डकमें कही गई चार आयु आदि सात प्रकृतियाँ सो इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल सम्भव नहीं है। कारणका विचार स्वामित्वको देखकर कर लेना चाहिए।

२३६. काययोगी जीवोंमें नरकायु, देवायु और आहारक द्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट

एत्थि अंतरं । अणु० जह० अंतो०, उक्क० अणंतकालं असं० । सेसाणं उक्क० एत्थि अंतरं । अणु० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवरि मणुसंग०-मणुसाणु०-उच्चा० उक्क० द्विदि० एत्थि अंतरं । अणु० जह० एग०, उक्क० असंखेज्जा लोगा ।

२३७. ओरालियका० गिरय-देवायु०-आहार०२-तित्थय० उक्क० अणु० द्विदि० एत्थि अंतरं । तिरिक्ख-मणुसायु० उक्क० एत्थि अंतरं । अणु० पगदि-अंतरं । सेसाणं मणजोगिभंगो ।

२३८. ओरालियमिस्स० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-वणण०४-अणु०४-उप०-णिमि०-पंचंत० उक्क० द्विदि० एत्थि अंतरं । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । देवगदि०४-तित्थय० धुविगाण भंगो ।

स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है ।

विशेषार्थ—लब्धपर्याप्तक मनुष्यके एकमात्र काययोग होता है । इसीसे काययोगमें मनुष्यायुके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल उपलब्ध हो जाता है । जो मनुष्यायुका अजघन्य स्थितिबन्ध करके और लब्धपर्याप्त मनुष्य होकर पुनः मनुष्यायुका अजघन्य स्थितिबन्ध करता है उसके मनुष्यायुके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल उपलब्ध होता है और जो प्रारम्भमें मनुष्यायुका बन्ध करके अनन्तकालतक काययोगके साथ रहकर अन्तमें मनुष्यायुका बन्ध करता है उसके मनुष्यायुके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल उपलब्ध होता है । इसीसे मनुष्यायुके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२३७. औदारिक काययोगी जीवोंमें नरकायु, देवायु, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—औदारिककाययोगमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके प्रकृतिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष कह आये हैं वही यहाँ इन दोनों आयुओंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२३८. औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । देवगतिचतुष्क और तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है । शेष प्रकृ-

सेसाणां उक्क० ट्टिदि० एत्थि अंतरं । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं अधापवत्तस्स । अथवा से काले पज्जत्ती जाहिदि त्ति सामित्तं दिज्जदि तदो धुविगाणां देवगदिपंचगस्सं उक्क० अणु० एत्थि अंतरं । सेसाणां परियत्तमाणियाणां उक्क० एत्थि अंतरं । अणु० ट्टिदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । दो आयु० पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

२३६. वेउव्विय०-आहार० मणजोगिभंगो । वेउव्विय-आहारमि० ओरालियमिस्सभंगो । कम्मइग० सव्वपगदीणां उक्क० अणु० एत्थि अंतरं ।

२४०. इत्थिवे० ओघं । पढमदंडओ सो चेव इत्थं वि । एवरि पलिदोवमसदपुधत्तं । थीणगिद्धि० ३-मिच्छ०--अणांताणुबंधि०४--इत्थि०-एवुंस०--तिरिक्खगदि-एइदि०-पंचसंठा०--पंचसंघ०--तिरिक्खाणु०--आदउज्जो०--अप्पसत्थ०--थावर-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उक्क० एणाणावरणभंगो । अणु० जह० एग०, उक्क०

तियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार अधःप्रवृत्तके जानना चाहिए । अथवा तदनन्तर समयमें पर्याप्तिको ग्रहण करेगा ऐसे समयमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व प्राप्त होता है इसलिए ध्रुवबन्धवाली और देवगतिपञ्चकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । शेष परिवर्तनशील प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । दो आयुओंका अन्तरकाल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है ।

विशेषार्थ—मूलप्रकृतिस्थितिबन्ध प्रकरणमें जो तदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको प्राप्त होगा वह सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कह आये हैं और यहाँ उत्तर प्रकृति स्थितिबन्ध प्रकरणमें तद्योग्य संक्लेश परिणामोंके होने पर अथवा उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंके होने पर उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी होता है यह कहा है । इसी बातको ध्यानमें रखकर यहाँ अन्तर कालका निरूपण दो प्रकारसे किया है । फिर भी हर हालतमें किसी भी कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं प्राप्त होता इतना स्पष्ट है । कारण कि औदारिकमिश्रकाययोगका काल इतना अल्प होता है जिसमें दो बार उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य परिणाम नहीं प्राप्त होते ।

२३९. वैक्रियिककाययोगी और आहारक काययोगी जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भङ्ग है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है । कर्मणकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है ।

२४०. स्त्रीवेदी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । प्रथमदण्डक भी उसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि यहाँ सौ पत्य पृथक्त्व कहना चाहिए । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहन्न, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचपन

पणवणं पलिदोव० देसू० । तिरिक्ख-मणुसायु० उक्कं० जह० पुव्वकोडि समयू०,
 उक्क० णाणावणीयभंगो । अणु० जह० अंतो०, उक्क० पलिदो० सदपुधत्तं ।
 णिरयायु० उक्क० णत्थि अंतरं । अणु० द्विदि० जह० अंतो, उक्क० पुव्वकोडिति-
 भागं देसू० । देवायु० उक्क० जह० दसवस्ससहस्साणि पुव्वकोडी समयू०, उक्क०
 कायद्विदी० । अणु० जह० अंतो०, उक्क० अट्ठावणं पलिदोवमाणि पुव्वकोडि-
 पुधत्तेणभहियाणि । वेउव्वियळक्क-वीई०-तीई०-चदुरिं०-सुहुम-अपज्ज०-साधार०
 उक्क० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० णाणाव०भंगो । अणु० द्विदि० जह० एग०,
 उक्क० पणवणं पलिदो० सादि० । मणुस०-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि-
 सभ०-मणुसाणु० उक्क० जह० अंतो०, उक्क० णाणाव०भंगो । अणु० जह०
 एग०, उक्क० तिरिण पलिदो० देसू० । आहार०२ उक्क० अणु० जह० अंतो०,
 उक्क० कायद्विदी० । तित्थय० उक्क० अणु० णत्थि अंतरं ।

पल्य है । तिर्यञ्जायु और मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम एक पूर्वकोटि है और उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ पल्य पृथक्त्व प्रमाण है । नरकायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिके विभाग प्रमाण है । देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर दस हजार वर्ष और एक समय कम एक पूर्वकोटि है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक अट्ठावन पल्य है । वैक्रियिक छद्म, द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन पल्य है । मनुष्य-गति, औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । आहारकद्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । तीर्थकर प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है ।

विशेषार्थ—स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट कायस्थिति सौ पल्य पृथक्त्व प्रमाण है । इसीसे यहां प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल सौ पल्य पृथक्त्व प्रमाण कहा है । कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कराकर यह अन्तर ले आना चाहिए । सम्यक्त्वके कालमें स्त्यानगृद्धि तीन आदि प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसलिये इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम पचवन पल्य कहा है । चारों आयुओंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तर कालके विषयमें पहले अनेक बार निर्देश कर आये हैं । उसे ध्यानमें रखकर यहां अन्तरकाल जान लेना चाहिए । मात्र देवायुके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर जो पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक अट्ठावन पल्य

२४१. पुरिसेसु पढमदंडओ ओघं । एवरि उक्क० ट्टिदि० जह० अंतो०,
उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं । थीणगिद्धि० ३-भिच्छ०-अणांताणुबंधि० ४-इत्थि० उक्क०
णाणाव० भंगो । अणु० जह० एग०, उक्क० ओघं । एवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंध०-
अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उक्कस्सं णाणवर० भंगो । अणु० ओघं ।
णिरयायु० उक्क० एत्थि अंतरं । अणु० इत्थि० भंगो । तिरिक्ख-मणुसायु० इत्थि-
भंगो । एवरि सगट्टिदी० । देवायु० उक्क० जह० दसवस्ससहस्साणि पुव्वकोडी
समयू०, उक्क० णाणावर० भंगो । अणु० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि
सादि० । णिरयग०-वेई०-तेई०-चदुरिं०-णिरयाणु०-आदाव-थावरादि० ४ उक्क०
णाणाव० भंगो । अणु० जह० एग०, उक्क० तेवट्टिसागरोवमसदं । देवगदि० ४
उक्क० ट्टिदि० णाणाव० भंगो । अणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० ।

कहा है सो उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि किसी स्त्रीवेदीने देवायुका पचवन पत्य-
प्रमाण स्थितिबन्ध किया पश्चात वह स्त्रीवेदके साथ पूर्वकोटि पृथक्त्व काल तक परिभ्रमण
कर तीन पत्यकी आयुवाला स्त्रीवेदी हुआ और वहां छह महीना शेष रहने पर उसने पुनः
देवायुका बन्ध किया तो देवायुका यह अन्तरकाल प्राप्त हो जाता है। देवी पर्यायमें वैकि-
धिक छह आदि बारह प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता और वहांसे च्युत होनेके बाद भी अन्त-
मुहूर्त काल तक इनका बन्ध न होना सम्भव है, क्योंकि ये सप्रतिपत्त प्रकृतियां हैं, इसलिए
इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक पचवन पत्य कहा है। सम्य-
गृष्टि मनुष्यनीके सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है। इसीसे स्त्रीवेदमें मनु-
ष्यगति आदि पाँच प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य
कहा है, क्योंकि मनुष्य सम्यगृष्टिके इनका बन्ध नहीं होता। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२४१. पुरुषवेदी जीवोंमें प्रथम दण्डक ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्व
है। सत्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और स्त्रीवेदके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका
अन्तरकाल ज्ञानावरणके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और
उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान है। नपुंसकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहा-
योगति, दुर्भंग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल ज्ञानावरण
के समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल ओघके समान है। नरकायुके उत्कृष्ट
स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल स्त्रीवेदके समान
है। तिर्यञ्जायु और मनुष्यायुका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है। इतनी विशेषता है कि अपनी
स्थिति कहनी चाहिए। देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर दस हजार वर्ष और
एक समय कम एक पूर्वकोटि है और उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान है। अनुत्कृष्ट
स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। नरक-
गति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, नरक गत्यानुपूर्वी, आतप, स्थावर
आदिचारके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल ज्ञानावरणके समान है। अनुत्कृष्ट स्थिति-
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसठ सागर है। देवगति
चारके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। मनुष्यगतिपञ्चकके

मणुसगदिपंचगस्स उक्क० द्विदि० णाणाव० भंगो । अणु० जह० एग०, उक्क०
तिणिण पलिदो० सादि० । आहार०२ उक्क० अणु० जह० अंतो०, उक्क० सग-
द्विदी० । तित्थय० उक्क० एत्थि अंतरं । अणु० औघं ।

२४२. एवुंस० पढमदंडओ मूलोघं । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंता
एवुंधि०४-इत्थि०-एवुंस०-तिरिक्खग०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-
अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचागो० उक्क० द्विदि० औघं । अणु० जह०
एग०, उक्क० तेचीसं सा० देसु० । तिणिण आयु०-वेउव्वियळक्क-मणुसग०-मणु-

उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है । आहारक द्विकके उत्कृष्ट और अनु-
त्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण
है । तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका
अन्तर काल ओघके समान है ।

विशेषार्थ—पुरुषवेदकी उत्कृष्ट कायस्थिति सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण है । इसीसे इसमें
प्रथम दण्डमें कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त प्रमाण कहा
है । पुरुषवेदमें मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर है । ओघसे स्त्यान-
गृद्धि तीन आदि नौ प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण ही प्राप्त
होता है । इसीसे यहां इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल ओघके
समान कहा है । मात्र स्त्रीवेद सप्रतिपन्न प्रकृति होनेसे यहां ओघके समान इसके अनुत्कृष्ट
स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागर कहना चाहिए । नपुंसकवेद आदि
सोलह प्रकृतियोंका सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टिके तो बन्ध होता ही नहीं । साथ ही
इनका अकर्मभूमिज जीवके भी बन्ध नहीं होता । इसलिए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका
उत्कृष्ट अन्तर ओघसे साधिक दो छयासठ सागर और कुछ कम तीन पत्य कहा है । पुरुष-
वेदमें यह अन्तर इसी प्रकार प्राप्त होता है, इसलिए यहां यह ओघके समान कहा है । जो
जीव दो छयासठ सागर तक सम्यग्दृष्टि और मध्यमें सम्यग्मिथ्यादृष्टि रहा और अन्तमें नौ
त्रैवेयकमें उत्कृष्ट आयुके साथ उत्पन्न हुआ उसके एक सौ त्रेसठ सागर काल तक पुरुषवेदमें
नरकगति आदि दस प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसलिए यहां इनके अनुत्कृष्ट स्थिति-
बन्धका उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसठ सागर काल प्रमाण कहा है । उपशम श्रेणिपर चढ़ा
हुआ जो जीव उतरते समय देवगतिचतुष्कका बन्ध करनेके अनन्तर पूर्व समयमें मरकर
तेतीस सागर की आयुवाला देव होता है उसके साधिक तेतीस सागर काल तक देवगति
चतुष्कका बन्ध नहीं होता, इसलिए यहां इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल
साधिक तेतीस सागर कहा है । सम्यग्दृष्टि मनुष्यके मनुष्यगतिपञ्चकका बन्ध नहीं होता और
मनुष्यके सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है । इसीसे यहां इनके अनुत्कृष्ट
स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२४२. नपुंसकवेदमें प्रथम दण्डक मूलोघके समान है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व,
अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, पांच संस्थान, पांच संहनन,
तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त, विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है । अनुत्कृष्टस्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय
है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । तीन आयु, वैक्रियिक छह, मनुष्यगति,

साणु०-उच्चा०-आहार०२ उक्क० अणु० ओवं । देवायु० उक्क० ट्टिदि० एत्थि
अंतरं । अणु० ट्टिदि० पगदिअंतरं । एइंदि०-बीइंदि०-तीइंदि०-चदुरिंदि०-आदाव-
थावर०४ उक्क० साणाव०भंगो । अणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा०
सादि० । तित्थय० मणुसभंगो । ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिसभ० उक्क०
णाणाव०भंगो० । अणु० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसु० । एवं अट्ठकसा० ।

२४३. अवगदवेदे सव्वपगदीणं उक्क० एत्थि अं० । अणु० जह०
उक्क० अंतो० ।

मनुष्यगत्यानुपूर्वी, उच्चगोत्र और आहारक द्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति चतुरिन्द्रिय जाति, आतप और स्थावर चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यअन्तर काल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्योंके समान है । औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वज्रर्षभनाराच संहननके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्व कोटि है । इसी प्रकार आठ कषायोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—नरकमें मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । इसीसे यहाँ स्थानगृद्धि तीन आदि अट्ठाइस प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । नरकमें एकेन्द्रिय जाति आदि नौ प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता और सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ होनेसे अन्तर्मुहूर्त कालतक और इनका बन्ध सम्भव नहीं है । इसीसे इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । नपुंसकवेदी सम्यग्दृष्टि मनुष्य या तिर्यञ्चके कुछ कम एक पूर्वकोटि कालतक औदारिक शरीर आदि तीन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण कहा है । यहाँ तिर्यञ्च पर्यायकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होगा । मात्र प्रारम्भमें और अन्तमें इनका बन्ध कराके यह अन्तरकाल ले आना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

२४३. अपगतवेदमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—नपुंसक वेदसे उपशम श्रेणिपर चढ़े हुए जीवके उतरते समय सवेदी होनेके एक समय पहिले अपनी सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है । इसलिए अवगत वेदमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तर कालका निषेध किया है तथा उपशान्त मोहका काल अन्तर्मुहूर्त होनेसे यहाँ अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । चार संज्वलनकी बन्ध व्युच्छित्त होनेके बाद उनका पुनः बन्ध अपगत वेदमें अन्तर्मुहूर्त कालके बाद ही होता है इसलिए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

२४४. क्रोधादि०४ मणजोगिभंगो ।

२४५. मदि०-सुद० पंचणा०-एवदंस०-सादासा०-मिच्छत्त-सोलसक०-अट्ट-
णोक०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण०४-अगुरु०४-पसत्थ०-तस०४-थिराथिर-
सुभासुभ-सुभग-सुस्वर-आदे०-जस०-अजस०-णिमि०-पंचंत० उक्क० द्विदि० जह०
अंतो०, उक्क० अणंतकालं० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवुंस०-
ओरालि०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-अस्संध०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-
णीचा० उक्क० द्विदि० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० तिण्ण पलिदो० देसू० ।
चदुएणंआयु०-वेउव्वियळ्ळ०-मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० मूलोघं । एवरि देवायु०
उक्क० द्विदि० जह० दसवस्ससहस्साणि पुव्वकोडी समयू०, उक्क० अणंतकालम-
संखे० । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणुपु०-उज्जो० उक्क० ओघं । अणु० द्विदि० जह०
एग०, उक्क० एकत्तीसं सा० सादि० । चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ उक्क० द्विदि०
ओघं । अणु० द्विदि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० ।

२४४. क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—मनोयोगका काल और चारों कषायोंका काल एक समान है इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके स्थितिवन्धका अन्तरकाल मनोयोगी जीवोंके समान कहा है ।

२४५. मत्स्यज्ञानी, और श्रुताज्ञानी जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता और असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, आठ नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । नपुंसकवेद, औदारिक शरीर, पांच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्गभ, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । चार आयु, वैक्रियिक छह, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका अन्तर काल मूलोघके समान है । इतनी विशेषता है कि देवायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध का जघन्य अन्तर दस हजार वर्ष और एक समय कम एक पूर्वकोटि है । तथा उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है । चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है ।

२४६. विभंगे पंचणा०-एवदंसणा०-सादासा०-मिच्छ०-सोलसक०-एवणोक०-
तिरिक्खगदि-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-इस्संठाण-ओरालि०-अंगो०-इस्संघ०-
वणण०-४-तिरिक्खाणु०-अगुरु०-४-उज्जो०-दोविहा०-तस०-४-थिरादिक्क-णिमि०-
णीचा०-पंचंत० उक्क० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० देसू० । अणु०
जह० एग०, उक्क० अंतो० । णिरय-देवायु० उक्क० अणु० द्विदि० एत्थि
अंतरं । तिरिक्ख-मणुसायु० उक्क० द्विदि० एत्थि अंतरं । अणु० जह० अंतो०,
उक्क० इम्मासं देसू० । वेउन्विषय०-तिणिणजादि-सुहुम-अपज्जत्त-साधारण०
उक्क० एत्थि अंतरं । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । मणुसगदिदुगं उच्चा०
उक्क० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० बावीसं सा० देसू० । अणु० जह० एग०,
उक्क० अंतो० । एइंदि०-आदाव-थावर० उक्क० जह० अंतो०, उक्क० बेसाग०
सादि० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

२४६. विभङ्गज्ञानमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, असाता
वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नवकषाय, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक
शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, छह संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन,
वर्णचतुष्क तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसचतुष्क,
स्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका
जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अनुत्कृष्ट
स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर, अन्तर्मुहूर्त है । नरकायु
और देवायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । तिर्यञ्चायु और
मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर
अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महिना है । वैक्रियिक छह, तीन जाति,
सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट
स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्यगति
द्विक और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट
अन्तर कुछ कम बाईस सागर है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है
उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । एकेन्द्रिय जाति, आतप और स्थावरके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका
जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । अनुत्कृष्ट स्थिति-
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—नरकमें विभङ्गज्ञानका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । इसीसे
यहां पाँच ज्ञानावरण आदि ८७ प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम
तेतीस सागर कहा है । यहाँ प्रारम्भ और अन्तमें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कराकर यह अन्तर
काल ले आवे । वैक्रियिक छह आदि बारह प्रकृतियोंका बन्ध देव और नारकियोंके नहीं
होता । मनुष्य और तिर्यञ्चोंके होता है । फिर भी इनके विभङ्गज्ञानके कालमें इन प्रकृतियोंके
दो बार उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य परिणाम नहीं होते, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके
उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । नरकमें मनुष्यगतिद्विक और उच्च-
गोत्रका विभङ्गज्ञानमें बन्ध छठे नरकतक ही होता है । इसीसे यहाँ इन प्रकृतियोंके
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम बाईस सागर कहा है । एकेन्द्रिय जाति आदि

२४७. आभि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-द्वंदसणा०-असादा०-चदुसंज०-पुरिस०-
 अरदि-सोग-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण०४-अगुरु०४-पसत्थवि०-
 तस०४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अज०-णिमि०-तिन्थय०-उच्चागो०-पंचन०
 उक्क० द्विदि० एत्थि अंतरं । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । सादावे०-हस्स-
 रदि-थिर-सुभ-जस० उक्क० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० छावट्टि साग० सादि० ।
 अणु० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । मणुस-देवायु० उक्क० द्विदि० जह०
 पलिदो० सादि०, उक्क० छावट्टिसाग० सादि० । देवायु० छावट्टिसाग० देसू० । अणु०
 जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सा० सादि० । अट्टक० उक्क० द्विदि० एत्थि अंतरं ।
 अणुं० ओघं । मणुसगदिपंचगस्स उक्क० एत्थि अंतरं । अणु० जह० वासपु-
 धत्तं०, उक्क० पुव्वकोडी० । देवगदि०४ उक्क० द्विदि० एत्थि अंतरं । अणु०
 जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । आहार०२ उक्क० अणु० जह०
 अंतो०, उक्क० छावट्टिसा० सादि० तेत्तीसं सा० सादि० । अथवा उव्वेल्लिज्जदि
 तदो उक्क० अणु० छावट्टिसा० सादि० दोहि पुव्वकोडीहि सादिरे० ।

तीन प्रकृतियोंका बन्ध पेशान कल्पतक होता है। इसीसे यहाँ इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा है। यहां भी प्रारम्भमें और अन्तमें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कराकर यह अन्तर काल ले आवे। शेष कथन सुगम है।

२४७. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्षचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थंकर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। साता वेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। मनुष्यायु और देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक पत्य प्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है। किन्तु देवायुका कुछ कम छयासठ सागर है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। आठ कषायोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल ओघके समान है। मनुष्यगति पाँचके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर वर्षपृथक्त्व है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटि है। देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। आहारकद्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर और साधिक तेतीस सागर है। अथवा इनकी उद्वेलना करता है इसलिए उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल दो पूर्वकोटि अधिक साधिक छयासठ सागर है।

१. मूलप्रती अणु० जह० ओघं इति पाठः ।

२४८. मणपज्ज० पंचणां०-द्धदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दुगुं०-देवगदि-
पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि०-अंगो०-वणण०४-देवाणु०-अगुरु०४-
पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०--णिमि०--तित्थय०--उच्चा०--पंचत० उक्क०
ट्टिदि० एत्थि अंतरं । अणु० जह० उक्क० अंतो० । सादा०-हस्स-रदि-थिर-सुभ-

विशेषार्थ-- उक्त तीन ज्ञानोंमें पाँच ज्ञानावरण आदि ५२ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थिति-
बन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके होता है, इसलिए यहाँ इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके
अन्तर कालका निषेध किया है। तथा जो सातवें आदि गुणस्थानोंमें कमसे कम एक समयके
लिए और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्तके लिए इनका अबन्धक होकर पुनः मरणकर या
उतरकर इनका बन्ध करता है उसके इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय
और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त उपलब्ध होता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य
अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। सातावेदनीय आदि छह प्रकृ-
तियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध यहाँ स्वस्थानवर्ती जीवके होता है और आभिनिबोधिक आदि
तीनों ज्ञानोंका उत्कृष्ट काल साधिक छयासठ सागर है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट
स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक छयासठ सागर कहा है। इन तीन ज्ञानोंका
उत्कृष्ट काल चार पूर्वकोटि अधिक छयासठ सागर बतलाया है। उसे देखते हुए मनुष्यायुके
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक छयासठ सागर बन जाता है पर देवायुके
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम छयासठ सागर ही उपलब्ध होता है,
इसलिए यहाँ मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक छयासठ
सागर और देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम छयासठ सागर
कहा है। इनके आठ कषायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध भी मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके होता
है, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तर कालका निषेध किया है। सम्यग्दृष्टि देवके
मनुष्यगति पञ्चकका नियमसे बन्ध होता है। यह मनुष्योंमें कमसे कम वर्षपृथक्त्वप्रमाण
और अधिकसे अधिक पूर्वकोटि प्रमाण आयुके साथ उत्पन्न हुआ और मरणकर पुनः देव
हो गया। तो इसके मनुष्यगतिपञ्चकके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर वर्षपृथक्त्व
प्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिप्रमाण उपलब्ध होता है। इसीसे यहाँ यह अन्तर
उक्त प्रमाण कहा है। देवगतिचतुष्कका देव और नारकीके बन्ध नहीं होता। तथा नरकमें
जानेके पहले और वहाँसे निकलने पर अन्तर्मुहूर्त काल तक इनका और भी बन्ध सम्भव
नहीं है, क्योंकि ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट
अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। आहारकद्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका
उत्कृष्ट अन्तर काल दो प्रकारसे बतलाया है। प्रथम अन्तर काल उद्वेलनाकी विवक्षा न
करके कहा गया है और दूसरा अन्तर काल उद्वेलनाकी विवक्षासे कहा गया है। शेष
कथन सुगम है।

२४८. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन,
पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कामण
शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु-
चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोत्र
और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त है। सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ

जस० उक्क० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । अणुक्क० ओघं ।
असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० उक्क० एत्थि अंतरं । अणु० ओघं ।
देवायु० उक्क० द्विदि० एत्थि अंतरं । अणु० पगदिअंतरं । आहार०२ उक्क० जह०
अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । अणु० जह० उक्क० अंतो० । एवं संजदा० ।
सामाइ०-छेदो० धुविगाणं उक्क० अणु० द्विदि० एत्थि अंतरं । सेसाणं मणपज्ज-
वभंगो । एवं परिहारे । सुहुमसंप० सव्वपगदीणं उक्क० अणु० एत्थि अंतरं ।
संजदासंजद० परिहारभंगो ।

- २४६. असंजदेसु पढमदंडओ ओघं । एवरि अट्टक० धुविगाणं सह भाणि-
दव्वं । थीणगिद्धि३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-इत्थि०-एवुंस०--तिरिक्खगदि--पंच-
संठा०-पंचसंध०-उज्जो०-तिरिक्खाणुं०--अप्पसत्थ०--दूभग--दुस्सर--अणादे०--णीचा०
उक्क० द्विदि० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देसू० ।

और यशःकीर्तिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है । असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल ओघके समान है । देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है । आहारकद्विकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिए । सामायिक और छेदोपस्थापना संयत जीवोंके ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान है । इसी प्रकार परिहारविशुद्धि संयत जीवोंके जानना चाहिए । सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । संयतासंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग परिहार विशुद्धि-संयत जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—मनःपर्ययज्ञानीके प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंयमके अभिमुख होने पर होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तर कालका निषेध किया है । इसी दृष्टिसे असातावेदनीय आदि छह प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तर कालका निषेध किया है । यहाँ जिन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण कहा है उसे प्रारम्भमें और अन्तमें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कराकर ले आना चाहिए । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२४९. असंयत जीवोंमें प्रमथ दण्डक ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि आठ कषायोंका कथन ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके साथ करना चाहिए । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, पाँच संस्थान; पाँच संहनन, उद्योत, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । चार आयु, वैक्रियिक छह और मनुष्यगतिका

चदुआयु०-वेउव्वियव्वक-मणुसगदि० मदि० भंगो । चदुगदि-आदाव-थावर०४ उक्क०
द्विदि० ओघं । अणु० एवुंसगभंगो । ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिसभ०
उक्क० अणु० ओघं । तित्थय० उक्क० एत्थि अंतरं । अणु० जह० उक्क० अंतो० ।
चक्खुदंस० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खु० मूलोघं । ओधिदं० ओधिणाणिभंगो ।

२५०. किएणले० पंचणा०-द्धंसणा०-असादा०-बारसक०-अरदि-सोग-भय-
दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-वण०४-अगुरु०४-तस०४-अथिर-असुभ-अजस०-
णिमि०-पंचंत० उक्क० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । अणु० जह०
एग०, उक्क० अंतो० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-एवुंस०-हुंडसं०-
अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उक्क० एणाव०भंगो । अणु० जह०
एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देसू० । सादा०-पुरिस०-हस्स-रदि-ओरालि०-समचदु०-

भङ्ग मृत्युनियमोंके समान है । चार गति, आतप और स्थावर चारके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका
अन्तर ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका भङ्ग नपुंसकवेदी जीवोंके समान है ।
औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वज्रर्षभनाराचसंहननके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थि-
तिबन्धका अन्तर ओघके समान है । तीर्थकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं
है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त है । चक्षुदर्शनवाले
जीवोंका भङ्ग त्रसपर्याप्तकोंके समान है । अचक्षुदर्शनवाले जीवोंका भङ्ग मूलोघके समान है ।
अवधिदर्शनवाले जीवोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—असंयत जीवोंके आठ कषायोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए
यहाँ इनके ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके साथ इनका निर्देश करनेकी सूचना की है । असंयत
अवस्थामें स्त्यानगृद्धि तीन आदि २८ प्रकृतियोंका कुछ कम तेतीस सागर काल तक बन्ध
नहीं होता, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर
कहा है । यह अन्तर सातवें नरककी अपेक्षासे कहा गया है, क्योंकि देवोंमें जो तेतीस
सागरकी आयुके साथ उत्पन्न होता है वह मनुष्य पर्यायमें आकर नियमसे संयमको प्राप्त
करता है, इसलिए ऐसे जीवके इनका बन्ध ही नहीं होता, अतएव इस अपेक्षासे असंयमका
काल लेने पर इन प्रकृतियोंके बन्धका अन्तरकाल नहीं उपलब्ध होता । शेष कथन
स्पष्ट ही है ।

२५०. कृष्ण लेश्यावाले जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असाता वेदनीय,
बारह कषाय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण
शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति, निर्माण
और पांच अन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर
साधिक तेतीस सागर है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और
उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, नपुंसक
वेद, हुण्डकसंस्थान, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, और नीचगोत्रके
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । साता वेदनीय, पुरुष
वेद, हास्य, रति, औदारिक शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच

१. मूलप्रतौ गदि० विभंगमदि०भंगो इति पाठः ।

ओरालि०अंगो०-वज्जरिसभ०-पसत्थ०-थिरादिछ० उक्क० जह० अंतो०, उक्क०
तेत्तीसं० देसू० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । इत्थिवे०-तिरिक्खगदि-चदु-
संठा०-पंचसंध०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० उक्क० सोदभंगो । अणु० जह० एग०,
उक्क० तेत्तीसं सा० देसू० । णिरय-देवायु० उक्क० अणु० एत्थि अंतरं । तिरिक्ख-
मणुसायु० उक्क० द्विदि० एत्थि अंतरं । अणु० जह० अंतो०, उक्क० इम्मासं
देसू० । णिरयगदि-देवगदि-चदुजादि-दोआणु०-आदाव-थावरादि०४ उक्क० द्विदि०
एत्थि अंतरं । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा०
उक्क० जह० अंतो०, उक्क० बावीसं सा० देसू० । अणु० जह० एग०, उक्क०
तेत्तीसं सा० देसू० । वेउन्विय०-वेउन्विय०-अंगो० उक्क० एत्थि अंतरं । अणु०
जह० एग०, उक्क० बावीसं सा० । तित्थय० उक्क० अणु० एत्थि अंतरं ।

२५१. एील-काऊ० पंचणा०-एवदंस०-सादासादा०-वारसक०-पुरिस०-छएणो-
क०-मणुसग०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि-
सभ०-वएण०४-मणुसाणु०-अणु०४-पसत्थ०-तस०४-थिराथिर-मुभामुभ-सुभग-
सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० उक्क० जह० अंतो०, उक्क०

संहनन, प्रशस्त विहायोगति और स्थिर आदिक छह प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अनुत्कृष्ट स्थिति-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । स्त्रीवेद, तिर्यञ्चगति, चार संस्थान, पांच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका भङ्ग साता प्रकृतिके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । नरकायु और देवायुके उत्कृष्ट और अनु-त्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्त-र्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महिना है । नरकगति, देवगति, चार जाति, दो आनुपूर्वी, आतप, स्थावर आदि चारके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम बाईस सागर है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर बाईस सागर है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है ।

२५१. नील और कापोतलेश्यावाले जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, छह नोकषाय, मनुष्य गति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति,

सत्तारस-सत्तसाग० देसू० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । थीणगिद्धि०३-
मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-इत्थि०-एणुंस०-तिरिक्खग०-पंचसंठा०-पंचसंध०-तिरि-
क्खाणु०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उक्क० एणाव०भंगो ।
अणु० द्विदि० जह० एग०, उक्क० सत्तारस-सत्तसाग० देसू० । णिरय-देवायु०
उक्क० अणु० एत्थि अंतरं । तिरिक्ख-मणुसायु० क्खिण्ण०भंगो । णिरयगदि-
देवगदि-चदुजादि-दोआणु०-आदाव-थावरादि०४ उक्क० द्विदि० एत्थि अंतरं ।
अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो० उक्क० एत्थि
अंतरं । अणु० जह० एग०, उक्क० सत्तारस-सत्तसाग० । तित्थय० उक्क० द्विदि०
जह० अंतो०, उक्क० तिण्ण साग० सादि० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।
णीलाए उक्क० एत्थि अंतरं । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

२५२. तेऊए पंचणा०-द्धदंसणा०-सादासादा०-वारसक०-पुरिस०-द्धणोको०-
मणुसग०-पंचिदि०-ओरालिय-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिसभ०-
वण्ण०४-मणुसाणु०-अगुरु०४-पसत्थ०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-

अयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर
अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम सत्रह सागर व कुछ कम सात सागर है ।
अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।
स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, पाँच
संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर,
अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट
स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम सत्रह सागर व
कुछ कम सात सागर है । नरकायु और देवायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका
अन्तर काल नहीं है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका
अन्तर काल कृष्ण लेश्याके समान है । नरकगति, देवगति, चार जाति, दो आनुपूर्वी, आतप
और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । वैक्रियिक शरीर और
वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सत्रह सागर व सात सागर है । तीर्थङ्कर
प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक
तीन सागर है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
अन्तर्मुहूर्त है । किन्तु नील लेश्यामें उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थि-
तिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

२५२. पीत लेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, असाता वेद-
दनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, छह नोकषाय, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक
शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग,
वज्रभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस
चतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण,

आदे०-जस०-अजस०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचंत० उक्क० जह० अंतो०, उक्क०
 वे साग० सादि० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-
 अणताणुबंधि०४-इत्थि०-एवुंस०-तिरिक्खग०-एइदि०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरि-
 क्खाणु०-आदा०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उक्क० णाणा-
 व०भंगो । अणु० जह० एग०, उक्क० वे साग० सादि० । तिरिक्ख०-मणुसायु०
 उक्क० द्विदि० एत्थि अंतरं । अणु० जह० अंतो०, उक्क० ब्भमासं देसूणं ।
 देवायु०-आहारस०२ उक्क० अणु० एत्थि अंतरं । देवगदि०४ उक्क० एत्थि
 अंतरं । अणु० जह० पलिदो० सादि०, उक्क० वेसाग० सादि० । पम्माए सो
 चेव भंगो । एवरि सगद्विदी कादव्वा । एइदिय०-आदाव-थावरं च वज्ज० ।

२५३. सुक्काए पंचणा०-व्वदंसणा०-सादासा०-वारसक०-सत्तणोको०-मणु-
 सग०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिसभ०-
 वणण०४-मणुसाणु०-अणु०४-पसत्थ०-तस०४-धिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-
 आदे०-जस०-अजस०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचंत० उक्क० जह० अंतो०, उक्क०
 अट्टारस साग० सादि० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । थीणगिद्धि०३-

तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर
 अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य
 अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व,
 अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसक वेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान,
 पांच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुस्वर,
 अनादेय और नीचगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल ज्ञानावरणके
 समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
 साधिक दो सागर है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल
 नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ
 कम छह महीना है । देवायु और आहारक शरीर द्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति-
 बन्धका अन्तरकाल नहीं है । देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं
 है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पत्य प्रमाण है और उत्कृष्ट
 अन्तर साधिक दो सागर है । पद्मलेश्यामें यही भंग है । इतनी विशेषता है कि इनके
 अपनी स्थिति कहनी चाहिए । और इनके एकेन्द्रिय जाति, आतप और स्थावर प्रकृतिका
 बन्ध नहीं होता ।

२५३. शुक्लेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, असाता वेद-
 नीय, बारह कषाय, सात नोकषाय, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस
 शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन,
 वर्णचतुष्क, मनुष्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर,
 शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र
 और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट
 अन्तर साधिक अट्टारह सागर है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और

मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४-इत्थि०--एवुंस०--पंचसंठा०--पंचसंध०--अप्पसत्थ०--दूभग--
दुस्सर-अणादे०-णीचा० उक्क० एणाव०भंगो । अणु० जह० एग०, उक्क०
एक्कत्तीसं सा० देसू० । मणुसायु० देवभंगो । देवायु० उक्क० अणु० एत्थि
अंतरं । आहार०२ उक्क० द्विदि० एत्थि अंतरं । अणु० द्विदि० जह० उक्क०
अंतो० । देवगदि०४ उक्क० एत्थि अंतरं । अणु० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं
साग० सादि० ।

२५४. भवसिद्धिया ओघं । अभवसिद्धिया० मदिभंगो । सम्मादिट्ठी० ओधि-
भंगो । खड्गसम्मा० पंचणा०-द्धदंसणा०-सादासा०-चदुसंज०-सत्तणोक०- पंचिदिय-
तेजा०-क०-समचदु०-वएण०४-अणु०४-पसत्थवि०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-
सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-एणिमि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचंत० उक्क० जह०
अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । अणु० ओघं । अट्ठक० उक्क० एणाव०-
भंगो । अणु० ओघं । मणुस-देवायु० उक्क० एत्थि अंतरं । अणु० पगदिअंतरं ।
मणुसगदिपंचगस्स उक्क० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० देसू० ।
अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । देवगदि०४ उक्क० जह० अंतो० । अणु०

उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद,
नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहारयोगति, दुर्भंग, दुःस्वर, अनादेय
और नीचगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट
स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है ।
मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर देवोंके समान है । देवायुके
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । आहारकद्विकके उत्कृष्ट स्थिति-
बन्धका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त
है । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका
जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है ।

२५४. भव्य जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल
ओघके समान है । अभव्य जीवोंमें मत्यज्ञानियोंके समान है । सम्यग्दृष्टियोंमें अवधिज्ञानियों
के समान है । ज्ञायिक सम्यग्दृष्टियोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय,
असाता वेदनीय, चार संज्वलन, सात नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण
शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहारयोगति, त्रसचतुष्क,
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थङ्कर,
उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और
उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है ।
आठ कषायोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका
अन्तर ओघके समान है । मनुष्यायु और देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं
है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान है । मनुष्यगति-
पञ्चकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम
तेतीस सागर है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर

जह० एग०, उक्क० दो वि तेत्तीसं साग० सादि० । आहार०२ उक्क० अणु०
जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० ।

२५५. वेदगे० पंचणा०-द्वंदसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दु०-पंचिदिय-तेजा०-
क०-समचदु०-वण०४-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-गामि०-
तित्थय०-उच्चा०-पंचंत० उक्क० अणु० एत्थि अंतरं । सादावे०-हस्स-रदि-थिर-सुभ-
जस० उक्क० जह० अंतो०, उक्क० छावट्टि० देसू० । अणु० ओयं । असादा०-
अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० ओधिभंगो । दो आयु० उक्क० द्विदि० जह०
पलिदो० सादि०, उक्क० छावट्टि साग० देसू० । अणु० ओधिभंगो । मणुसगदि-
पंचगस्स ओधिभंगो । देवगदि०४ उक्क० द्विदि० एत्थि अंतरं । अणु० जह०
पलिदो० सादि०, उक्क० तेत्तीसं साग० । आहार०२ उक्क० अणु० जह० अंतो०,
उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० ।

२५६. उवसम० पंचणा०-द्वंदसणा०-असादा०-चदुसंज०-पुरिस०-अरदि-सोग-
भय-दुगु०-[पंचिदिय०-तेजा०-क०-समचदु०-वण०४-अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-

अन्तर्मुहूर्त है । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है । तथा दोनों ही उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । आहारकद्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है ।

२५५. वेदक सम्यक्त्वमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । साता वेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ, और यशःकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम लुयासठ सागर है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है । असाता वेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर अवधिज्ञानके समान है । दो आयुओंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पत्यप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम लुयासठ सागर है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर अवधिज्ञानके समान है । मनुष्यगति पञ्चकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर अवधिज्ञानके समान है । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पत्यप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर तेतीस सागर है । आहारकद्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है ।

२५६. उपशम सम्यक्त्वमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असाता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके

अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदेय-अजस०--णिमिण-उच्चा०--पंचंत०] ओधिभंगो । सादावे०-हस्स-रंदि-थिर-सुभ-जस० तित्थय० उक्क० जह० उक्क० अंतो० । अणु० ओघं । अट्ठक०-देवगदि०४ उक्क० ट्ठिदि० एत्थि अंतरं । अणु० जहणु० अंतो० । मणुसगदिपंचग० उक्क० अणु० एत्थि अंतरं । आहार०२ उक्क० अणु० जह० उक्क० अंतो० ।

उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर अवधिज्ञानके समान है । साता वेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ, यशःकीर्ति और तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर ओघके समान है । आठ कषाय और देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है । आहारकविकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई ज्ञानावरण पाँच आदि प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि इनका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके होता है । तथा इनके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहनेका कारण यह है कि जो जीव इनका कमसे कम एक समयके लिए और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्तके लिए अबन्धक होकर पुनः इनका बन्ध करता है उसके जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त उपलब्ध होता है । अवधिज्ञानमें इन प्रकृतियोंका यह अन्तरकाल इसी प्रकार उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ यह अन्तरकाल अवधिज्ञानके समान कहा है । साता वेदनीय आदि प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध स्वस्थानमें होता है, इसलिए यहाँ इनके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर ओघके समान कहा है । आठ कषाय और देवगतिचतुष्कका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल उपलब्ध नहीं होनेसे वह नहीं कहा है । तथा इनके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहनेका कारण यह है कि जिस जीवने इनकी उपशमसम्यक्त्वमें बन्धव्युच्छिन्ति की वह पुनः इनका बन्ध अन्तर्मुहूर्त कालके बाद ही करता है । मनुष्यगतिपञ्चकका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके होता है, इसलिए तो यहाँ इनके उत्कृष्ट स्थितिवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है और उपशमसम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्यके इनका बन्ध नहीं होता, इसलिए उपशमसम्यक्त्वमें इनके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । यद्यपि उपशमसम्यग्दृष्टि देव और नारकियोंके इनका बन्ध होता है पर वहाँ मिथ्यात्वके अभिमुख होनेके पूर्वतक इनका अनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध ही होता रहता है, इसलिए वहाँ भी इनके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल सम्भव नहीं है । आहारकविकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहनेका कारण यह है कि जो प्रमत्तसंयमके अभिमुख जीव होता है उसके इनका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है । पुनः उसके अप्रमत्त होनेपर अनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है । इस प्रकार इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त उपलब्ध हो जाता है ।

१. मूलप्रती अणु० जहणु० जह० इति पाठः ।

२५७. सासणे तिरिण आयु० उक्क० अणु० एत्थि अंतरं । सेसाणं उक्क० एत्थि अंतरं । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

२५८. सम्मामि० सादासादा०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जस० अजस० उवसमसम्मादिदिभंगो । धुविगाणं उक्क० अणु० एत्थि अंतरं ।

२५९. मिच्छादिद्वी० मदिभंगो । सणिए० पंचिंदियपज्जत्तभंगो । असणणी० चदु-आयु० तिरिक्खोघं । वेउव्वियक्कक-मणुसगदि-मणुसाणु०-उच्चा० उक्क० [अणुक्क०] ओघं । सेसाणं उक्क० जह० अंतो०, उक्क० अणंतकालं० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । आहार० मूलोघं । एवरि यम्हि अणंतकालं तम्हि अणुलस्स असंखेज्जदि-भागो । अणाहार० कम्मइगभंगो । एवं उक्कस्सयं अंतरं समत्तं ।

२५७. सासादनमें तीन आयुओंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—सासादनका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल लह आवलि है। इसमें आयुकर्मके बन्धके दो अपकर्ष काल सम्भव नहीं हैं। इसलिए तो यहाँ तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु और देवायु इन तीन आयुओंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है और एक पर्यायमें आयुकर्मका दो बार उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता नहीं, इसलिए यहाँ उक्क तोनों आयुओंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है।

२५८. सम्यग्मिथ्यात्वमें सातावेदनीय, असातावेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर उपशमसम्यक्त्वष्टि जीवोंके समान है। तथा ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई सातावेदनीय आदि सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं और सम्यग्मिथ्यात्वका काल उपशमसम्यक्त्वके समान अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल उपशमसम्यक्त्वके समान घटित हो जानेके कारण वह उपयमसम्यक्त्वके समान कहा है। इनके सिवा यहाँ जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है उनका सतत बन्ध होता रहता है। उसमें भी इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल उपलब्ध नहीं होनेसे उसका निषेध किया है।

२५९. मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानियोंके समान है। संक्षी जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान है। असंक्षी जीवोंमें चार आयुओंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। वैक्रियिक लह, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। आहारक जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है। इतनी विशेषता है कि ओघमें जहाँ अनन्त काल कहा है वहाँ अङ्गुलका असंख्यातवां भाग कहना चाहिए। अनाहारकोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग कार्मणकाययोगी जीवोंके समान है।

इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तरकाल समाप्त हुआ।

२६०. जहणएण पगदं । दुविधं—ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-चदुदंस० सादावे०-चदुसंज०-पुरिस०-जस०-तित्थय०-पंचंत० जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । णिदा-पचला-असादा०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण०४-अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-णिमि० जह० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । थीणगिद्धितियं मिच्छत्तं अणंताणुबंधि०४-इत्थि० जह० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । अज० जह० एग०, उक्क० वे छावट्टिसाग० देसू० । इत्थिवे० सादिरे० । एवं अट्टक० । एवरि अज० उक्क० पुव्वकोडी देसू० । एवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंध०-अपसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० जह० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । अज० जह० एग०, उक्क० वे छावट्टिसाग० सादि० तिण्ण पलिदो० देसू० ।

२६१. णिरयायु०-देवायु० जह० द्विदि० [जह०] दसवस्ससहस्साणि सादि०, उक्क० अणंतकालं० । अज० जह० अंतो०, उक्क० अणंतकालं० । तिरिक्खायु०

२६०. अब जघन्य अन्तर कालका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, तीर्थकर और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । निद्रा, प्रचला, असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माण प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और स्त्रीवेद प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर है । किन्तु स्त्रीवेदके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागर है । इसी प्रकार आठ कषायोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल है । इतनी विशेषता है कि आठ कषायोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागर और कुछ कम तीन पत्य है ।

२६१. नरकायु और देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर

जह० द्विदि० जह० खुदाभव० समयू०, उक्क० बेसागरोवमसहस्साणि सादि० ।
 अज० जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुथत्तं । मणुसायु० जह० द्विदि० जह०
 खुदाभव० समयू०, उक्क० अणंतकालं० । अज० जह० अंतो०, उक्क० अणंतकालं० ।
 वेउन्वियद्ध० जह० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० अणंतकालं० । अज० जह० एग०,
 उक्क० अणंतकालं० । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० जह० द्विदि० जह० अंतो०,
 उक्क० अणंतकालं० । अज० जह० एग०, उक्क० तेवद्विसागरोवमसदं । मणुसग०-मणु-
 साणु० जह० द्विदि० जह० अंतो०, अज० जह० एग०, उक्क० दो वि असंखेज्जा लोगा ।
 चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ जह० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । अज०
 जह० एग०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसदं । ओरालि०-ओरालि० अंगो०-वज्जरिसभ०
 जह० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । अज० जह० एग०, उक्क०
 तिणिण पलिदो० सादि० । आहार०२ जह० द्विदि० जह० एत्थि अंतरं । अज०
 द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० अद्दपोगलपरि० । उच्चा० जह० द्विदि०
 एत्थि अंतरं । अज० ज० एग०, उक्क० असंखेज्जा लोगा ।

एक समय कम लुल्लक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो हजार सागर है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्व है । मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम लुल्लक भवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । वैक्रियिक छहके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसठ सागर है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और दोनोंका ही उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर है । औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वज्रर्षभनाराच संहननके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है । आहारकद्विकके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । उच्चगोत्रके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरण आदि चाईस प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध चपकश्रेणिमें होता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तर कालका निषेध किया है। इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त उपशमश्रेणिकी अपेक्षासे कहा है। तात्पर्य यह है कि जो जीव उपशमश्रेणिमें इन प्रकृतियोंका कमसे कम एक समयके लिए और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्तके लिए अबन्धक होकर पुनः इनका बन्ध करता है उसके इन प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त उपलब्ध होता है। निद्रा आदि बत्तीस प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका बन्ध कमसे कम अन्तर्मुहूर्त कालके बाद होता है, क्योंकि अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है और बादर पर्याप्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोक प्रमाण है, इसलिए इन प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोक प्रमाण कहा है। तथा इन प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि इनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। मिथ्यात्व गुणस्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए स्त्यानगृद्धि तीन आदि नौ प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है और बादर पर्याप्त जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात लोक प्रमाण है इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोक प्रमाण कहा है। इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है, इसलिए इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम छयासठ सागर है, इसलिए इनके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर प्रमाण कहा है। मात्र स्त्रीवेद सप्रतिपन्न प्रकृति है, इसलिए इसका यह अन्तरकाल साधिक दो छयासठ सागर बन जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। अप्रत्याख्यानावरण चार और प्रत्याख्यानावरण चार इन आठ कषायोंका यह अन्तर काल अपनी विशेषताको ध्यानमें रखकर इसी प्रकार प्राप्त होता है। मात्र संयमासंयम और संयमका उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण होनेसे इनके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। नपुंसक वेद आदि सोलह प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध कमसे कम अन्तर्मुहूर्त कालतक और अधिकसे अधिक असंख्यात लोकप्रमाण कालतक नहीं होता, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण कहा है। इसका स्पष्टीकरण पहले किया ही है। तथा इनका अजघन्य स्थितिबन्ध कमसे कम एक समय तक नहीं होता, और अधिकसे अधिक दो छयासठ सागर और कुछ कम तीन पत्य काल तक नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो छयासठ सागर तथा कुछ कम तीन पत्य कहा है। देवायु और नरकायुका जघन्य स्थितिबन्ध पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवके होता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक दस हजार वर्ष कहा है और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है। इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है यह स्पष्ट हो है। तिर्यञ्चायुका जघन्य स्थितिबन्ध भुल्लकभवग्रहण प्रमाण है। और इसमेंसे एक समय जघन्य स्थितिबन्धमें लगता है इसलिए इसके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर

२६२. आदेसेण एणरइणमु पंचणा०-द्वंदसणा०-वारसक०-भय-दुगुं०-पंचिदि०-
 ओरालिय०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-वणण०४-अगुरु०४-तस०४-णिभि०-पंचंत०
 जह० अज० द्विदि० एत्थि अंतरं । थीणगिद्धितियं मिच्छत्तं अणंताणुबंधि०४ जह०
 द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० देसू० । इत्थि०-
 एवुंस०-दोगदि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-दोआणु०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-
 अणादे०-णीचुच्चा० जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं
 सा० देसू० । सादासा०-पुरिस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-समचदु०-वज्जरिस०-पसत्थ०-
 थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे० [-जस०-अजस०] जह० द्विदि० एत्थि अंतरं ।
 अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । दो आयु० जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज०
 द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० ब्रम्मासं देसू० । तित्थय० जह० द्विदि० जह० अंतो०,
 उक्क० तिण्ण सागरो० सादि० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं पढ-

अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है और मनुष्य सम्यग्दृष्टिके इनका बन्ध नहीं होता, इस-
 लिए इनके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य कहा है । शेष अन्तर
 कालका स्पष्टीकरण वैक्रियिकपट्टके समान है । संयमका उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम अर्ध-
 पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है, इसलिए आहारकद्रिकके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर
 कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है । तथा उच्चगोत्रका अग्निकायिक और वायुकायिक
 जीवोंके बन्धका नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात
 लोकप्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२६२. आदेशसे नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय,
 जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग,
 वण्चतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य
 और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्ता-
 नुबन्धी चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थिति-
 बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है ।
 स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, दो गति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त
 विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, नीचगोत्र और उच्चगोत्रके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर
 काल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ
 कम तेतीस सागर है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक,
 समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराचसंहनन, प्रशस्तविहायोगति, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ,
 सुभग, सुस्वर और आदेय, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका
 अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट
 अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । दो आयुओंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य
 स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है ।
 तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक
 तीन सागर है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-

माए । एवरि सगद्विदी भाणिदव्वा । मणुसगदितिगं सादभंगो । विदियादि याव द्दिति उक्कस्सभंगो । एवरि थीणगिद्वितियं मिच्छत्तं अणंताणुवंधि०४ जह० अज०जह० अंतो०, उक्क० तिणिण-सत्त-दस-सत्तारस-वावीसं साग० देमू० । सत्तमाए एवं चेव णादव्वं । एवरि तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-णीचा० जह० अज० थीणगिद्वि-तियभंगो । मणुसगदितिगं इत्थिभंगो ।

२६३. तिरिक्खेसु पंचणा०-द्धंस०-सादासा०-अट्टक०-सत्तणोक०-पंचिदि०-

मुहूर्त है। इसी प्रकार पहली पृथिवीमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी स्थिति कहनी चाहिए। तथा मनुष्यगति त्रिकका भङ्ग साता प्रकृतिके समान कहना चाहिए। दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवीतक उत्कृष्टके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे कुछ कम तीन सागर, कुछ कम सात सागर, कुछ कम दस सागर, कुछ कम सत्रह सागर और कुछ कम बाईस सागर है। सातवीं पृथिवीमें इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर स्त्यानगृद्धित्रिकके समान है। तथा मनुष्यगतित्रिकका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है।

विशेषार्थ—सामान्यसे नारकियोंमें असंखी जीव मरकर उत्पन्न होता है और ऐसे नारकी जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम व द्वितीय समयमें जघन्य स्थितिवन्ध होता है। इसीसे यहाँ दो आयु और तीर्थङ्कर प्रकृतिके सिवा शेष सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। इनके इसके सिवा पाँच ज्ञानावरण आदि ४८ प्रकृतियोंका निरन्तर अजघन्य स्थितिवन्ध होता रहता है, इसलिए यहाँ इनके अजघन्य स्थितिवन्धके अन्तर कालका भी निषेध किया है। नरकमें सम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है और सम्यग्दृष्टिके स्त्यानगृद्धि तीन आदि आठ प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसीसे यहाँ इन प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। इसी दृष्टिको ध्यानमें रखकर यहाँ स्त्रीवेद आदि बाईस प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। उच्चगोत्रका सातवें नरकमें मिथ्यादृष्टिके बन्ध नहीं होता, इसलिए इस अपेक्षासे इसके अजघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। तथा ये सब सप्रतिपन्न प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है। प्रथम नरकमें यह व्यवस्था अविकल घटित हो जाती है, इसलिए इसमें सब प्रकृतियोंका कथन सामान्य नारकियोंके समान कहा है। मात्र जहाँ कुछ कम तेतीस सागर कहा है वहाँ प्रथम नरककी स्थितिको ध्यानमें रखकर अन्तर कहना चाहिए। तथा यहाँ मनुष्यगतित्रिकका बन्ध मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि दोनोंके होता है, इसलिए यहाँ इनके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल साता प्रकृतिके समान कहा है। दूसरीसे लेकर सातवीं पृथिवीतक उत्कृष्टके समान अन्तरकाल होनेका कारण यह है कि इन पृथिवियोंमें असंखी जीव मरकर नहीं उत्पन्न होता। जिन प्रकृतियोंके सम्बन्धमें विशेषता है वह अलगसे कही ही है सो विचार कर जान लेना चाहिए।

२६३. तिर्यञ्चोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, आठ कषाय, सात नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरस्र-

तेजा०-क०-समचदु०-वएण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-
सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-णिमि०-पंचंत० जह० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क०
असंखेज्जा लोगा । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । थीणगिद्धितियं मिच्छत्तं
अणंताणुवंधिचदुक्कं जह० द्विदि० णाणाव०भंगो । अज० जह० एग०, उक्क०
तिणिण पलिदो० देसू० । एवं इत्थिवे० । अपच्चक्खाणा०४-एवुंस-चदुजादि०-
ओरालि०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-अस्संध०-आदाव०-अप्पसत्थ०-थावरादि०४-
दूभग-दुस्सर-अणादे० जह० द्विदि० णाणाव०भंगो । अज० द्विदि० जह०
एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । तिणिण आयु० जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज०
जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देसू० । तिरिक्खायु० जह० द्विदि० जह०
खुदा० समयू०, उक्क० पलिदो० असं० । अज० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी
सादि० । वेउन्वियद्ध०-मणुसग०-मणुसाणु० ओघं । उच्चा० मणुसाणु०भंगो । तिरि-
क्खग०-तिरिक्खाणु०-णीचागो०-उज्जो० जह० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० अणंत-
कालं० । अज० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० ।

संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर,
शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण और पाँच अन्तराय
प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात
लोकप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
अन्तर्मुहूर्त है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य स्थितिबन्ध-
का अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है
और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । इसी प्रकार स्त्रीवेदके जघन्य और अजघन्य
स्थितिबन्धका अन्तरकाल जानना चाहिए । अप्रत्याख्यानावरण चार, नपुंसकवेद, चार
जाति, औदारिक शरीर, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, लुह संहनन, आतप, अप्रशस्त
विहायोगति, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-
बन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है
और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । तीन आयुओंके जघन्य स्थितिबन्धका
अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट
अन्तर पूर्वकोटिका कुछ कम तीसरा भाग है । तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य
अन्तर एक समय कम क्षुल्लकभवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भाग-
प्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक
एक पूर्वकोटि वर्षप्रमाण है । वैक्रियिक लुह, मनुष्यगति और मनुष्यानुपूर्वीके जघन्य और
अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है । उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य स्थिति-
बन्धका अन्तर मनुष्यानुपूर्वीके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, नीचगोत्र और
उद्योतके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल
है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक
समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोंमें बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंका उत्कृष्ट अन्तर काल असंख्यात

२६४. पंचिदियतिरिक्ख०३ जह० द्विदि० उक्क०भंगो । अज० अणुक्क०भंगो । एवरि तिरिक्खायु० जह० द्विदि० जह० खुदाभ० समयू०, उक्क० पुव्वकोटिपुधत्तं । पज्जत्त-जोण्णिणीसु जह० द्विदि० जह० एत्थि अंतरं । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० सव्वपगदीणं जह० अज० द्विदि० उक्कस्सभंगो । एवरि तिरिक्खायु० जह० द्विदि० जह० खुदाभ० समयू०, उक्क० अंतो० । अज० जह० उक्क० अंतो० । मणुसायु० जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० जह० उक्क० अंतो० ।

लोकप्रमाण है, इसलिए इनमें पाँच ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। तिर्यञ्चोमें वेदक सम्यक्त्वका काल कुछ कम तीन पत्य है इसलिए इनमें स्त्यानगृद्धि तीन आदि आठ प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य कहा है। यहाँ स्त्रीवेदकी स्थिति स्त्यानगृद्धिके समान है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर स्त्यानगृद्धि तीनके समान कहा है। संयमासंयमका काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है और मनुष्योंमें वहीं उत्पन्न हुए सम्यक्त्वका काल भी इतना ही है इसलिए अप्रत्याख्यानावरण चार आदि इकतीसके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि वर्षप्रमाण कहा है। तीन आयुओंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है तथा अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। तिर्यञ्चोमें जो निरन्तर एकेन्द्रियोंमें परिभ्रमण करते रहते हैं उनमें तिर्यञ्चायुका जघन्य स्थितिबन्ध कमसे कम एक समय कम क्षुल्लकभवग्रहणके बाद और अधिकसे अधिक पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके बाद नियमसे होता है, इसलिए इनमें तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम क्षुल्लकभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२६४. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च तीनमें जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल उत्कृष्टके समान है और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल अनुत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम क्षुल्लकभवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है। परन्तु पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंमें जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल नहीं है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्य है। परन्तु तीन पत्यकी आयु प्राप्त होनेके बाद जीव नियमसे देव होता है। इसीसे यहाँ तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर सामान्यसे पूर्वकोटि पृथक्त्व कहा है। इसमें पूर्वकोटि पृथक्त्व कालके प्रारम्भमें और अन्तमें तिर्यञ्चायुका जघन्य स्थितिबन्ध कराके यह अन्तर काल ले आना चाहिए। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२६५. मणुस०३ पंचणा०-अदंसणा०-चदुसंज०-भय-दुगु०-तेजा०-क०-
 वरण०४-अगु०-उप०-णिमि०-तित्थय०-पंचंत० जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज०
 जह० उक्क० अंतो० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबधि०४ जह० द्विदि०^१ एत्थि
 अंतरं । अज० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० तिणिएण पलिदो० देसू० । एवं इत्थि० ।
 एवरि अज० एग० । अट्टक० जह० एत्थि अंतरं । अज० द्विदि० जह० अंतो०,
 उक्क० पुव्वकोडी देसू० । सादासा०-पुरिस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-देवगदि-पंचिदि०-
 वेउव्वि०-समचदु०-वेउव्वि०अंगो०-देवाणु०-पर०-उस्सा०-पसत्थ०-तस०४-थिराथिर-
 सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-उच्चा० जह० द्विदि० एत्थि अंतरं ।
 अज० जह० एग०, [उक्क०] अंतो० । एवुंस०-तिरिक्ख-मणुसगदि-चदुजादि-ओरा-
 लि०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-अस्संघ०-दोआणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-थाव-
 रादि०४-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० द्विदि०
 जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । तिणिएआयु० जह० द्विदि० एत्थि अंतरं ।
 अज० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देसू० । मणुसायु० जह०

२६५. मनुष्यत्रिकमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तरमुहूर्त है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। इसी प्रकार स्त्रीवेदके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है। आठ कषायोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। साता वेदनीय, असाता वेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, देवानुपूर्वी, परघात, उल्लास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति और उच्चगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, चार जाति, औदारिक शरीर, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। तीन आयुओंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है। मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर

१. मूलप्रतौ द्विदि० जह० एत्थि इति पाठः ।

द्विदि० जह० खुदाभव० समयू०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । अज० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी सादि० । पज्जत्त-जोण्णिणीसु मणुसायु० जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी सादि० । गिरयगदि-गिरयाणु० जह० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । अज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । आहार०२ जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं ।

२६६. मणुसअपज्जत्ते धुविगाणं जह० अज० एत्थि अंतरं । तिरिक्खायु० जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० जह० उक्क० अंतो० । मणुसायु० जह० द्विदि० जह० खुदाभव० समयू०, उक्क० अंतो० । अज० जह० उक्क० अंतो० । सेसाणं जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

एक समय कम लुल्लक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्वप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि वर्षप्रमाण है । किन्तु पर्याप्त और योनिनी मनुष्योंमें मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है । नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्वप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । आहारकद्विकके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण है ।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकमें कुछ प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है और जिनका क्षपकश्रेणिमें नहीं होता उनमेंसे चार आयुओंको छोड़कर शेषका असंखीचर मनुष्यके भवके प्रथम और द्वितीय समयमें होता है, इसलिए यहाँ जघन्य स्थितिबन्धमें अन्तर कालका निषेध किया है । शेष अन्तर कालका विचार सुगम है ।

२६६. मनुष्य अपर्याप्तकोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम लुल्लक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—जो असंखी जीव मनुष्य अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न होता है उसके उत्पन्न होनेके प्रथम और द्वितीय समयमें दो आयुके बिना शेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तरका निषेध किया है । तथा जो ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ हैं उनका इसके बाद निरन्तर अजघन्य स्थितिबन्ध होता रहता है इसलिए इनके अजघन्य स्थितिबन्धके अन्तर कालका निषेध किया है । परन्तु इनके सिवा जो सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं उनका अदल बदलके बन्ध होना सम्भव है, इसलिए उनके अजघन्य स्थितिबन्धका

२६७. देवेषु तित्थय० जह० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० देसू० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । सेसाणं णिरयोघं । एवरि सग-द्विदी० । भवण०-वाणवेत० पढमपुढविभंगो । एवरि सागरो० सादि० पलिदो० सादि० । जोदिसिय याव सव्वट्ठ त्ति उक्कस्सभंगो । एवरि थीणगिद्धि० ३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि० ४ जह० अज०' द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० अप्पणो द्विदी० ।

२६८. एइदि ए तिरिक्ख० ४ [जह०] जह० अंतो०, उक्क० अणंतकालं० अंगुलस्स असं० संखेज्जाणि वाससहस्साणि असंखेज्जा लोगा अंतोमु० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० यथासंखाए एइदि०-बादर-बादरपज्जत-सुहुम-सुहुमपज्जत्ताणं । तिरिक्खायु० जह० द्विदि० जह० खुदाभव० समयू०, उक्क० पलिदो० असंखे० । अज० अणुक्क०-

अन्तर काल कमसे कम एक समय और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त उपलब्ध हो जाता है, इसलिए शेष प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। शेष कथन सुगम है।

२६७. देवोंमें तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। तथा शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर नारकियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि अपनी स्थिति कहनी चाहिए। भवन-वासी और व्यन्तर देवोंमें प्रथम पृथिवीके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि साधिक एक सागर और साधिक एक पत्य कहना चाहिए। ज्योतिषियोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक उत्कृष्टके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है।

विशेषार्थ—देवोंमें तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य स्थितिबन्ध अन्यतरके सर्वविशुद्ध परिणामोंसे होता है, इसलिए यहाँ जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है यह स्पष्ट ही है। मूलमें शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर नारकियोंके समान कहकर अपनी स्थिति कहनेकी सूचना की है सो इसका यह अभिप्राय है कि जिन प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि और सासादनदृष्टिके ही बन्ध होता है उनका नौअवेयक तक, तिर्यञ्चगति आदिका सहस्रार कल्प तक और एकेन्द्रिय जाति आदि तीनका पेशान कल्प तक बन्धका विधान करके इनका अन्तर काल इस हिसाबसे प्राप्त करे। शेष कथन सुगम है।

२६८. एकेन्द्रियोंमें एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, बादर पर्याप्त एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय और सूक्ष्म पर्याप्त एकेन्द्रियोंमें तिर्यञ्चगति चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे अनन्त काल, अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण, संख्यात हजार वर्ष, असंख्यात लोकप्रमाण और अन्तर्मुहूर्त है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय क्रम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अजघन्य स्थितिबन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग

१. मूलप्रतौ अज० जह० द्विदि० इति पाठः ।

भंगो । सेसाणं उक्कस्सभंगो । बादरे तिरिक्खायुगं एइंदियभंगो । सुहुम-बादरपज्जत्ते तिरिक्खायुं जहं द्विदिं जहं एत्थि अंतरं । सेसं उक्कस्सभंगो । अपज्जत्तां तिरिक्खायुं अपज्जत्तभंगो । सुहुमे तिरिक्खायुं जहं द्विदिं जहं खुदाभवं समयुं, उक्कं पत्तिदों असंखे । अजं अणुक्कंभंगो । सेसाणं उक्कस्सभंगो । सव्वाणं मणुसायुं जहं द्विदिं एत्थि अंतरं । अजं द्विदिं पगदिअंतरं ।

२६६. बीईं-तीईं-चदुरिं पज्जत्तापज्जत्तां उक्कस्सभंगो । एवरि तिरिक्खायुं जहं जहं खुदाभवं समयुं, उक्कं द्विदिं । पज्जत्ते जहं द्विदिं एत्थि अंतरं । अजं द्विदिं अणुक्कंभंगो ।

२७०. पंचिदियं २ खवगपगदीणं तित्थयरस्स जहं द्विदिं एत्थि अंतरं । अजं ओघं । णिहापचला-असादां-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुं-देवगदि-

उत्कृष्टके समान है । बादरोंमें तिर्यञ्चायुका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है । सूक्ष्म जीवोंमें और बादर पर्याप्त जीवोंमें तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर काल नहीं है । तथा शेष भङ्ग उत्कृष्टके समान है । अपर्याप्तकोंमें तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है । सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा अजघन्य स्थितिवन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है । तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । इन सबके मनुष्यायुके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तर काल नहीं है । तथा अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्र प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके होता है और इनका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है । तथा बादर एकेन्द्रियोंमें अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण, बादर पर्याप्त एकेन्द्रियोंमें संख्यात हजार वर्षप्रमाण, सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें असंख्यात लोकप्रमाण और सूक्ष्म पर्याप्तकोंमें अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है । इन सबके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है यह स्पष्ट ही है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२६९. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और इनके पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल उत्कृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण है । इनके पर्याप्तकोंमें जघन्य स्थितिवन्धका अन्तर काल नहीं है तथा अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर अनुत्कृष्टके समान है ।

२७०. पञ्चेन्द्रियद्विकमें क्षपक प्रकृतियोंके और तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर काल ओघके समान है । निद्रा, प्रचला, असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक

पंचिदि०-वेउव्विय-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि०अंगो०-वण०४-दैवाणु०-
अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-णिमि०
जह० द्वि० जह० अंतो०, उक्क० कायट्टिदी० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।
एवरि देवगदि०४ अजं० उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । एरइय-देवायु० जह०
द्विदि० जह० दसवससहस्साणि सादि०, उक्क० कायट्टिदी० । तिरिक्ख०-मणुसायु०
जह० जह० खुदाभव० समयू०, उक्क० कायट्टिदी० । अज० सव्वाणं उक्क०भंगो ।
पज्जत्तगे तिरिक्ख-मणुसायु० जह० एत्थि अंतरं । अज० पगदिअंतरं । आहार०२
जह० एत्थि अंतरं । अज० जह० अंतो०, उक्क० कायट्टिदी० । सेसाणं उक्कस्स-
भंगो । पंचिदियअपज्जत्त० तिरिक्ख-मणुसायु० जह० जह० खुदाभव० समयू०, उक्क०
अंतो० । अज० जह० उक्क० अंतो० । सेसं उक्कस्सभंगो ।

शरीर, तैजसशरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क,
देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, व्रस चतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ,
अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माण प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका
जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अजघन्य स्थिति-
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इतनी विशेषता है
कि देवगतिचतुष्कके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । नर-
कायु और देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक दस हजार वर्ष है और
उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य
अन्तर एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है ।
तथा सबके अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर उत्कृष्टके समान है । पर्याप्तकोंमें तिर्यञ्चायु और
मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर प्रकृति-
बन्धके अन्तरके समान है । आहारकद्विकके जघन्यस्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है ।
अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है, और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण
है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें तिर्यञ्चायु और
मनुष्यायुके जघन्यस्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण है
और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-
र्मुहूर्त है । तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्ट के समान है ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें क्षपक प्रकृतियों और तीर्थङ्कर
प्रकृतिका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, इसलिए इनके अजघन्य स्थितिबन्धके
अन्तरकालका निषेध किया है । यहाँ निद्रा आदि प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध विशुद्ध परि-
णामोंसे असंज्ञी जीवके होता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त
और उत्कृष्ट अन्तर अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण कहा है । यहाँ कायस्थितिके प्रारम्भमें
और अन्तमें असंज्ञियोंमें उत्पन्न कराकर उत्कृष्ट अन्तरकाल ले आना चाहिए । देवगति-
चतुष्कका देवोंके और नारकियोंके बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य स्थितिबन्धका
उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर कहा है । मात्र इनके सिवा निद्रादि शेष प्रकृतियोंके
अजघन्य स्थितिके बन्धमें अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्तका अन्तर पड़ता है, इसलिए इन प्रकृ-
तियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२७१. पुढविका० तिरिक्खायु० एइंदियभंगो । सेसं उक्कस्सभंगो । एवं पंच-
कायाणं । तस०२ पंचिदियभंगो । एवरि सगट्ठिदी भाणिद्ववा । तसअपज्जत्त० पंचि-
दियअपज्जत्तभंगो ।

२७२. पंचमण०-पंचवचि० पंचणा०-एवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-
दुगुं०-चदुआयु०-तिण्णिसरीर०-आहार०अंगो०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-
तित्थय०-पंचंत० जह० अज० एत्थि अंतरं । एवरि वचिजोगि०-असच्चमोस० पंचणा०-
एवदंस०-मिच्छत्त-बारसक०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगुरुलहु०-उपघा०-
णिमि० अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । सेसाणं जह० एत्थि अंतरं । अज० जह०
एग०, उक्क० अंतो० ।

२७३. कायजोगीसु खवगपगदीणं वेउन्वियल्लक-तित्थय० जह० एत्थि अंतरं ।
अज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एिरय-देवायु० जह० अज० एत्थि

२७१. पृथिवीकायिक जीवोंमें तिर्यञ्चायुका भङ्ग एकेंद्रियोंके समान है । शेष प्रकृतियों-
का भङ्ग उत्कृष्टके समान है । इसी प्रकार पाँच कायवाले जीवोंके जानना चाहिए । ब्रस और
ब्रस पर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका भङ्ग
पञ्चेन्द्रियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि अपनी स्थिति कहनी चाहिए । ब्रस
अपर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है ।

२७२. पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शना-
वरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, चार आयु, तीन शरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग, वर्ण-
चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य और
अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । इतनी विशेषता है कि वचनयोगी और
असत्यमृषावचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व बारह कषाय,
भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माण
प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
अन्तर्मुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थिति-
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—यहाँ प्रथम दराडकमें कही गई ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंमेंसे कुछ ऐसी प्रकृ-
तियाँ हैं जिनका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपकश्रेणियोंमें होता है और कुछ ऐसी प्रकृतियाँ हैं जिनका
जघन्य स्थितिबन्ध संयमके अभिमुख हुए मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि या संयतासंयतके
होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है ।
मात्र वचनयोगी और अनुभयवचनयोगी जीवोंमें पाँच दर्शनावरण आदि प्रकृतियोंका जघन्य
और अजघन्य स्थितिबन्ध द्वीन्द्रिय पर्याप्तके होता है, इसलिए इनके अजघन्य स्थिति-
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं
आती, इसलिए यह उक्त प्रकारसे कहा है । यहाँ चार आयुओंके जघन्य और अजघन्य
स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है यह स्पष्ट ही है ।

२७३. काययोगी जीवोंमें क्षपकप्रकृतियाँ वैक्रियिक छह और तीर्थङ्कर इन प्रकृतियोंके
जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय
है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । नरकायु और देवायुके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्ध-

अंतरं । तिरिक्खायु० जह० द्विदि० तिरिक्खोघं । अज० अणुक्खसभंगो । मणुसा० मूलोघं । तिरिक्खगदि०४ ईदियभंगो । मणुसग०-मणुसाणु० जह० जह० अंतो०, अज० जह० एग०, उक्क० दोरणं पि असंखेज्जा लोगा । एवं उच्चा० । एवरि जह० एत्थि अंतरं । सेसाणं जह० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

२७४. ओरालियका० खवगपगदीणं ऐरइय-देवायु०-आहारदुग-तित्थय० जह० अज० एत्थि अंतरं । सादासादा०-पुरिस०-वेउव्वियल्लक्क-जसगि० जह० एत्थि अंतरं । अज० [जह०] एग०, उक्क० अंतो० । तिरिक्ख-मणुसायु० जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० पगदिअंतरं । तिरिक्खगदि०४ जह० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णिण वाससहस्साणि देसू० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । सेसाणं जह० जह०

का अन्तरकाल नहीं है । तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल अनुत्कृष्टके समान है । मनुष्यायुके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल मूलोघके समान है । तिर्यञ्चगति चारके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल एकेन्द्रियोंके समान है । मनुष्यगति और मनुष्य-गत्यानुपूर्वीके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है, अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दोनोंका ही असंख्यात लोकप्रमाण है । इसी प्रकार उच्चगोत्रका जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—काययोगी जीवोंके प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य स्थिति-बन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । परन्तु जो जीव काययोगमें उपशमश्रेणिमें इनका कमसे कम एक समयके लिए और अधिकसे अधिक अन्तमुहूर्तके लिए अबन्धक होकर और मरकर देव होनेपर काययोगके सद्भावमें ही पुनः इनका बन्ध करने लगता है उसके इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त उपलब्ध होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२७४. औदारिककाययोगी जीवोंमें क्षपक प्रकृतियाँ, नरकायु, देवायु, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, पुरुषवेद, वैक्रियिक लुह और यशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान है । तिर्यञ्च-गति चारके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन हजार वर्ष है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है

अंतो०, उक्० बावीसं वाससहस्साणि देम्० । अज० जह० एग०, उक्० अंतो० ।

२७५. ओरालियमि० उक्स्सभंगो । केण कारणेण उक्स्सभंगो ? येण बादर-
एइंदिए वि अधापवत्तो वा से काले सरीरपज्जत्ती जाहिदि ति वा सामित्तं दिण्णं
तेण कारणेण उक्स्सभंगो । एवरि दो आयु० तसअपज्जत्तभंगो ।

और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम बाईस हजार वर्ष है । अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—औदारिककाययोगमें क्षपक प्रकृतियाँ, आहारकद्विक और तीर्थद्वर प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है । तथा इसके सिवा अन्यत्र इस योगमें अजघन्य स्थितिवन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धके अन्तर-कालका निषेध किया है । इस योगमें नरकायु और देवायुके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तर-काल नहीं है यह स्पष्ट ही है । सातावेदनीय, पुरुषवेद और यशःकोर्तिका जघन्य स्थितिवन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, इसलिए यहाँ इनके जघन्य स्थितिवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । वैक्रियिक लुहका जघन्य स्थितिवन्ध सर्वविशुद्ध असंक्षीके होता है पर इसके योगपरिवर्तन होता रहता है, इसलिए यहाँ इनके भी जघन्य स्थितिवन्धके अन्तर कालका निषेध किया है । तथा ये सब प्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं इसलिए इनके अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । तिर्यञ्चगतिचतुष्कका जघन्य स्थितिवन्ध अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके होता है और वायुकायिक जीवोंमें औदारिक काययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्ष है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन हजार वर्ष कहा है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध बादरपृथिवीकायिक पर्याप्त जीवोंके भी होता है और वहाँ औदारिक काययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है । इसलिए यहाँ शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम बाईस हजार वर्ष कहा है । शेष कथन सुगम है ।

२७५. औदारिक मिश्रकाययोगमें उत्कृष्टके समान भङ्ग है । यहाँ उत्कृष्टके समान भङ्ग किस कारणसे है ? यतः बादर एकेन्द्रिय जीवमें भी अधःप्रवृत्त होता है अथवा तदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको प्राप्त करेगा उसे जघन्य स्थितिवन्धका स्वामित्व प्राप्त होता है, इस कारणसे उत्कृष्टके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि दो आयुओंका भङ्ग त्रसअपर्याप्तकोंके समान है ।

विशेषार्थ—औदारिक मिश्रकाययोगमें उत्कृष्ट स्थितिवन्धके अन्तरकालका विचार दो प्रकारसे किया है । बादर एकेन्द्रिय जीवके भी वह प्रकार सम्भव है, इसलिए यहाँ भी सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर काल उत्कृष्टके समान जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है । मात्र यहाँ बन्धको प्राप्त होनेवाली तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके सम्बन्धमें कुछ विशेषता है । जिसका निर्देश मूलमें अलगसे किया ही है । बात यह है कि अपर्याप्त अवस्थाके बाद भवान्तरमें भी औदारिक मिश्रकाययोगका सातत्य बना रहता है, इसलिए त्रस अपर्याप्तकोंमें उक्त दोनों आयुओंके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर काल कह आये हैं उसी प्रकार वह यहाँ भी बन जाता है ।

२७६. वेउव्वियं-वेउव्वियमिं उक्कस्सभंगो । आहारं-आहारमिस्सं मण-
जोगिभंगो । कम्मङ्गकां उक्कस्सभंगो ।

२७७. इत्थिवेदे० पंचणा०-चदुदंसं-चदुसंजं-तित्थयं-पंचंतं जहं अजं
एत्थि अंतरं । णिहा-पचला-असादां-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुं-च्छ-पंचिंदियजा-
दि-तेजां-कं-समचदुं-वण्णं-४-अगुं-४-पसत्थविं-तसं-४-थिराथिर-सुभासुभ-
[सुभग]-सुस्सरं-आदे-अजसं-णिमिं जहं जहं अंतो, उक्कं पलिदोवम-
सदपुधत्तं । अजं जहं एगं, उक्कं अंतो । थीणगिद्धिं-३-मिच्छं-अणंताणु-
बंधिं-४-इत्थिं-एवुं-सं-तिरिक्खगदि-एइंदि-पंचसंठां-पंचसंघं-तिरिक्खाणुं-
आदाउज्जो-अप्पसत्थं-थावर-दूभग-दुस्सर-अणादे-णीचां जहं अजं उक्कस्स-
भंगो । अट्ठकं जहं जहं अंतो, उक्कं पलिदो सदपुधत्तं । अजं जहं
एगं, उक्कं पुव्वकोडी देसुं । सादावे-पुरिसं-जसं-उच्चां जहं द्विदिं
एत्थि अंतरं । अजं जहं एगं, उक्कं अंतो । णिरयायुं उक्कस्सभंगो । तिरिक्ख-
मणुसायुं जहं द्विदिं जहं एत्थि अंतरं । अजं अणुंभंगो । देवायुं जहं
द्विदिं जहं दसवस्ससहस्साणि सादिं, उक्कं पलिदोवमसदपुधत्तं । अजं

२७६. वैक्रियिक काययोग और वैक्रियिक मिश्र काययोगमें उत्कृष्टके समान भङ्ग है ।
आहारक काययोग और आहारक मिश्रकाययोगमें मनोयोगी जीवोंके समान भङ्ग है । तथा
कार्मणकाययोगमें उत्कृष्टके समान भङ्ग है ।

२७७. स्त्रीवेदमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, तीर्थकर और पाँच
अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । निद्रा, प्रचला,
असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्मण
शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क,
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय अयशःकीर्ति, और निर्माण प्रकृतियोंके जघन्य
स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ पत्य पृथक्त्व है । अजघन्य
स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । स्त्यानगृद्धि
तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, पाँच
संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुर्भग,
दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल
उत्कृष्टके समान है । आठ कषायोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और
उत्कृष्ट अन्तर सौ पत्य पृथक्त्व है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है
और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । साता वेदनीय, पुरुषवेद, यशःकीर्ति और
उच्चगोत्रके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । नरकायुका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । तिर्य-
ञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका
अन्तर काल अनुत्कृष्टके समान है । देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक
दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तर सौ पत्य पृथक्त्व है । तथा अजघन्य स्थितिबन्धका

१. मूलप्रती सुस्सरं आदां णिमिं आदें जहं इति पाठः ।

अणु० भंगो । वेडवियच्छक०—तिगिणजा०—सुहुम०—अपज्ज०—साधार० जह० अज० उक्क० भंगो । मणुसगदिपंचगस्स जह० अज० उक्क० भंगो । आहार०२ जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० जह० अंतो०, उक्क० कायद्विदी० ।

२७८, पुरिस० पंचणा०—चदुदंस०—चदुसंज०—पंचंत० जह० अज० एत्थि अंतरं । श्रीणगिद्धि० ३—मिच्छ०—अणंताणुवंधि० ४—इत्थि०—एतुं स०—पंचसंठा०—पंचसंघ०—अप्पसत्थ०—दूभग—दुस्सर—अणादे०—णीचागो० जह० अज० उक्कस्स भंगो । णिहा—पचला—असादा०—हस्स—रदि—अरदि—सोग—भय—दुगुं०—पंचिदि०—तेजा०—क०—समचदु०—वण० ४—अगु० ४—पसत्थवि०—तस० ४—थिराथिर—सुभासुभ—सुभग—सुस्सर—अणादे०—अजस०—णिमि० जह० द्विदि० उक्कस्स भंगो । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । [अट्ठक०

अन्तर काल अनुत्कृष्टके समान है । वैक्रियिक छह, तीन जाति, सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर उत्कृष्टके समान है । मनुष्यगति पञ्चकके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर उत्कृष्टके समान है । आहारकद्विकके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है ।

विशेषार्थ—स्त्रीवेदमें प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध क्षपकश्रेणीमें होता है और इसके सिवा अन्यत्र अजघन्य स्थितिवन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । मात्र तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य स्थितिवन्ध उपशम श्रेणीमें प्राप्त होता है पर यहाँ इसके भी जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ इसका भी निषेध किया है । स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट कायस्थिति सौ पल्यपृथक्त्वप्रमाण है । जिस असंखी स्त्रीवेदी जीवने इसके प्रारम्भ में और अन्तमें जघन्य स्थितिवन्ध किया और मध्यमें अजघन्य स्थितिवन्ध किया उसके दूसरे दण्डकमें कही गई निद्रा आदि प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल सौ पल्यपृथक्त्व उपलब्ध होता है इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है । आठ कषायोंके जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर इसी प्रकार ले आना चाहिये । तथा संयमासंयम और संयमका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि होनेसे यहाँ आठ कषायोंके अजघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है । क्योंकि संयमासंयममें अप्रत्याख्यानावरण चारका और संयममें प्रत्याख्यानावरण चारका बन्ध नहीं होता । सातावेदनीय आदि चार प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध क्षपकश्रेणीमें उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ इनके अन्तरकालका निषेध किया है । फिर भी ये सप्रतिपन्न प्रकृतियाँ है इसीलिए इनके अजघन्य स्थितिवन्धके अन्तरकालके उपलब्ध होनेमें कोई बाधा नहीं आती । सामान्यतः प्रतिपन्न प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है, इसलिए यह उक्त प्रकारसे कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२७८. पुरुषवेदमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है । स्नानगृद्धिं तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, नपुंसकवेद, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल उत्कृष्टके समान है । निद्रा, प्रचला, असातावेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा,

ज० जह० अंतो०, उक्क० सांगरोवमसदपु० । अज० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० ।] सादावे०-पुरिस०-जस०-तित्थय०-उच्चा० जह० एत्थि अंतरं । अज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । णिरयायु० उक्क० भंगो । तिरिक्ख-मणुसायु० जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० अणुक्क० भंगो । देवायु० जह० जह० दसवस्ससहस्साणि सादि०, उक्क० कायद्विदी० । अज० द्विदि० पगदिअंतरं । णिरयगदि-चहुजा०-णिरयाणु०-आदाव-थावरादि०४ उक्कस्सभंगो । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो० जह० अज० उक्कस्सभंगो । मणुसगदि-पंचगस्स जह० अज० उक्कस्सभंगो । देवगदि०४ जह० अज० उक्कस्सभंगो । आहार०२ जह० एत्थि अंतरं । अज० जह० अंतो०, उक्क० कायद्विदी० ।

पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुखर, अनादेय, अयशःकीर्ति और और निर्माण प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल उत्कृष्टके समान है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आठ कषायोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्व है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । सातावेदनीय, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । नरकायुके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर उत्कृष्टके समान है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल अनुत्कृष्टके समान है । देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान है । नरकगति, चार जाति, नरक-गत्यानुपूर्वी, आतप और स्थावर आदि चार प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल उत्कृष्टके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योत प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर उत्कृष्टके समान है । मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर उत्कृष्टके समान है । देवगतिचतुष्कके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर उत्कृष्टके समान है । आहारकद्विकके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है ।

विशेषार्थ—पुरुषवेदमें पांच ज्ञानावरण आदि प्रथम दरङ्कमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपकश्रेणिमें अपने अपने बन्धके अन्तमें होता है । अन्यत्र अजघन्य स्थितिबन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । सातावेदनीय आदि पांच प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका तो निषेध किया है पर तीर्थङ्कर प्रकृतिके सिवा इनके सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ होनेके कारण इनके अजघन्य स्थितिबन्धके प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती इसलिये उसका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

२७६. एवुंस० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० जह० अज० एत्थि अंतरं ।
 थीणगिद्धि० ३-मिच्छ०-अणंताणुबंधि० ४-इत्थि०-एवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप-
 सत्थवि०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० जह० द्विदि० ओघं । अज० जह० एग०,
 उक्क० तेत्तीसं० देसु० । णिद्दा-पचला-असादा०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-
 पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वणण० ४-अगुह० ४-पसत्थवि०-तस० ४-थिराथिर-सुभा-
 सुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-णिमि० जह० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा ।
 अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । सादा०-पुरिस०-जस० जह० अज० ओघं । दो
 आयु०-वेउन्वियळक०-मणुसग०-मणुसाणु० ओघं । तिरिक्खायु० जह० जह० खुदाभव०
 समयू०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं । अज० ओघं । देवायु० तिरिक्खोघं । तिरिक्खग०-
 तिरिक्खाणु०-उज्जो०-णीचा० जह० द्विदि० जह० अंतोमु०, उक्क० अणंतकालं० ।

तथा उपशमश्रेणिमें मरणकी अपेक्षा तीर्थङ्कर प्रकृतिके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त उपलब्ध होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। तोत्पर्य यह है कि जो उपशमश्रेणिमें एक समयके लिए अबन्धक होकर मरता है और देव होकर पुनः बन्ध करने लगता है उसके एक समय अन्तरकाल उपलब्ध होता है और जो अन्तर्मुहूर्त अबन्धक होकर मरता है और देव होकर पुनः बन्ध करने लगता है उसके अन्तर्मुहूर्त अन्तरकाल उपलब्ध होता है। आहारकद्विकका भी जघन्य स्थितिबन्ध लूपकश्रेणिमें उपलब्ध होता है। इसलिए इसके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा शेष कथन स्पष्ट ही है।

२७६. नपुंसकवेदमें पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पांच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर अनादेय और नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्ध का अन्तरकाल ओघके समान है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। निद्रा, प्रचला, असातावेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र-संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, असचतुष्क, स्थिर अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माण प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। सातावेदनीय, पुरुषवेद और यशःकीर्तिके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है। दो आयु, वैक्रियिक छह, मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है। तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल एक समय कम चुल्लकभवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्व है। अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है। देवायुके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल सामान्य तिर्यञ्चके समान है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्च-गत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर-मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर अनुत्कृष्टके

अज० अणु० भंगो । चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ जह० ओघं । अज० अणु० भंगो । ओरालि०-ओरालि० अंगो०-वज्जरिसभ० [जह०] ओघं । अज० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । अट्टक० जह० अज० ओघं । आहार०२ जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० ओघं । तित्थय० उक्कस्सभंगो ।

२८०. अवगदवे० सगपगदीणं जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० जह० उक्क० अंतो० ।

२८१. कोधादि०४ खवगपगदीणं चदुआयु०-आहार०२ जह० अज० एत्थि

समान है । चार जाति, आतप और स्थावर आदि चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर अनुत्कृष्टके समान है । औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वज्रंषभनाराचसंहननके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । आठ कषायोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है । आहारकद्रिकके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल उत्कृष्टके समान है ।

विशेषार्थ—नपुंसकवेदमें प्रथम दण्डकमें कही गई पांच ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालके न होनेका स्पष्टीकरण जिस प्रकार पुरुषवेदमें कर आये हैं उसी प्रकार यहां भी कर लेना चाहिये । नपुंसकवेदमें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है और सम्यक्त्वके सद्भावमें स्त्रीवेद आदि दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर कहा है । बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण है, इसलिए यहां निद्रा आदि तीसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । बादर अग्निकायिक पर्याप्त और बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्त काल है, इसलिए यहां तिर्यञ्चगति आदि तीन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है । कर्मभूमिज मनुष्य और तिर्यञ्चके उसी पर्यायमें उत्पन्न हुए सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, और इसके औदारिक शरीर आदि चार प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसलिए यहां इन प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२८०. अपगतवेदमें अपनी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—अपगतवेदमें अपनी सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपक श्रेणिमें उपलब्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है तथा उपशम श्रेणिमें अपगतवेदीके अपनी प्रकृतियोंका अन्तर्मुहूर्त काल तक बन्ध नहीं होता, इसलिए यहां अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

२८१. क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें क्षपक प्रकृतियां, चार आयु और आहारकद्रिकके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । इतनी विशेषता है कि मान-

अंतरं । एवरि माणस्स कोधसंजं अजं जहं एगं, उक्कं अंतो । एवं मायाए दो संजलं, लोभं [चत्तारि] संजलं । संसाणं जहं द्विदिं एत्थि अंतरं । अजं जहं एगं, उक्कं अंतो ।

२८२. मदि-सुदं पंचणां-एवदंसाणां-सादासां-मिच्छं-सोलसकं-अट्टणो-कं-पंचिंदिय-तेजां-कं-समचदुं-वएणं०४-अगुरुं०४-पसत्थविं-तसं०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे-जसं-अजसं-णिमिं-पंचंतं जहं द्विं जहं अंतो, उक्कं असंखेज्जा लोगा । अजं जहं एगं, उक्कं अंतो । एवुंस-ओरालिं-

कषायमें क्रोध संज्वलनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार माया कषायमें दो संज्वलनोंका और लोभकषायमें चार संज्वलनोंका अन्तरकाल जानना चाहिए । तथा चारों कषायोंमें शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—चारों कषायोंमें चारों आयुओंका अजघन्य स्थितिबन्ध अन्तरके साथ दो बार सम्भव नहीं है और जघन्य स्थितिबन्ध एक बार ही होता है इसलिए तो इनके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया । और क्षपक प्रकृतियों और आहारकद्रिकका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपक श्रेणियोंमें होता है । साथ ही उपशम श्रेणियोंमें कषायोंके रहते हुए क्षपक प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छिन्ति नहीं होती । यद्यपि आहारकद्रिककी बन्धव्युच्छिन्ति हो जाती है पर उपशमश्रेणियों पर चढ़ते और उतरते हुए कषायमें परिवर्तन होता है और उपशान्तमोहमें कषायका अभाव हो जाता है इसलिए इन चारों कषायोंमें न तो क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल उपलब्ध होता है और न आहारकद्रिकके ही जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल उपलब्ध होता है, इसलिए यहां इसका निषेध किया है । यहां शेष प्रकृतियोंका एक कषायमें दो बार जघन्य स्थितिबन्ध सम्भव नहीं है, इसलिए सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । पर जिसके एक कषायमें कमसे कम एक समयके लिए और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त के लिए सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध होता है उसके अन्य सब प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । यहां मानकषायमें क्रोधसंज्वलनके, मायाकषायमें क्रोध और मान संज्वलनके और लोकषायमें क्रोध, मान माया और लोभ संज्वलनके अजघन्य स्थितिबन्धका जो जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है वह उपशमश्रेणियोंमें मरणकी अपेक्षासे जानना चाहिए । कारण स्पष्ट है ।

२८२. मत्यज्ञान और श्रुतज्ञानमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलहकषाय, आठ नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, अस-चतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । नपुंसकवेद, औदारिकशरीर, पाँच संस्थान, औदारिक

पंचसंठा०-ओरालि०-अंगो०-अस्संध०-अप्पसत्थ०-दुभग-दुस्सर-अणादे० ज० द्वि०
ओघं । अज० जह० एग०, उक्क० तिरिण पलिदो० देसू० । चदुआयु-वेउवियळ्ळ-
मणुसग०-मणुसाणु० ओघं । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो० जह० द्विदि० ओघं ।
अज० जह० एग०, उक्क० एकत्तीसं साग० सादि० । चदुजादि-आदाव-थावरादि०४
जह० अज० एवुंसगभंगो । एणीचागो० ज० द्वि० ओघं । अज० जह० एग०, उक्क०
तिरिण पलिदो० देसू० । उच्चा० जह० अज० जह० अंतो० एग०, उक्क० असं-
खेज्जा लोगा ।

२८३. विभंगे पंचणा०-एवदंसणा०--मिच्छत्त-सोलसक०--भय-दुगुं०--णिरय-

आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःखर और अनादेय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । चार आयु, वैक्रियिक छह, मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योत प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है । चार जाति आतप और स्थावर आदि चार प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नपुंसकवेदके समान है । नीचगोत्रके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर क्रमसे अन्तर्मुहूर्त और एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दोनों का असंख्यात लोक प्रमाण है ।

विशेषार्थ—इन दोनों अज्ञानोंमें प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके होता है और इनकी कायस्थिति असंख्यात लोक प्रमाण है, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण कहा है । यहाँ कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें जघन्य स्थितिबन्ध करा कर यह अन्तरकाल ले आना चाहिए । नपुंसकवेद आदि दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका भोगभूमिमें बन्ध नहीं होता, इसलिए यहाँ उनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका कुछ कम तीन पत्य अन्तरकाल कहा है । यहाँ इन प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका यह अन्तरकाल इसी प्रकार कहा है । यह तीन पत्यमें कुछ कम कहा यह विचारणीय है । नीचगोत्रके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल इसी प्रकार जानना चाहिए । तिर्यञ्चगति आदि तीन प्रकृतियोंका बारहवें कल्पके ऊपर बन्ध नहीं होता और वहाँ दोनों अज्ञानोंका उत्कृष्ट काल इकतीस सागर है । इसीसे यहाँ उक्त प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक सागर कहा है । ये सप्रतिपन्न प्रकृतियाँ होनेसे यह साधिक काल बन जाता है । जिस बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त जीवने कायस्थितिके आदिमें और अन्तमें उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध किया उसके तो इसके जघन्य स्थितिबन्धका असंख्यात लोक प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होता है तथा अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके इसका बन्ध नहीं होनेसे अजघन्य स्थितिबन्धका उक्त प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होता है । इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२८३. विभङ्गज्ञानमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय,

देवायु०-तेजा०-क०-वराण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० जह० अज० एत्थि अंतरं । सादा०-पुरिस०-हस्स-रदि-वेउन्वियद्ध०-चदुजादि-समचदु०-वज्जरिसभ०-पर०-उस्सा० उज्जो०-पसत्थ०-तस०-बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय०-साधारण-थिरादिद्धक्क-णीचु-च्चा० ज० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । असादा०-इत्थि०-एवुंस०-अरदि-सोग-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-अथिरादिद्ध० जह० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० देसू० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तिरिक्ख-मणुसायु० णिरयोघं । एइदि०-आदाव-थावर०-जह० जह० अंतो०, उक्क० बेसाग० सादि० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । दोगदि-ओरालि०-ओरालि०-अंगो०-दोआणु० ज० द्वि० एत्थि अंतरं । अज० ज० एग०, उक्क० अंतो० ।

जुगुप्सा, नरकायु, देवायु, तैजसशरीर, कार्मणशरीर वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। सातावेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, वैक्रियिक छह, चार जाति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराचसंहनन, परघात, उल्लास, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, साधारण, स्थिर आदि छह, नीच गोत्र और उच्चगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। असातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, पांच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छहके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर सामान्य नारकियोंके समान है। एकेन्द्रिय जाति, आतप और स्थावरके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। दो गति, औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और दो आनुपूर्वीके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—विभङ्गज्ञानमें नरकायु और देवायुके सिवा प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध संयमके अभिमुख हुए जीवके होता है, इसलिए यहां इनके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। नरकायु और देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है यह तो स्पष्ट ही है। इसी प्रकार इनके अजघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका यथायोग्य अभाव जान लेना चाहिए। सातावेदनीय आदि दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध संयमके अभिमुख हुए जीवके होता है इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। इनके अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल स्पष्ट ही है। जो नारकी भवके प्रारम्भमें पर्याप्त होने पर असातादि प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध करके पुनः भवके अन्तमें बन्ध करता है उसके इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर उपलब्ध होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२८४. आभि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-छदसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण०४-अगुरु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिछक-णिमि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचंत० ज० द्विदि० एत्थि अंतरं। अज० जह० एग०, उक्क० अंतो०। एवरि णिदा-पचला अज० ज० उक्क० अंतो०। असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० जह० [जह०] अंतो०, उक्क० छावट्टिसाग० सादि०। अज० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अट्टक० ज० द्वि० ज० अंतो०, उक्क० छावट्टिसाग० सादि०। अज० ज० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देसू०। दो आयु० उक्कस्सभंगो। मणुसगदिपंचगस्स ज० द्वि० ज० अंतो०, उक्क० छावट्टिसाग० सादि०। अज० ज० एग०, उक्क० पुव्वकोडी० सादि०। देवगदि०४-आहार०२ ज०-द्वि० एत्थि अंतरं। अज० ज० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि०।

२८४. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय-जाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुध, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि निद्रा और प्रचलाके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। आठ कषायोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। दो आयुओंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। मनुष्यगति पञ्चकके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है। देवगति चतुष्क और आहारकद्रिकके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेत्तीस सागर है।

विशेषार्थ—इन तीन ज्ञानोंमें प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तर कालका निषेध किया है। तथा इनमेंसे कुछ तो सान्तर प्रकृतियां हैं, सब नहीं हैं, फिर भी उपशम श्रेणिमें मरणकी अपेक्षा इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त उपलब्ध होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। इतनी विशेषता है कि आठवें गुणस्थानके जिस भागमें निद्रा और प्रचलाकी व्युच्छिन्नि होती है वह मरणसे रहित है इसलिए इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर भी अन्तर्मुहूर्त कहा है। जिस जीवने सम्यक्त्वको प्राप्त कर प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें असाता आदिका जघन्य स्थितिबन्ध किया। पुनः वह साधिक छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ रहा और अन्तमें पुनः प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें जघन्य स्थितिबन्ध किया उसके असाता आदि प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका

२८५. मणपज्ज० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दुगुं०-देवगदि-
पंचिदि०-तिणिणसरीर-समदु०-वेउन्वि०-अंगो०-वणण०-४-देवाणु०-अगु०-४-पसत्थ०-
तस०-४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिपि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचंत० ज० एत्थि अंतरं ।
अज० ज० उक्क० अंतो० । सादा०-हस्स-रदि-थिर-सुभ-जस० ज० एत्थि अंतरं ।
अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस०
ज० ज० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । अज० ज० एग०, उक्क० अंतो० ।
देवायु० उक्कस्सभंगो । आहार०२ ज० द्वि० एत्थि अंतरं । अज० ज० उक्क०
अंतो० । एवं संजदाणं ।

उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर उपलब्ध होनेके कारण वह उक्त प्रमाण कहा है । इसी प्रकार आठ कषायोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक छयासठ सागर ले आना चाहिए । मात्र इनका जघन्य स्थितिबन्ध अविरत सम्यग्दृष्टि और संयतासंयत जीवके करा कर यह अन्तरकाल लाना चाहिए । यहां इनके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है । सो यह अन्तर इतने कालतक संयतासंयत और संयत रख कर लाना चाहिए । मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी साधिक छयासठ सागर तक सम्यग्दृष्टि रखकर प्राप्त करना चाहिए । मात्र इस कालके प्रारम्भमें और अन्तमें देव और नारकीके जघन्य स्थितिबन्ध कराकर इसे लाना चाहिए । आहारकद्रिकका जघन्य स्थितिबन्ध क्षपकश्रेणिमें प्राप्त होता है । इसलिए यहां इनके अन्तरकालका निषेध किया है । जो संयत जीव इनका अजघन्य स्थितिबन्ध करके और मर कर तेतीस सागरकी आयुके साथ देव होता है और वहांसे आकर अप्रमत्त संयत होकर पुनः आहारकद्रिकका बन्ध करता है उसके इनके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर प्राप्त होनेके कारण वह उक्त प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

२८५. मनःपर्ययज्ञानमें पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, तीन शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गो-पाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, वसचतुष्क, सुभग, सुखर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-बन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्त-मुहूर्त है । सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ और यशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-बन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशः-कीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । देवायुका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । आहारकद्रिकके जघन्य स्थिति-बन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—मनःपर्ययज्ञानमें प्रथम दण्डकमें कही गई पांच ज्ञानावरण आदि प्रकृतियों का जघन्य स्थितिबन्ध क्षपक श्रेणिमें होता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तर कालका निषेध किया है । मनःपर्ययज्ञानमें इन प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छिन्ति हो जानेपर पुनः अन्तमुहूर्तके बाद इनका बन्ध होता है इसलिए यहाँ इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य

२८६. सामाइ०-छेदो० धुविगाणं ज० अज० द्वि० एत्थि अंतरं । तित्थयरं धुविगाणं भंगो । सेसाणं मणपज्जवभंगो । परिहार० सव्वपगदीणं जह० ज० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देमू० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । सुहुमसांपराइ० सव्वपगदीणं जह० अज० एत्थि अंतरं । संजदासंजदा० धुविगाणं ज० अज० एत्थि अंतरं । परियत्तमाणियाणं संजदभंगो । आयु० परिहारभंगो ।

२८७. असंज० पंचणा०-छदंसणा०-सादासा०-वारसक०-[सत्तणोक०]-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण०४-अगुरु०४-पसत्थ०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-णिमि०-पंचंत० ज० अज० मदि० भंगो । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अयांताणुबंधि०४-इत्थि०-एवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंध०-अप्पसत्थ०-दूभग-

और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । यहाँ सातावेदनीय आदिका भी जघन्य स्थितिबन्ध चपक थ्रेणिमं होता है, इसलिए इनके भी जघन्य स्थितिबन्धके अन्तर कालका निषेध किया है । इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त स्पष्ट ही है । असाता वेदनीय आदिका जघन्य स्थितिबन्ध प्रमत्तसंयतके होता है । जो मनःपर्ययज्ञानके प्राप्त होनेके प्रारम्भमें और अन्तमें इनका जघन्य स्थितिबन्ध करता है उसके इनके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्व कोटि प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । संयम मार्गणके कथनमें मनःपर्ययज्ञानके कथनसे कोई अन्तर नहीं है इसलिए इसमें सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य, स्थितिबन्धका अन्तरकाल मनःपर्ययज्ञानके समान कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२८६. सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ध्रुवबन्ध प्रकृतियोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका भंग मनःपर्ययज्ञानके समान है । परिहारविशुद्धि संयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटि है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । संयतासंयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । परावर्तमान प्रकृतियोंका भङ्ग संयतोंके समान है और दोनों आयुओंका भङ्ग परिहारविशुद्धि संयत जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—इन सब संयमोंमें सब प्रकृतियोंका जो अन्तरकाल कहा है उसे स्वामीका विचार कर ले आना चाहिये । विशेष बात न होनेसे यहाँ हमने अलग-अलग स्पष्टीकरण नहीं किया है ।

२८७. असंयत जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, बारह कषाय, सात नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल मत्त्यज्ञानियोंके समान है । स्त्यान-गृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्ध

दुस्सर-अणादे० ज० ओघं । अज० एणु'सगभंगो । चदुआयु०-वेउव्वियद्ध०-मणुसग०-
मणुसाणु०-उच्चा० मदि०भंगो । तिरिक्खगदि०४ ज० द्वि० जह० ओघं । अज० जह०
एग०, उक्क० तेत्तीसं० देसू० । चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ एणु'सगभंगो ।
ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि० ओघं । तित्थय० ज० एत्थि अंतरं । अज०
जह० उक्क० अंतो० ।

२८८. चक्खु० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खु० मूलोघं । ओधिदं० ओधि-
णाणिभंगो ।

२८९. तिण्णलेस्साणं पंचणा०-द्धदंसणा०-सादासा०-बारसक०-सत्तगोक०-
णिरयगदि-देवगदि-पंचजादि-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्ज-
रिसभ०-वण०४-दोआणु०-अणु०४-[आदाव-]पसत्थ०-तस०४- [थावर०४] थिरा-
थिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-णिमि०-तित्थय०-पंचंत० ज० द्वि०
एत्थि अंतरं । अज० ज० एग०, उक्क० अंतो० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अयांताणु-
बंधि०४-इत्थि०-एणु'स०-तिरिक्ख-मणुसग०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-दोआणुपु०-उज्जो०-

का अन्तरकाल ओघके समान है । तथा अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर नपुंसकवेदके समान है । चार आयु, वैक्रियिक छह, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भङ्ग मत्तज्ञानियोंके समान है । तिर्यञ्चगति चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर ओघके समान है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारका भङ्ग नपुंसक वेदी जीवोंके समान है । औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वज्रर्षभनाराच संहनन का भङ्ग ओघके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—सातवें नरकमें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर होनेसे यहाँ अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है । यहाँ तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध संयमके अभिमुख हुए जीवके होता है, इसलिए इसके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । शेष कथन सुगम है ।

२८८. चक्षुदर्शनवाले जीवोंमें त्रसपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है । अचक्षुदर्शनवाले जीवोंमें मूलोघके समान भङ्ग है । अवधिदर्शनवाले जीवोंमें अवधिज्ञानियोंके समान भङ्ग है ।

२८९. तीन लेश्याओंमें पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, बारह कषाय, सात नोकषाय, नरकगति, देवगति, पांच जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क दो आनुपूर्वी, अणुखलघु चतुष्क, आतप, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थावर चतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थङ्कर और पांच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, मनुष्य-गति, पांच संस्थान, पांच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग,

१. मूलप्रतौ अणु०४ अपसत्थ० तस ४ इति पाठः ।

अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचुच्चा० जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० तेचीसं सत्तारस सत्त सागरो० देसू० । णिरय-देवायु० जह० अज० एत्थि अंतरं । तिरिकख-मणुसायु० णिरयभंगो । वेउच्चि०-वेउच्चि०अंगो० जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० वावीसं सत्तारस सत्त साग० । एवरि एलि-काऊए मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० पढमदंडगे भाणिदव्वं । काऊए तित्थय० जह० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णिण साग० सादि० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

दुःस्वर, अनादेय, नीचगोत्र और उच्च गोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर, कुछ कम सत्रह सागर और कुछ कम सात सागर है । नरकायु और देवायुके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नारकियोंके समान है । वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर बाईस सागर, सत्रह सागर और सात सागर है । इतनी विशेषता है कि नील और कापोत लेश्यामें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रको प्रथम दण्डकमें कहना चाहिए । कापोत लेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन सागर है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—कृष्ण लेश्यामें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर, नील लेश्यामें कुछ कम सत्रह सागर और कापोत लेश्यामें कुछ कम सात सागर है । इसीसे यहाँ स्त्यानगृद्धि तीन आदिके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर इन लेश्याओंमें उक्त प्रमाण कहा है । इतनी विशेषता है कि कृष्ण लेश्यामें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल मध्यमें कुछ कम तेतीस सागरतक मिथ्यादृष्टि रखकर ले आना चाहिये । कारण कि सातवें नरकमें इन तीन प्रकृतियोंका मिथ्या दृष्टिके बन्ध नहीं होता । तथा नील और कापोत लेश्यामें इनका बन्ध मिथ्यादृष्टिके भी होता है । यही कारण है कि मूलमें इन दोनों लेश्याओंमें इन प्रकृतियोंका प्रथम दण्डक के साथ कथन करनेकी सूचना की है । यहाँ तीनों लेश्याओंमें जो जीव नरकगतिमें जाता है और वहाँसे आता है उसके इन लेश्याओंके सद्भावमें नरकगति, देवगति, नरकानुपूर्वी और देवानुपूर्वीका बन्ध नहीं होता । इसीसे यहाँ इन तीन लेश्याओंमें इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है और अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । तथा इसी प्रकार सातवें नरकमें जानेवाले जीवके कृष्णलेश्यामें वैक्रियिकद्विकका बन्ध नहीं होता । इन तीन लेश्याओंमें छठवें नरकतक जानेवाले जीवके नरक जानेके पूर्व और वहाँसे आनेके बाद इन लेश्याओंमें अवश्य ही इन दोनों प्रकृतियोंका स्थितिबन्ध सम्भव है । इसीसे इन तीन लेश्याओंमें इन दोनों प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे बाईस सागर, सत्रह सागर और सात सागर कहा है । ज्ञेय कथन सुगम है ।

१. मूलप्रतौ जह० जह० एग० इति पाठः ।

२६०. तेऊए पंचणा०-द्वंदसणा०-चदुसंज०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण०४-
 अगुरु०४-वादर-पज्जत्त-पतेय-णिमिण-तित्थय०-पंचंत० ज० एत्थि अंतरं ।
 अज० ज० उक्क० अंतो० । अथवा जह० एग०, उक्क० अंतो० । थीणगिद्धि०३-
 मिच्छ०-अणंताणुबंधि०४ जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० जह० अंतो०,
 उक्क० बेसाग० सादि० । सादासा०-पुरिस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-पंचिदि०-समचदु०-
 पसत्थवि०-तस०-[थावर०-] थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-
 उच्चा० जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अट्ठक०-
 देवायु०-आहार०२ जह० अज० एत्थि अंतरं । इत्थि०-एवुंस०-तिरिक्खगदि-
 एइदि०-पंचसंठा०-पंचसंध०-तिरिक्खाणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-
 अणादे०-णीचा० जह० अंतो०, उक्क० बेसाग० सादि० । अज० जह० एग०,
 उक्क० बेसाग० सादि० । तिरिक्ख-मणुसा० देवोघं । मणुसगदिपंचग० जह० जह०१
 अंतो०, उक्क० बेसाग० सादि० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । देवगदि०४
 जह० एत्थि अंतरं । अज० जह० पल्लिदो० सादि०, उक्क० बेसाग० सादि० ।
 एवं पम्माए । एवरि सगद्धिदी भाणिदव्वा । पंचिदिय-तस० पढमदंडगे पविट्ठं ।

२९०. पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अथवा जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, स्थावर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति और उच्चगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है, अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। आठ कषाय, देवायु और आहारकद्रिकके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीच गोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक दो सागर है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है। मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। देवगतिचतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पत्य है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। इसी प्रकार पद्म लेश्यामें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी स्थिति कहनी चाहिए। तथा पञ्चेन्द्रिय जाति और त्रसकाय ये दो प्रकृतियाँ प्रथम दण्डकमें सम्मिलित कर लेनी चाहिए।

१. मूलप्रती जह० अज० अंतो० इति पाठः ।

२६१. सुकाए पंचणा०-छदंसणा०-सादासा०-चदुसंज०-सत्तणोक०-पंचिदिय-
तेजा०-क०-समचदु०-वण०४-अगुरु०४-[आदाव-] पसत्थ०--तस०४-थिराथिर--
सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचंत० जह०
द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अण-
ताणुवंधि०४ जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० जह० अंतो०, उक्क० एकत्तीसं०
देसू० । अट्टक०-देवायु० जह० अज० एत्थि अंतरं । इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-
पंचसंध०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०^१ जह० अज० जह० अंतो० एग०,

विशेषार्थ—पीतलेश्यामें प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध सर्वविशुद्ध अप्रमत्तसंयतके होता है और इस लेश्याके कालके भीतर दूसरी बार जघन्य स्थितिबन्धके योग्य परिणाम उपलब्ध नहीं होते, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा यहाँ इन प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका काल दो प्रकारसे बतलाया है सो इसका कारण यह प्रतीत होता है कि जो अप्रमत्तसंयत जीव क्षायिक सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके समय स्थितिबन्धापसरण करते हुए इन प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध करता है उसके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त उपलब्ध होता है और जो स्वस्थानमें इनका जघन्य स्थितिबन्ध करता है उसके इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त उपलब्ध होता है। इससे वह दो प्रकारका कहा है। स्त्यानगृह्णित्वादि तीन आदि आठ प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध यहाँ संयमके अभिमुख जीवके होता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा इस लेश्यामें सम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर होनेसे यहाँ इन प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा है। साता आदि प्रकृतियोंमेंसे कुछका यहाँ अप्रमत्तसंयत जीवके और कुछका प्रमत्तसंयत जीवके जघन्य स्थितिबन्ध होता है। यहाँ भी लेश्याके कालके भीतर दो बार जघन्य स्थितिबन्ध नहीं होता, इसलिए इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका निषेध किया है। इसी प्रकार आगे भी स्वामित्वका विचारकर शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल जान लेना चाहिए।

२६१. शुक्ललेश्यामें पांच ब्रानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार संज्वलन, सात नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र-संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। स्त्यानगृह्णित्वादि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। आठ कषाय और देवायुके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, और अनादेयके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और एक

१. मूलप्रतौ अणादेय णीचागो० जह० इति षाठः ।

उक्क० एकत्तीसं सा० देसू० । मणुसायु० देवभंगो । मणुसगदिपंचगस्स जह० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० देसू० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । देवगदि०४ जह०^१ एत्थि अंतरं । अज० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादिरे० । आहार०२ [जह०] एत्थि अंतरं । अज० जह० [उक्क०] अंतो० ।

२६२. भवसिद्धिया० ओघं । अ०भवसिद्धिया मदि०भंगो । सम्मादिट्टी० ओधि-भंगो । खड्गस० पढमदंडओ ओधिभंगो । [असादा० अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० जह० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीससाग० सादिरे० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।] अट्टक० जह० जह० अंतो, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । अज० ओधिभंगो । [दो] आयु० उक्कस्सभंगो । मणुसगदिपंचगस्स देवगदि०४ सुक्कभंगो । आहार०२ जह० एत्थि अंतरं । अज० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० ।

समय है और उत्कृष्ट अन्तर दोनोंका कुछ कम इकतीस सागर है । मनुष्यायुका भङ्ग देवोंके समान है । मनुष्यगति पञ्चकके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । देवगति चतुष्कके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । आहारकद्विकके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—जिन प्रकृतियोंका केवल मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टिके बन्ध होता है उनमेंसे यहाँ स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके अजघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर और स्त्रीवेद आदिके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर कहा है सो यह नौवें त्रैवेयकमें प्रारम्भमें और अन्तमें मिथ्यादृष्टि रखकर ले आना चाहिए । तथा मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर देवोंमें प्रारम्भमें और अन्तमें जघन्य स्थितिवन्ध कराके ले आना चाहिए । देवगतिचतुष्कका देवोंके बन्ध नहीं होनेसे उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है ।

२९२. भव्य जीवोंका भङ्ग ओघके समान है । अभव्य जीवोंका भङ्ग मत्यज्ञानियोंके समान है । सम्यग्दृष्टियोंका भङ्ग अवधिज्ञानियोंके समान है । ज्ञायिकसम्यग्दृष्टियोंमें प्रथम दण्डकका भङ्ग अवधिज्ञानियोंके समान है । असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अजघन्य स्थितिवन्ध जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आठ कषायोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अजघन्य स्थितिवन्धका भङ्ग अवधि ज्ञानियोंके समान है । दो आयुओंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । मनुष्यगतिपञ्चक और देवगति चतुष्कका भङ्ग शुक्लश्याके समान है । आहारकद्विकके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है ।

१. मूलप्रती जह० अज० एत्थि इति पाठः ।

२६३. वेदगे धुविगाणं जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० जह० उक्क० अंतो० । सादा०-हस्स-रदि-थिर-सुभ-जस० जह० एत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० जह० [जह०] अंतो०, उक्क० छावट्टि साग० देसू० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अट्टक० जह० जह० अंतो०, उक्क० छावट्टि० देसू० । अज० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । दोआयु० उक्कस्सभंगो । मणुसगदिपंचगस्स जह० जह० अंतो०, उक्क० छावट्टिसाग० देसू० । अज० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी । देवगदि०४ जह० एत्थि अंतरं । अज० जह० पत्तिदो० सादि०, उक्क० तेत्तीसं सा० । अथवा जह० जह० अंतो०, उक्क० छावट्टि-साग० देसू० । अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । आहारदुगं जह० द्वि० एत्थि अंतरं । अज० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० । तित्थय०

विशेषार्थ—अप्रत्याख्यानावरण चार और प्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिबन्ध मनुष्यके होता है । जीव इनका जघन्य स्थितिबन्ध करके और मर कर तेतीस सागरकी आयुवाला देव होता है । पुनः वहाँसे आकर और मनुष्य होकर पुनः इनका जघन्य स्थितिबन्ध करता है उसके इनके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर उपलब्ध होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । इसी प्रकार आहारकद्विकके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल ले आना चाहिए । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२९३. वेदक सम्यक्त्वमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । सातावेदनीय, हास्य,रति, स्थिर,शुभ, और यशःकीतिके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । असातावेदनीय अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छ्यासठ सागर है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आठ कषायोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छ्यासठ सागर है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । दो आयुओंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छ्यासठ सागर है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटि है । देवगतिचतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पत्य है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अथवा जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छ्यासठ सागर है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । आहारकद्विकके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर

१. मूलप्रती उक्क० अंतो० पुव्वकोडी देसू० सादि० देवगदि० इति पाठः ।

ध्रुविगाहि सह कादव्वा । ध्रुविगाणं अथवा जह० जह० अंतो०, उक्क० छावट्टि० देसू० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । सेसाणं आयु०-तित्थयरवज्जाणं सव्व-पगदीणं जह० द्विदि० [जह०] अंतो०, उक्क० छावट्टि० देसू० । अज० ओधिभंगो । तित्थय० जह० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

है । तीर्थङ्कर प्रकृतिकी ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके साथ गणना करनी चाहिये । अथवा ध्रुव-बन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छथासठ सागर है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आयु और तीर्थंकर प्रकृतिके सिवा शेष सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छथासठ सागर है । अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर अवधिज्ञानके समान है । तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य स्थिति-बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ-वेदसम्यक्त्वमें सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल दो प्रकारसे बतलाया है । सर्वप्रथम कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि विवक्षित प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी होता है इस दृष्टिको ध्यानमें रखकर अन्तरकाल कहा है । इस अपेक्षासे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों और दूसरे दण्डकमें कही गई साता आदि प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति बन्धका अन्तर उपलब्ध नहीं होता है । वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम छथासठ सागर होनेसे यहाँ असाता आदिके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम छथासठ सागर कहा है । प्रारम्भमें और अन्तमें जघन्य स्थितिबन्ध करनेसे यह अन्तरकाल उपलब्ध होता है । इसी प्रकार आठ कषायोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल प्राप्त करना चाहिए । संयमासंयम और संयमका उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटि होनेसे यहाँ आठ कषायोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है । मनुष्यगतिपञ्चकका जघन्य स्थितिबन्ध सर्वविशुद्ध देव और नारकीके होता है, इसलिए यहाँ इसके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है, क्योंकि ये परिणाम अन्तर्मुहूर्तके वाद पुनः हो सकते हैं और यदि ये परिणाम वेदक सम्यक्त्वके कालके प्रारम्भमें और अन्तमें होते हैं तो इनके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम छथासठ सागर उपलब्ध होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । तथा इनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है, इसलिए अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और जो वेदक सम्यग्दृष्टि देव मर कर मनुष्य होता है और एक पूर्वकोटिप्रमाण आयुको बिताकर पुनः देव होता है उसके इन पाँच प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटि देखा जाता है, इस-लिए वह उक्त प्रमाण कहा है । देवगति चतुष्कका जघन्य स्थितिबन्ध जब कृतकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टिके होता है तब इसके अन्तरकाल उपलब्ध नहीं होनेसे उसका निषेध किया है । और देवोंमें इन चार प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, अतएव यहाँ अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य

२६४. उवसम० पढमदंडओ ओधिभंगो । असादा०-अरदि-सोग-मणुसगदि-
पंचगस्स० अथिर-असुभ-अजस० जह० जह० उक्क० अंतो० । अज जह० एग०,
उक्क० अंतो० । अट्टक० जह० [अजह०] जह० उक्क० अंतो० । देवगदि०४-
आहार०२-तित्थय० जह० एत्थि अंतरं । अज० जह० उक्क० अंतो० । एवरि
तित्थय० अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

अन्तर साधिक एक पत्यप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर उपलब्ध होनेसे यह उक्त प्रमाण कहा है। अथवा अप्रमत्तके इनका जघन्य स्थितिबन्ध मानने पर जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छयासठ सागर उपलब्ध होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। यहाँ जघन्य अन्तर प्रमत्त गुणस्थानसे अन्तरित करके ले आना चाहिए और उत्कृष्ट अन्तर लानेके लिए कुछ कम छयासठ सागर कालके प्रारम्भमें और अन्तमें जघन्य स्थितिबन्ध करा कर ले आना चाहिए। इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय तक जघन्य स्थितिबन्ध करानेसे उपलब्ध होता है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर लाते समय उपशम श्रेणी पर आरोहण करा कर और उतार कर देवगति चतुष्कके बन्ध होने के एक समय पूर्व मरण करा कर तेतीस सागरकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न करानेसे प्राप्त होता है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है। इसी प्रकार आगे भी अन्तरकालका विचार कर लेना चाहिये।

२६५. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें प्रथम दण्डकका भङ्ग अवधिज्ञानके समान है। असा-
तावेदनीय, अरति, शोक, मनुष्यगतिपञ्चक, तथा अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिके जघन्य
स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। आठ कषायोंके जघन्य और अजघन्य
स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। देवगतिचतुष्क, आहारकद्रिक
और तीर्थङ्कर प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिके अज-
घन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—यहाँ देवगतिचतुष्क आदि सात प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध उपशम
श्रेणीमें होता है, इसलिए उसके अन्तरकालका निषेध किया है और उपशमश्रेणीपर आरोहण
कर उतरनेमें अन्तर्मुहूर्त काल लगता है, इसलिए इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और
उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है, क्योंकि अपूर्वकरणके विवक्षित भागमें इनकी बन्ध-
व्युच्छिन्ति होनेपर उपशम श्रेणीसे उतरकर पुनः उसी भागको प्राप्त होनेतक इन प्रकृतियों
का बन्ध नहीं होता। आहारकद्रिकका अन्तरकाल प्रमत्तगुणस्थानमें लाकर और पुनः
अप्रमत्त गुणस्थानमें ले जानेसे भी प्राप्त किया जा सकता है। मात्र जो जीव अपूर्वकरणमें एक
समयके लिए तीर्थङ्कर प्रकृतिका अबन्धक होकर और दूसरे समयमें मरकर देव होकर पुनः
उसका बन्ध करने लगता है उसके तीर्थङ्कर प्रकृतिके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर
एक समय उपलब्ध होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

२६५. सासणे तिणिण आयु० जह० अज० एत्थि अंतरं । सेसाणं सच्चपग० जह० एत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

२६६. सम्मामि० धुविगाणं जह० अज० एत्थि अंतरं । सादा०-हस्स-रदि-थिर-सुभ-जस० जह० एत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तप्पडि-पक्खाणं जह० द्विदि० जहएणु० अंतो० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । मिच्छादिट्ठी० मदि० भंगो ।

२६७. सएणीसु पंचणा०-द्धंसणा०-सादासा०-चदुसंज०-सत्तणोक०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वएण०४-अगु०४-पसत्थवि०--तस०४--थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-णिमि०-तित्थय०-पंचंत० जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवंधि०४ जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० जह० अंतो०, उक्क० वेद्धावट्ठि साग० देमू० । एवं इत्थिवे० जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० ओघं । अट्ठकसा० जह० एत्थि अंतरं । अज० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देमू० । एवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-

२९५. सासादनसम्यक्त्वमे तीन आयुओंके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर काल नहीं है । शेष सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

२९६. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर काल नहीं है । सातावेदनीय, हांस्य, रति, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तथा इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । मिथ्यादृष्टियोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग मृत्युज्ञानियोंके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ स्वामित्वका विचारकर अन्तरकाल ले आना चाहिए ।

२९७. संज्ञी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार संज्वलन, सात नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धो चारके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छुत्थासठ सागर है । इसी प्रकार ह्यीवेदके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर ओघके समान है । आठ कषायोंके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त

अप्पसत्थे०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० जह० एत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० वेळावट्ठि० सादि० तिण्णिण पत्तिदो० देसू० । णिरय-देवायु० जह० [जह०] दस वस्ससहस्साणि सादि०, उक्क० सगट्ठिदी० । अज० अणु०भंगो । तिरिक्ख-मणुसायु० जह० जह० खुदाभव० समयू०, उक्क० सगट्ठिदी० । अज० जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं । णिरयग०-णिरयाणु० जह० जह० अंतो०, उक्क० सगट्ठिदी० । अज० जह० एग०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसदं० । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० जह० एत्थि अंतरं । अज० ओघं । मणुसगदि-देवगदि-वेउन्वि०-वेउन्वि०-अंगो०-दोआणु०-उच्चा० जह० एत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । चटुजा०-आदाव-थावर०४ जह० एत्थि अंतरं । अज० ओघं । ओरालि०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरिसभ० जह० एत्थि अंतरं । अज० ओघं । आहार०२ जह० एत्थि अंतरं । अज० जह० अंतो०, उक्क० सगट्ठिदी० ।

विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छत्यासठ सागर और कुछ कम तीन पत्य है । नरकायु और देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम क्षुल्लकभवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण है । नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल ओघके समान है । मनुष्यगति, देवगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, दो आनुपूर्वी और उच्चगोत्रके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । चार जाति, आतप और स्थावर चारके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वज्रर्षभनाराचसंहननके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । आहारकट्टिकके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है ।

विशेषार्थ—यहाँ अलग-अलग प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका जो अन्तरकाल कहा है उसका अन्य मार्गणाओंमें अनेक बार स्पष्टीकरण कर आये हैं उसे देखकर यहाँ अन्तरकालका विचार कर लेना चाहिए ।

२६८. असएणीसु पंचणा०-एवदंसणा०-सादासादा०-मिच्छ०-सोलसक०-एव-
णोक०-पंचजादि-तिरिणसरीर-छस्संठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-वएण०४-
अगु०४-आदाव-दोविहा०-तस-आवरादिदसयुगल-णिमि०-पंचंत० जह० जह०
अंतो०, उक्क० असंखेजा लोगा । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । चदु आयु०-
वेउवियळ०-मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० तिरिक्खोघं । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-
उज्जो०-णीचा० जह० जह० अंतो०, उक्क० अणंतकालं० । अज० जह० एग०,
उक्क० अंतो० ।

२६९. आहारगे खवगपगदीणं जह० एत्थि अंतरं । अज० जह० एग०,
उक्क० अंतो० । थीणगिद्धि०३-मिच्छत्त-अणंताणुवधि०४-इत्थि० जह० जह० अंतो०,
उक्क० सगट्टिदी० । अज० ओघं । णिदा-पचला-असादा०-छएणोक०-पंचिदि०-
तेजा०-क० समचदु०-वएण०४-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-थिराथिर-मुभासुभ-मुभग-
सुस्सर-आदे०-[अजस०-]णिमि० जह० जह० अंतो०, उक्क० अंगुलस्स असंखे० । अज०
जह० एग०, उक्क० अंतो० । अट्ठक० जह० जह० अंतो०, उक्क० सगट्टिदी० । अज०
ओघं । एवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा०

२९८. असंज्ञी जीवोंमें, पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, पाँच जाति, तीन शरीर, छह संहनन, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, दो विहायोगति, त्रस और स्थावर आदि दस युगल, निर्माण और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । चार आयु, वैक्रियिक छह, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नोचगोत्रके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

२९९. आहारक जीवोंमें क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और स्त्रीवेदके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है । निद्रा, प्रचला, असातावेदनीय, छह नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माणके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अङ्गुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आठ कषायोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग,

जह० ट्टिदि० जह० अंतो०, उक्क० सगट्टिदी० । अज० ओघं । णिरय-देवायु० जह० ट्टिदि० जह० दसंवेस्ससहस्साणि सादि०, उक्क० सगट्टिदी० । अज० जह० अंतो०, उक्क० अंगुलस्स असंवे० । तिरिक्खायु० जह० ट्टिदि० जह० खुदाभव० समयू०, उक्क० बेसाग० सहस्साणि सादिरे० । अज० जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसद-पुथत्तं । मणुस० जह० जह० खुदाभव० समयू०, उक्क० सगट्टिदी० । अज० जह० अंतो०, उक्क० अंगुलस्स असं० । वेउव्वियळक्क-मणुसग०-मणुसाणु जह० जह० अंतो०, उक्क० सगट्टिदी० । [अजह० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी] तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० जह० ट्टिदि० जह० अंतो०, उक्क० सगट्टिदी० । अज० ओघं । चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ जह० ट्टिदि० जह० अंतो०, उक्क० सगट्टिदी० । अज० ओघं । ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिसभ० जह० जह० अंतो०, उक्क० सगट्टिदी० । अज० ओघं । आहार०२ जह० ट्टिदि० एत्थि अंतरं । अज० जह० अंतो०, उक्क० सगट्टिदी० । अणाहार० कम्मइगभंगो । अंतरं समत्तं ।

दुःखर, अनादेय और नीचगोत्रके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है । नरकायु और देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम क्षुल्लकभवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो हजार सागर है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्व है । मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । वैक्रियिक छह, मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्विके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्व कोटिवर्ष प्रमाण है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्विके और उद्योतके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल ओघके समान है । चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल ओघके समान है । औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वज्रर्षभनाराच संहननके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है । आहारकद्विकके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । अनाहारक जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल कार्मणकाययोगी जीवोंके समान है ।

इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

भारतीय ज्ञानपीठके सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

[हिन्दी ग्रन्थ]

| | |
|--|-----|
| १. मुक्तिदूत [उपन्यास]—अज्ञान-पवनज्वरकी पुरयगाथा | ५) |
| २. पथचिह्न [स्वर्गीया बहिनके पवित्र संस्मरण और युगविश्लेषण] | २) |
| ३. दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ | ३) |
| ४. पाश्चात्य तर्कशास्त्र [अप्राप्य] | ६) |
| ५. शेर-शायरी [उर्दूके सर्वोत्तम १५०० शेर और १६० नज्म] | ८) |
| ६. मिलनयामिनी [बच्चनजीके नवीनतम गीत] | ४) |
| ७. वैदिक साहित्य [वेदोपर हिन्दीमें साधिकार मौलिक विवेचन] | ६) |
| ८. मेरे बापू [महात्मा गाँधीके प्रति श्रद्धाञ्जलि] | २॥) |
| ९. पंच प्रदीप [श्री शान्ति एम० ए० के मधुर गीत] | २) |
| १०. भारतीय विचारधारा [भारतीय दर्शनका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ] | २) |
| ११. ज्ञानगंगा [संसारके महान् साधकोंकी सूक्तियोंका अन्वय भरडार] | ६) |
| १२. गहरे पानी पैठ [सूक्तिरूपमें ११८ मर्मस्पर्शी कहानियाँ] | २॥) |
| १३. वर्द्धमान [महाकाव्य] | ६) |
| १४. शेर-ओ सुखन [उर्दू शायरीका प्रामाणिक इतिहास] | ८) |
| १५. जैन-जागरणके अग्रदूत | ५) |
| १६. हमारे आराध्य | ३) |
| १७. संस्मरण | ३) |
| १८. रेखाचित्र | ४) |
| १९. भारतीय ज्योतिष [ज्योतिष शास्त्रका प्रामाणिक ग्रन्थ] | ६) |
| २०. रजतरश्मि [डॉ० वर्माके ५ एकांकी नाटक] | २॥) |
| २१. आकाशके तारे : धरतीके फूल | २) |
| २२. आधुनिक जैन कवि [श्रीमती रमा जैन] | ३॥) |
| २३. जैनशासन [जैनधर्मका परिचय तथा विवेचन करनेवाली सुन्दर रचना] | ३) |
| २४. कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रत्न [अध्यात्मवादका अद्भुत ग्रन्थ] | २) |
| २५. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास | २॥) |

[प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ]

| | |
|--|--------------|
| २६. महाबन्ध [महाधवल सिद्धान्त शास्त्र]—प्रथम भाग, हिन्दी अनुवाद सहित | १२) |
| २७. महाबन्ध—[महाधवल सिद्धान्तशास्त्र]—द्वितीय भाग | १२) |
| २८. करलकखण [सामुद्रिक शास्त्र]—हस्तरेखा विज्ञानका नवीन ग्रन्थ [स्टाक समाप्त] | १) |
| २९. मदनपराजय [भाषानुवाद तथा ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावना] | ८) |
| ३०. कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थसूची | १३) |
| ३१. न्यायविनिश्चय विवरण [प्रथम भाग] | १५) |
| ३२. तत्त्वार्थवृत्ति [श्रुतसागर सूरिरचित टीका । हिन्दी सार सहित] | १६) |
| ३३. आदिपुराण भाग १ [भगवान् ऋषभदेवका पुरय चरित्र] | १०) |
| ३४. आदिपुराण भाग २ [भगवान् ऋषभदेवका पुरय चरित्र] | १०) |
| ३५. नाममाला सभाष्य | ३॥) |
| ३६. केवलज्ञानप्रश्नचूडामणि [ज्योतिष ग्रन्थ] | ४) |
| ३७. सभाष्यरत्नमंजूषा [छन्दशास्त्र] | २) |
| ३८. समयसार—[अंग्रेजी] | ८) |
| ३९. थिरुकुरल—तामिल भाषाका पञ्चमवेद [तामिल लिपि] | ४) |
| ४०. वसुनन्दि-श्रावकाचार | ५) |
| ४१. तत्त्वार्थवार्तिक [राजवार्तिक] भाग १ | १२) |
| ४२. जातक [प्रथम भाग] | सा० ८)वि० ९) |

भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ५